



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड IV

PART I—Section IV

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 26, 2005/माघ 6, 1926

No. 1]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 26, 2005/MAGHA 6, 1926

रक्षा मंत्रालय

(सेना विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जनवरी, 2005

सं० 01 (अ) दिनांक 26 जनवरी, 2005.—राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस के अवसर पर निम्नलिखित अवैतनिक लैं/जे सी ओज को सेना विनियामावली 1987 के पैरा 177 के अधीन उनको अवैतनिक कप्तान व अवैतनिक लैं. का पद 26 जनवरी 2005 से सहर्ष प्रदान करते हैं :-

अवैतनिक कप्तान के रूप में

4 अश्व

1 जेसी 235762डब्ल्यू रिसालदार मेजर एवं अवैतनिक लैं. कृष्ण चन्द प्राशर

63 कैंवलरी

2 जेसी 235560पी रिसालदार मेजर एवं अवैतनिक लैं. गुरदास सिंह

65 कवचित रेजिमेन्ट

3 जेसी 239315के रिसालदार एवं अवैतनिक लैं. रमेश चन्द

71 कवचित रेजिमेन्ट

4 जेसी 236406एच रिसालदार मेजर एवं अवैतनिक लैं. पंगा महेर राव

81 कवचित रेजिमेन्ट

5 जेसी 235945एम रिसालदार मेजर एवं अवैतनिक लैं. सुनीत सिंह

82 कवचित रेजिमेन्ट

6	जेसी 206583एन	रिसालदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	उमराव सिंह सनगर्वी
7	जेसी 237168एन	रिसालदार एवं अवैतनिक लै.	हरी सिंह राजावत
रेजिमेन्ट आफ तोपखाना			
8	जेसी 211868के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	बलदेव सिंह
9	जेसी 185607डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	बाम देव
10	जेसी 174140डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	भंवर सिंह
11	जेसी 200365वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	दलीप सिंह
12	जेसी 198797एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	दिल बहादुर थापा
13	जेसी 255151एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	जगत नारायण ओझा
14	जेसी 195075पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	जगदीश चन्द
15	जेसी 200332एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	जय प्रकाश
16	जेसी 199098एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	जोगा सिंह
17	जेसी 193441पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	मल्खान सिंह
18	जेसी 198787एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	मोहन चंद्रा बोरा
19	जेसी 215465एक्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	नन्द लाल
20	जेसी 177682एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	पति राम सिंह यादव
21	जेसी 225491डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	रमा चन्द्रन वी पी
22	जेसी 78719वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	रामेश्वर प्रसाद तिवारी
23	जेसी 182073एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	राम सिंह
24	जेसी 213395पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	श्री वालसालान के
25	जेसी 203487एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	तीलोका राम चौधरी
26	जेसी 214405ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	उमैद सिंह
27	जेसी 220068एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	भाबानन्दा तलुरदार
28	जेसी 199088के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	श्री कृष्ण
29	जेसी 213381पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	योहानन टी के
कोर आफ वायु रक्षा तोपखाना			
30	जेसी 164356के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	ए ए लिम्बाजी
31	जेसी 144302एक्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	देस राज गुलेरिया
32	जेसी 200388ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	जरनैल सिंह
33	जेसी 179221ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	सोहन लाल
34	जेसी 150361के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	सूबे सिंह यादव
मद्रास इंजीनियर ग्रुप			
35	जेसी 224791एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	वाथुला जोसेफ
36	जेसी 177421एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	चेन्द्रायन ए एसएम
37	जेसी 184842एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	कोच सुबेर कुट्टी ए एसएम
38	जेसी 182644वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	लोगानाथन था
39	जेसी 207467एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	राजन पी
40	जेसी 306039एक्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	ईश एन
41	जेसी 305104के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राजन पी
42	जेसी 306023डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	रोनांकी प्रसादा राव
43	जेसी 305240ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	आर सेकारन
44	जेसी 197001वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सथाराज
45	जेसी 306015एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	वी कुप्पन
बंगाल इंजीनियर ग्रुप			
46	जेसी 191417ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	चंद्र बीर थापा
47	जेसी 197158वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	दलवीर सिंह
48	जेसी 191433एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	जगदीश प्रसाद
49	जेसी 197184ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	परमजोत शर्मा
50	जेसी 197141एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	प्रदीप कुमार

(आर टी)

51	जेसी 184780ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	रघबीर सिंह
52	जेसी 197157डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	सुरेंद्र सिंह
53	जेसी 325818एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	सुरजीत सिंह
54	जेसी 197111एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	तुषार कांती मजूमदार
55	जेसी 328637ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	रामआधार सिंह
बंबई इंजीनियर ग्रुप			
56	जेसी 197313पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	बलबीर सिंह
57	जेसी 197282ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	दिलबाग सिंह
58	जेसी 197315ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	गुरतेज सिंह
59	जेसी 78181एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	सुरेश चंद्रा शर्मा
60	जेसी 347794ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	मेड नारायण उमाजी
61	जेसी 348074एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	जोगिंदर पौल सिंह
62	जेसी 347789पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	माने प्रकाश भाऊराव
63	जेसी 348135एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सुरिन्द्र सिंह
कोर आफ. सिगनल्स			
64	जेसी 367152एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	अशोक कुमार
65	जेसी 197660एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	अवतार सिंह
66	जेसी 367220पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	सी चको पनिकेर
67	जेसी 367577एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	फेकन महतो
68	जेसी 367146वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	खिमा राम चौधरी
69	जेसी 188232एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	महिंद्र सिंह
70	जेसी 180934एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	मनबीर सिंह
71	जेसी 182092के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	रामआशीष प्रसाद शर्मा
72	जेसी 367596एक्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	संसार चन्द्र
73	जेसी 372557एक्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बालमुकंद सिंह
74	जेसी 371445पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	गुमान सिंह
75	जेसी 371131एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सोम देव
ब्रिगेड गार्ड्स			
76	जेसी 180859एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	बिशन दास
77	जेसी 186380ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	चंद्रा पाल सिंह
78	जेसी 181724के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	दान बहादुर खादका
79	जेसी 192350वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	जगबीर सिंह
80	जेसी 169113एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	सुल्तान सिंह
81	जेसी 163999पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	शामस के एम
82	जेसी 402582एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	साजन सिंह यादव
पैराशूट रेजिमेंट			
83	जेसी 183427पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	धर्म सिंह
84	जेसी 178963एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	फतेह सिंह
85	जेसी 183586एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	काम सिंह
86	जेसी 177762एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	सायार सिंह
87	जेसी 412208एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	जबार सिंह ए एसएम
88	जेसी 412378एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	लक्ष्मन सिंह
मैकेनाइज्ड पैदल सेना रेजीमेन्ट			
89	जेसी 200835वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	गोपाल कुष्णन नायर के
90	जेसी 211815पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	किरोड लाल
91	जेसी 206811पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	रविन्द्र सिंह
92	जेसी 189700पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	सुरेंद्र सिंह शेखावत
जम्. पंजाब रेजिमेन्ट			

(आर टी)

93	जेसी	194522एक्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	मोहिन्दर सिंह
94	जेसी	192883एक्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	प्रकाश चन्द
95	जेसी	218411एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	रघुनाथ सिंह पठानिया
96	जेसी	203964के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	साहिब सिंह
97	जेसी	203960एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	दर्शन लाल
98	जेसी	212820एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	दर्शन सिंह
99	जेसी	428709एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सुरजीत सिंह ए एसएम
मद्रास रेजिमेंट				
100	जेसी	177926एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	ए मौना गुरुसामी
101	जेसी	167146पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	च. एब्राहम
102	जेसी	177925एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	मायाकोट्टु चरुविल्याल
103	जेसी	162261एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	वासुराजन
ग्रनेडियर्स				
104	जेसी	448328एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	बजरंग लाल जाट
105	जेसी	185487एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	कुंदन लाल
106	जेसी	196408एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	फूल चन्द मीना रैड
107	जेसी	212527एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	रेवेल सिंह
108	जेसी	152408एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	रेवात सिंह सिसोदिया
109	जेसी	448449एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	खान मोहम्मद
मराठा लघु पैदल सेना				
110	जेसी	172609एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	दत्तू गालान्दे बाबू
111	जेसी	159151एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	मोरे प्रदीप हनामन्तराव
112	जेसी	162281वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	पवार अर्जुन नारायण
113	जेसी	175357एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	उत्तम मारुति जगताप
राजपुताना राईफल्स				
114	जेसी	201873एक्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	अमर सिंह
115	जेसी	173000एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	हरी सिंह
116	जेसी	171885वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	कान सिंह
117	जेसी	182977एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	ओम प्रकाश
118	जेसी	159162एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	प्रेम सिंह राठौर
119	जेसी	158372एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	पृथ्वी सिंह तन्वर
120	जेसी	156388एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	राम करन सिंह
121	जेसी	205880पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	राम कुमार सिंह लाम्बा
122	जेसी	468495के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	देव राज सिंह
123	जेसी	468339ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	द्रिजपाल सिंह
राजपुत रेजिमेंट				
124	जेसी	478042एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	लाल चन्द
125	जेसी	188472एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	नवल राम
126	जेसी	193718एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	जय प्रकाश सिंह
127	जेसी	478397एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सत्यपाल सिंह
जाट रेजिमेंट				
128	जेसी	178262एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	सोबरान सिंह खिड
129	जेसी	488423एक्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	लक्ष्मन सिंह, एस.एम
सिख रेजिमेंट				

130	जेसी	168886डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	अमरजीत सिंह
131	जेसी	201957पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	अमरीक सिंह
132	जेसी	183011एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	गुरमीत सिंह
133	जेसी	181840एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	गुरमीत सिंह
134	जेसी	192424एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	गुरमीत सिंह ए एसएम
135	जेसी	177992डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	जगदीश सिंह
136	जेसी	180878वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	सर्बन सिंह
137	जेसी	204293एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	सुरजीत सिंह
सिख लघु पैदल सेना				
138	जेसी	196885डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	गुरमेल सिंह
139	जेसी	204110डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	तेजा सिंह चौहान, एस. एम
डोगरा रेजिमेंट				
140	जेसी	518225एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	चैन सिंह
141	जेसी	518402एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	हलका राम ए एससी ए एसएम
142	जेसी	518037एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	रंजीत सिंह
143	जेसी	518168एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	शक्ति चन्द
144	जेसी	518148वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	सुरेंद्र सिंह
145	जेसी	519243एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	समपूरन सिंह
गढ़वाल राइफल्स				
146	जेसी	178992एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	जसबीर सिंह
147	जेसी	192845पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	सचिदा नन्द थपलियाल
148	जेसी	528621एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	मदन सिंह
149	जेसी	528870डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	रमेश चंद्रा
कुर्गुल रेजिमेंट				
150	जेसी	196882एक्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	बिक्रम सिंह
151	जेसी	178038ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	चंद्रा सिंह बाथ्याल
152	जेसी	201104एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	मोहन सिंह मेहता
153	जेसी	204325पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	नंदा बल्लभ जोशी
154	जेसी	184417एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	नारायण सिंह शाही
155	जेसी	538586एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	अभय सिंह यादव
156	जेसी	538128एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	फकिर सिंह
157	जेसी	212870एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	हर्ष सिंह ए एसएम
असम रेजिमेंट				
158	जेसी	185829एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	बीरेन चंद्रा भूयान
159	जेसी	216911के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	जमीनी राम सिन्हा
160	जेसी	185841एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	कनक चंद्रा बोरो
161	जेसी	173919ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	राजेंद्र प्रसाद गुरुंग
बिहार रेजिमेंट				
162	जेसी	183082वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	अलबिनस एक्साएक्सा
163	जेसी	218348एक्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	जमुना प्रसाद सिंह
164	जेसी	175407एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	माथिआस काछप
165	जेसी	204348डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	वीनसेन्ट मिंज
166	जेसी	218644एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	विष्णु दयाल सिंह
महार रेजिमेंट				
167	जेसी	179461एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	दुलुप राम
168	जेसी	220258वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	पार्स्वनाथ बैद्य

169	जेसी 568161के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बलदेव सिंह
170	जेसी 568591एन जम्मू एवं कश्मीर राइफल्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	ब्रज मोहन प्रसाद सिंह
171	जेसी 220281एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	गुरचरण सिंह
172	जेसी 169447एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	प्रेम सिंह
173	जेसी 578121डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	रमेश चन्द
174	जेसी 157911के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	रशपाल सिंह
175	जेसी 183105पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	ठाकर सिंह
176	जेसी 578680ए लद्दाख स्काउट्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	मघीर चन्द
177	जेसी 588144एल नागा रेजिमेंट	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	छेरिंग अंगचोक ए एसएम
178	जेसी 201100एक्यू जम्मू और कश्मीर लघु पैदल सेना	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	नन्दन कुमार पुनेथा
179	जेसी 183140एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	अब्दुल बालम
180	जेसी 592082एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	बोध राज
181	जेसी 183137एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	जिया लाल
182	जेसी 172649के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	सत पाल
183	जेसी 592037एक्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	गुरदेव सिंह
184	जेसी 224307एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	जगदीश चन्द शर्मा
185	जेसी 212776के 1 गोरखा राइफल्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	सत पाल
186	जेसी 196625वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	रेल बहादुर गुरूग
187	जेसी 602268एन 3 गोरखा राइफल्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	टेक बहादुर थापा
188	जेसी 194740ए 4 गोरखा राइफल्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	सुंदर कुमार राय
189	जेसी 181919पी 5 गोरखा राइफल्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	जीवन कुमार दीवान
190	जेसी 617422वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	चंद्रा बहादुर भुजल
191	जेसी 617078वाइ 8 गोरखा राइफल्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	ईश बहादुर गुरूग
192	जेसी 201212एक्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	भीम बहादुर थापा
193	जेसी 185577के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	राम काजी गुरूग
194	जेसी 192506एल 9 गोरखा राइफल्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	तेज बहादुर गुरूग
195	जेसी 629253पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	तारक बहादुर के सी
196	जेसी 629175एच 11 गोरखा राइफल्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	टोक बहादुर के सी
197	जेसी 183172ए सेना सेवा कोर (दक्षिण)	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	नरेन्द्र राय

198	जेसी 640417ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	बिजेन्द्र सिंह पोसवाल
199	जेसी 208970एक्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	चंद्रा शेखर सिंह
200	जेसी 207155एक्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	कुलवंत सिंह
201	जेसी 660441एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	पोथुरेड्डी राघवा रेडी
202	जेसी 640035डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	रमेश चन्द
203	जेसी 660470एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	रमेश चन्द गुलेरिया
204	जेसी 660468पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	वैलायुधन पुरुषोत्तमन
205	जेसी 131784एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	धर्म देव राम
206	जेसी 681090ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	कर्म चन्द
207	जेसी 681457पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	ओमपाल सिंह
208	जेसी 165614एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	पन्ना लाल पाठक
209	जेसी 185613एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राम मोहन
210	जेसी 661798ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सुरेंद्र प्रसाद
211	जेसी 661670पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	उदया चन्दन पी
212	जेसी 661247पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	उम्मेद सिंह डांगे
सेना सेवा कोर (जंतु परिवहन)			
213	जेसी 680038एम	रिसालदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	लक्ष्मी नारायण
सेना चिकित्सा कोर			
214	जेसी 690667एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	देव सिंह
215	जेसी 690968एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	गोपाल सिंह
216	जेसी 690777एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	मनीर मंसूरी
217	जेसी 690362एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	मंशा राम
218	जेसी 212161वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	प्रभु दयाल सिंह
219	जेसी 690187ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	राम दीन
220	जेसी 690661डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	सुरेश दत्त शर्मा
221	जेसी 693081एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	जगदीश सिंह
सेना आर्डनेंस कोर			
222	जेसी 221600ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	चको के एम
223	जेसी 213077एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	हंस राज
224	जेसी 217373एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	करतार चन्द राणा
225	जेसी 212438एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	लालियू सिंह राठौर
226	जेसी 213191एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	मोहिन्दर सिंह वर्मा
227	जेसी 187028एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	उमा शंकर
228	जेसी 723674डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	हेत राम वर्मा
229	जेसी 724430पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सुरिन्दर पाल सिंह
कोर आफ वैद्युत एवं यांत्रिक इंजीनियर्स			
230	जेसी 189029के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	दभेदार शर्मा
231	जेसी 182400एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	देवसरण सिंह
232	जेसी 176072एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	हरबंस सिंह
233	जेसी 78819एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	हेत राम शर्मा
234	जेसी 188825ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	इंद्र सिंह
235	जेसी 181512वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	काशिनाथ घोष
236	जेसी 747778डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	कृपा राम लाम्बा
237	जेसी 181555एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	खिज गोपालन सोमराजन नाथर
238	जेसी 189303डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	मल्कीत सिंह
239	जेसी 222022एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	मनी राम सिंह दूदी
240	जेसी 747963के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	पन्ना सिंह
241	जेसी 176071के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	शमशेर सिंह
242	जेसी 176087पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	टेक बहादुर राणा
243	जेसी 181552ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	तीलाराम बागारी
244	जेसी 181629एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	विरेन्द्र सिंह

245	जेसी	750533एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	भंवर सिंह भाटी
246	जेसी	748582पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	लक्ष्मन सिंह भंडारी
247	जेसी	752603एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	महेश पाल
248	जेसी	748811पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	मुनीब प्रसाद गुप्ता
249	जेसी	189372एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	रामाशंकर सिंह
250	जेसी	751797वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	शेवपुजान सिंह
251	जेसी	749065के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	श्यामल कुमार बनजी
सेना शिक्षा कोर				
252	जेसी	206345एक्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	खेम राज बख्शी
253	जेसी	193333एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	त्रिलोक सिंह रावत
254	जेसी	223001वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	वीरेंद्र सिंह
रिमाउंट एवं वेटेरिनरी कोर				
255	आरवी	7689एच	रिसालदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	हयात सिंह
आसूचना कोर				
256	जेसी	195888एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	जोगिंदर लाल शर्मा
257	जेसी	195887एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	केवल कृष्ण
258	जेसी	197797ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	एम लक्ष्मणन
कोर आफ सेना पुलिस				
259	जेसी	214569डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	जगादीश चंद्रा देव
260	जेसी	214544के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	राम पुकार प्रसाद
सेना शारिरिक प्रशिक्षण कोर				
261	जेसी	826046एक्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	चेल्ला दुरई
रक्षा सुरक्षा कोर				
262	जेसी	163739के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	गुरचरण सिंह
263	जेसी	168972एक्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	पर्शातम लाल
264	जेसी	147643एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	पैरीयानन महालिंगम
265	जेसी	840645एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बनवारी लाल
प्रादेशिक सेना				
266	टिजे	2986एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	जितेन्द्रा सिंह पुंधीर
267	टिजे	3179के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	गंगाराम ठाकरे
268	टिजे	3175	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	कालवाले पांडुरंग
269	टिजे	3212डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	एन बालन
270	टिजे	3506	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	निवरुती नारायण मोरे
271	टिजे	3514	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	पौलाल गंगटे
272	टिजे	3316	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	रणजीत सिंह
273	टिजे	2771	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	तिलक राज

अवैतनिक लैफ्टनेन्ट

2 लांरास

1 जेसी 235954एन रिसालदार मेजर बाल राम सिंह

17 अश्व

2 जेसी 237225के रिसालदार राम प्रकाश सिंह

18 कैवलरी

3 जेसी 236259एल रिसालदार मेजर जय सिंह राठीर

4 अश्व

4 जेसी 239151वाइ रिसालदार इन्द्र सिंह

सेंट्रल इंडिया अश्व

5 जेसी 235831एफ रिसालदार मेजर धनुशधामन त्रिपाठी

63 कैवलरी

6 जेसी 222977डब्ल्यू रिसालदार मेजर अजायब सिंह

7 जेसी 195426वाइ रिसालदार मेजर रमेश सिंह

45 कैवलरी

8 जेसी 829131पी रिसालदार मोती लाल

65 कवचित रेजिमेन्ट

9 जेसी 239080एच रिसालदार जय सिंह खनगरोट

10 जेसी 239352एक्स रिसालदार राम जनम सिंह

11 जेसी 236853एम रिसालदार शीरी पाल

12 जेसी 237084ए रिसालदार उदय सिंह

68 कवचित रेजिमेन्ट

13 जेसी 235644एच रिसालदार मेजर चतुर सिंह

73 कवचित रेजिमेन्ट

14 जेसी 237646एम रिसालदार ओम प्रकाश

74 कवचित रेजिमेन्ट

15 जेसी 238948एल रिसालदार बलबीर सिंह

78 कवचित रेजिमेन्ट

18 जेसी 238383एम रिसालदार मेजर शेर सिंह रावत

83 कवचित रेजिमेन्ट

17 जेसी 151956एन रिसालदार मेजर लालमन

85 कवचित रेजिमेन्ट

18 जेसी 239250एफ रिसालदार देस राज

90 कवचित रेजिमेन्ट

19 जेसी 235863के रिसालदार मेजर दरबारी लाल

43 कवचित रेजिमेन्ट

20 जेसी 237065पी रिसालदार संसार चंद संधू

6 कवचित रेजिमेन्ट

21 जेसी 236384पी रिसालदार भूप सिंह यादव

22 जेसी 236524डब्ल्यू रिसालदार रजीत सिंह रपियल

19 कवचित रेजिमेन्ट

23 जेसी 211546के रिसालदार मेजर नालाथम्बी मुथुसामी

50 कवचित रेजिमेन्ट

24 जेसी 236032एक्स रिसालदार मेजर तरसेम सिंह

25 जेसी 237457एच रिसालदार नरिंद्र पाल सिंह

53 कवचित रेजिमेन्ट

26 जेसी 236152डब्ल्यू रिसालदार मेजर नविंद्र कुमार

कवचित कोर

27 जेसी 72016एफ रिसालदार मेजर देवी नारायण शर्मा (आर टी)

28 जेसी 222942ए रिसालदार मेजर ज्योती प्रकाश भड

29 जेसी 203285एम रिसालदार मेजर मंशा राम

30 जेसी 78617एच रिसालदार मेजर नीलकंठ मनी झा (आर टी)

31 जेसी 78616ए रिसालदार मेजर राम चरन शुक्ला (आर टी)

32 जेसी 204586एच रिसालदार मेजर रोशन राणा

33 जेसी 78266वाइ रिसालदार मेजर त्रिलोक चंद शर्मा (आर टी)

रेजिमेन्ट आफ तोपखाना

34 जेसी 81623एफ सुबेदार मेजर अमर नाथ (आर टी)

35 जेसी 193412ए सुबेदार मेजर बहादुर सिंह

36 जेसी 203880डब्ल्यू सुबेदार मेजर बसदेव दुबे

37 जेसी 218690एफ सुबेदार मेजर भागीरथ

38 जेसी 195293एन सुबेदार मेजर भगवान सिंह

39 जेसी 211854के सुबेदार मेजर भानुदास नाथू लोखाण्डे

40 जेसी 182065एम सुबेदार मेजर भोला राम

41 जेसी 186723एल सुबेदार मेजर बिशन पाल सिरोही

42 जेसी 185935के सुबेदार मेजर दया कृष्ण मन्हास

43 जेसी 213402ए सुबेदार मेजर धर्म चंद

44 जेसी 197936वाइ सुबेदार मेजर जी शामुगावेल

45 जेसी 209152एल सुबेदार मेजर गुलाब चंद्रा वर्मा

46 जेसी 226428एन सुबेदार मेजर गुरचरण सिंह

47 जेसी 199044एम सुबेदार मेजर हरबंस सिंह

48 जेसी 203927डब्ल्यू सुबेदार मेजर हरिश्चंद्र राय

49 जेसी 190726डब्ल्यू सुबेदार मेजर होशियार सिंह जुम्वाल

50 जेसी 182109वाइ सुबेदार मेजर जसपाल सिंह

51 जेसी 200247एल सुबेदार मेजर जोगिंदर सिंह

52	जेसी	223273वाइ	सुबेदार मेजर	कैलाश चंद्रा रीय	
53	जेसी	90961ए	सुबेदार मेजर	कलवंत सिंह	(आर टी)
54	जेसी	223312एम	सुबेदार मेजर	करन सिंह	
55	जेसी	177687के	सुबेदार मेजर	करन सिंह	
56	जेसी	203489वाइ	सुबेदार मेजर	कोहर सिंह	
57	जेसी	185928एन	सुबेदार मेजर	के सुब्रामण्यम	
58	जेसी	255176पी	सुबेदार मेजर	लोक प्रसाद गुरूंग	
59	जेसी	79227एम	सुबेदार मेजर	मलागिर सिंह	(आर टी)
60	जेसी	203504एच	सुबेदार मेजर	माता दीन	
61	जेसी	195133एन	सुबेदार मेजर	एम श्रीधरण	
62	जेसी	190554एम	सुबेदार मेजर	मुख्तार सिंह	
63	जेसी	226723डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	नाना दशरथ पाटिल	
64	जेसी	200442एच	सुबेदार मेजर	नन्दापु जॉन साहेब	
65	जेसी	210068वाइ	सुबेदार मेजर	निर्मल सिंह	
66	जेसी	221548एच	सुबेदार मेजर	पद्मनाभन धड़वालापील	
67	जेसी	183489एच	सुबेदार मेजर	राज कुमार सोनी	
68	जेसी	210049एन	सुबेदार मेजर	रामराज ए आर	
69	जेसी	185596पी	सुबेदार मेजर	राम बहादुर सिंह	
70	जेसी	206181डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	रामेश्वर दयाल	
71	जेसी	202391वाइ	सुबेदार मेजर	राम लखन सिंह यादव	
72	जेसी	200424ए	सुबेदार मेजर	राम फल सिंह यादव	
73	जेसी	210047एच	सुबेदार मेजर	राम प्रहलाद सिंह	
74	जेसी	206181एच	सुबेदार मेजर	राम सिंह	
75	जेसी	183111डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	सहागदकर दामोदर	
76	जेसी	223578वाइ	सुबेदार मेजर	शांति धर	
77	जेसी	255380एन	सुबेदार मेजर	शिव प्रसाद गुरूंग	
78	जेसी	88389वाइ	सुबेदार मेजर	शिव विजय	(आर टी)
79	जेसी	193583एम	सुबेदार मेजर	श्री भगवान	
80	जेसी	193493एल	सुबेदार मेजर	एस जोधी राज	
81	जेसी	223288एफ	सुबेदार मेजर	सुरेंद्र नाथ पान्डे	
82	जेसी	213401एक्स	सुबेदार मेजर	थानु राम	
83	जेसी	197446एल	सुबेदार मेजर	टोक बहादुर गुरूंग	
84	जेसी	190557ए	सुबेदार मेजर	ऊधम सिंह	
85	जेसी	190547डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	वेद प्रकाश	
86	जेसी	142718ए	सुबेदार	आत्मा राम	(आर टी)
87	जेसी	261673पी	सुबेदार	बाबू बी	
88	जेसी	260174एन	सुबेदार	बुधी सिंह	
89	जेसी	260473एम	सुबेदार	चंद्र भान जन्हु	
90	जेसी	259355एम	सुबेदार	धर्मपाल सिंह	
91	जेसी	200445डब्ल्यू	सुबेदार	गन प्रकाश	
92	जेसी	255968पी	सुबेदार	हंस राज	
93	जेसी	257248एम	सुबेदार	हरनाम दास शर्मा	
94	जेसी	262818डब्ल्यू	सुबेदार	हर्ष सिंह	
95	जेसी	256882एच	सुबेदार	जगदीश चंद्र	
96	जेसी	259725एफ	सुबेदार	जय सिंह	
97	जेसी	262418पी	सुबेदार	जसमेहर सिंह	
98	जेसी	258312एल	सुबेदार	केवल कृष्ण	
99	जेसी	220030एच	सुबेदार	कृष्णामुरथी कुंदावरम	
100	जेसी	259155डब्ल्यू	सुबेदार	कुलविन्द सिंह	
101	जेसी	261424डब्ल्यू	सुबेदार	महावीर सिंह	
102	जेसी	260605पी	सुबेदार	नरेन्द्र सिंह	
103	जेसी	263586ए	सुबेदार	प्यार चंद मेहता	
104	जेसी	261745एन	सुबेदार	प्रेम चंद	

105	जेसी	259022ए	सुबेदार	प्रीतम कुमार
106	जेसी	259148ए	सुबेदार	राज सिंह
107	जेसी	257075ए	सुबेदार	राम सिंह
108	जेसी	260989पी	सुबेदार	रनबीर सिंह
109	जेसी	226607एन	सुबेदार	रोशन लाल
110	जेसी	263525एच	सुबेदार	साजन सिंह
111	जेसी	257888डब्ल्यू	सुबेदार	संतोख सिंह
112	जेसी	262263एल	सुबेदार	सत्यविर सिंह
113	जेसी	258047ए	सुबेदार	शाम सिंह
114	जेसी	259360एक्स	सुबेदार	शेर सिंह
115	जेसी	263317एन	सुबेदार	शीश राम
116	जेसी	256034के	सुबेदार	शिवपाल सिंह शेखावत
117	जेसी	257540एफ	सुबेदार	शिव शंकर
118	जेसी	261107पी	सुबेदार	श्री ओम पवार
119	जेसी	262072डब्ल्यू	सुबेदार	सूबे सिंह
120	जेसी	258797वाइ	सुबेदार	सुदर्शन सिंह
121	जेसी	261297एम	सुबेदार	सुरेश कुमार
122	जेसी	259714पी	सुबेदार	तरसेम सिंह
123	जेसी	260296एक्स	सुबेदार	टेकचंद वर्मा
124	जेसी	257370एच	सुबेदार	उमैद सिंह
125	जेसी	262993डब्ल्यू	सुबेदार	विरेन्द्र सिंह यादव
कोर आफ वायु रक्षा तोपखाना				

126	जेसी	178945एल	सुबेदार मेजर	अत्तर सिंह
127	जेसी	226449के	सुबेदार मेजर	बनवारी लाल
128	जेसी	193506एक्स	सुबेदार मेजर	सी बी वी राजू
129	जेसी	190572पी	सुबेदार मेजर	छत्तर सिंह
130	जेसी	169782एफ	सुबेदार मेजर	धर्म पाल
131	जेसी	86760के	सुबेदार मेजर	दिवाकर भार्गव
132	जेसी	171083पी	सुबेदार मेजर	जोध सिंह
133	जेसी	200172वाइ	सुबेदार मेजर	के बी कृष्णा
134	जेसी	186568पी	सुबेदार मेजर	मदन मोहन शर्मा
135	जेसी	179227एफ	सुबेदार मेजर	मोहन सिंह नेगी
136	जेसी	226966एफ	सुबेदार मेजर	ओम देव
137	जेसी	195040वाइ	सुबेदार मेजर	पपाला गांधी
138	जेसी	176471डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	प्रीतम सिंह
139	जेसी	169777डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	राम कृष्ण शर्मा
140	जेसी	206173एक्स	सुबेदार मेजर	आर. निराला
141	जेसी	202389एफ	सुबेदार मेजर	शिव नाथ
142	जेसी	169966ए	सुबेदार मेजर	सुखदेव सिंह
143	जेसी	179212वाइ	सुबेदार मेजर	विजय नाथ
144	जेसी	179220एक्स	सुबेदार मेजर	विनोद कुमार राठौर
145	जेसी	213386एन	सुबेदार	अजित कुमार
146	जेसी	296579के	सुबेदार	कृष्णा बहादुर थापा
147	जेसी	142713एफ	सुबेदार	एन एन शर्मा
148	जेसी	296761के	सुबेदार	प्रीतम चंद पी.

(आर टी)

(आर टी)

मद्रास इंजीनियर ग्रुप

149	जेसी	219443ए	सुबेदार मेजर	बालकृष्ण पिल्लै आर
150	जेसी	170383के	सुबेदार मेजर	सी मुर्ती
151	जेसी	207453एक्स	सुबेदार मेजर	जार्ज विलसन
152	जेसी	186137एच	सुबेदार मेजर	जी लक्ष्मणन

153	जेसी	182647एम	सुबेदार मेजर	गोविन्दसामी
154	जेसी	197071एक्स	सुबेदार मेजर	आई. राज एस
155	जेसी	187806एम	सुबेदार मेजर	जयारमण के
156	जेसी	184847एफ	सुबेदार मेजर	मणिकम मुनिस्वामी
157	जेसी	196963डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	मैरी मुथुसामी
158	जेसी	177291ए	सुबेदार मेजर	एम मुनुसामी
159	जेसी	177393डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	पी कानिप्पन
160	जेसी	177414एफ	सुबेदार मेजर	पी मदुराइ वी.
161	जेसी	224786ए	सुबेदार मेजर	प्रफुल्ल कुमार दास
162	जेसी	177315वाइ	सुबेदार मेजर	रामालिंगम
163	जेसी	182850एम	सुबेदार मेजर	रमन पदमनाभन
164	जेसी	219385एफ	सुबेदार मेजर	रवि कुमारन पिल्लै केके
165	जेसी	196962एन	सुबेदार मेजर	रविन्द्रन थंकम्पन पुलिताथु
166	जेसी	305128एन	सुबेदार मेजर	सिद्धरामाय्या कुंबर
167	जेसी	82816एन	सुबेदार मेजर	शिवराजन के
168	जेसी	177269पी	सुबेदार मेजर	वी कंडासामी
169	जेसी	184851के	सुबेदार	ए रमन
170	जेसी	191232वाइ	सुबेदार	बाबू आर
171	जेसी	305591पी	सुबेदार	सी विजयन
172	जेसी	305493पी	सुबेदार	फरिस
173	जेसी	305653के	सुबेदार	गांधी नाथन टी
174	जेसी	306766वाइ	सुबेदार	गोपाल कृष्णन पी ए
175	जेसी	308197डब्ल्यू	सुबेदार	जी थिरुनावुकारासु
176	जेसी	308145एन	सुबेदार	जे रंगराज
177	जेसी	305398एच	सुबेदार	के धालयान
178	जेसी	305776डब्ल्यू	सुबेदार	के सिक्कराज
179	जेसी	305597डब्ल्यू	सुबेदार	के विजया कुमार
180	जेसी	305095एन	सुबेदार	एम अब्दुल रशीद
181	जेसी	305708एच	सुबेदार	मार्टिन लुथेर बटुगु
182	जेसी	305146डब्ल्यू	सुबेदार	नज के इ
183	जेसी	305691ए	सुबेदार	पी लोगानाथन
184	जेसी	305707ए	सुबेदार	आर कृष्णामूर्ति
185	जेसी	305769ए	सुबेदार	सम्पथ
186	जेसी	305598एन	सुबेदार	सुब्रमनिअन
187	जेसी	305635एफ	सुबेदार	सुरेन्द्रन नायर के
188	जेसी	305956वाइ	सुबेदार	टी वी वी सत्यनारायणा
189	जेसी	306093पी	सुबेदार	वी.
190	जेसी	305758एन	सुबेदार	वेंकट सिवप्रसाद ए ई
191	जेसी	305009एक्स	सुबेदार	वी सुभिया

(आर टी)

बंगाल इंजीनियर ग्रुप

192	जेसी	197155एल	सुबेदार मेजर	बलदेव सिंह
193	जेसी	184786एम	सुबेदार मेजर	बिनोद प्रसाद
194	जेसी	210579एच	सुबेदार मेजर	चंद्रा पाल सिंह यादव
195	जेसी	184784डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	गोपाल शरण सिंह
196	जेसी	224887एन	सुबेदार मेजर	हाकम सिंह कैले
197	जेसी	199717डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	हरीपाल सिंह
198	जेसी	184744एच	सुबेदार मेजर	इश्वर सिंह
199	जेसी	191366एक्स	सुबेदार मेजर	जगत राम
200	जेसी	177147एल	सुबेदार मेजर	जग्गा सिंह एस
201	जेसी	199807एक्स	सुबेदार मेजर	कमल नैन शर्मा
202	जेसी	197185एच	सुबेदार मेजर	करनाधर मोन्डल
203	जेसी	210466ए	सुबेदार मेजर	कृपाल सिंह
204	जेसी	191368एच	सुबेदार मेजर	राम बहादुर सिंह

205	जेसी	207869पी	सुबेदार मेजर	राम सिंह
206	जेसी	197165पी	सुबेदार मेजर	संतोख सिंह
207	जेसी	207587डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	सुखदेव सिंह
208	जेसी	199782डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	सुखदेव सिंह
209	जेसी	199704वाइ	सुबेदार मेजर	तारा चंद
210	जेसी	207569एन	सुबेदार मेजर	उपेंद्र सिंह
211	जेसी	325383एफ	सुबेदार	आनंद सिंह
212	जेसी	325865डब्ल्यू	सुबेदार	अर्जुन सिंह
213	जेसी	326003के	सुबेदार	भूपाल सिंह नेगी
214	जेसी	325786एफ	सुबेदार	चरनजीत सिंह
215	जेसी	207851वाइ	सुबेदार	छात्रा सिंघा
216	जेसी	829073डब्ल्यू	सुबेदार	हरे कांता सरकार
217	जेसी	829035ए	सुबेदार	इंद्रासन राम
218	जेसी	325787के	सुबेदार	जगदम्बा प्रसाद
219	जेसी	326380ए	सुबेदार	मिलाप चंद
220	जेसी	326007ए	सुबेदार	नार बहादुर विश्वकर्मा
221	जेसी	325963डब्ल्यू	सुबेदार	प्रेम वल्लभ
222	जेसी	326563डब्ल्यू	सुबेदार	संतोख सिंह
223	जेसी	150008एक्स	सुबेदार	सतनाम सिंह
224	जेसी	325408एच	सुबेदार	सुकविन्द्र सिंह
225	जेसी	326458ए	सुबेदार	तेज बहादुर सिंह
बंबई इंजीनियर ग्रुप				

(आर टी)

226	जेसी	197354वाइ	सुबेदार मेजर	मधुकर चवाण
227	जेसी	200087डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	मेहर सिंह
228	जेसी	191626एक्स	सुबेदार मेजर	मोहिन्दर सिंह
229	जेसी	186321एन	सुबेदार मेजर	एम. खलील
230	जेसी	198823एच	सुबेदार मेजर	परसराम मरकु शिंदे
231	जेसी	203017एच	सुबेदार मेजर	राम जान खान
232	जेसी	78714ए	सुबेदार मेजर	रावेल सिंह
233	जेसी	203029एक्स	सुबेदार मेजर	रेशम सिंह
234	जेसी	191627ए	सुबेदार मेजर	शेख सलाहुद्दीन
235	जेसी	203024वाइ	सुबेदार मेजर	विजय सिंह
236	जेसी	348082के	सुबेदार	बलबीर सिंह
237	जेसी	347999पी	सुबेदार	बलजीत सिंह
238	जेसी	347994डब्ल्यू	सुबेदार	बलवंत सिंह
239	जेसी	347875ए	सुबेदार	देव राज
240	जेसी	348195एम	सुबेदार	डोगर सिंह
241	जेसी	348218एच	सुबेदार	ज्ञान सिंह
242	जेसी	347553ए	सुबेदार	गुरमेल सिंह
243	जेसी	140990एन	सुबेदार	गुरमीत सिंह
244	जेसी	829092एफ	सुबेदार	जय राम राम
245	जेसी	348071एक्स	सुबेदार	कतार सिंह
246	जेसी	347885के	सुबेदार	कयामुद्दीन अन्तारी
247	जेसी	348022पी	सुबेदार	रमेश कुमार
248	जेसी	347646पी	सुबेदार	सतवेन्द्र सिंह
249	जेसी	347509डब्ल्यू	सुबेदार	सुभाष चंद राणा
250	जेसी	348059डब्ल्यू	सुबेदार	सूरत सिंह
251	जेसी	347199डब्ल्यू	सुबेदार	वाली मोहम्मद

(आर टी)

(आर टी)

कोर आफ सिगनल्स

252	जेसी	188181एल	सुबेदार मेजर	अनार सिंह
253	जेसी	209998एन	सुबेदार मेजर	ए प्रकासा राव
254	जेसी	223458ए	सुबेदार मेजर	अशोक कुमार उपाध्याय
255	जेसी	220573पी	सुबेदार मेजर	बाबू लाल मीना

256	जैसी	367597वाइ	सुबेदार मेजर	बलदेव सिंह
257	जैसी	223461ए	सुबेदार मेजर	बिरु राम
258	जैसी	214269पी	सुबेदार मेजर	बी टी सोमन
259	जैसी	367592ए	सुबेदार मेजर	चंद्र भान यादवा
260	जैसी	369501के	सुबेदार मेजर	छत्तर सिंह
261	जैसी	367449एन	सुबेदार मेजर	दल बहादुर पुन
262	जैसी	192115ए	सुबेदार मेजर	दलीप चंद
263	जैसी	217638एम	सुबेदार मेजर	दीवी वेंकट कृष्णा किशोर
264	जैसी	188345डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	देव राज कौन्डल
265	जैसी	188190एम	सुबेदार मेजर	धर्म पाल
266	जैसी	367587पी	सुबेदार मेजर	गांधी राम भारद्वाज
267	जैसी	188231एल	सुबेदार मेजर	गुरमेज सिंह
268	जैसी	367806एल	सुबेदार मेजर	गुरनाम सिंह
269	जैसी	367229के	सुबेदार मेजर	हरी सिंह
270	जैसी	367047डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	होशियार सिंह यादवा
271	जैसी	188225एक्स	सुबेदार मेजर	जय पाल सिंह
272	जैसी	368008के	सुबेदार मेजर	जोध सिंह
273	जैसी	215335वाइ	सुबेदार मेजर	कर्म चंद
274	जैसी	367464एच	सुबेदार मेजर	लीलाधर प्रसाद
275	जैसी	367651एफ	सुबेदार मेजर	मदन मोहन पोख
276	जैसी	367590पी	सुबेदार मेजर	महाबीर सिंह
277	जैसी	220417एल	सुबेदार मेजर	मोहिन्दर सिंह
278	जैसी	188355ए	सुबेदार मेजर	नागेश्वर पान्डे
279	जैसी	367884पी	सुबेदार मेजर	नारायण चंद्रा घोष
280	जैसी	195666डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	पबित्रा प्रसाद रा
281	जैसी	173620एन	सुबेदार मेजर	पवन कुमार
282	जैसी	367586एम	सुबेदार मेजर	रघवीर सिंह सैनी
283	जैसी	94410एम	सुबेदार मेजर	राम बिलास तिवारी
284	जैसी	367223एच	सुबेदार मेजर	राम चंद्र शर्मा
285	जैसी	367594एल	सुबेदार मेजर	राम देव सिंह
286	जैसी	221459के	सुबेदार मेजर	रुक्मिणी कुमार सिन्हा
287	जैसी	367523के	सुबेदार मेजर	एस. सिंह
288	जैसी	192117एल	सुबेदार मेजर	सतवेन्द्र पाल सिंह बाजवा
289	जैसी	367553एफ	सुबेदार मेजर	श्याम मनोहर अवस्थी
290	जैसी	197679एम	सुबेदार मेजर	सिताल कुमार सिंघा
291	जैसी	367588एक्स	सुबेदार मेजर	सोराज सिंह
292	जैसी	223454के	सुबेदार मेजर	सुख राज
293	जैसी	188200एल	सुबेदार मेजर	थानकचन कुजू कुजू
294	जैसी	220575ए	सुबेदार मेजर	थिरुवदि नारायनन
295	जैसी	368889एन	सुबेदार	अग्रेन्द्र कुमार
296	जैसी	370723एल	सुबेदार	बचित्तर सिंह
297	जैसी	368188एक्स	सुबेदार	बाल गोविंद
298	जैसी	371754एक्स	सुबेदार	बिनान्दा हरी विश्वास
299	जैसी	368446एम	सुबेदार	दिलीप कुमार एस
300	जैसी	371595एल	सुबेदार	इदरिश खान
301	जैसी	371058ए	सुबेदार	कबीर राय
302	जैसी	368597एल	सुबेदार	एम. जाना
303	जैसी	368739एक्स	सुबेदार	पी बारिक
304	जैसी	370069ए	सुबेदार	प्रीतम चंद
305	जैसी	371084एफ	सुबेदार	राम कृपाल शर्मा
306	जैसी	373381एन	सुबेदार	राम लखन
307	जैसी	372351के	सुबेदार	संत राम
308	जैसी	371061ए	सुबेदार	सत पाल
309	जैसी	368298एम	सुबेदार	उदय सिंह

(आर टी)

गार्डस

310	जेसी	218152एन	सुबेदार मेजर	बलवंत सिंह नगरकोटि
311	जेसी	188600एक्स	सुबेदार मेजर	बेन सिंह
312	जेसी	169324एल	सुबेदार मेजर	बुधी सिंह
313	जेसी	208254डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	सुखदेव सिंह
314	जेसी	182908पी	सुबेदार मेजर	स्वर्ण सिंह
315	जेसी	402332डब्ल्यू	सुबेदार	अमृत लाल
316	जेसी	402727एक्स	सुबेदार	दर्शन सिंह
317	जेसी	402335के	सुबेदार	ध्रुव देव सिंह
318	जेसी	402780एच	सुबेदार	कश्मीर सिंह ए एसएम
319	जेसी	402726पी	सुबेदार	मादी लकरा
320	जेसी	402788पी	सुबेदार	मोहम्मद ताफिज खान
321	जेसी	402298एफ	सुबेदार	प्रकाश चंद ए एसएम
322	जेसी	402716एल	सुबेदार	राजेंद्र प्रसाद दिवेदी
323	जेसी	402294एल	सुबेदार	शारदा नन्द राय
324	जेसी	402242पी	सुबेदार	सतवीर सिंह स
325	जेसी	208271डब्ल्यू	सुबेदार	सुरजीत सिंह
326	जेसी	402773एम	सुबेदार	एस. सेनापति
327	जेसी	402564पी	सुबेदार	उम्मेद सिंह

पैराशूट रेजीमेन्ट

328	जेसी	185461एन	सुबेदार मेजर	बुधराम बराला
329	जेसी	205455के	सुबेदार मेजर	मेथ्यू माथन
330	जेसी	188357एल	सुबेदार मेजर	शिशुपाल जखर
331	जेसी	220126एल	सुबेदार मेजर	सुभाष चंद्र
332	जेसी	184927वाइ	सुबेदार मेजर	सुंदर सिंह
333	जेसी	412405एल	सुबेदार	बलबीर सिंह
334	जेसी	412084वाइ	सुबेदार	दया कृष्ण जोशी
335	जेसी	412324एल	सुबेदार	जगदेव सिंह
336	जेसी	412284पी	सुबेदार	ओम प्रकाश
337	जेसी	412056एम	सुबेदार	प्यारे लाल
338	जेसी	412123एम	सुबेदार	राजेंद्र कुमार
339	जेसी	412282के	सुबेदार	राम कुमार सिंह
340	जेसी	412377के	सुबेदार	शम्भू सिंह

मैकेनाइज्ड पैदल सेना रेजीमेन्ट

341	जेसी	206646एल	सुबेदार मेजर	बूटा सिंह
342	जेसी	204610एन	सुबेदार मेजर	चानन सिंह
343	जेसी	156782एच	सुबेदार मेजर	महेश चंद्रा पान्डे
344	जेसी	189702ए	सुबेदार मेजर	ओम प्रकाश राजपूत
345	जेसी	177501पी	सुबेदार मेजर	प्रेम सिंह
346	जेसी	211654एन	सुबेदार मेजर	राजिन्दर सिंह
347	जेसी	418693वाइ	सुबेदार	अमर नाथ सिंह
348	जेसी	418920एन	सुबेदार	धन बहादुर काकी
349	जेसी	418343एम	सुबेदार	धूप सिंह
350	जेसी	194207एल	सुबेदार	गज
351	जेसी	418787डब्ल्यू	सुबेदार	हरी मोहन सिंह
352	जेसी	418940एफ	सुबेदार	नेत्रा बहादुर थापा
353	जेसी	225979एम	सुबेदार	सीता राम
354	जेसी	418419एफ	सुबेदार	सुभाष चंद
355	जेसी	418869वाइ	सुबेदार	सुजान सिंह तोमर

पंजाब रेजिमेन्ट

356	जेसी	192856एक्स	सुबेदार मेजर	अमरीक सिंह
357	जेसी	174925ए	सुबेदार मेजर	बलविन्दर सिंह

358	जैसी	203972एच	सुबेदार मेजर	दौलत राम डोगरा
359	जैसी	192859एल	सुबेदार मेजर	गुरुपीत सिंह
360	जैसी	188428एफ	सुबेदार मेजर	जसबीर सिंह उल्लो
361	जैसी	188268पी	सुबेदार मेजर	जोगिंदर सिंह
362	जैसी	203619डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	कलविन्द सिंह
363	जैसी	178438एम	सुबेदार मेजर	करनैल सिंह
364	जैसी	89179एल	सुबेदार मेजर	ललित मोहन बलोधी
365	जैसी	428130एम	सुबेदार मेजर	नरेश कुमार
366	जैसी	196391ए	सुबेदार मेजर	संतोख राज
367	जैसी	196388ए	सुबेदार मेजर	सुदर्शन सिंह
368	जैसी	199173एम	सुबेदार मेजर	सुखविंदर सिंह
369	जैसी	428788एन	सुबेदार	अवतार सिंह
370	जैसी	428388एफ	सुबेदार	दर्शन लाल
371	जैसी	428547एम	सुबेदार	दर्शन सिंह शेवाल
372	जैसी	428055एन	सुबेदार	धर्म सिंह
373	जैसी	428377एन	सुबेदार	हरबंस सिंह राणा
374	जैसी	428380एन	सुबेदार	होशियार सिंह
375	जैसी	428740वाइ	सुबेदार	जगदीश चंद
376	जैसी	428266डब्ल्यू	सुबेदार	जसबीर सिंह
377	जैसी	428883एल	सुबेदार	जीवन दास राणा
378	जैसी	428793एक्स	सुबेदार	जोगिंदर सिंह
379	जैसी	428786एफ	सुबेदार	करनैल सिंह
380	जैसी	428751एल	सुबेदार	कुलदीप सिंह
381	जैसी	428151एच	सुबेदार	मेजर सिंह
382	जैसी	428421एम	सुबेदार	मलकियत सिंह
383	जैसी	428816एन	सुबेदार	मुल्क राज
384	जैसी	428661के	सुबेदार	एम सिंह
385	जैसी	428722डब्ल्यू	सुबेदार	नतार प्रकाश
386	जैसी	428286के	सुबेदार	निरंजन सिंह लबाना
387	जैसी	428384डब्ल्यू	सुबेदार	पवन कुमार
388	जैसी	428884एफ	सुबेदार	सतीश कुमार चन्देल
389	जैसी	428883वाइ	सुबेदार	तिलक राज
	मद्रास रेजीमेन्ट			
390	जैसी	224193एन	सुबेदार मेजर	ए दिवाकरा रेडी
391	जैसी	168521एफ	सुबेदार मेजर	गंगी सेट्टी धनंजयुदु
392	जैसी	166884एच	सुबेदार मेजर	जोशी पयवा
393	जैसी	177933के	सुबेदार मेजर	नलिन एम पी
394	जैसी	151635डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	पी रवींद्र रेडी
395	जैसी	164923एफ	सुबेदार मेजर	आर पौत्रराज
396	जैसी	172546एल	सुबेदार मेजर	थोगु रोथु सत्यम
397	जैसी	438479एक्स	सुबेदार	ए एन
398	जैसी	438446एम	सुबेदार	अशोक बनप्पा हक्की
399	जैसी	218423ए	सुबेदार	मैरो बिलागौजी
400	जैसी	438419एच	सुबेदार	के मुथुकृष्णन
401	जैसी	216744वाइ	सुबेदार	फिल्लिप डी
402	जैसी	438311एल	सुबेदार	शेदराम शिवालिंगप्पा शेगुनाशि
403	जैसी	212504के	सुबेदार	एस आर पांडि
404	जैसी	200999पी	सुबेदार	सुरेश वी
405	जैसी	218194ए	सुबेदार	वेलु पिल्लै के
406	जैसी	438177एल	सुबेदार	विजया राघवन बी के
	ग्रेनेडियर्स			
407	जैसी	180696डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	चंद्रा प्रकाश सिंह
408	जैसी	448021एफ	सुबेदार मेजर	धर्मजीत सिंह ए एसएम

(अन्य टी)

409	जेसी	212525ए	सुबेदार मेजर	फक चंद
410	जेसी	212530एल	सुबेदार मेजर	हनुमान सिंह
411	जेसी	181774पी	सुबेदार मेजर	नंदा सिंह
412	जेसी	201005पी	सुबेदार मेजर	ओम प्रकाश
413	जेसी	448091ए	सुबेदार मेजर	प्रेम लाल
414	जेसी	185715ए	सुबेदार मेजर	रमेश कुमार
415	जेसी	224375एफ	सुबेदार मेजर	राम फल
416	जेसी	182936एफ	सुबेदार मेजर	याकूब खान
417	जेसी	448961एम	सुबेदार	अभय सिंह
418	जेसी	448958एम	सुबेदार	आज्ञा राम ए एसएम
419	जेसी	449018डब्ल्यू	सुबेदार	अजित चंद
420	जेसी	448590पी	सुबेदार	अजित कुमार
421	जेसी	448765एम	सुबेदार	अशोक कुमार
422	जेसी	448683के	सुबेदार	भरत सिंह भाऊ
423	जेसी	448902ए	सुबेदार	हाकम अली खान
424	जेसी	449054वाइ	सुबेदार	इंद्र सिंह
425	जेसी	448556पी	सुबेदार	जयपाल सिंह
426	जेसी	448163वाइ	सुबेदार	कप्तान सिंह
427	जेसी	448690ए	सुबेदार	किशोर चंद
428	जेसी	448607एक्स	सुबेदार	कृष्ण लाल
429	जेसी	448936एन	सुबेदार	लखन सिंह
430	जेसी	449080ए	सुबेदार	लियाकत अली
431	जेसी	448907वाइ	सुबेदार	मदन लाल
432	जेसी	448364एक्स	सुबेदार	महाबीर सिंह
433	जेसी	449066एन	सुबेदार	रोशन लाल
434	जेसी	448042एक्स	सुबेदार	सुरजीत सिंह
मराठा लघु पैदल सेना				
435	जेसी	179320एच	सुबेदार मेजर	अमीर जी
436	जेसी	166682एल	सुबेदार मेजर	बंकर दशरथराव विठल
437	जेसी	167424एक्स	सुबेदार मेजर	पुले लॉटन पण्डित
438	जेसी	212858एम	सुबेदार मेजर	पोल ए जगन्नाथ
439	जेसी	171845एक्स	सुबेदार मेजर	शंकर राव अशोकर
440	जेसी	173181एन	सुबेदार मेजर	शिंदे गजानन पांडुरंग
441	जेसी	201822एन	सुबेदार मेजर	उल्लास विथल सावंत
442	जेसी	171695एम	सुबेदार मेजर	दादिगणिकर विठल बंदू
443	जेसी	458484के	सुबेदार	चंद्रकांत यादव वखारे
444	जेसी	458061डब्ल्यू	सुबेदार	चव्हाण मारुति श्रीपति
445	जेसी	458064के	सुबेदार	दशरथ एकनाथ गोरे
446	जेसी	458478डब्ल्यू	सुबेदार	जयावन्था बलेगर
447	जेसी	178510एच	सुबेदार	कदम अशोक नामदेव
448	जेसी	458050के	सुबेदार	कदम साहेब्रौ दत्तू
449	जेसी	458004पी	सुबेदार	कुमार शैगते लक्ष्मन सदासिव
450	जेसी	220161एन	सुबेदार	विलास चान्द्राकान्त तवानदिकर
राजपूत राइफल्स				
451	जेसी	204274एम	सुबेदार मेजर	अजित सिंह
452	जेसी	188387एच	सुबेदार मेजर	बिक्रम सिंह
453	जेसी	151691पी	सुबेदार मेजर	धर्म पाल सिंह
454	जेसी	77727एल	सुबेदार मेजर	कुंज लाल शर्मा

455	जैसी	183420एल	सुबेदार मेजर	लियाकत अली
456	जैसी	212580डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	महेंद्र सिंह
457	जैसी	184978एफ	सुबेदार मेजर	माल सिंह खनगरोट
458	जैसी	205879ए	सुबेदार मेजर	मान सिंह चौहान
459	जैसी	179328पी	सुबेदार मेजर	मूल सिंह
460	जैसी	198207के	सुबेदार मेजर	नाथू सिंह
461	जैसी	211030एफ	सुबेदार मेजर	ओम प्रकाश
462	जैसी	175016एफ	सुबेदार मेजर	पारश सिंह महिचा
463	जैसी	468090वाइ	सुबेदार मेजर	सतबीर
464	जैसी	211027एफ	सुबेदार मेजर	सुरेंद्र सिंह मदोरिया
465	जैसी	468443एन	सुबेदार	अजित सिंह
466	जैसी	469065एम	सुबेदार	देवी सिंह
467	जैसी	468906एक्स	सुबेदार	जब्बार सिंह
468	जैसी	468304के	सुबेदार	मदन सिंह
469	जैसी	468770वाइ	सुबेदार	महाबीर
470	जैसी	218237के	सुबेदार	मान फूल सिंह
471	जैसी	468771एफ	सुबेदार	मोहेंद्र सिंह
472	जैसी	468695ए	सुबेदार	ओम सिंह
473	जैसी	468660के	सुबेदार	पौहकर सिंह
474	जैसी	468748एन	सुबेदार	प्रथम सिंह
475	जैसी	468614पी	सुबेदार	राज कुमार सिंह
476	जैसी	468672वाइ	सुबेदार	राजभूत सिंह
477	जैसी	212881ए	सुबेदार	शमशाद अली

राजपूत रेजीमेन्ट

478	जैसी	216530एच	सुबेदार मेजर	बाबू लाल
479	जैसी	205558एल	सुबेदार मेजर	भरत सिंह
480	जैसी	204057डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	दुर्गा प्रसाद
481	जैसी	203666एन	सुबेदार मेजर	महेंद्र सिंह परिहार
482	जैसी	205550डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	प्रभु दयाल
483	जैसी	183452एन	सुबेदार मेजर	रोहतास सिंह
484	जैसी	204056एन	सुबेदार मेजर	सत राम
485	जैसी	198218डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	सुरेंद्र सिंह
486	जैसी	220938वाइ	सुबेदार मेजर	तेज सिंह
487	जैसी	478437एन	सुबेदार	भूरा सिंह
488	जैसी	478187एक्स	सुबेदार	चन्द्र सेन
489	जैसी	478787ए	सुबेदार	चंद्र प्रकाश
490	जैसी	478256एच	सुबेदार	चतर सिंह
491	जैसी	224402ए	सुबेदार	छतरपाल सिंह
492	जैसी	478806ए	सुबेदार	गुलाब सिंह
493	जैसी	478067वाइ	सुबेदार	हरमेश लाल
494	जैसी	478938एन	सुबेदार	जगदीश
495	जैसी	478449एच	सुबेदार	जनक सिंह
496	जैसी	478200डब्ल्यू	सुबेदार	जशवन्त सिंह
497	जैसी	478538एफ	सुबेदार	मोहन लाल
498	जैसी	478433एक्स	सुबेदार	प्रफुल्ल कुमार देबनाथ
499	जैसी	478572एफ	सुबेदार	प्रेम सिंह ए एसएम
500	जैसी	478065एन	सुबेदार	राजेश कुमार शर्मा
501	जैसी	478425वाइ	सुबेदार	राम नाथ
502	जैसी	478909वाइ	सुबेदार	रोशन लाल

503	जेसी	478807एच	सुबेदार	एस सिंह
504	जेसी	478826एन	सुबेदार	सरवन सिंह ए एसएम
505	जेसी	478163एन	सुबेदार	शिव कुमार सिंह
506	जेसी	478746डब्ल्यू	सुबेदार	श्रीमन सिंह गुर्जर
507	जेसी	478114एल	सुबेदार	तेज राम
508	जेसी	478332के	सुबेदार	विजय सिंह
जाट रेजीमेन्ट				
509	जेसी	168543ए	सुबेदार मेजर	कनी राम
510	जेसी	164785एल	सुबेदार मेजर	मोहार पाल सिंह
511	जेसी	185759एक्स	सुबेदार मेजर	राजेंद्र सिंह
512	जेसी	185518एक्स	सुबेदार मेजर	रेखा राम
513	जेसी	204066एक्स	सुबेदार मेजर	रौहताशव
514	जेसी	168866एच	सुबेदार मेजर	सुखा राम
515	जेसी	488870एल	सुबेदार	दलीप सिंह
516	जेसी	127278ए	सुबेदार	हरबिलास कटारे
517	जेसी	488647एफ	सुबेदार	जगबीर सिंह
518	जेसी	488780के	सुबेदार	जुगमान्दर सिंह
519	जेसी	489106एम	सुबेदार	किशन सिंह
520	जेसी	488483डब्ल्यू	सुबेदार	रामबीर सिंह
521	जेसी	488580एन	सुबेदार	राम चंद्र
522	जेसी	488939के	सुबेदार	रामकाला धुल
523	जेसी	488481एल	सुबेदार	रणपाल सिंह
सिख रेजीमेन्ट				
524	जेसी	192951के	सुबेदार मेजर	अमरीक सिंह
525	जेसी	91143एल	सुबेदार मेजर	गुरमेल सिंह
526	जेसी	196242एम	सुबेदार मेजर	हरजोगेन्द्र सिंह
527	जेसी	183009ए	सुबेदार मेजर	हरपाल सिंह
528	जेसी	173020एल	सुबेदार मेजर	जरनैल सिंह
529	जेसी	181856एक्स	सुबेदार मेजर	जसपाल सिंह
530	जेसी	184376वाइ	सुबेदार मेजर	करनैल सिंह
531	जेसी	192603एच	सुबेदार मेजर	प्रीतम सिंह
532	जेसी	173022डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	सोवरन सिंह
533	जेसी	498228एक्स	सुबेदार	आनंद सरूप सिंह
534	जेसी	498074डब्ल्यू	सुबेदार	बक्शीश सिंह
535	जेसी	498504पी	सुबेदार	बलदेव सिंह
536	जेसी	498151ए	सुबेदार	चरन सिंह
537	जेसी	498012डब्ल्यू	सुबेदार	गुरचरण सिंह
538	जेसी	222689के	सुबेदार	गुरचरण सिंह सिद्ध
539	जेसी	498264एच	सुबेदार	गुरदीप सिंह
540	जेसी	498176एम	सुबेदार	गुरदेव सिंह
541	जेसी	498241एफ	सुबेदार	हरभजन सिंह
542	जेसी	498258पी	सुबेदार	हरविन्दर सिंह
543	जेसी	498637एल	सुबेदार	जगजीत सिंह
544	जेसी	498814ए	सुबेदार	जसवंत सिंह
545	जेसी	498190वाइ	सुबेदार	कश्मीर सिंह
546	जेसी	224419एन	सुबेदार	खजान सिंह
547	जेसी	498434एफ	सुबेदार	मल्कीत सिंह
548	जेसी	498279एल	सुबेदार	मनोहर सिंह

(आर टी)

549	जेसी	498303डब्ल्यू	सुबेदार	मोहन सिंह
550	जेसी	498140एन	सुबेदार	एम सिंह
551	जेसी	498242के	सुबेदार	सतनाम सिंह
552	जेसी	498280ए	सुबेदार	सुरजीत सिंह
सिख लघु पैदल सेना				
553	जेसी	187230पी	सुबेदार मेजर	बलबीर सिंह
554	जेसी	185788एम	सुबेदार मेजर	बलविन्दर सिंह
555	जेसी	216574ए	सुबेदार मेजर	बाड सिंह
556	जेसी	208383डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	ज्ञान सिंह
557	जेसी	173206पी	सुबेदार मेजर	हरभजन सिंह
558	जेसी	185790के	सुबेदार मेजर	कुलवंत सिंह
559	जेसी	205980ए	सुबेदार मेजर	निर्मल सिंह
560	जेसी	198252डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	सुरजीत सिंह
561	जेसी	508325एल	सुबेदार	बलविन्दर सिंह
562	जेसी	508256ए	सुबेदार	इकबाल सिंह
563	जेसी	508524वाइ	सुबेदार	मोहिन्दर सिंह
564	जेसी	508186एम	सुबेदार	निर्मल सिंह
565	जेसी	508042के	सुबेदार	सुरजीत सिंह
डोगरा रेजीमेन्ट				
566	जेसी	518282पी	सुबेदार मेजर	बख्तावर सिंह
567	जेसी	518139एच	सुबेदार मेजर	धर्म सिंह बनयाल
568	जेसी	518332पी	सुबेदार मेजर	हरमेश सिंह
569	जेसी	518115वाइ	सुबेदार मेजर	हिम्मत सिंह चौहान
570	जेसी	518249एक्स	सुबेदार मेजर	इन्द्रजीत सिंह
571	जेसी	518042एक्स	सुबेदार मेजर	कुलदीप सिंह
572	जेसी	518039एक्स	सुबेदार मेजर	कुशाल सिंह मन्हास
573	जेसी	518048एन	सुबेदार मेजर	प्रेम सिंह
574	जेसी	518219ए	सुबेदार मेजर	पूरन प्रकाश
575	जेसी	518290एन	सुबेदार मेजर	राजा सम
576	जेसी	518291डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	राजिन्दर सिंह
577	जेसी	518183वाइ	सुबेदार मेजर	रमेश चंद्र
578	जेसी	221015ए	सुबेदार मेजर	रवीन्द्र कुमार वर्मा
579	जेसी	518194वाइ	सुबेदार मेजर	रवीन्द्र सिंह जामवाल
580	जेसी	518147एफ	सुबेदार मेजर	आर सिंह
581	जेसी	519179डब्ल्यू	सुबेदार	चैन सिंह ए एसएम
582	जेसी	519454एल	सुबेदार	दलजीत सिंह गुलियल
583	जेसी	518877एम	सुबेदार	घनश्याम कटौच
584	जेसी	518885एल	सुबेदार	जसबीर सिंह
585	जेसी	519077ए	सुबेदार	कमल जीत
586	जेसी	519191एक्स	सुबेदार	निक्का राम
587	जेसी	519219एम	सुबेदार	पवन कुमार
588	जेसी	518013एच	सुबेदार	रघबीर सिंह
589	जेसी	519075पी	सुबेदार	रमेश चंद धीमान
590	जेसी	518953एन	सुबेदार	रोमल सिंह पठानिया
591	जेसी	519177एल	सुबेदार	संसार चंद
592	जेसी	518692एल	सुबेदार	सुभाष चंद राणा
593	जेसी	519251एफ	सुबेदार	सुदेश कुमार
594	जेसी	519272एक्स	सुबेदार	सूरम चंद

गढ़वाल राइफल्स

595	जेसी	193805डब्ल्यू	सुबेदार	मेजर	अमर सिंह
596	जेसी	178608डब्ल्यू	सुबेदार	मेजर	अमर सिंह केन्तुरा
597	जेसी	193807एफ	सुबेदार	मेजर	भवन सिंह रावत
598	जेसी	175386एफ	सुबेदार	मेजर	दर्शन सिंह
599	जेसी	528479वाइ	सुबेदार	मेजर	दिलवर सिंह कंधारी
600	जेसी	188527के	सुबेदार	मेजर	गोविंद सिंह
601	जेसी	184410एन	सुबेदार	मेजर	हरी भक्त सिंह रावत
602	जेसी	176336एच	सुबेदार	मेजर	नाथा सिंह
603	जेसी	205991एम	सुबेदार	मेजर	शशि मोहन कुकरेती
604	जेसी	193815ए	सुबेदार	मेजर	उमा दत्त
605	जेसी	528735एच	सुबेदार		अर्जुन सिंह रावत
606	जेसी	528678एम	सुबेदार		गजपाल सिंह
607	जेसी	528992ए	सुबेदार		जी सिंह
608	जेसी	528462एल	सुबेदार		गुलाब सिंह पवार
609	जेसी	529006एम	सुबेदार		ज्ञान सिंह
610	जेसी	528902एन	सुबेदार		जसवंत सिंह
611	जेसी	529141ए	सुबेदार		महाबीर सिंह
612	जेसी	528642एन	सुबेदार		महेन्द्र प्रसाद
613	जेसी	528968के	सुबेदार		प्रमोद प्रसाद
614	जेसी	528804एन	सुबेदार		पूरन सिंह
615	जेसी	528689वाइ	सुबेदार		रजीत सिंह
616	जेसी	528677के	सुबेदार		श्याम सिंह
617	जेसी	528783एच	सुबेदार		विजय सिंह

(बीएम)

कुमाँउ रेजीमेन्ट

618	जेसी	220758डब्ल्यू	सुबेदार	मेजर	अमर सिंह बोरा
619	जेसी	212934एन	सुबेदार	मेजर	बहादुर सिंह विष्ट
620	जेसी	202024एम	सुबेदार	मेजर	लाला राम
621	जेसी	202029एल	सुबेदार	मेजर	राजेंद्र सिंह देव
622	जेसी	216896ए	सुबेदार	मेजर	श्याम सिंह
623	जेसी	538597ए	सुबेदार		बहुत राम
624	जेसी	538315डब्ल्यू	सुबेदार		भूपाल सिंह विष्ट
625	जेसी	538548एक्स	सुबेदार		भूपाल सिंह वालदिया
626	जेसी	538749डब्ल्यू	सुबेदार		बिशन सिंह
627	जेसी	539043एन	सुबेदार		ब्रम प्रकाश
628	जेसी	538847एक्स	सुबेदार		दर्पण सिंह
629	जेसी	538677एक्स	सुबेदार		दरवान सिंह काकी
630	जेसी	538925एच	सुबेदार		दया राम
631	जेसी	538643के	सुबेदार		दया शंकर सिंह यादव
632	जेसी	538549ए	सुबेदार		देवी दत्त
633	जेसी	193827पी	सुबेदार		हरक सिंह
634	जेसी	538731ए	सुबेदार		हरी सिंह
635	जेसी	538975एन	सुबेदार		जगत चंद ए एसएम
636	जेसी	538381वाइ	सुबेदार		कुंवर सिंह
637	जेसी	538735डब्ल्यू	सुबेदार		लाल सिंह यादव
638	जेसी	539025एल	सुबेदार		लक्ष्मण सिंह कंवल
639	जेसी	538622एन	सुबेदार		मान सिंह
640	जेसी	538397के	सुबेदार		मनुमन सिंह यादव

641	जैसी	538672वाइ	सुबेदार	नन्दन सिंह
642	जैसी	538317एफ	सुबेदार	पुष्कर सिंह
643	जैसी	538711एम	सुबेदार	पुष्कर सिंह बाध्याल
644	जैसी	538811एफ	सुबेदार	राज कुमार
645	जैसी	538378वाइ	सुबेदार	एस हदियो सिंह
646	जैसी	538863एन	सुबेदार	श्याम सिंह भंडारी
647	जैसी	538425एल	सुबेदार	उम्मेद सिंह
असम रेजीमेन्ट				
648	जैसी	188539वाइ	सुबेदार मेजर	दल बहादुर थापा
649	जैसी	173242ए	सुबेदार मेजर	गोपाल चंद्रा गोगोई
650	जैसी	204331एच	सुबेदार मेजर	जगादीश चंद्रा दास
651	जैसी	182471ए	सुबेदार मेजर	कला सिंह डल्लो
652	जैसी	189231डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	लक्खी बोरा
653	जैसी	201130वाइ	सुबेदार मेजर	लालानथुमा
654	जैसी	173920पी	सुबेदार मेजर	महेश बोरो
655	जैसी	185831एच	सुबेदार मेजर	मोहोन च. सेकिआ
656	जैसी	189872एक्स	सुबेदार मेजर	नंदा बहादुर थापा
657	जैसी	188240एन	सुबेदार मेजर	एन कुमार सिंघा
658	जैसी	548253वाइ	सुबेदार	अबिलाल दैमारी
659	जैसी	185842पी	सुबेदार	दालिम चंद्रा शरमाह
660	जैसी	548209एल	सुबेदार	धनी राम बरदोलोय
661	जैसी	548488एफ	सुबेदार	जादाब चंद्रा बोरगोहेन
662	जैसी	548073एम	सुबेदार	मोहन चंद्रा दास
बिहार रेजीमेन्ट				
663	जैसी	228206वाइ	सुबेदार मेजर	कृस्तोपाल सोय
664	जैसी	220772एच	सुबेदार मेजर	होपना हेमब्रम
665	जैसी	218521ए	सुबेदार मेजर	कपीलेश्वर यादव
666	जैसी	202084एन	सुबेदार मेजर	रजनी कांता दास
667	जैसी	179014एन	सुबेदार मेजर	सुख देव गोपे
668	जैसी	568666एम	सुबेदार	ब्रज किशोर औरौन
669	जैसी	558275एफ	सुबेदार	गिरिजमल यादव
670	जैसी	558389वाइ	सुबेदार	जोसेफ होरो
671	जैसी	558890एच	सुबेदार	कामेश प्रसाद सिंह
672	जैसी	558827एन	सुबेदार	रमा कांत कौनहार
673	जैसी	205244एफ	सुबेदार	रोमन कुजुर
महारा रेजीमेन्ट				
674	जैसी	189444के	सुबेदार मेजर	देवी सिंह
675	जैसी	173947एम	सुबेदार मेजर	जागीर सिंह
676	जैसी	220775डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	जीत सिंह
677	जैसी	168800डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	लक्ष्मन पौल
678	जैसी	220778वाइ	सुबेदार मेजर	ओम प्रकाश शर्मा
679	जैसी	173948के	सुबेदार मेजर	रणजीत सिंह गरिया
680	जैसी	178304वाइ	सुबेदार मेजर	सत्य पाल सिंह
681	जैसी	568086एल	सुबेदार	आलम सिंह
682	जैसी	568400एन	सुबेदार	बद्री प्रसाद
683	जैसी	568555एच	सुबेदार	बलजीत सिंह
684	जैसी	568677एम	सुबेदार	ब्रज लाल गुर्जर

685	जेसी	568766एल	सुबेदार	दया निधि तिवारी
686	जेसी	568290के	सुबेदार	हंस राज
687	जेसी	568802एल	सुबेदार	जय सिंह
688	जेसी	568175के	सुबेदार	लोहरा ओरौन
689	जेसी	568218एन	सुबेदार	लोकनाथ दास
690	जेसी	220786एच	सुबेदार	महिमा नन्द
691	जेसी	568403एफ	सुबेदार	राम स्वरूप
692	जेसी	568972पी	सुबेदार	सतबीर

जम्मू एवं कश्मीर राइफल्स

693	जेसी	220808डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	बख्तावर सिंह
694	जेसी	578048एच	सुबेदार मेजर	बन्सी लाल परिहार
695	जेसी	178319एफ	सुबेदार मेजर	भीम बहादुर राणा
696	जेसी	578093पी	सुबेदार मेजर	दिलबाग सिंह
697	जेसी	578195एल	सुबेदार मेजर	हरबंस लाल
698	जेसी	578146एच	सुबेदार मेजर	हुकम चंद चन्देल
699	जेसी	224298एक्स	सुबेदार मेजर	कर्म सिंह
700	जेसी	211324पी	सुबेदार मेजर	कुलदीप चंद
701	जेसी	91334ए	सुबेदार मेजर	मुख्तार सिंह
702	जेसी	224302पी	सुबेदार मेजर	रशपाल सिंह
703	जेसी	578118डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	रूप सिंह चन्देल
704	जेसी	579122एल	सुबेदार	बचन सिंह
705	जेसी	579037एच	सुबेदार	बलदेव सिंह
706	जेसी	578809एच	सुबेदार	जीएच नबी जान
707	जेसी	579123एन	सुबेदार	गोपाल दास
708	जेसी	579046के	सुबेदार	गोपाल दास शर्मा
709	जेसी	185863एल	सुबेदार	हरभजन सिंह
710	जेसी	578964के	सुबेदार	जगदीश सिंह
711	जेसी	528444एच	सुबेदार	जोगिंदर सिंह
712	जेसी	578791एक्स	सुबेदार	कर्णजीत सिंह
713	जेसी	578895वाइ	सुबेदार	कश्मीर सिंह
714	जेसी	578955एच	सुबेदार	कुलजीत सिंह
715	जेसी	578991एन	सुबेदार	मंगल सिंह
716	जेसी	579260एम	सुबेदार	मथरा दास रेना
717	जेसी	578449एक्स	सुबेदार	मोहिन्दर पाल
718	जेसी	579066एक्स	सुबेदार	ओम बहादुर थापा
719	जेसी	579341एम	सुबेदार	ओंकार चंद
720	जेसी	578287एक्स	सुबेदार	प्रताप सिंह परदेसी
721	जेसी	579105एल	सुबेदार	रोमेश कुमार
722	जेसी	579042एन	सुबेदार	रुमल सिंह

लद्दाख स्काउट

723	जेसी	183574एक्स	सुबेदार मेजर	छेरिंग फुनचोक ए एसएम
724	जेसी	221080ए	सुबेदार	छेरिंग मुतुप
725	जेसी	588094एल	सुबेदार	सोनम दोर्जे
726	जेसी	588114एन	सुबेदार	सौरिंग अंगचोक

नाग रेजीमेन्ट

727	जेसी	204136एल	सुबेदार मेजर	भगवान सिंह
728	जेसी	203770एफ	सुबेदार	पूरन सिंह

(आर टी)

जम्मू एवं कश्मीर लघु पैदल सेना

729	जेसी	224908एल	सुबेदार मेजर	अली मोहम्मद खान
730	जेसी	592074पी	सुबेदार मेजर	अस्ताहाके दीन
731	जेसी	592052डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	बलवंत राज
732	जेसी	220822एच	सुबेदार मेजर	जगदीश कुमार
733	जेसी	219796ए	सुबेदार मेजर	कृष्ण चंद
734	जेसी	592054एफ	सुबेदार मेजर	मोहम्मद अकबर मीर
735	जेसी	592687पी	सुबेदार	आलम दीन
736	जेसी	592216एफ	सुबेदार	बचन सिंह
737	जेसी	592462एम	सुबेदार	बिश्म्वर दास
738	जेसी	592158एच	सुबेदार	दया कृष्ण
739	जेसी	592454एन	सुबेदार	घाड सिंह
740	जेसी	592681एन	सुबेदार	गिरधारी लाल
741	जेसी	208203एच	सुबेदार	हंस राज
742	जेसी	592504एन	सुबेदार	जगदीश राज
743	जेसी	592391डब्ल्यू	सुबेदार	मोहम्मद अशरिफ
744	जेसी	592548एल	सुबेदार	मुश्ताक अहमद
745	जेसी	592134वाइ	सुबेदार	एन सिंह
746	जेसी	592461के	सुबेदार	ओम प्रकाश शर्मा
747	जेसी	592268एक्स	सुबेदार	प्रीतम सिंह कोतवाल
748	जेसी	592032एच	सुबेदार	राज कुमार
749	जेसी	592618वाइ	सुबेदार	रमेश लाल
750	जेसी	592569एफ	सुबेदार	आर सिंह
751	जेसी	592369एल	सुबेदार	सर्वन सिंह
752	जेसी	592552एन	सुबेदार	शेर मोहम्मद
753	जेसी	592345एफ	सुबेदार	तिलक राज शर्मा
754	जेसी	592355एल	सुबेदार	तीरथ सिंह
1 गोरखा राइफल्स				
755	जेसी	206023एफ	सुबेदार मेजर	राम बहादुर थापा ए एससी
756	जेसी	602149एक्स	सुबेदार	बगबीर पुन
757	जेसी	602330पी	सुबेदार	बाल बहादुर गुरूंग
758	जेसी	802230के	सुबेदार	दंबेर राणा
759	जेसी	602248ए	सुबेदार	दिलीप गुरूंग
760	जेसी	602340वाइ	सुबेदार	झाग लाल थापा
761	जेसी	602286डब्ल्यू	सुबेदार	कृष्णा बहादुर थापा
762	जेसी	602286एच	सुबेदार	कुल प्रसाद गुरूंग
763	जेसी	602238डब्ल्यू	सुबेदार	मुकित बहादुर थापा
764	जेसी	602309एम	सुबेदार	रमन कुमार
765	जेसी	602310एफ	सुबेदार	सोबित बहादुर गुरूंग
766	जेसी	602240एन	सुबेदार	सूरजा कुमार मल्ला
3 गोरखा राइफल्स				
767	जेसी	208458एच	सुबेदार मेजर	भीम बहादुर थापा
768	जेसी	220337एन	सुबेदार मेजर	शांता बहादुर खण्डका
769	जेसी	196315एन	सुबेदार मेजर	सुरेंद्र सिंह थापा
770	जेसी	607271एक्स	सुबेदार	धर्म डी गुरूंग
771	जेसी	607265के	सुबेदार	हरी बहादुर थापा
772	जेसी	607287एच	सुबेदार	जगत राम गुरूंग

773	जेसी	607259डब्ल्यू	सुबेदार	नरेश थापा
774	जेसी	607312डब्ल्यू	सुबेदार	पेमा सिंह थापा
775	जेसी	607263वाइ	सुबेदार	राज बहादुर थापा
4 गोरखा राइफल्स				
776	जेसी	196663पी	सुबेदार मेजर	चंद्रा बहादुर गुरुंग
777	जेसी	196664एक्स	सुबेदार मेजर	चंद्रा बहादुर राणा ए एसएम
778	जेसी	177823पी	सुबेदार मेजर	रमेश कुमार गुरुंग
779	जेसी	185569एल	सुबेदार मेजर	सुशील कुमार गुरुंग
780	जेसी	612374ए	सुबेदार	गोपाल सिंग गुरुंग
781	जेसी	612285एफ	सुबेदार	पदम बहादुर थापा
782	जेसी	612286के	सुबेदार	प्रेम बहादुर घरती
5 गोरखा राइफल्स				
783	जेसी	612244एक्स	सुबेदार	रेशम बहादुर थापा
784	जेसी	612307पी	सुबेदार	ठाकुर प्रसाद गुरुंग
8 गोरखा राइफल्स				
785	जेसी	192732एच	सुबेदार मेजर	विक्रम बहादुर थापा
786	जेसी	212806डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	जग बहादुर गुरुंग
787	जेसी	196691एफ	सुबेदार मेजर	काजी मान गुरुंग
788	जेसी	88402एक्स	सुबेदार मेजर	राम नाथ अजियल
789	जेसी	617378ए	सुबेदार	गम बहादुर घले
790	जेसी	617448एन	सुबेदार	पदम बहादुर गुरुंग
791	जेसी	617289एफ	सुबेदार	फनी राज थापा
792	जेसी	617284एच	सुबेदार	रुद्रा बहादुर अले मगर
9 गोरखा राइफल्स				
793	जेसी	173284एम	सुबेदार मेजर	गोपाल देव थापा
794	जेसी	623026वाइ	सुबेदार मेजर	शेर बहादुर थापा
795	जेसी	623234एन	सुबेदार	अजित कुमार थापा
796	जेसी	623161एम	सुबेदार	दिल बहादुर थापा
797	जेसी	623107वाइ	सुबेदार	नीलकंठ प्रसाद थापा
798	जेसी	623123डब्ल्यू	सुबेदार	सूर्या कुमार गुरुंग
799	जेसी	623069एन	सुबेदार	याम बहादुर राणा
11 गोरखा राइफल्स				
800	जेसी	185896डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	ज्योती लाल छत्री
801	जेसी	211418एम	सुबेदार मेजर	लेख बहादुर छत्री
802	जेसी	629313वाइ	सुबेदार	अर्जुन मान सिंह बसनियत
803	जेसी	629301के	सुबेदार	भक्त बहादुर थापा
804	जेसी	629305ए	सुबेदार	देव बहादुर छत्री
805	जेसी	629333एन	सुबेदार	कृष्णा बहादुर छत्री
806	जेसी	629265के	सुबेदार	आर बहादुर छत्री, एस एम
11 गोरखा राइफल्स				
807	जेसी	192502पी	सुबेदार मेजर	बुध्दा शेरपा
808	जेसी	180921ए	सुबेदार मेजर	देव मनी राय ए एसएम
809	जेसी	185140डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	दिलीप राय
810	जेसी	180828वाइ	सुबेदार मेजर	गजेन्द्र सिंह
811	जेसी	634190एफ	सुबेदार	धन जीत राय

(आर टी)

812	जेसी	634052ए	सुबेदार	लाल बहादुर राय
813	जेसी	193032एफ	सुबेदार	नैन सिंह
814	जेसी	634014के	सुबेदार	प्रेम बहादुर खरका
815	जेसी	634081पी	सुबेदार	तिलोक सिंग लिम्बु, एस. एम
सेना सेवा कोर (दक्षिण)				
816	जेसी	660484एम	सुबेदार मेजर	दामोदर रेगमी
817	जेसी	640274एल	सुबेदार मेजर	दिलीप कुमार शील
818	जेसी	209017वाइ	सुबेदार मेजर	गंगाधरन कीजाना
819	जेसी	640091पी	सुबेदार मेजर	गंगाधरन नायर वी
820	जेसी	640116डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	घोरापाडे शिवाजी घाघु
821	जेसी	640096एन	सुबेदार मेजर	जी सेल्वनाथन
822	जेसी	206364एम	सुबेदार मेजर	जॉ फिलिप
823	जेसी	640032एच	सुबेदार मेजर	कुलदीप राम
824	जेसी	640085एफ	सुबेदार मेजर	लज्जा राम शर्मा
825	जेसी	660404के	सुबेदार मेजर	लियाकत अली खान
826	जेसी	660662के	सुबेदार मेजर	निवारन चंदा
827	जेसी	213537एफ	सुबेदार मेजर	परमार पी. लालाभाई
828	जेसी	660527डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	पूरन चंद
829	जेसी	640108एक्स	सुबेदार मेजर	राज सिंह
830	जेसी	213553वाइ	सुबेदार मेजर	रमा चन्द्रन पिल्लै के
831	जेसी	79983वाइ	सुबेदार मेजर	राम बाली यादव
832	जेसी	640573के	सुबेदार मेजर	राम कन्वर
833	जेसी	660432डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	राम स्नेही यादव
834	जेसी	660691वाइ	सुबेदार मेजर	सोजी राम
835	जेसी	660524एच	सुबेदार मेजर	एस राधाकृष्णन
836	जेसी	206363के	सुबेदार मेजर	सुखचैन सिंह
837	जेसी	661030एल	सुबेदार	अखिल कृष्णा विश्वास
838	जेसी	661684पी	सुबेदार	ए एस मुथु
839	जेसी	662086के	सुबेदार	आशा राम
840	जेसी	640515ए	सुबेदार	अशोके कुमार साहा
841	जेसी	661084एम	सुबेदार	बलबीर सिंह
842	जेसी	640707एक्स	सुबेदार	भद्रेश्वर अधिकारी
843	जेसी	661805एल	सुबेदार	दरबारा सिंह
844	जेसी	640929एम	सुबेदार	दिगेन्द्र सेकिआ
845	जेसी	661366एल	सुबेदार	जी सुब्रमण्यम चेट्टी
846	जेसी	661216पी	सुबेदार	गुलझरि लाल
847	जेसी	661320एच	सुबेदार	गुरबचन लाल
848	जेसी	661535एफ	सुबेदार	हरी प्रसाद
849	जेसी	661581डब्ल्यू	सुबेदार	हीरा लाल
850	जेसी	661233पी	सुबेदार	कर्म सिंह
851	जेसी	661860एफ	सुबेदार	लिबेन चंद्रा राय
852	जेसी	661544एच	सुबेदार	मदन लाल
853	जेसी	661257वाइ	सुबेदार	मन्नी लाल
854	जेसी	213645एल	सुबेदार	मनोज कुमार चौधरी
855	जेसी	662079एन	सुबेदार	मारुति घासते
856	जेसी	661866एच	सुबेदार	मौजी राम
857	जेसी	214707एम	सुबेदार	मेघा राम
858	जेसी	208971के	सुबेदार	मेहर सिंह
859	जेसी	661690एच	सुबेदार	एन भगवत रामलींग

(आर टी

860	जेसी	661214के	सुबेदार	प्रताप सिंह
861	जेसी	641161पी	सुबेदार	पाटिल अशोक किसान राव
862	जेसी	640870एक्स	सुबेदार	प्रेम सिंह चौहान
863	जेसी	641215एल	सुबेदार	पुरुषोत्तम लाल शर्मा
864	जेसी	661160एन	सुबेदार	राजेंद्र सिंह खाती
865	जेसी	662083डब्ल्यू	सुबेदार	रमेश सिंह
866	जेसी	661629वाइ	सुबेदार	राम स्वरूप गुर्जर
867	जेसी	640483एच	सुबेदार	रंगास्वामी एम
868	जेसी	661252ए	सुबेदार	सेवा राम खैरवा
869	जेसी	661873वाइ	सुबेदार	शिव नारायण सिंह
870	जेसी	661258एफ	सुबेदार	श्री कृष्ण
871	जेसी	661017एफ	सुबेदार	श्यामा चरन घोष
872	जेसी	662066डब्ल्यू	सुबेदार	उमेश चंद्रा नंदा

सेना सेवा कोर (जंतु परिवहन)

873	जेसी	680064एन	रिसालदार मेजर	राम नरेश
874	जेसी	680035वाइ	रिसालदार मेजर	तारा चंद
875	जेसी	680312वाइ	रिसालदार	जरसा सिंह
876	जेसी	680115डब्ल्यू	रिसालदार	कुमुद रंजन बाला
877	जेसी	680420एच	रिसालदार	मोहम्मद इजराइल
878	जेसी	680126एच	रिसालदार	सनत कुमार चौधुरी

सेना चिकित्सा कोर

879	जेसी	690479डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	अनन्त राम
880	जेसी	690837डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	बचन राम टी
881	जेसी	690673एल	सुबेदार मेजर	बी चरन बेहेरा
882	जेसी	690798एच	सुबेदार मेजर	डीउ बहादुर छत्री
883	जेसी	690654ए	सुबेदार मेजर	गोविंद सिंह
884	जेसी	690834एच	सुबेदार मेजर	हनुमान सिंह
885	जेसी	690831पी	सुबेदार मेजर	हर किशन सिंह
886	जेसी	690963एच	सुबेदार मेजर	हीर सिंह चौधरी
887	जेसी	690274एफ	सुबेदार मेजर	हिम्मत सिंह राणा
888	जेसी	690273वाइ	सुबेदार मेजर	खादे बाबन सोनियाबापु
889	जेसी	185424ए	सुबेदार मेजर	खिन्चा राम ढका
890	जेसी	691387डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	कुंदन सिंह अधिकारी
891	जेसी	690772एन	सुबेदार मेजर	लछमी चंद
892	जेसी	690962ए	सुबेदार मेजर	लाल सिंह
893	जेसी	690801एक्स	सुबेदार मेजर	मनोरंजन विश्वास
894	जेसी	690799एल	सुबेदार मेजर	मस्त राम
895	जेसी	690358पी	सुबेदार मेजर	मोहम्मद इकबाल खान
896	जेसी	691039पी	सुबेदार मेजर	नन्द लाल दास
897	जेसी	691402ए	सुबेदार मेजर	ओम प्रकाश
898	जेसी	690844एम	सुबेदार मेजर	रमेश चंद्रा
899	जेसी	690795पी	सुबेदार मेजर	रामजी प्रसाद
900	जेसी	89596एक्स	सुबेदार मेजर	राम कृपाल मिश्रा
901	जेसी	690964एल	सुबेदार मेजर	सरूप सिंह
902	जेसी	172443एम	सुबेदार मेजर	सुरेश कुमार
903	जेसी	692378एफ	सुबेदार	भंवार सिंह
904	जेसी	198362के	सुबेदार	चंद्रा मोहाना पी एम
905	जेसी	692708पी	सुबेदार	जाधव शिवाजी कृष्णा

(आर टी)

906	जेसी	691056पी	सुबेदार	मोहिन्दर पाल
907	जेसी	691059एच	सुबेदार	नारायण स्वरूप
908	जेसी	692133एल	सुबेदार	नथोन राम
909	जेसी	693085एच	सुबेदार	राम गोपाल
910	जेसी	692713ए	सुबेदार	शिव बहादुर
911	जेसी	691166के	सुबेदार	सुबाष चंद्रा राय
सेना आर्डनेस कोर				
912	जेसी	217502एच	सुबेदार मेजर	बलराम सिंह
913	जेसी	217432पी	सुबेदार मेजर	बिक्रम जीत
914	जेसी	212296ए	सुबेदार मेजर	गोकुल सिंह गौड
915	जेसी	212246पी	सुबेदार मेजर	गुरबचन सिंह सभेरवाल
916	जेसी	217714एन	सुबेदार मेजर	हचहन राजा चौधुरी
917	जेसी	223183एक्स	सुबेदार मेजर	हरीश चंद्रा
918	जेसी	225175एक्स	सुबेदार मेजर	लालता प्रसाद
919	जेसी	214130एक्स	सुबेदार मेजर	मोहिन्दर सिंह
920	जेसी	221666डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	मृणाल कांती नाथ
921	जेसी	217715डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	नेपाल सिंह
922	जेसी	722291एक्स	सुबेदार मेजर	पराग यादव
923	जेसी	217698एफ	सुबेदार मेजर	संकर दयाल
924	जेसी	213088एक्स	सुबेदार मेजर	एस बालारमन
925	जेसी	202444एम	सुबेदार मेजर	श्याम बिहारी तिवारी
926	जेसी	187602डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	श्याम देव
927	जेसी	213228वाइ	सुबेदार मेजर	उत्तम चंद
928	जेसी	217491एफ	सुबेदार मेजर	वांगखेराकपम कमल सिंह
929	जेसी	209990एफ	सुबेदार मेजर	यालेम एल
930	जेसी	723560एल	सुबेदार	अर्धी पापा राव
931	जेसी	722884के	सुबेदार	बाबू राम
932	जेसी	722935एम	सुबेदार	घना कांता केओट
933	जेसी	723670ए	सुबेदार	गोपाल कृष्णा पिलायन
934	जेसी	723878एच	सुबेदार	खुशाल सिंह
935	जेसी	724574एक्स	सुबेदार	लाला राम
936	जेसी	723675वाइ	सुबेदार	ओम नारायण
937	जेसी	722845एल	सुबेदार	रघुबीर सिंह
938	जेसी	723757एफ	सुबेदार	रघुबीर सिंह रावत
939	जेसी	225333एफ	सुबेदार	रामु सिंह
940	जेसी	724703एम	सुबेदार	रास पौल
941	जेसी	724807एन	सुबेदार	शिशु पाल सिंह
कोर आफ वैधुत एवं यांत्रिक इंजीनियर्स				
942	जेसी	189036ए	सुबेदार मेजर	ए जोवीन राजू
943	जेसी	189209एम	सुबेदार मेजर	अमर जीत सिंह
944	जेसी	222429वाइ	सुबेदार मेजर	अम्बिका प्रसाद
945	जेसी	224657ए	सुबेदार मेजर	बाबू लाल सिंह
946	जेसी	188818के	सुबेदार मेजर	बासावन्टप्पा कुंवर
947	जेसी	79947एन	सुबेदार मेजर	भागीरथ पाठक
948	जेसी	218777एच	सुबेदार मेजर	भोला राम
949	जेसी	747905ए	सुबेदार मेजर	बिजेंद्र सिंह रौथन
950	जेसी	188803एफ	सुबेदार मेजर	ब्रासव सिंह
951	जेसी	189031एफ	सुबेदार मेजर	चंद्र पाल
952	जेसी	188809एच	सुबेदार मेजर	चतुरी सिंह यादव
953	जेसी	181487एल	सुबेदार मेजर	धर्म पाल धड
954	जेसी	176037के	सुबेदार मेजर	द्वारका प्रसाद स्वामी
955	जेसी	189030वाइ	सुबेदार मेजर	गोपीनाथ वी
956	जेसी	218768एफ	सुबेदार मेजर	गुरदेव सिंह

(आर टी)

957	जेसी	747891एल	सुबेदार	मेजर	हरबंस लाल
958	जेसी	184172एम	सुबेदार	मेजर	हरबंस लाल
959	जेसी	217249एम	सुबेदार	मेजर	जय सिंह मन्हास
960	जेसी	189062एफ	सुबेदार	मेजर	जयवीर सिंह
961	जेसी	749268एन	सुबेदार	मेजर	कमलजीत शर्मा
962	जेसी	213744एन	सुबेदार	मेजर	कुमारेण चंद्रा मंडल
963	जेसी	181624वाइ	सुबेदार	मेजर	महादेव सिंह विष्ट
964	जेसी	224141एक्स	सुबेदार	मेजर	मेघ राज राय
965	जेसी	217275एन	सुबेदार	मेजर	मोहम्मद सलीम
966	जेसी	221935एक्स	सुबेदार	मेजर	प्रकाश चंद्रा
967	जेसी	189123एन	सुबेदार	मेजर	प्रकाश एन
968	जेसी	207195एच	सुबेदार	मेजर	राधाकृष्णन सी
969	जेसी	189377एल	सुबेदार	मेजर	राम भाज सिंह रथधिनिया
970	जेसी	214487एन	सुबेदार	मेजर	राम नारायण चौधरी
971	जेसी	224139ए	सुबेदार	मेजर	सागर राम
972	जेसी	189019ए	सुबेदार	मेजर	संत राम पान्डे
973	जेसी	181587डब्ल्यू	सुबेदार	मेजर	श्री प्रसाद भुजल
974	जेसी	189301एल	सुबेदार	मेजर	सोमदेव
975	जेसी	187855एल	सुबेदार	मेजर	सोरान सिंह
976	जेसी	188810एक्स	सुबेदार	मेजर	सुबाष चंद्रा बोस के
977	जेसी	188967एक्स	सुबेदार	मेजर	सुरेश तिवारी
978	जेसी	176080एल	सुबेदार	मेजर	विरेन्द्र कुमार
979	जेसी	188972एच	सुबेदार	मेजर	जिले सिंह
980	जेसी	751064ए	सुबेदार		अजया कुमार नायक
981	जेसी	753369वाइ	सुबेदार		ए सेकार
982	जेसी	747051एल	सुबेदार		अशोक कुमार सरकार
983	जेसी	748859एच	सुबेदार		बबुआ सिंह
984	जेसी	753367एन	सुबेदार		बलविन्दर सिंह
985	जेसी	752487ए	सुबेदार		देवेन्द्रा सुकदेव प्रसाद तिवारी
986	जेसी	751214एल	सुबेदार		दिनेश चंद्रा प्रोमानी
987	जेसी	751456एन	सुबेदार		गजा बहादुर छत्री
988	जेसी	747772पी	सुबेदार		ज्ञान सिंह
989	जेसी	753088एच	सुबेदार		कल्लू प्रसाद
990	जेसी	753425एम	सुबेदार		करतुरे प्रकाश
991	जेसी	751795एन	सुबेदार		मोहाना चरन सिंह
992	जेसी	750314के	सुबेदार		मोहनदास एम जी
993	जेसी	750193एन	सुबेदार		मुरारी लाल
994	जेसी	751073एफ	सुबेदार		नन्द किशोर
995	जेसी	749125एन	सुबेदार		नन्द कुमार डांगे
996	जेसी	752821डब्ल्यू	सुबेदार		एन बी
997	जेसी	753322एन	सुबेदार		ओम प्रकाश कुम्हार
998	जेसी	748367के	सुबेदार		पवित्रा कुमार खान
999	जेसी	748369पी	सुबेदार		प्रतिपाल सिंह
1000	जेसी	747052एन	सुबेदार		प्रेम बहादुर
1001	जेसी	748592वाइ	सुबेदार		राजेंद्र कुमार
1002	जेसी	750901पी	सुबेदार		राम इकबाल राम
1003	जेसी	749445एच	सुबेदार		रमेश कुमार
1004	जेसी	752507एच	सुबेदार		रामजोय सिंघा
1005	जेसी	752396डब्ल्यू	सुबेदार		राम नारायण केसरी
1006	जेसी	751460डब्ल्यू	सुबेदार		रोहानी रमन प्रताप बहादुर सिंह
1007	जेसी	748365वाइ	सुबेदार		रोशन लाल ठाकुर
1008	जेसी	749927एक्स	सुबेदार		सतपाल सैनी
1009	जेसी	749866एल	सुबेदार		एस खजावली

1010	जेसी	748850एन	सुबेदार	शिओजी बैठा
1011	जेसी	754832एफ	सुबेदार	शिव शंकर मिश्रा
1012	जेसी	753832पी	सुबेदार	श्री राम ओझा
1013	जेसी	749489ए	सुबेदार	श्री विथल आर मोथे
1014	जेसी	753255एन	सुबेदार	श्याम सिंह
1015	जेसी	749987एम	सुबेदार	सिंगाराम मनोहरन
1016	जेसी	752731पी	सुबेदार	सुब्रामाणिया करप्पा
1017	जेसी	750857डब्ल्यू	सुबेदार	सुमेर सिंह खेटर
1018	जेसी	752501एफ	सुबेदार	तेज सिंह
1019	जेसी	751721वाइ	सुबेदार	टी कौडला राव
1020	जेसी	750191एच	सुबेदार	विद्याधर सिंह
1021	जेसी	751720डब्ल्यू	सुबेदार	विजय बहादुर

सेना शिक्षा कोर

1022	जेसी	198457के	सुबेदार मेजर	बलबीर सिंह
1023	जेसी	802431एम	सुबेदार मेजर	बनवारी सिंह
1024	जेसी	203978के	सुबेदार मेजर	ब्रज किशोर सिंह
1025	जेसी	193363एच	सुबेदार मेजर	चेत राम
1026	जेसी	201643एन	सुबेदार मेजर	महेन्द्र सिंह
1027	जेसी	206130एच	सुबेदार मेजर	महेश चंद
1028	जेसी	206348पी	सुबेदार मेजर	मार्कण्डे पान्डे
1029	जेसी	206128एल	सुबेदार मेजर	ओम वीर सिंह काद्यान
1030	जेसी	198444एम	सुबेदार मेजर	प्रेम लाल वरमी
1031	जेसी	200574डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	राम एस मिश्रा
1032	जेसी	206344वाइ	सुबेदार मेजर	रणधीर सिंह
1033	जेसी	802541एफ	सुबेदार	बिकाश चंद्रा मोहंती
1034	जेसी	216199ए	सुबेदार	जोगिंदर सिंह
1035	जेसी	206798एम	सुबेदार	मोहिन्दर सिंह मेहरा

रिमाउंट एवं वेटेरिनरी कोर

1036	आरवी	7744एन	रिसालदार मेजर	तुषार कांती मंडल
1037	जेसी	797149पी	रिसालदार	भोपाल सिंह जंगीर
1038	जेसी	797144डब्ल्यू	रिसालदार	इसाक पी सी

जम् आसूचना कोर

1039	जेसी	186633के	सुबेदार मेजर	बलदेव सिंह
1040	जेसी	198164वाइ	सुबेदार मेजर	गुरपाल सिंह संधू
1041	जेसी	191209एल	सुबेदार मेजर	कचन सिंह
1042	जेसी	197804एल	सुबेदार मेजर	लखबीर सिंह रनधावा
1043	जेसी	186631वाइ	सुबेदार मेजर	मंगल सिंह
1044	जेसी	195886ए	सुबेदार मेजर	मोहिन्दर सिंह जामवाल
1045	जेसी	186612एन	सुबेदार मेजर	सूरम चंद
1046	जेसी	810005एन	सुबेदार	महेन्द्र सिंह राठौर

कोर आफ सेना पुलिस

1047	जेसी	214727ए	सुबेदार मेजर	बाबाटोन सिंघा
1048	जेसी	210122एफ	सुबेदार मेजर	बलदेव सिंह
1049	जेसी	214754के	सुबेदार मेजर	श्याम लाल गोरलाल
1050	जेसी	818225एम	सुबेदार	हुकुम सिंह बनिवाय
1051	जेसी	818300एल	सुबेदार	नूरुल इस्लाम
1052	जेसी	818291पी	सुबेदार	फानिधर गोगोई
1053	जेसी	818341पी	सुबेदार	पी टी पांडियन
1054	जेसी	818256एम	सुबेदार	वानकट प्रसाद

सेना शारिरिक प्रशिक्षण कोर

1055	जेसी	186813एम	सुबेदार मेजर	भगवान सिंह
1056	जेसी	826041एच	सुबेदार	चन्द्रन वी
जम् पायोनियर कोर				
1057	जेसी	186831पी	सुबेदार मेजर	प्रताप सिंह कुशवाह
सेना डाक सेवा				
1058	जेसी	834098एम	सुबेदार	इंदरा पाल
रक्षा सुरक्षा कोर				
1059	जेसी	840466एम	सुबेदार	भंवर सिंह
1060	जेसी	150823एल	सुबेदार	हरबंस लाल
1061	जेसी	840661के	सुबेदार	जय सिंह
1062	जेसी	840557डब्ल्यू	सुबेदार	कर्म सिंह
1063	जेसी	172456के	सुबेदार	एन बालासुब्रह्मनयन
1064	जेसी	840173एफ	सुबेदार	रघबीर सिंह
1065	जेसी	217594ए	सुबेदार	राज मनी
1066	जेसी	211840के	सुबेदार	राम कुंवर
प्रादेशिक सेना				
1067	टिजे	3283एक्स	सुबेदार मेजर	कर्म सिंह
1068	टिजे	4296	सुबेदार	अलवेल सिंह
1069	टिजे	3135	सुबेदार	हरबंस लाल
1070	टिजे	3467डब्ल्यू	सुबेदार	लक्ष्मन सिंह
1071	टिजे	3468वाइ	सुबेदार	मदन सिंह
1072	टिजे	3022	सुबेदार	मान सिंह
1073	टिजे	3201के	सुबेदार	एम आइ कृष्णन
1074	टिजे	3140एक्स	सुबेदार	नागप्पा भुसी
1075	टिजे	3202	सुबेदार	राम चंद्र
1076	टिजे	3064	सुबेदार	शेख बाबा साहेब वाली साहेब
1077	टिजे	3028	सुबेदार	सूर्यवंशी सुरेश माधव राव
1078	टिजे	3627एल	सुबेदार	टी के विजयन
1079	टिजे	3380पी	सुबेदार	उमेद सिंह
1080	टिजे	3049	सुबेदार	विनोद कुमार सिंह
1081	टिजे	3387एन	सुबेदार	विष्णु नाथू कदभाने

[सं० बी/43432/आरडी-05/एजी/सीडब्ल्यू-2]

मोहिन्दर सिंह, लै. जनरल, एडजुटेंट जनरल

MINISTRY OF DEFENCE

(Army Branch)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th January, 2005

No. 01(E) dated 26 January, 2005.—The President is pleased to grant honorary commission on the eve of Republic Day 2005, to the undermentioned Hony. Lt. JCOs on active list under para 177 of Regulations for the Army 1987, with effect from 26 January, 2005 :—

TO BE HONORARY CAPTAINS**4 HORSE**

1 JC 235762W RIS MAJ & HONY LT KRISHAN CHAND PRASHAR

63 CAVALRY

2 JC 235560P RIS MAJ & HONY LT GURDAS SINGH

65 ARMOURED REGIMENT

3 JC 239315K RIS & HONY LT RAMESH CHAND

71 ARMOURED REGIMENT

4 JC 236406H RIS MAJ & HONY LT PANGA MAHESWARA RAO

81 ARMOURED REGIMENT

5 JC 235945M RIS MAJ & HONY LT SUNIT SINGH

82 ARMOURED REGIMENT

6 JC 206583N RIS MAJ & HONY LT UMRAO SINGH SANGWAN

7 JC 237168N RIS & HONY LT HARI SINGH RAJAWAT

REGIMENT OF ARTILLERY

8 JC 211868K SUB MAJ & HONY LT BALDEV SINGH

9 JC 185607W SUB MAJ & HONY LT BAM DEV

10 JC 174140W SUB MAJ & HONY LT BHANWAR SINGH

11 JC 200365Y SUB MAJ & HONY LT DALIP SINGH

12 JC 198797M SUB MAJ & HONY LT DIL BAHADUR THAPA

13 JC 255151H SUB MAJ & HONY LT JAGAT NARAIN OJHA

14 JC 195075P SUB MAJ & HONY LT JAGDISH CHAND

15 JC 200332N SUB MAJ & HONY LT JAI PARKASH

16 JC 199098N SUB MAJ & HONY LT JOGA SINGH

17 JC 193441P SUB MAJ & HONY LT MALKHAN SINGH

18 JC 198787H SUB MAJ & HONY LT MOHAN CHANDRA BORA

19 JC 215465F SUB MAJ & HONY LT NAND LAL

20 JC 177682L SUB MAJ & HONY LT PATI RAM SINGH YADAV

21 JC 225491W SUB MAJ & HONY LT RAMA CHANDRAN V P

22 JC 78719Y SUB MAJ & HONY LT RAMESHWAR PRASAD TIWARI (RT)

23 JC 182073L SUB MAJ & HONY LT RAM SINGH

24 JC 213395P SUB MAJ & HONY LT SREE VALSALAN K

25 JC 203487N SUB MAJ & HONY LT TILOKA RAM CHOUDHARY

26 JC 214405A SUB MAJ & HONY LT UMED SINGH

27 JC 220068M SUB & HONY LT BHABANANDA TALURDAR

28 JC 199088K SUB & HONY LT SHRI KRISHAN

29 JC 213381P SUB & HONY LT YOHANNAN T K

CORPS OF AIR DEFENCE ARTILLERY

30 JC 164356K SUB MAJ & HONY LT A A LIMBAJI

31 JC 144302F SUB MAJ & HONY LT DES RAJ GULERIA

32	JC	200388A	SUB MAJ & HONY LT	JARNAIL SINGH
33	JC	179221A	SUB MAJ & HONY LT	SOHAN LAL
34	JC	150361K	SUB MAJ & HONY LT	SUBE SINGH YADAV

MADRAS ENGINEER GROUP

35	JC	224791L	SUB MAJ & HONY LT	BATHULA JOSEPH
36	JC	177421X	SUB MAJ & HONY LT	CHENRAYAN, SM
37	JC	184842H	SUB MAJ & HONY LT	KOCHA SUBAIR KUTTY, SM
38	JC	182644Y	SUB MAJ & HONY LT	LOGANATHAN G
39	JC	207467X	SUB MAJ & HONY LT	RAJAN P
40	JC	306039F	SUB & HONY LT	EASWARAN N
41	JC	305104K	SUB & HONY LT	RAJAN P
42	JC	306023W	SUB & HONY LT	RONANKI PRASADA RAO
43	JC	305240A	SUB & HONY LT	R SEKARAN
44	JC	197001Y	SUB & HONY LT	SANTHARAJ
45	JC	306015X	SUB & HONY LT	V KUPPAN

BENGAL ENGINEER GROUP

46	JC	191417A	SUB MAJ & HONY LT	CHANDER BIR THAPA
47	JC	197158Y	SUB MAJ & HONY LT	DALVIR SINGH
48	JC	191433X	SUB MAJ & HONY LT	JAGDISH PRASAD
49	JC	197184A	SUB MAJ & HONY LT	PARAMJIT SHARMA
50	JC	197141L	SUB MAJ & HONY LT	PARDEEP KUMAR
51	JC	184760A	SUB MAJ & HONY LT	RAGHBIR SINGH
52	JC	197157W	SUB MAJ & HONY LT	SURENDER SINGH
53	JC	325616X	SUB MAJ & HONY LT	SURJEET SINGH
54	JC	197111N	SUB MAJ & HONY LT	TUSHAR KANTI MAZUMDAR
55	JC	326637A	SUB & HONY LT	RAMADHAR SINGH

BOMBAY ENGINEER GROUP

56	JC	197313P	SUB MAJ & HONY LT	BALBIR SINGH
57	JC	197282A	SUB MAJ & HONY LT	DILBAG SINGH
58	JC	197315A	SUB MAJ & HONY LT	GURTEJ SINGH
59	JC	78181H	SUB MAJ & HONY LT	SURESH CHANDRA SHARMA
60	JC	347794A	SUB & HONY LT	BHERE NARAYAN UMAJI
61	JC	348074L	SUB & HONY LT	JOGINDER PAUL SINGH
62	JC	347789P	SUB & HONY LT	MANE PRAKASH BHURAO
63	JC	348135X	SUB & HONY LT	SURINDER SINGH

CORPS OF SIGNALS

64	JC	367152M	SUB MAJ & HONY LT	ASHOK KUMAR
65	JC	197660N	SUB MAJ & HONY LT	AVTAR SINGH
66	JC	367220P	SUB MAJ & HONY LT	C CHACKO PANICKER
67	JC	367577L	SUB MAJ & HONY LT	FEKAN MAHTO
68	JC	367146Y	SUB MAJ & HONY LT	KHIMA RAM CHOUDHARY
69	JC	188232N	SUB MAJ & HONY LT	MAHINDER SINGH
70	JC	180934X	SUB MAJ & HONY LT	MANBIR SINGH
71	JC	192092K	SUB MAJ & HONY LT	RAMASHISH PRASAD SHARMA
72	JC	367598F	SUB MAJ & HONY LT	SANSAR CHAND

(RT)

73	JC	372557F	SUB & HONY LT	BALMUKUND SINGH
74	JC	371445P	SUB & HONY LT	GUMAN SINGH
75	JC	371131N	SUB & HONY LT	SOM DEV

THE BRIGADE OF GUARDS

76	JC	180659H	SUB MAJ & HONY LT	BISHAN DASS
77	JC	196360A	SUB MAJ & HONY LT	CHANDRA PAL SINGH
78	JC	181724K	SUB MAJ & HONY LT	DAN BAHADUR KHADKA
79	JC	192350Y	SUB MAJ & HONY LT	JAGBIR SINGH
80	JC	169113H	SUB MAJ & HONY LT	SULTAN SINGH
81	JC	163999P	SUB MAJ & HONY LT	THOMAS K M
82	JC	402582X	SUB & HONY LT	SAJJAN SINGH YADAV

THE PARACHUTE REGIMENT

83	JC	183427P	SUB MAJ & HONY LT	DHARAM SINGH
84	KC	178963N	SUB MAJ & HONY LT	FATEH SINGH
85	JC	183586M	SUB MAJ & HONY LT	KARM SINGH
86	JC	177762H	SUB MAJ & HONY LT	SAYAR SINGH
87	JC	412208H	SUB & HONY LT	JABAR SINGH, SM
88	JC	412378M	SUB & HONY LT	LAKSHMAN SINGH

THE MECHANISED INFANTRY REGIMENT

89	JC	200835Y	SUB MAJ & HONY LT	GOPALA KRISHNAN NAIR K
90	JC	211615P	SUB MAJ & HONY LT	KIRORI LAL
91	JC	206611P	SUB MAJ & HONY LT	RAVINDAR SINGH
92	JC	189700P	SUB MAJ & HONY LT	SURENDRA SINGH SHEKHAWAT

THE PUNJAB REGIMENT

93	JC	194522F	SUB MAJ & HONY LT	MOHINDER SINGH
94	JC	192883F	SUB MAJ & HONY LT	PARKASH CHAND
95	JC	218411L	SUB MAJ & HONY LT	RAGHUNATH SINGH PATHANIA
96	JC	203964K	SUB MAJ & HONY LT	SAHIB SINGH
97	JC	203960N	SUB & HONY LT	DARSHAN LAL
98	JC	212820H	SUB & HONY LT	DARSHAN SINGH
99	JC	428709M	SUB & HONY LT	SURJIT SINGH, SM

THE MADRAS REGIMENT

100	JC	177926N	SUB MAJ & HONY LT	A MOUNA GURUSAMY
101	JC	167146P	SUB MAJ & HONY LT	B EBRAHAM
102	JC	177925L	SUB MAJ & HONY LT	MAYAKKOTTU CHARUVILAYIL VASURAJAN
103	JC	162261L	SUB MAJ & HONY LT	RAVINDRAN KOTTANTHARAM MAL

THE GRENADIERS

104	JC	448328M	SUB MAJ & HONY LT	BAJRANG LAL JAT
105	JC	185487H	SUB MAJ & HONY LT	KUNDAN LAL
106	JC	196408H	SUB MAJ & HONY LT	PHOOL CHAND MEENA, SM
107	JC	212527L	SUB MAJ & HONY LT	REWAIL SINGH

108	JC	152408H	SUB MAJ & HONY LT	REWAT SINGH SISODIYA
109	JC	448449N	SUB & HONY LT	KHAN MOHAMAD

THE MARATHA LIGHT INFANTRY

110	JC	172609H	SUB MAJ & HONY LT	DATTU GALANDE BABU
111	JC	159151L	SUB MAJ & HONY LT	MORE PRADEEP HANAMANTRAO
112	JC	162281Y	SUB MAJ & HONY LT	PAWAR ARJUN NARAYAN
113	JC	175357M	SUB MAJ & HONY LT	UTTAM MARUTI JAGTAP

THE RAJPUTANA RIFLES

114	JC	201873F	SUB MAJ & HONY LT	AMAR SINGH
115	JC	173000X	SUB MAJ & HONY LT	HARI SINGH
116	JC	171885Y	SUB MAJ & HONY LT	KAN SINGH
117	JC	182977L	SUB MAJ & HONY LT	OM PARKASH
118	JC	159162X	SUB MAJ & HONY LT	PREM SINGH RATHORE
119	JC	158372L	SUB MAJ & HONY LT	PRITHAWI SINGH TANWAR
120	JC	156388X	SUB MAJ & HONY LT	RAM KARAN SINGH
121	JC	205880P	SUB MAJ & HONY LT	RAM KUMAR SINGH LAMBA
122	JC	468495K	SUB & HONY LT	DEV RAJ SINGH
123	JC	468339A	SUB & HONY LT	DRIGPAL SINGH

THE RAJPUT REGIMENT

124	JC	478042M	SUB MAJ & HONY LT	LAL CHAND
125	JC	188472L	SUB MAJ & HONY LT	NAWAL RAM
126	JC	193718H	SUB & HONY LT	JAI PRAKASH SINGH
127	JC	478397X	SUB & HONY LT	SATYAPAL SINGH

THE JAT REGIMENT

128	JC	178262X	SUB MAJ & HONY LT	SOBRAN SINGH KHIRWAR
129	JC	488423F	SUB & HONY LT	LAXMAN SINGH, SM

THE SIKH REGIMENT

130	JC	168886W	SUB MAJ & HONY LT	AMARJIT SINGH
131	JC	201957P	SUB MAJ & HONY LT	AMRIK SINGH
132	JC	183011X	SUB MAJ & HONY LT	GURMIT SINGH
133	JC	181840M	SUB MAJ & HONY LT	GURMIT SINGH
134	JC	192424H	SUB MAJ & HONY LT	GURMIT SINGH, SM
135	JC	177992W	SUB MAJ & HONY LT	JAGDISH SINGH
136	JC	180876Y	SUB MAJ & HONY LT	SARBAN SINGH
137	JC	204293X	SUB MAJ & HONY LT	SURJIT SINGH

THE SIKH LIGHT INFANTRY

138	JC	196865W	SUB MAJ & HONY LT	GURMAIL SINGH
139	JC	204110W	SUB MAJ & HONY LT	TEJA SINGH CHOUHAN, SM

THE DOGRA REGIMENT

140	JC	518225N	SUB MAJ & HONY LT	CHAIN SINGH
141	JC	518402H	SUB MAJ & HONY LT	HALKA RAM, SC, SM
142	JC	518037M	SUB MAJ & HONY LT	RANJIT SINGH

143	JC	518168X	SUB MAJ & HONY LT	SHAKTI CHAND
144	JC	518146Y	SUB MAJ & HONY LT	SURENDER SINGH
145	JC	519243H	SUB & HONY LT	SAMPURAN SINGH

THE GARHWAL RIFLES

146	JC	178992H	SUB MAJ & HONY LT	JASBIR SINGH
147	JC	192645P	SUB MAJ & HONY LT	SACHIDA NAND THAPLIYAL
148	JC	528621X	SUB & HONY LT	MADAN SINGH
149	JC	528870W	SUB & HONY LT	RAMESH CHANDRA

THE KUMAON REGIMENT

150	JC	196562F	SUB MAJ & HONY LT	BIKRAM SINGH
151	JC	178036A	SUB MAJ & HONY LT	CHANDRA SINGH BATHYAL
152	JC	201104X	SUB MAJ & HONY LT	MOHAN SINGH MEHTA
153	JC	204325P	SUB MAJ & HONY LT	NANDA BALLABH JOSHI
154	JC	184417X	SUB MAJ & HONY LT	NARAIN SINGH SHAHI
155	JC	538586N	SUB & HONY LT	ABHEY SINGH YADAV
156	JC	538128X	SUB & HONY LT	FAKIR SINGH
157	JC	212670X	SUB & HONY LT	HARASH SINGH, SM

THE ASSAM REGIMENT

158	JC	185829L	SUB MAJ & HONY LT	BIREN CHANDRA BHUYAN
159	JC	216911K	SUB MAJ & HONY LT	JAMINI RAM SINHA
160	JC	185841M	SUB MAJ & HONY LT	KANAK CHANDRA BORO
161	JC	173919A	SUB MAJ & HONY LT	RAJENDRA PRASAD GURUNG

THE BIHAR REGIMENT

162	JC	183082Y	SUB MAJ & HONY LT	ALBINUS XAXA
163	JC	218348F	SUB MAJ & HONY LT	JAMUNA PRASAD SINGH
164	JC	175407M	SUB MAJ & HONY LT	MATHIAS KACHHAP
165	JC	204348W	SUB MAJ & HONY LT	VINSENT MINJ
166	JC	216644N	SUB MAJ & HONY LT	VISHNU DAYAL SINGH

THE MAHAR REGIMENT

167	JC	179461X	SUB MAJ & HONY LT	DULUP RAM
168	JC	220258Y	SUB MAJ & HONY LT	PARSWANATH BAIDYA
169	JC	568161K	SUB & HONY LT	BALDEV SINGH
170	JC	568591N	SUB & HONY LT	BRAJ MOHAN PRASAD SINGH

THE JAMMU AND KASHMIR RIFLES

171	JC	220281M	SUB MAJ & HONY LT	GURCHARAN SINGH
172	JC	169447X	SUB MAJ & HONY LT	PREM SINGH
173	JC	578121W	SUB MAJ & HONY LT	RAMESH CHAND
174	JC	157911K	SUB MAJ & HONY LT	RASHPAL SINGH
175	JC	183105P	SUB MAJ & HONY LT	THAKAR SINGH
176	JC	578680A	SUB & HONY LT	MAGHIR CHAND

THE LADAKH SCOUTS

177	JC	588144L	SUB & HONY LT	CHHERING ANGCHOK, SM
-----	----	---------	---------------	----------------------

THE NAGA REGIMENT

178 JC 201100F SUB MAJ & HONY LT NANDAN KUMAR PUNETHA

THE JAMMU AND KASHMIR LIGHT INFANTRY

179 JC 183140X SUB MAJ & HONY LT ABDUL BALAM
 180 JC 592082N SUB MAJ & HONY LT BODH RAJ
 181 JC 183137X SUB MAJ & HONY LT JIA LAL
 182 JC 172649K SUB MAJ & HONY LT SAT PAL
 183 JC 592037F SUB & HONY LT GURDEV SINGH
 184 JC 224307N SUB MAJ & HONY LT JAGDISH CHAND SHARMA
 185 JC 212776K SUB MAJ & HONY LT SAT PAL

1 GORKHA RIFLES

186 JC 196625Y SUB MAJ & HONY LT RAIL BAHADUR GURUNG
 187 JC 602268N SUB & HONY LT TEK BAHADUR THAPA

3 GORKHA RIFLES

188 JC 194740A SUB MAJ & HONY LT SUNDAR KUMAR RAI

4 GORKHA RIFLES

189 JC 181919P SUB MAJ & HONY LT JIVAN KUMAR DEWAN

5 GORKHA RIFLES

190 JC 617422Y SUB & HONY LT CHANDRA BAHADUR BHUJEL
 191 JC 617078Y SUB & HONY LT ISWAR BAHADUR GURUNG

8 GORKHA RIFLES

192 JC 201212F SUB MAJ & HONY LT BHIM BAHADUR THAPA
 193 JC 185577K SUB MAJ & HONY LT RAM KAJI GURUNG
 194 JC 192506L SUB MAJ & HONY LT TEJ BAHADUR GURUNG

9 GORKHA RIFLES

195 JC 629253P SUB & HONY LT TARAK BAHADUR K C
 196 JC 629175H SUB & HONY LT TOK BAHADUR K C

11 GORKHA RIFLES

197 JC 183172A SUB MAJ & HONY LT NARENDRA RAI

ARMY SERVICE CORPS(SOUTH)

198 JC 640417A SUB MAJ & HONY LT BIJENDER SINGH POSWAL
 199 JC 208970F SUB MAJ & HONY LT CHANDRA SHEKHAR SINGH
 200 JC 207155F SUB MAJ & HONY LT KULWANT SINGH
 201 JC 660441X SUB MAJ & HONY LT POTHUREDDY RAGHAVA REDDY
 202 JC 640035W SUB MAJ & HONY LT RAMESH CHAND
 203 JC 660470M SUB MAJ & HONY LT RAMESH CHAND GULERIA

204	JC	660468P	SUB MAJ & HONY LT	VELAYUDHAN PURUSHOTHAMAN	
205	JC	131784H	SUB & HONY LT	DHARAM DEO RAM	(RT)
206	JC	661090A	SUB & HONY LT	KARAM CHAND	
207	JC	661457P	SUB & HONY LT	OMPAL SINGH	
208	JC	165614L	SUB & HONY LT	PANNA LAL PATHAK	(RT)
209	JC	165613H	SUB & HONY LT	RAM MOHAN	(RT)
210	JC	661798A	SUB & HONY LT	SURENDRA PRASAD	
211	JC	661670P	SUB & HONY LT	UDAYA CHANDRAN P	
212	JC	661247P	SUB & HONY LT	UMMED SINGH DANGE	

ARMY SERVICE CORPS(ANIMAL TRANSPORT)

213 JC 680038M RIS MAJ & HONY LT LAXMI NARAYAN

ARMY MEDICAL CORPS

214	JC	690667X	SUB MAJ & HONY LT	DEV SINGH	
215	JC	690965N	SUB MAJ & HONY LT	GOPAL SINGH	
216	JC	690777M	SUB MAJ & HONY LT	MANIR MANSURI	
217	JC	690362X	SUB MAJ & HONY LT	MANSHA RAM	
218	JC	212161Y	SUB MAJ & HONY LT	PRABHU DAYAL SINGH	
219	JC	690167A	SUB MAJ & HONY LT	RAM DEEN	
220	JC	690661W	SUB MAJ & HONY LT	SURESH DUTT SHARMA	
221	JC	693081M	SUB & HONY LT	JAGDISH SINGH	

ARMY ORDNANCE CORPS

222	JC	221600A	SUB MAJ & HONY LT	CHACKO K M	
223	JC	213077L	SUB MAJ & HONY LT	HANS RAJ	
224	JC	217373N	SUB MAJ & HONY LT	KARTAR CHAND RANA	
225	JC	212438M	SUB MAJ & HONY LT	LALIU SINGH RATHORE	
226	JC	213191H	SUB MAJ & HONY LT	MOHINDER SINGH VERMA	
227	JC	187028H	SUB MAJ & HONY LT	UMA SHANKER	
228	JC	723674W	SUB & HONY LT	HET RAM VERMA	
229	JC	724430P	SUB & HONY LT	SURINDER PAL SINGH	

CORPS OF ELECTRICAL AND MECHANICAL ENGINEERS

230	JC	189029K	SUB MAJ & HONY LT	DAFEDAR SHARMA	
231	JC	182400L	SUB MAJ & HONY LT	DEOSARAN SINGH	
232	JC	176072M	SUB MAJ & HONY LT	HARBANS SINGH	
233	JC	78619N	SUB MAJ & HONY LT	HET RAM SHARMA	(RT)
234	JC	188825A	SUB MAJ & HONY LT	INDER SINGH	
235	JC	181512Y	SUB MAJ & HONY LT	KASHINATH GHOSH	
236	JC	747778W	SUB MAJ & HONY LT	KIRPA RAM LAMBA	
237	JC	181555N	SUB MAJ & HONY LT	KIZHAKKETHILAYATHY GOPALAN SOMARAJAN NAIR	
238	JC	189303W	SUB MAJ & HONY LT	MALKIT SINGH	
239	JC	222022H	SUB MAJ & HONY LT	MANI RAM SINGH DUDI	
240	JC	747963K	SUB MAJ & HONY LT	PANNA SINGH	
241	JC	176071K	SUB MAJ & HONY LT	SHAMSHER SINGH	
242	JC	176087P	SUB MAJ & HONY LT	TEK BAHADUR RANA	

243	JC	181552A	SUB MAJ & HONY LT	TILARAM BAGARY
244	JC	181629X	SUB MAJ & HONY LT	VIRENDER SINGH
245	JC	750533L	SUB & HONY LT	BHANWAR SINGH BHATI
246	JC	748582P	SUB & HONY LT	LAKSHMAN SINGH BHANDARI
247	JC	752603X	SUB & HONY LT	MAHESH PAL
248	JC	748811P	SUB & HONY LT	MUNIB PRASAD GUPTA
249	JC	189372M	SUB & HONY LT	RAMASHANKAR SINGH
250	JC	751797Y	SUB & HONY LT	SHEOPUJAN SINGH
251	JC	749065K	SUB & HONY LT	SHYAMAL KUMAR BANERJEE

ARMY EDUCATION CORPS

252	JC	206345F	SUB MAJ & HONY LT	KHEM RAJ BAKSHI
253	JC	193333L	SUB MAJ & HONY LT	TRILOK SINGH RAWAT
254	JC	223001Y	SUB & HONY LT	VIRENDRA SINGH

REMOUNT AND VETERINARY CORPS

255	RV	7689H	RIS MAJ & HONY LT	HAYAT SINGH
-----	----	-------	-------------------	-------------

THE INTELLIGENCE CORPS

256	JC	195888L	SUB MAJ & HONY LT	JOGINDER LAL SHARMA
257	JC	195887H	SUB MAJ & HONY LT	KEWAL KRISHAN
258	JC	197797A	SUB MAJ & HONY LT	M LAKSHMANAN

CORPS OF MILITARY POLICE

259	JC	214569W	SUB MAJ & HONY LT	JAGADISH CHANDRA DEB
260	JC	214544K	SUB MAJ & HONY LT	RAM PUKAR PRASAD

ARMY PHYSICAL TRAINING CORPS

261	JC	826046F	SUB & HONY LT	CHELLA DURAI
-----	----	---------	---------------	--------------

DEFENCE SECURITY CORPS

262	JC	163739K	SUB MAJ & HONY LT	GURCHARAN SINGH
263	JC	168972F	SUB MAJ & HONY LT	PARSHOTAM LAL
264	JC	147643X	SUB MAJ & HONY LT	PERIANNAN MAHALINGAM
265	JC	840645M	SUB & HONY LT	BANWARI LAL

TERRITORIAL ARMY

266	TJ	2986M	SUB MAJ & HONY LT	JITENDRA SINGH PUNDHIR
267	TJ	3179K	SUB & HONY LT	GANGARAM THAKRE
268	TJ	3175	SUB & HONY LT	KALWALE PANDURANG
269	TJ	3212W	SUB & HONY LT	N BALAN
270	TJ	3506	SUB & HONY LT	NIVRUTI NARAYAN MORE
271	TJ	3514	SUB & HONY LT	PAULAL GANGTE
272	TJ	3316	SUB & HONY LT	RANJEET SINGH
273	TJ	2771	SUB & HONY LT	TILAK RAJ

TO BE HONORARY LIEUTENANTS**2 LANCERS**

1	JC	235954N	RIS MAJ	BAL RAM SINGH
---	----	---------	---------	---------------

<u>17 HORSE</u>		
2	JC 237225K	RIS
<u>18 CAVALRY</u>		RAM PRAKASH SINGH
3	JC 236259L	RIS MAJ
<u>4 HORSE</u>		JAI SINGH RATHORE
4	JC 239151Y	RIS
<u>CENTRAL INDIA HORSE</u>		INDER SINGH
5	JC 235831F	RIS MAJ
<u>63 CAVALRY</u>		DHNUSHADAMAN TRIPATHI
6	JC 222977W	RIS MAJ
7	JC 195426Y	RIS MAJ
<u>45 CAVALRY</u>		AJAIB SINGH RAMESH SINGH
8	JC 829131P	RIS
<u>65 ARMoured REGIMENT</u>		MOTI LAL
9	JC 239080H	RIS
10	JC 239352X	RIS
11	JC 236853M	RIS
12	JC 237084A	RIS
<u>68 ARMoured REGIMENT</u>		JAI SINGH KHANGAROT RAMJANAM SINGH SHIRI PAL UDAI SINGH
13	JC 235644H	RIS MAJ
<u>73 ARMoured REGIMENT</u>		CHATUR SINGH
14	JC 237646M	RIS
<u>74 ARMoured REGIMENT</u>		OM PARKASH
15	JC 238948L	RIS
<u>76 ARMoured REGIMENT</u>		BALBIR SINGH
16	JC 236383M	RIS MAJ
<u>83 ARMoured REGIMENT</u>		SHER SINGH RAWAT
17	JC 151956N	RIS MAJ
<u>85 ARMoured REGIMENT</u>		LALMAN
18	JC 239250F	RIS
<u>90 ARMoured REGIMENT</u>		DES RAJ
19	JC 235863K	RIS MAJ
<u>43 ARMoured REGIMENT</u>		DARBARI LAL
20	JC 237065P	RIS
		SANSAR CHAND SANDHU

6 ARMoured REGIMENT

21 JC 236384P RIS

BHOOP SINGH YADAV

22 JC 236524W RIS

RANJIT SINGH RAPIAL

19 ARMoured REGIMENT

23 JC 211546K RIS MAJ

NALLATHAMBI MUTHUSAMY

50 ARMoured REGIMENT

24 JC 236032X RIS MAJ

TARSEM SINGH

25 JC 237457H RIS

NARINDER PAL SINGH

53 ARMoured REGIMENT

26 JC 236152W RIS MAJ

NAVINDER KUMAR

ARMoured CORPS

27 JC 72916F RIS MAJ

DEVI NARAYAN SHARMA (RT)

28 JC 222942A RIS MAJ

JYOTI PARKASH BHADWAL

29 JC 203285M RIS MAJ

MANSHA RAM

30 JC 78617H RIS MAJ

NIL MANI JHA (RT)

31 JC 78616A RIS MAJ

RAM CHARAN SHUKLA (RT)

32 JC 204586H RIS MAJ

ROSHAN RANA

33 JC 78266Y RIS MAJ

TIRLOK CHAND SHARMA (RT)

REGIMENT OF ARTILLERY

34 JC 81623F SUB MAJ

AMAR NATH (RT)

35 JC 193412A SUB MAJ

BAHADUR SINGH

36 JC 203880W SUB MAJ

BASDEO DUBEY

37 JC 218690F SUB MAJ

BHAGIRATH

38 JC 195293N SUB MAJ

BHAGWAN SINGH

39 JC 211854K SUB MAJ

BHANUDAS NATHU LOKHANDE

40 JC 182065M SUB MAJ

BIJOLA RAM

41 JC 186723L SUB MAJ

BISHAN PAL SIROHI

42 JC 185935K SUB MAJ

DAYA KRISHAN MANHAS

43 JC 213402A SUB MAJ

DHARAM CHAND

44 JC 197936Y SUB MAJ

G SHANMUGAVEL

45 JC 200152L SUB MAJ

GULAB CHANDRA VERMA

46 JC 226428N SUB MAJ

GURCHARAN SINGH

47 JC 199044M SUB MAJ

HARBANS SINGH

48 JC 203927W SUB MAJ

HARISHCHANDRA RAI

49 JC 190726W SUB MAJ

HOSHIAR SINGH JUMWAL

50 JC 182109Y SUB MAJ

JASPAL SINGH

51 JC 200247L SUB MAJ

JOGINDER SINGH

52 JC 223273Y SUB MAJ

KAILASH CHANDRA ROY

53 JC 90961A SUB MAJ

KALWANT SINGH (RT)

54 JC 223312M SUB MAJ

KARAN SINGH

55 JC 177687K SUB MAJ

KARAN SINGH

56 JC 203489Y SUB MAJ

KEHAR SINGH

57	JC	185928N	SUB MAJ	K SUBRAMANIAM	
58	JC	255176P	SUB MAJ	LOK PRASAD GURUNG	
59	JC	79227M	SUB MAJ	MALAGER SINGH	(RT)
60	JC	203504H	SUB MAJ	MATA DIN	
61	JC	195133N	SUB MAJ	M SRIDHARAN	
62	JC	190554M	SUB MAJ	MUKHTAR SINGH	
63	JC	226723W	SUB MAJ	NANA DASHARATH PATIL	
64	JC	200442H	SUB MAJ	NANDANAPU JOHN SAHEB	
65	JC	210068Y	SUB MAJ	NIRMAL SINGH	
66	JC	221548H	SUB MAJ	PADMANABHAN THAIVALAPPIL	
67	JC	193489H	SUB MAJ	RAJ KUMAR SONI	
68	JC	210049N	SUB MAJ	RAMARAJ A R	
69	JC	185596P	SUB MAJ	RAM BAHADUR SINGH	
70	JC	206181W	SUB MAJ	RAMESHWAR DAYAL	
71	JC	202391Y	SUB MAJ	RAM LAKHAN SINGH YADAV	
72	JC	200424A	SUB MAJ	RAM PHAL SINGH YADAV	
73	JC	210047H	SUB MAJ	RAM PRAHLAD SINGH	
74	JC	206161H	SUB MAJ	RAM SINGH	
75	JC	193111W	SUB MAJ	SHAHAGADKAR DAMODHAR	
76	JC	223578Y	SUB MAJ	SHANTI DHAR	
77	JC	255380N	SUB MAJ	SHIV PRASAD GURUNG	
78	JC	88389Y	SUB MAJ	SHIV VIJAY	(RT)
79	JC	193583M	SUB MAJ	SHRI BHAGWAN	
80	JC	193493L	SUB MAJ	S JOTHI RAJ	
81	JC	223288F	SUB MAJ	SURENDRA NATH PANDEY	
82	JC	213401X	SUB MAJ	THANU RAM	
83	JC	197446L	SUB MAJ	TOK BAHADUR GURUNG	
84	JC	190557A	SUB MAJ	UDHAM SINGH	
85	JC	190547W	SUB MAJ	VED PARKASH	
86	JC	142718A	SUB	ATAMA RAM	(RT)
87	JC	261673P	SUB	BABU B	
88	JC	260174N	SUB	BUDHI SINGH	
89	JC	260473M	SUB	CHANDER BHAN ZANDU	
90	JC	259355M	SUB	DHARAMPAL SINGH	
91	JC	200445W	SUB	GUN PRAKASH	
92	JC	255968P	SUB	HANS RAJ	
93	JC	257248M	SUB	HARNAM DASS SHARMA	
94	JC	262816W	SUB	HARSH SINGH	
95	JC	256882H	SUB	JAGDISH CHANDER	
96	JC	259725F	SUB	JAI SINGH	
97	JC	262418P	SUB	JASMEHAR SINGH	
98	JC	258312L	SUB	KEWAL KRISHAN	
99	JC	220030H	SUB	KRISHNAMURTHI KONDAVARAM	
100	JC	259155W	SUB	KULWINDER SINGH	
101	JC	261424W	SUB	MAHAVIR SINGH	
102	JC	260605P	SUB	NARENDRA SINGH	
103	JC	263586A	SUB	PIAR CHAND MEHTA	
104	JC	261745N	SUB	PREM CHAND	
105	JC	259022A	SUB	PRITAM KUMAR	

106	JC	259148A	SUB	RAJ SINGH
107	JC	257075A	SUB	RAM SINGH
108	JC	260989P	SUB	RANBIR SINGH
109	JC	226607N	SUB	ROSHAN LAL
110	JC	263525H	SUB	SAJJAN SINGH
111	JC	257888W	SUB	SANTOKH SINGH
112	JC	262263L	SUB	SATYVIR SINGH
113	JC	258047A	SUB	SHAM SINGH
114	JC	259360X	SUB	SHER SINGH
115	JC	263317N	SUB	SHISH RAM
116	JC	256034K	SUB	SHIVPAL SINGH SHEKHAWAT
117	JC	257540F	SUB	SHIV SHANKER
118	JC	261107P	SUB	SHRI OM PAWAR
119	JC	262072W	SUB	SUBE SINGH
120	JC	258797Y	SUB	SUDERSHAN SINGH
121	JC	261297M	SUB	SURESH KUMAR
122	JC	259714P	SUB	TARSEM SINGH
123	JC	260296X	SUB	TEKCHAND VERMA
124	JC	257370H	SUB	UMED SINGH
125	JC	262993W	SUB	VIRENDER SINGH YADAV

CORPS OF AIR DEFENCE ARTILLERY

126	JC	178945L	SUB MAJ	ATTAR SINGH	
127	JC	226449K	SUB MAJ	BANWARI LAL	
128	JC	193506X	SUB MAJ	C B VENKATAPATHI RAJU	
129	JC	190572P	SUB MAJ	CHATTAR SINGH	
130	JC	169782F	SUB MAJ	DHARAM PAL	
131	JC	86760K	SUB MAJ	DIVAKAR BHARGAVA	(RT)
132	JC	171083P	SUB MAJ	JODH SINGH	
133	JC	200172Y	SUB MAJ	K B KRISHNA	
134	JC	186568P	SUB MAJ	MADAN MOHAN SHARMA	
135	JC	179227F	SUB MAJ	MOHAN SINGH NEGI	
136	JC	226966F	SUB MAJ	OM DEV	
137	JC	195040Y	SUB MAJ	PAPPALA GANDHI	
138	JC	176471W	SUB MAJ	PRITAM SINGH	
139	JC	169777W	SUB MAJ	RAM KRISHAN SHARMA	
140	JC	206173X	SUB MAJ	RUPLAL NIRALA	
141	JC	202389F	SUB MAJ	SHIV NATH	
142	JC	169966A	SUB MAJ	SUKHDEV SINGH	
143	JC	179212Y	SUB MAJ	VIJAY NATH	
144	JC	179220X	SUB MAJ	VINOD KUMAR RATHORE	
145	JC	213386N	SUB	AJIT KUMAR	
146	JC	296579K	SUB	KRISHNA BAHADUR THAPA	
147	JC	142713F	SUB	N N SHARMA	(RT)
148	JC	296761K	SUB	PRITAM CHAND PEHALWAN	

MADRAS ENGINEER GROUP

149	JC	219443A	SUB MAJ	BALAKRISHNA PILLAI R
150	JC	170383K	SUB MAJ	C MOORTHY

151	JC	207453X	SUB MAJ	GEORGE WILSON
152	JC	186137H	SUB MAJ	G LAKSHMANAN
153	JC	182647M	SUB MAJ	GOVINDASAMY
154	JC	197071X	SUB MAJ	IRUTHEYA RAJ S
155	JC	187606M	SUB MAJ	JAYARAMAN K
156	JC	184847F	SUB MAJ	MANICKAM MUNISWAMY
157	JC	196963W	SUB MAJ	MARI MUTHUSAMY
158	JC	177291A	SUB MAJ	M MUNUSAMY
159	JC	177393W	SUB MAJ	P KANNIAPPAN
160	JC	177414F	SUB MAJ	P MADURAI VEERAN
161	JC	224786A	SUB MAJ	PRAFULLA KUMAR DAS
162	JC	177315Y	SUB MAJ	RAMALINGAM
163	JC	182650M	SUB MAJ	RAMAN PADMANABAN
164	JC	219385F	SUB MAJ	RAVI KUMARAN PILLAI KK
165	JC	196962N	SUB MAJ	RAVINDRAN THANKAPPAN PULITTATHU
166	JC	305128N	SUB MAJ	SIDRAMAPPA KUMBAR
167	JC	82816N	SUB MAJ	SIVARAJAN K
168	JC	177269P	SUB MAJ	V KANDASAMY
169	JC	184851K	SUB	A RAMAN
170	JC	191232Y	SUB	BABU R
171	JC	305591P	SUB	C VIJAYAN
172	JC	305493P	SUB	FARIES
173	JC	305653K	SUB	GANDHI NATHAN T
174	JC	306766Y	SUB	GOPALA KRISHNAN P A
175	JC	306197W	SUB	G THIRUNAVUKKARASU
176	JC	305145N	SUB	J RANGARAJ
177	JC	305398H	SUB	K DHAYALAN
178	JC	305776W	SUB	K SIVARAJ
179	JC	305597W	SUB	K VIJAYA KUMAR
180	JC	305095N	SUB	M ABDUL RASHEED
181	JC	305708H	SUB	MARTIN LUTHER BADUGU
182	JC	305146W	SUB	NAZEER K E
183	JC	305691A	SUB	P LOGANATHAN
184	JC	305707A	SUB	R KRISHNAMOORTHY
185	JC	305769A	SUB	SAMPATH
186	JC	305596N	SUB	SUBRAMANIAN
187	JC	305635F	SUB	SURENDRAN NAIR K
188	JC	305956Y	SUB	T V V SATYANARAYANA
189	JC	306093P	SUB	VADIVELU
190	JC	305758N	SUB	VENKATA SIVAPRASAD ANNAPAR EDDI
191	JC	305009X	SUB	V SUBBIAH

BENGAL ENGINEER GROUP

192	JC	197155L	SUB MAJ	BALDEV SINGH
193	JC	184768M	SUB MAJ	BINOD PRASAD
194	JC	210579H	SUB MAJ	CHANDRA PAL SINGH YADAV
195	JC	184764W	SUB MAJ	GOPAL SHARAN SINGH
196	JC	224887N	SUB MAJ	HAKAM SINGH KAILEY
197	JC	199717W	SUB MAJ	HARIPAL SINGH

198	JC	184744H	SUB MAJ	ISHWAR SINGH
199	JC	191366X	SUB MAJ	JAGAT RAM
200	JC	177147L	SUB MAJ	JAGGA SINGH SAKHON
201	JC	199807X	SUB MAJ	KAMAL NAIN SHARMA
202	JC	197185H	SUB MAJ	KARNADHAR MONDAL
203	JC	210466A	SUB MAJ	KIRPAL SINGH
204	JC	191368H	SUB MAJ	RAM BAHADUR SINGH
205	JC	207869P	SUB MAJ	RAM SINGH
206	JC	197165P	SUB MAJ	SANTOKH SINGH
207	JC	207587W	SUB MAJ	SUKHDEV SINGH
208	JC	199782W	SUB MAJ	SUKHDEV SINGH
209	JC	199704Y	SUB MAJ	TARA CHAND
210	JC	207569N	SUB MAJ	UPENDRA SINGH
211	JC	325383F	SUB	ANAND SINGH
212	JC	325865W	SUB	ARJUN SINGH
213	JC	326003K	SUB	BHUPAL SINGH NEGI
214	JC	325786F	SUB	CHARANJIT SINGH
215	JC	207851Y	SUB	CHHATRA SINGHA
216	JC	829073W	SUB	HARE KANTA SARKAR
217	JC	829035A	SUB	INDRASAN RAM
218	JC	325787K	SUB	JAGDAMBA PARSAD
219	JC	326380A	SUB	MILAP CHAND
220	JC	326007A	SUB	NAR BAHADUR VISHWAKARMA
221	JC	325963W	SUB	PREM VALLABH
222	JC	326563W	SUB	SANTOKH SINGH
223	JC	150008X	SUB	SATNAM SINGH
224	JC	325408H	SUB	SUKHVINDER SINGH
225	JC	326458A	SUB	TEJ BAHADUR SINGH

(RT)

BOMBAY ENGINEER GROUP

226	JC	197354Y	SUB MAJ	MADHUKAR CHAWAN
227	JC	200087W	SUB MAJ	MEHAR SINGH
228	JC	191626X	SUB MAJ	MOHINDER SINGH
229	JC	186321N	SUB MAJ	MUHAMMED KHALIL
230	JC	198823H	SUB MAJ	PARASRAM MASKU SHINDE
231	JC	203017H	SUB MAJ	RAM ZAN KHAN
232	JC	78714A	SUB MAJ	RAWEL SINGH
233	JC	203029X	SUB MAJ	RESHAM SINGH
234	JC	191627A	SUB MAJ	SHEKH SALAHUDEEN
235	JC	203024Y	SUB MAJ	VIJAY SINGH
236	JC	348082K	SUB	BALBIR SINGH
237	JC	347999P	SUB	BALJIT SINGH
238	JC	347994W	SUB	BALWANT SINGH
239	JC	347875A	SUB	DEV RAJ
240	JC	348195M	SUB	DOGAR SINGH
241	JC	348218H	SUB	GIAN SINGH
242	JC	347553A	SUB	GURMAIL SINGH
243	JC	140990N	SUB	GURMEET SINGH
244	JC	829092F	SUB	JAI RAM RAM
245	JC	348071X	SUB	KATAR SINGH

(RT)

(RT)

246	JC	347885K	SUB	KAYAMUDDIN ANSARI
247	JC	348022P	SUB	RAMESH KUMAR
248	JC	347646P	SUB	SATWINDER SINGH
249	JC	347509W	SUB	SUBHASH CHAND RANA
250	JC	348059W	SUB	SURAT SINGH
251	JC	347199W	SUB	WALI MOHAMMAD

CORPS OF SIGNALS

252	JC	188181L	SUB MAJ	ANAR SINGH
253	JC	209998N	SUB MAJ	A PRAKASA RAO
254	JC	223458A	SUB MAJ	ASHOK KUMAR UPADHYAY
255	JC	220573P	SUB MAJ	BABU LAL MEENA
256	JC	367597Y	SUB MAJ	BALDEV SINGH
257	JC	223461A	SUB MAJ	BIRU RAM
258	JC	214269P	SUB MAJ	B T SOMAN
259	JC	367592A	SUB MAJ	CHANDER BHAN YADAVA
260	JC	369501K	SUB MAJ	CHATTAR SINGH
261	JC	367449N	SUB MAJ	DAL BAHADUR PUN
262	JC	192115A	SUB MAJ	DALIP CHAND
263	JC	217638M	SUB MAJ	DEEVI VENKATA KRISHNA KISHORE
264	JC	188345W	SUB MAJ	DEV RAJ KAUNDL
265	JC	188190M	SUB MAJ	DHARAM PAL
266	JC	367587P	SUB MAJ	GANDHI RAM BHARDWAJ
267	JC	188231L	SUB MAJ	GURMEJ SINGH
268	JC	367806L	SUB MAJ	GURNAM SINGH
269	JC	367229K	SUB MAJ	HARI SINGH
270	JC	367047W	SUB MAJ	HOSHIAR SINGH YADAVA
271	JC	188225X	SUB MAJ	JAI PAL SINGH
272	JC	368008K	SUB MAJ	JODH SINGH
273	JC	215335Y	SUB MAJ	KARAM CHAND
274	JC	367464H	SUB MAJ	LEELADHAR PRASAD
275	JC	367651F	SUB MAJ	MADAN MOHAN POKHRIYAL
276	JC	367590P	SUB MAJ	MAHABIR SINGH
277	JC	220417L	SUB MAJ	MOHINDER SINGH
278	JC	188355A	SUB MAJ	NAGESHWAR PANDEY
279	JC	367864P	SUB MAJ	NARAYAN CHANDRA GHOSH
280	JC	195666W	SUB MAJ	PABITRA PRASAD RAY
281	JC	173620N	SUB MAJ	PAWAN KUMAR
282	JC	367586M	SUB MAJ	RAGHBIR SINGH SAINI
283	JC	94410M	SUB MAJ	RAM BILAS TIWARI (RT)
284	JC	367223H	SUB MAJ	RAM CHANDER SHARMA
285	JC	367594L	SUB MAJ	RAM DEV SINGH
286	JC	221459K	SUB MAJ	RUKMINI KUMAR SINHA
287	JC	367523K	SUB MAJ	SARMAN SINGH
288	JC	192117L	SUB MAJ	SATWINDER PAL SINGH BAJWA
289	JC	367553F	SUB MAJ	SHYAM MANOHAR AWASTHI
290	JC	197679M	SUB MAJ	SITAL KUMAR SINGHA
291	JC	367588X	SUB MAJ	SORAJ SINGH
292	JC	223454K	SUB MAJ	SUKH RAJ

293	JC	188200L	SUB MAJ	THANKACHAN KUNJU KUNJU
294	JC	220575A	SUB MAJ	THIRUVADI NARAYANAN
295	JC	368889N	SUB	AMRENDRA KUMAR
296	JC	370723L	SUB	BACHITTAR SINGH
297	JC	368188X	SUB	BAL GOVIND
298	JC	371754X	SUB	BINANDA HARI BISWAS
299	JC	368446M	SUB	DILIP KUMAR S
300	JC	371595L	SUB	IDREESH KHAN
301	JC	371058A	SUB	KABIR RAI
302	JC	368597L	SUB	MONOTOSH JANA
303	JC	368739X	SUB	PREMASUNDAR BARIK
304	JC	370069A	SUB	PRITAM CHAND
305	JC	371084F	SUB	RAM KRIPAL SHARMA
306	JC	373381N	SUB	RAM LAKHAN
307	JC	372351K	SUB	SANT RAM
308	JC	371061A	SUB	SAT PAL
309	JC	368298M	SUB	UDAI SINGH

THE BRIGADE OF GUARDS

310	JC	218152N	SUB MAJ	BALWANT SINGH NAGARKOTI
311	JC	188600X	SUB MAJ	BANE SINGH
312	JC	169324L	SUB MAJ	BUDHI SINGH
313	JC	208254W	SUB MAJ	SUKHDEV SINGH
314	JC	182908P	SUB MAJ	SWARN SINGH
315	JC	402332W	SUB	AMRIT LAL
316	JC	402727X	SUB	DARSHAN SINGH
317	JC	402335K	SUB	DHRUB DEO SINGH
318	JC	402780H	SUB	KASHMIR SINGH, SM
319	JC	402726P	SUB	MADI LAKRA
320	JC	402788P	SUB	MOHAMMAD TAFIZ KHAN
321	JC	402298F	SUB	PARKASH CHAND, SM
322	JC	402716L	SUB	RAJENDRA PRASAD DIWEDI
323	JC	402294L	SUB	SARDHA NAND RAI
324	JC	402242P	SUB	SATVIR SINGH SIWACH
325	JC	208271W	SUB	SURJEET SINGH
326	JC	402773M	SUB	SURJYA SENAPATI
327	JC	402564P	SUB	UMMED SINGH

THE PARACHUTE REGIMENT

328	JC	185461N	SUB MAJ	BUDHIRAM BARALA
329	JC	205455K	SUB MAJ	MATHEW MATHAN
330	JC	188357L	SUB MAJ	SHISHUPAL JAKHAR
331	JC	220126L	SUB MAJ	SUBHASH CHANDER
332	JC	184927Y	SUB MAJ	SUNDER SINGH
333	JC	412405L	SUB	BALBIR SINGH
334	JC	412084Y	SUB	DAYA KRISHAN JOSHI
335	JC	412324L	SUB	JAGDEV SINGH
336	JC	412284P	SUB	OM PRAKASH

337	JC	412056M	SUB	PYARE LAL
338	JC	412123M	SUB	RAJENDRA KUMAR
339	JC	412282K	SUB	RAM KUMAR SINGH
340	JC	412377K	SUB	SHAMBHU SINGH

THE MECHANISED INFANTRY REGIMENT

341	JC	206646L	SUB MAJ	BUTTA SINGH
342	JC	204610N	SUB MAJ	CHANAN SINGH
343	JC	156782H	SUB MAJ	MAHESH CHANDRA PANDE
344	JC	189702A	SUB MAJ	OM PARKASH RAJPUT
345	JC	177501P	SUB MAJ	PREM SINGH
346	JC	211654N	SUB MAJ	RAJINDER SINGH
347	JC	418693Y	SUB	AMAR NATH SINGH
348	JC	418920N	SUB	DHAN BAHADUR KARKI
349	JC	418343M	SUB	DHUP SINGH
350	JC	194207L	SUB	GAJRAJ
351	JC	418787W	SUB	HARI MOHAN SINGH
352	JC	418940F	SUB	NETRA BAHADUR THAPA
353	JC	225979M	SUB	SITA RAM
354	JC	418419F	SUB	SUBHASH CHAND
355	JC	418869Y	SUB	SUJAN SINGH TOMAR

THE PUNJAB REGIMENT

356	JC	192856X	SUB MAJ	AMRIK SINGH
357	JC	174925A	SUB MAJ	BALWINDER SINGH
358	JC	203972H	SUB MAJ	DAULAT RAM DOGRA
359	JC	192859L	SUB MAJ	GURMIT SINGH
360	JC	188428F	SUB MAJ	JASBIR SINGH DHILLON
361	JC	184268P	SUB MAJ	JOGINDER SINGH
362	JC	203619W	SUB MAJ	KALVINDER SINGH
363	JC	178436M	SUB MAJ	KARNAIL SINGH
364	JC	89179L	SUB MAJ	LALIT MOHAN BALODHI (RT)
365	JC	428130M	SUB MAJ	NARESH KUMAR
366	JC	196391A	SUB MAJ	SANTOKH RAJ
367	JC	196388A	SUB MAJ	SUDARSHAN SINGH
368	JC	199173M	SUB MAJ	SUKHWINDER SINGH
369	JC	428766N	SUB	AVTAR SINGH
370	JC	428366F	SUB	DARSHAN LAL
371	JC	428547M	SUB	DARSHAN SINGH GREWAL
372	JC	428055N	SUB	DHARM SINGH
373	JC	428377N	SUB	HARBANS SINGH RANA
374	JC	428380N	SUB	HOSHIAR SINGH
375	JC	428740Y	SUB	JAGDISH CHAND
376	JC	428266W	SUB	JASBIR SINGH
377	JC	428863L	SUB	JEEWAN DASS RANA
378	JC	428793X	SUB	JOGINDER SINGH
379	JC	428786F	SUB	KARNAIL SINGH
380	JC	428751L	SUB	KULDIP SINGH
381	JC	428151H	SUB	MAJOR SINGH

382	JC	428421M	SUB	MALKIAT SINGH
383	JC	428816N	SUB	MULK RAJ
384	JC	428661K	SUB	MUNSHA SINGH
385	JC	428722W	SUB	NATAR PARKASH
386	JC	428286K	SUB	NIRANJAN SINGH LABANA
387	JC	428364W	SUB	PAWAN KUMAR
388	JC	428884F	SUB	SATISH KUMAR CHANDEL
389	JC	428883Y	SUB	TILAK RAJ

THE MADRAS REGIMENT

390	JC	224193N	SUB MAJ	A DIVAKARA REDDY
391	JC	168521F	SUB MAJ	GANGI SETTY DHANANJAYUDU
392	JC	166664H	SUB MAJ	JOSHY PAYVA
393	JC	177933K	SUB MAJ	NALINAN M P
394	JC	151635W	SUB MAJ	P RAVEENDRA REDDY
395	JC	164923F	SUB MAJ	R PONNURAJ
396	JC	172546L	SUB MAJ	THOGU ROUTHU SATYAM
397	JC	438479X	SUB	A NESAMONY
398	JC	438446M	SUB	ASHOK BANNAPPA HAKKI
399	JC	218423A	SUB	BHAIRU BILAGOJI
400	JC	438419H	SUB	K MUTHUKRISHNAN
401	JC	216744Y	SUB	PHILLIP D
402	JC	438311L	SUB	SHIDRAM SHIVALINGAPPA SHEGUNASHI
403	JC	212504K	SUB	S R PANDI
404	JC	200999P	SUB	SURESH VAZHAYIL
405	JC	218194A	SUB	VELU PILLAI K
406	JC	438177L	SUB	VIJAYA RAGHAVAN B K

THE GRENADIERS

407	JC	180696W	SUB MAJ	CHANDRA PRAKASH SINGH
408	JC	448021F	SUB MAJ	DHARAMJIT SINGH, SM
409	JC	212525A	SUB MAJ	FAQIR CHAND
410	JC	212530L	SUB MAJ	HANUMAN SINGH
411	JC	181774P	SUB MAJ	NANDA SINGH
412	JC	201005P	SUB MAJ	OM PARKASH
413	JC	448091A	SUB MAJ	PREM LAL
414	JC	185715A	SUB MAJ	RAMESH KUMAR
415	JC	224375F	SUB MAJ	RAM PHAL
416	JC	182936F	SUB MAJ	YAKUB KHAN
417	JC	448961M	SUB	ABHAY SINGH
418	JC	448958M	SUB	AGYA RAM, SM
419	JC	449019W	SUB	AJIT CHAND
420	JC	448590P	SUB	AJIT KUMAR
421	JC	448765M	SUB	ASHOK KUMAR
422	JC	448683K	SUB	BHARAT SINGH BHAU
423	JC	448902A	SUB	HAKAM ALI KHAN
424	JC	449054Y	SUB	INDER SINGH
425	JC	448556P	SUB	JAIPAL SINGH
426	JC	448163Y	SUB	KAPTAN SINGH

427	JC	448690A	SUB	KISHOR CHAND
428	JC	448607X	SUB	KRISHAN LAL
429	JC	448936N	SUB	LAKHAN SINGH
430	JC	449080A	SUB	LIYAKAT ALI
431	JC	448907Y	SUB	MADAN LAL
432	JC	448364X	SUB	MAHABIR SINGH
433	JC	449066N	SUB	ROSHAN LAL
434	JC	448042X	SUB	SURJIT SINGH

THE MARATHA LIGHT INFANTRY

435	JC	179320H	SUB MAJ	AMEER G
436	JC	166682L	SUB MAJ	BANKAR DASHARATHRAO VITTHAL
437	JC	167424X	SUB MAJ	FULE LOTAN PANDIT
438	JC	212858M	SUB MAJ	POL ADHIKARAO JAGANNATH
439	JC	171845X	SUB MAJ	SHANKAR RAO ALOKAR
440	JC	173181N	SUB MAJ	SHINDE GAJANAN PANDURANG
441	JC	201822N	SUB MAJ	ULLAS VITHAL SAWANT
442	JC	171695M	SUB MAJ	VADINGEKAR VITTHAL BANDU
443	JC	458484K	SUB	CHANDERKANT YADAV WAKHARE
444	JC	458061W	SUB	CHAVAN MARUTI SHRIPATI
445	JC	458064K	SUB	DASHRATH EKNATH GORE
446	JC	458478W	SUB	JAYAVANTHA BALEGAR
447	JC	178510H	SUB	KADAM ASHOK NAMDEO
448	JC	458050K	SUB	KADAM SAHEBRAO DATTU
449	JC	458004P	SUB	KUMAR SHINGTE LAXMAN SADASHIV
450	JC	220161N	SUB	VILAS CHANDRAKANT TAVANDIKAR

THE RAJPUTANA RIFLES

451	JC	204274M	SUB MAJ	AJIT SINGH
452	JC	188387H	SUB MAJ	BIKRAM SINGH
453	JC	151691P	SUB MAJ	DHARAM PAL SINGH
454	JC	77727L	SUB MAJ	KUNJ LAL SHARMA (RT)
455	JC	183420L	SUB MAJ	LIAQAT ALI
456	JC	212580W	SUB MAJ	MAHENDRA SINGH
457	JC	184976F	SUB MAJ	MAL SINGH KHANGAROT
458	JC	205879A	SUB MAJ	MAN SINGH CHAUHAN
459	JC	179328P	SUB MAJ	MOOL SINGH
460	JC	196207K	SUB MAJ	NATHU SINGH
461	JC	211030F	SUB MAJ	OM PARKASH
462	JC	175016F	SUB MAJ	PARASH SINGH MAHECHA
463	JC	468090Y	SUB MAJ	SATBIR
464	JC	211027F	SUB MAJ	SURENDRA SINGH BHADORIA
465	JC	468443N	SUB	AJIT SINGH
466	JC	469065M	SUB	DEVI SINGH
467	JC	468906X	SUB	JABBAR SINGH
468	JC	468304K	SUB	MADAN SINGH
469	JC	468770Y	SUB	MAHABIR
470	JC	218237K	SUB	MAN PHOOL SINGH
471	JC	468771F	SUB	MOHENDER SINGH

472	JC	468695A	SUB	OM SINGH
473	JC	468660K	SUB	PAUHKAR SINGH
474	JC	468748N	SUB	PRATHAM SINGH
475	JC	468614P	SUB	RAJ KUMAR SINGH
476	JC	468672Y	SUB	RAMHER SINGH
477	JC	212881A	SUB	SHAMSHAD ALI

THE RAJPUT REGIMENT

478	JC	216530H	SUB MAJ	BABU LAL
479	JC	205559L	SUB MAJ	BHARAT SINGH
480	JC	204057W	SUB MAJ	DURGA PRASAD
481	JC	203666N	SUB MAJ	MAHENDRA SINGH PARIHAR
482	JC	205550W	SUB MAJ	PRABHU DAYAL
483	JC	183452N	SUB MAJ	ROHTAS SINGH
484	JC	204056N	SUB MAJ	SAT RAM
485	JC	196218W	SUB MAJ	SURENDRA SINGH
486	JC	220938Y	SUB MAJ	TEJ SINGH
487	JC	478437N	SUB	BHURA SINGH
488	JC	478187X	SUB	CHANDAR SEN
489	JC	478787A	SUB	CHANDER PRAKASH
490	JC	478256H	SUB	CHATAR SINGH
491	JC	224402A	SUB	CHHATARPAL SINGH
492	JC	478806A	SUB	GULAB SINGH
493	JC	478067Y	SUB	HARMESH LAL
494	JC	478938N	SUB	JAGDISH
495	JC	478449H	SUB	JANAK SINGH
496	JC	478200W	SUB	JASHWANT SINGH
497	JC	478538F	SUB	MOHAN LAL
498	JC	478433X	SUB	PRAFULLA KUMAR DEBNATH
499	JC	478572F	SUB	PREM SINGH, SM
500	JC	478065N	SUB	RAJESH KUMAR SHARMA
501	JC	478425Y	SUB	RAM NATH
502	JC	478909Y	SUB	ROSHAN LAL
503	JC	478807H	SUB	SAMAYA SINGH
504	JC	478826N	SUB	SARVAN SINGH, SM
505	JC	478163N	SUB	SHIV KUMAR SINGH
506	JC	478746W	SUB	SRIMAN SINGH GURJAR
507	JC	478114L	SUB	TEJ RAM
508	JC	478332K	SUB	VIJAY SINGH

THE JAT REGIMENT

509	JC	168543A	SUB MAJ	KARNI RAM
510	JC	164785L	SUB MAJ	MUHAR PAL SINGH
511	JC	185759X	SUB MAJ	RAJENDER SINGH
512	JC	185518X	SUB MAJ	REKHA RAM
513	JC	204066X	SUB MAJ	ROHITASHAW
514	JC	168866H	SUB MAJ	SUKHA RAM
515	JC	488870L	SUB	DALIP SINGH
516	JC	127278A	SUB	HARBILAS KATARE

517	JC	488647F	SUB	JAGBIR SINGH
518	JC	488780K	SUB	JUGMANDER SINGH
519	JC	489106M	SUB	KISHAN SINGH
520	JC	488483W	SUB	RAMBIR SINGH
521	JC	488580N	SUB	RAM CHANDER
522	JC	488939K	SUB	RAMKALA DHUL
523	JC	488481L	SUB	RANPAL SINGH

THE SIKH REGIMENT

524	JC	192951K	SUB MAJ	AMRIK SINGH	
525	JC	91143L	SUB MAJ	GURMAIL SINGH	(RT)
526	JC	196242M	SUB MAJ	HARJOGINDER SINGH	
527	JC	183009A	SUB MAJ	HARPAL SINGH	
528	JC	173020L	SUB MAJ	JARNAIL SINGH	
529	JC	181856X	SUB MAJ	JASPAL SINGH	
530	JC	184376Y	SUB MAJ	KARNAIL SINGH	
531	JC	192603H	SUB MAJ	PRITAM SINGH	
532	JC	173022W	SUB MAJ	SOWARAN SINGH	
533	JC	498228X	SUB	ANAND SARUP SINGH	
534	JC	498074W	SUB	BAKSHISH SINGH	
535	JC	498504P	SUB	BALDEV SINGH	
536	JC	498151A	SUB	CHARAN SINGH	
537	JC	498012W	SUB	GURCHARAN SINGH	
538	JC	222689K	SUB	GURCHARAN SINGH SIDHU	
539	JC	498264H	SUB	GURDEEP SINGH	
540	JC	498176M	SUB	GURDEV SINGH	
541	JC	498241F	SUB	HARBHAJAN SINGH	
542	JC	498258P	SUB	HARBINDER SINGH	
543	JC	498637L	SUB	JAGJIT SINGH	
544	JC	498814A	SUB	JASWANT SINGH	
545	JC	498190Y	SUB	KASHMIR SINGH	
546	JC	224419N	SUB	KHAJAN SINGH	
547	JC	498434F	SUB	MALKIT SINGH	
548	JC	498279L	SUB	MANOHAR SINGH	
549	JC	498303W	SUB	MOHAN SINGH	
550	JC	498140N	SUB	MOHTAM SINGH	
551	JC	498242K	SUB	SATNAM SINGH	
552	JC	498280A	SUB	SURJIT SINGH	

THE SIKH LIGHT INFANTRY

553	JC	167230P	SUB MAJ	BALBIR SINGH
554	JC	185788M	SUB MAJ	BALWINDER SINGH
555	JC	216574A	SUB MAJ	BARA SINGH
556	JC	208383W	SUB MAJ	GIAN SINGH
557	JC	173206P	SUB MAJ	HARBHAJAN SINGH
558	JC	185790K	SUB MAJ	KULWANT SINGH
559	JC	205980A	SUB MAJ	NIRMAL SINGH
560	JC	196252W	SUB MAJ	SURJIT SINGH

561	JC	508325L	SUB	BALWINDER SINGH
562	JC	508256A	SUB	IQBAL SINGH
563	JC	508524Y	SUB	MOHINDER SINGH
564	JC	508186M	SUB	NIRMAL SINGH
565	JC	508042K	SUB	SURJIT SINGH

THE DOGRA REGIMENT

566	JC	518282P	SUB MAJ	BAKHTAWAR SINGH
567	JC	518139H	SUB MAJ	DHARAM SINGH BANYAL
568	JC	518332P	SUB MAJ	HERMESH SINGH
569	JC	518115Y	SUB MAJ	HIMMAT SINGH CHAUHAN
570	JC	518249X	SUB MAJ	INDERJIT SINGH
571	JC	518042X	SUB MAJ	KULDIP SINGH
572	JC	518039X	SUB MAJ	KUSHAL SINGH MANHAS
573	JC	518046N	SUB MAJ	PREM SINGH
574	JC	518219A	SUB MAJ	PURAN PARKASH
575	JC	518290N	SUB MAJ	RAJA RAM
576	JC	518291W	SUB MAJ	RAJINDER SINGH
577	JC	518163Y	SUB MAJ	RAMESH CHANDER
578	JC	221015A	SUB MAJ	RAVINDER KUMAR VERMA
579	JC	518194Y	SUB MAJ	RAVINDER SINGH JAMWAL
580	JC	518147F	SUB MAJ	RUKMAN SINGH
581	JC	519179W	SUB	CHAIN SINGH, SM
582	JC	519454L	SUB	DALJIT SINGH GULIAL
583	JC	518877M	SUB	GHANSHYAM KATOCH
584	JC	518885L	SUB	JASBIR SINGH
585	JC	519077A	SUB	KAMAL JIT
586	JC	519191X	SUB	NIKKA RAM
587	JC	519219M	SUB	PAWAN KUMAR
588	JC	518013H	SUB	RAGHBIR SINGH
589	JC	519075P	SUB	RAMESH CHAND DHIMAN
590	JC	518953N	SUB	ROMAL SINGH PATHANIA
591	JC	519177L	SUB	SANSAR CHAND
592	JC	518692L	SUB	SUBHASH CHAND RANA
593	JC	519251F	SUB	SUDESH KUMAR
594	JC	519272X	SUB	SURAM CHAND

THE GARHWAL RIFLES

595	JC	193805W	SUB MAJ	AMAR SINGH
596	JC	178608W	SUB MAJ	AMAR SINGH KAINURA
597	JC	193807F	SUB MAJ	BHAWAN SINGH RAWAT
598	JC	175386F	SUB MAJ	DARSHAN SINGH
599	JC	528479Y	SUB MAJ	DILWAR SINGH KANDARI
600	JC	188527K	SUB MAJ	GOBIND SINGH
601	JC	184410N	SUB MAJ	HARI BHAKAT SINGH RAWAT

(BM)

602	JC	176336H	SUB MAJ	NATHA SINGH
603	JC	205991M	SUB MAJ	SHASHI MOHAN KUKRETI
604	JC	193815A	SUB MAJ	UMA DATT
605	JC	528735H	SUB	ARJUN SINGH RAWAT, SM
606	JC	528678M	SUB	GAJPAL SINGH
607	JC	528992A	SUB	GOVINDRA SINGH
608	JC	528462L	SUB	GULAB SINGH PANWAR
609	JC	529006M	SUB	GYAN SINGH
610	JC	528902N	SUB	JASWANT SINGH
611	JC	529141A	SUB	MAHABIR SINGH
612	JC	528642N	SUB	MAHENDRA PRASAD
613	JC	528968K	SUB	PRAMOD PRASAD
614	JC	528804N	SUB	PURAN SINGH
615	JC	528689Y	SUB	RANJIT SINGH
616	JC	528677K	SUB	SHYAM SINGH
617	JC	528783H	SUB	VIJAY SINGH

THE KUMAON REGIMENT

618	JC	220758W	SUB MAJ	AMAR SINGH BORA
619	JC	212934N	SUB MAJ	BAHADUR SINGH BISHT
620	JC	202024M	SUB MAJ	LALA RAM
621	JC	202029L	SUB MAJ	RAJENDRA SINGH DEV
622	JC	216896A	SUB MAJ	SHYAM SINGH
623	JC	538597A	SUB	BAHUT RAM
624	JC	538315W	SUB	BHUPAL SINGH BISHT
625	JC	538548X	SUB	BHUPAL SINGH WALDIA
626	JC	538749W	SUB	BISHAN SINGH
627	JC	539043N	SUB	BRAHM PARKASH
628	JC	538847X	SUB	DARPAN SINGH
629	JC	538677X	SUB	DARWAN SINGH KARKI
630	JC	538925H	SUB	DAYA RAM
631	JC	538643K	SUB	DAYA SHANKAR SINGH YADAV
632	JC	538549A	SUB	DEVI DATT
633	JC	193827P	SUB	HARAK SINGH
634	JC	538731A	SUB	HARI SINGH
635	JC	538975N	SUB	JAGAT CHAND, SM
636	JC	538381Y	SUB	KUNWAR SINGH
637	JC	538735W	SUB	LAL SINGH YADAV
638	JC	539025L	SUB	LAXMAN SINGH KANWAL
639	JC	538622N	SUB	MAN SINGH
640	JC	538397K	SUB	MANUMAN SINGH YADAV
641	JC	538672Y	SUB	NANDAN SINGH
642	JC	538317F	SUB	PUSHKAR SINGH
643	JC	538711M	SUB	PUSHKAR SINGH BATHYAL
644	JC	538611F	SUB	RAJ KUMAR
645	JC	538378Y	SUB	S HAHDEO SINGH
646	JC	538863N	SUB	SHYAM SINGH BHANDARI
647	JC	538425L	SUB	UMMED SINGH

THE ASSAM REGIMENT

648	JC	188539Y	SUB MAJ	DAL BAHADUR THAPA
649	JC	173242A	SUB MAJ	GOPAL CHANDRA GOGOI
650	JC	204331H	SUB MAJ	JAGADISH CHANDRA DAS
651	JC	192471A	SUB MAJ	KALA SINGH DHILLON
652	JC	169231W	SUB MAJ	LAKHI BORA
653	JC	201130Y	SUB MAJ	LALTLANTHUAMA
654	JC	173920P	SUB MAJ	MAHESWAR BORO
655	JC	185831H	SUB MAJ	MOHON CH SAIKIA
656	JC	194672X	SUB MAJ	NANDA BAHADUR THAPA
657	JC	188540N	SUB MAJ	NIRENDRA KUMAR SINGHA
658	JC	548263Y	SUB	ABILAL DAIMARI
659	JC	185842P	SUB	DALIM CHANDRA SHARMAH
660	JC	548209L	SUB	DHANI RAM BARDOLOI
661	JC	548488F	SUB	JADAB CHANDRA BORGHAIN
662	JC	548073M	SUB	MOHAN CHANDRA DAS

THE BIHAR REGIMENT

663	JC	226206Y	SUB MAJ	CHRISTOPAL SOY
664	JC	220772H	SUB MAJ	HOPNA HEMBROM
665	JC	218521A	SUB MAJ	KAPILESHWAR YADAV
666	JC	202064N	SUB MAJ	RAJANI KANTA DAS
667	JC	179014N	SUB MAJ	SUKH DEO GOPE
668	JC	558666M	SUB	BRAJ KISHORE ORAON
669	JC	558275F	SUB	GIRIJMAL YADAV
670	JC	558369Y	SUB	JOSEPH HORO
671	JC	558690H	SUB	KAMESHWAR PRASAD SINGH
672	JC	558627N	SUB	RAMA KANT KONHAR
673	JC	205244F	SUB	ROMAN KUJUR

THE MAHAR REGIMENT

674	JC	169444K	SUB MAJ	DEVI SINGH
675	JC	173947M	SUB MAJ	JAGIR SINGH
676	JC	220775W	SUB MAJ	JEET SINGH
677	JC	168600W	SUB MAJ	LAXMAN POAL
678	JC	220776Y	SUB MAJ	OM PARKASH SHARMA
679	JC	173946K	SUB MAJ	RANJEET SINGH GARIA
680	JC	178304Y	SUB MAJ	SATYA PAL SINGH
681	JC	568086L	SUB	ALAM SINGH
682	JC	568400N	SUB	BADRI PRASAD
683	JC	568555H	SUB	BALJIT SINGH
684	JC	568677M	SUB	BRAJ LAL GURJAR
685	JC	568766L	SUB	DAYA NIDHI TIWARI
686	JC	568290K	SUB	HANS RAJ
687	JC	568802L	SUB	JAI SINGH
688	JC	568175K	SUB	LOHRA ORAON
689	JC	568218N	SUB	LOKNATH DAS

690	JC	220786H	SUB	MAHIMA NAND
691	JC	568403F	SUB	RAM SWARUP
692	JC	568972P	SUB	SATBIR

THE JAMMU AND KASHMIR RIFLES

693	JC	220808W	SUB MAJ	BAKHTAWAR SINGH
694	JC	578048H	SUB MAJ	BANSI LAL PARIHAR
695	JC	178319F	SUB MAJ	BHIM BAHADUR RANA
696	JC	578093P	SUB MAJ	DILBAG SINGH
697	JC	578195L	SUB MAJ	HARBANS LAL
698	JC	578146H	SUB MAJ	HUKAM CHAND CHANDEL
699	JC	224298X	SUB MAJ	KARAM SINGH
700	JC	211324P	SUB MAJ	KULDEEP CHAND
701	JC	91334A	SUB MAJ	MUKHTAR SINGH
702	JC	224302P	SUB MAJ	RASHPAL SINGH
703	JC	578118W	SUB MAJ	ROOP SINGH CHANDEL
704	JC	579122L	SUB	BACHAN SINGH
705	JC	579037H	SUB	BALDEV SINGH
706	JC	578809H	SUB	GH NABI JAN
707	JC	579123N	SUB	GOPAL DASS
708	JC	579046K	SUB	GOPAL DASS SHARMA
709	JC	185863L	SUB	HARBHAJAN SINGH
710	JC	578964K	SUB	JAGDISH SINGH
711	JC	528444H	SUB	JOGINDER SINGH
712	JC	578791X	SUB	KARANJIT SINGH
713	JC	578895Y	SUB	KASHMIR SINGH
714	JC	578955H	SUB	KULJIT SINGH
715	JC	578991N	SUB	MANGAL SINGH
716	JC	579260M	SUB	MATHRA DASS RAINA
717	JC	578449X	SUB	MOHINDER PAL
718	JC	579066X	SUB	OM BAHADUR THAPA
719	JC	579341M	SUB	ONKAR CHAND
720	JC	578287X	SUB	PARTAP SINGH PARDESHI
721	JC	579105L	SUB	ROMESH KUMAR
722	JC	579042N	SUB	RUMAL SINGH

THE LADAKH SCOUTS

723	JC	183574X	SUB MAJ	CHHERING PHUNCHOK, SM
724	JC	221080A	SUB	CHHERING MUTUP
725	JC	588094L	SUB	SONAM DORJE
726	JC	588114N	SUB	TSERING ANGCHOK

THE NAGA REGIMENT

727	JC	204136L	SUB MAJ	BHAGWAN SINGH
728	JC	203770F	SUB	PURAN SINGH

THE JAMMU AND KASHMIR LIGHT INFANTRY

729	JC	224306L	SUB MAJ	ALI MOHAMMAD KHAN
730	JC	592074P	SUB MAJ	ASAHAKE DIN

731	JC	592052W	SUB MAJ	BALWANT RAJ
732	JC	220822H	SUB MAJ	JAGDISH KUMAR
733	JC	219796A	SUB MAJ	KRISHAN CHAND
734	JC	592054F	SUB MAJ	MOHD AKBAR MIR
735	JC	592687P	SUB	ALAM DIN
736	JC	592216F	SUB	BACHAN SINGH
737	JC	592462M	SUB	BISHAMBER DASS
738	JC	592158H	SUB	DAYA KRISHAN
739	JC	592454N	SUB	GHARA SINGH
740	JC	592681N	SUB	GIRDHARI LAL
741	JC	208203H	SUB	HANS RAJ
742	JC	592504N	SUB	JAGDISH RAJ
743	JC	592391W	SUB	MOHD ASHRIF
744	JC	592548L	SUB	MUSHTAK AHMED
745	JC	592134Y	SUB	NISCHENT SINGH
746	JC	592461K	SUB	OM PARKASH SHARMA
747	JC	592268X	SUB	PRITAM SINGH KOTWAL
748	JC	592032H	SUB	RAJ KUMAR
749	JC	592618Y	SUB	RAMESH LAL
750	JC	592569F	SUB	RAMNEEK SINGH
751	JC	592369L	SUB	SAWARN SINGH
752	JC	592552N	SUB	SHER MOHAMMED
753	JC	592345F	SUB	TILAK RAJ SHARMA
754	JC	592355L	SUB	TIRATH SINGH

1 GORKHA RIFLES

755	JC	206023F	SUB MAJ	RAM BAHADUR THAPA, SC
756	JC	602149X	SUB	BAGBIR PUN
757	JC	602330P	SUB	BAL BAHADUR GURUNG
758	JC	602230K	SUB	DAMBER RANA
759	JC	602248A	SUB	DILIP GURUNG
760	JC	602340Y	SUB	JHAG LAL THAPA
761	JC	602286W	SUB	KRISHNA BAHADUR THAPA
762	JC	602266H	SUB	KUL PARSAD GURUNG
763	JC	602238W	SUB	MUKTI BAHADUR THAPA
764	JC	602309M	SUB	RAMAN KUMAR
765	JC	602310F	SUB	SOBIT BAHADUR GURUNG
766	JC	602240N	SUB	SURJA KUMAR MALLA

3 GORKHA RIFLES

767	JC	208458H	SUB MAJ	BHIM BAHADUR THAPA
768	JC	220337N	SUB MAJ	SANTA BAHADUR KHANDKA
769	JC	196315N	SUB MAJ	SURENDRA SINGH THAPA
770	JC	607271X	SUB	DHARAM DHOJ GURUNG
771	JC	607265K	SUB	HARI BAHADUR THAPA
772	JC	607287H	SUB	JAGAT RAM GURUNG
773	JC	607259W	SUB	NARESH THAPA
774	JC	607312W	SUB	PEMA SINGH THAPA
775	JC	607263Y	SUB	RAJ BAHADUR THAPA

4 GORKHA RIFLES

776	JC	196663P	SUB MAJ	CHANDRA BAHADUR GURUNG
777	JC	196664X	SUB MAJ	CHANDRA BAHADUR RANA, SM
778	JC	177823P	SUB MAJ	RAMESH KUMAR GURUNG
779	JC	185569L	SUB MAJ	SUSHIL KUMAR GURUNG
780	JC	612374A	SUB	GOPAL SING GURUNG
781	JC	612285F	SUB	PADAM BAHADUR THAPA
782	JC	612286K	SUB	PREM BAHADUR GHARTI
783	JC	612244X	SUB	RESHAM BAHADUR THAPA
784	JC	612307P	SUB	THAKUR PRASAD GURUNG

5 GORKHA RIFLES

785	JC	192732H	SUB MAJ	BIKRAM BAHADUR THAPA
786	JC	212806W	SUB MAJ	JAG BAHADUR GURUNG
787	JC	196691F	SUB MAJ	KAJI MAN GURUNG
788	JC	88402X	SUB MAJ	ROM NATH ARJIYAL (RT)
789	JC	617378A	SUB	GAM BAHADUR GHALE
790	JC	617448N	SUB	PADAM BAHADUR GURUNG
791	JC	617289F	SUB	PHANI RAJ THAPA
792	JC	617284H	SUB	RUDRA BAHADUR ALE MAGAR

8 GORKHA RIFLES

793	JC	173284M	SUB MAJ	GOPAL DEV THAPA
794	JC	623026Y	SUB MAJ	SHER BAHADUR THAPA
795	JC	623234N	SUB	AJIT KUMAR THAPA
796	JC	623161M	SUB	DIL BAHADUR THAPA
797	JC	623107Y	SUB	NIL PRASAD THAPA
798	JC	623123W	SUB	SURYA KUMAR GURUNG
799	JC	623069N	SUB	YAM BAHADUR RANA

9 GORKHA RIFLES

800	JC	185896W	SUB MAJ	JYOTI LAL CHHETRI
801	JC	211418M	SUB MAJ	LEKH BAHADUR CHHETRI
802	JC	629313Y	SUB	ARJUN MAN SINGH BASNYAT
803	JC	629301K	SUB	BHAKTA BAHADUR THAPA
804	JC	629305A	SUB	DEB BAHADUR CHHETRI
805	JC	629333M	SUB	KRISHNA BAHADUR CHHETRI
806	JC	629265K	SUB	RESHAN BAHADUR CHHETRI, SM

11 GORKHA RIFLES

807	JC	192502P	SUB MAJ	BUDHA SHERPA
808	JC	180921A	SUB MAJ	DEO MANI RAI, SM
809	JC	185140W	SUB MAJ	DILIP RAI
810	JC	180828Y	SUB MAJ	GAJENDRA SINGH
811	JC	634190F	SUB	DHAN JIT RAI
812	JC	634052A	SUB	LAL BAHADUR RAI
813	JC	193032F	SUB	NAIN SINGH

814 JC 634014K SUB
815 JC 634081P SUB

PREM BAHADUR KHARKA
TILOK SING LIMBU,SM

ARMY SERVICE CORPS(SOUTH)

816	JC	660484M	SUB MAJ	DAMODAR REGMI	
817	JC	640274L	SUB MAJ	DILIP KUMAR SHIL	
818	JC	209017Y	SUB MAJ	GANGADHARAN KEEZHANA	
819	JC	640091P	SUB MAJ	GANGADHARAN NAIR V	
820	JC	640116W	SUB MAJ	GHORAPADE SHIVAJI VAGHU	
821	JC	640096N	SUB MAJ	G SELVANATHAN	
822	JC	206364M	SUB MAJ	JOY PHILIP	
823	JC	640032H	SUB MAJ	KULDEEP RAM	
824	JC	640085F	SUB MAJ	LAJJA RAM SHARMA	
825	JC	660404K	SUB MAJ	LIAQUAT ALI KHAN	
826	JC	660662K	SUB MAJ	NIBARAN CHANDA	
827	JC	213537F	SUB MAJ	PARMAR PUJABHAI LALABHAI	
828	JC	660527W	SUB MAJ	PURAN CHAND	
829	JC	640108X	SUB MAJ	RAJ SINGH	
830	JC	213553Y	SUB MAJ	RAMA CHANDRAN PILLAI K	
831	JC	79983Y	SUB MAJ	RAM BALI YADAV	(RT)
832	JC	640573K	SUB MAJ	RAM KANWAR	
833	JC	660432W	SUB MAJ	RAM SANEHI YADAV	
834	JC	660691Y	SUB MAJ	SOJI RAM	
835	JC	660524H	SUB MAJ	S RADHAKRISHNAN	
836	JC	206363K	SUB MAJ	SUKHCHAIN SINGH	
837	JC	661030L	SUB	AKHIL KRISHNA BISWAS	
838	JC	661684P	SUB	A SAVARI MUTHU	
839	JC	662086K	SUB	ASHA RAM	
840	JC	640515A	SUB	ASHOKE KUMAR SAHA	
841	JC	661084M	SUB	BALBIR SINGH	
842	JC	640707X	SUB	BHADRESWAR ADHIKARY	
843	JC	661805L	SUB	DARBARA SINGH	
844	JC	640929M	SUB	DIGENDRA SAIKIA	
845	JC	661366L	SUB	G SUBRAMANYAM CHETTY	
846	JC	661216P	SUB	GULJHARI LAL	
847	JC	661320H	SUB	GURBACHAN LAL	
848	JC	661535F	SUB	HARI PRASAD	
849	JC	661581W	SUB	HIRA LAL	
850	JC	661233P	SUB	KARAM SINGH	
851	JC	661860F	SUB	LIBEN CHANDRA RAY	
852	JC	661544H	SUB	MADAN LAL	
853	JC	661257Y	SUB	MANNI LAL	
854	JC	213645L	SUB	MANOJ KUMAR CHOUDHARY	
855	JC	662079N	SUB	MARUTI GHASTE	
856	JC	661866H	SUB	MAUJI RAM	
857	JC	214707M	SUB	MEGHA RAM	
858	JC	208971K	SUB	MEHAR SINGH	
859	JC	661690H	SUB	NALAGE BHAGWAT RAMLING	
860	JC	661214K	SUB	PARTAP SINGH	

861	JC	641161P	SUB	PATIL ASHOK KISAN RAO
862	JC	640870X	SUB	PREM SINGH CHAUHAN
863	JC	641215L	SUB	PURSHOTAM LAL SHARMA
864	JC	661160N	SUB	RAJENDER SINGH KHATI
865	JC	662083W	SUB	RAMESH SINGH
866	JC	661629Y	SUB	RAM SWARUP GURJAR
867	JC	640483H	SUB	RANGASAMY M
868	JC	661252A	SUB	SEVA RAM KHAIRWA
869	JC	661873Y	SUB	SHIV NARAIN SINGH
870	JC	661258F	SUB	SHRI KRISHAN
871	JC	661017F	SUB	SHYAMA CHARAN GHOSH
872	JC	662066W	SUB	UMESH CHANDRA NANDA

ARMY SERVICE CORPS(ANIMAL TRANSPORT)

873	JC	680064N	RIS MAJ	RAM NARESH
874	JC	680035Y	RIS MAJ	TARA CHAND
875	JC	680312Y	RIS	JASSA SINGH
876	JC	680115W	RIS	KUMUD RANJAN BALA
877	JC	680420H	RIS	MD ISRAIL
878	JC	680126H	RIS	SANAT KUMAR CHOWDHURY

ARMY MEDICAL CORPS

879	JC	690479W	SUB MAJ	ANANT RAM
880	JC	690837W	SUB MAJ	BACHAN RAM TUPPAR
881	JC	690673L	SUB MAJ	BAISHNAB CHARAN BEHERA
882	JC	690798H	SUB MAJ	DEW BAHADUR CHHETRI
883	JC	690654A	SUB MAJ	GOVIND SINGH
884	JC	690834H	SUB MAJ	HANUMAN SINGH
885	JC	690831P	SUB MAJ	HAR KISHAN SINGH
886	JC	690963H	SUB MAJ	HEER SINGH CHAUDHARY
887	JC	690274F	SUB MAJ	HIMMAT SINGH RANA
888	JC	690273Y	SUB MAJ	KHADE BABAN SONYABAPU
889	JC	185424A	SUB MAJ	KHINYA RAM DHAKA
890	JC	691387W	SUB MAJ	KUNDAN SINGH ADHIKARI
891	JC	690772N	SUB MAJ	LACHMI CHAND
892	JC	690962A	SUB MAJ	LAL SINGH
893	JC	690801X	SUB MAJ	MANORANJAN BISWAS
894	JC	690799L	SUB MAJ	MAST RAM
895	JC	690358P	SUB MAJ	MOHAMMAD IQBAL KHAN
896	JC	691039P	SUB MAJ	NAND LAL DAS
897	JC	691402A	SUB MAJ	OM PARKASH
898	JC	690844M	SUB MAJ	RAMESH CHANDRA
899	JC	690795P	SUB MAJ	RAMJI PRASAD
900	JC	89596X	SUB MAJ	RAM KRIPAL MISHRA
901	JC	690964L	SUB MAJ	SAROOP SINGH
902	JC	172443M	SUB MAJ	SURESH KUMAR
903	JC	692378F	SUB	BHAMWAR SINGH
904	JC	198362K	SUB	CHANDRA MOHANA PRABHUM M

(RT)

905	JC	692708P	SUB	JADHAV SHIVAJI KRISHNA
906	JC	691056P	SUB	MOHINDER PAL
907	JC	691059H	SUB	NARAYAN SWARUP
908	JC	692133L	SUB	NATHOON RAM
909	JC	693085H	SUB	RAM GOPAL
910	JC	692713A	SUB	SHIV BAHADUR
911	JC	691166K	SUB	SUBASH CHANDRA RAI

ARMY ORDNANCE CORPS

912	JC	217502H	SUB MAJ	BALRAM SINGH
913	JC	217432P	SUB MAJ	BIKRAM JIT
914	JC	212296A	SUB MAJ	GOKAL SINGH GAUR
915	JC	212246P	SUB MAJ	GURBACHAN SINGH SABHERWAL
916	JC	217714N	SUB MAJ	HACHAN RAJA CHAUDHURY
917	JC	223183X	SUB MAJ	HARISH CHANDRA
918	JC	225175X	SUB MAJ	LALTA PRASAD
919	JC	214130X	SUB MAJ	MOHINDER SINGH
920	JC	221666W	SUB MAJ	MRINAL KANTI NATH
921	JC	217715W	SUB MAJ	NEPAL SINGH
922	JC	722291X	SUB MAJ	PARAG YADAV
923	JC	217698F	SUB MAJ	SANKAR DAYAL
924	JC	213088X	SUB MAJ	S BALARAMAN
925	JC	202444M	SUB MAJ	SHYAM BEHARI TIWARI
926	JC	187602W	SUB MAJ	SHYAM DEO
927	JC	213228Y	SUB MAJ	UTTAM CHAND
928	JC	217491F	SUB MAJ	WANGKHEIRAKPAM KAMAL SINGH
929	JC	209990F	SUB MAJ	YALEM LAXMAIAH
930	JC	723560L	SUB	ARDHI PAPA RAO
931	JC	722884K	SUB	BABU RAM
932	JC	722935M	SUB	GHANA KANTA KEOT
933	JC	723670A	SUB	GOPALA KRISHNA PILLAIN
934	JC	723878H	SUB	KHUSHAL SINGH
935	JC	724574X	SUB	LALA RAM
936	JC	723675Y	SUB	OM NARAIN
937	JC	722845L	SUB	RAGHUBIR SINGH
938	JC	723757F	SUB	RAGHUBIR SINGH RAWAT
939	JC	225333F	SUB	RAMU SINGH
940	JC	724703M	SUB	RASH PAUL
941	JC	724807N	SUB	SHISHU PAL SINGH

CORPS OF ELECTRICAL AND MECHANICAL ENGINEERS

942	JC	189036A	SUB MAJ	A JOVIN RAJU
943	JC	189209M	SUB MAJ	AMAR JEET SINGH
944	JC	222429Y	SUB MAJ	AMBIKA PRASAD
945	JC	224657A	SUB MAJ	BABU LAL SINGH
946	JC	188818K	SUB MAJ	BASAVANTAPPA KUMBAR
947	JC	79947N	SUB MAJ	BHAGIRATH PATHAK
948	JC	218777H	SUB MAJ	BHOLA RAM

(RT)

949	JC	747905A	SUB MAJ	BIJENDRA SINGH RAUTHAN
950	JC	188803F	SUB MAJ	BRASHAV SINGH
951	JC	189031F	SUB MAJ	CHANDER PAL
952	JC	188809H	SUB MAJ	CHATURI SINGH YADAV
953	JC	181487L	SUB MAJ	DHARAM PAL DHADWAL
954	JC	176037K	SUB MAJ	DWARKA PRASAD SWAMI
955	JC	189030Y	SUB MAJ	GOPINATH V
956	JC	218768F	SUB MAJ	GURDEV SINGH
957	JC	747891L	SUB MAJ	HARBANS LAL
958	JC	184172M	SUB MAJ	HARBANS LAL
959	JC	217249M	SUB MAJ	JAI SINGH MANHAS
960	JC	189062F	SUB MAJ	JAI VIR SINGH
961	JC	749268N	SUB MAJ	KAMALJIT SHARMA
962	JC	213744N	SUB MAJ	KUMARESH CHANDRA MANDAL
963	JC	181624Y	SUB MAJ	MAHADEV SINGH BISHT
964	JC	224141X	SUB MAJ	MEGH RAJ RAI
965	JC	217275N	SUB MAJ	MOHAMMAD SALIM
966	JC	221935X	SUB MAJ	PRAKASH CHANDRA
967	JC	189123N	SUB MAJ	PRAKASH N
968	JC	207195H	SUB MAJ	RADHAKRISHNAN C
969	JC	189377L	SUB MAJ	RAM BHAJ SINGH RATHDHANIA
970	JC	214487N	SUB MAJ	RAM NARAIN CHAUDHARI
971	JC	224139A	SUB MAJ	SAGAR RAM
972	JC	189019A	SUB MAJ	SANT RAM PANDEY
973	JC	181587W	SUB MAJ	SHREE PRASAD BHUJEL
974	JC	189301L	SUB MAJ	SOMDEV
975	JC	187855L	SUB MAJ	SORAN SINGH
976	JC	188810X	SUB MAJ	SUBASH CHANDRA BOSE K
977	JC	188967X	SUB MAJ	SURESH TIWARI
978	JC	176080L	SUB MAJ	VIRENDER KUMAR
979	JC	188972H	SUB MAJ	ZILE SINGH
980	JC	751064A	SUB	AJAYA KUMAR NAYAK
981	JC	753369Y	SUB	A SEKAR
982	JC	747051L	SUB	ASHOK KUMAR SARKAR
983	JC	748859H	SUB	BABUA SINGH
984	JC	753367N	SUB	BALWINDER SINGH
985	JC	752487A	SUB	DEVENDRA SUKHADEO PRASAD TIWARI
986	JC	751214L	SUB	DINESH CHANDRA PROMANI
987	JC	751456N	SUB	GANJA BAHADUR CHHETRI
988	JC	747772P	SUB	GYAN SINGH
989	JC	753088H	SUB	KALLU PRASAD
990	JC	753425M	SUB	KASTURE PRAKASH
991	JC	751795N	SUB	MOHANA CHARAN SINGH
992	JC	750314K	SUB	MOHANDAS M G
993	JC	750193N	SUB	MURARI LAL
994	JC	751073F	SUB	NAND KISHOR
995	JC	749125N	SUB	NAND KUMAR DANGE
996	JC	752821W	SUB	NINGALIAH B
997	JC	753322N	SUB	OM PARKASH KUMHAR

998	JC	748367K	SUB	PABITRA KUMAR KHAN
999	JC	748369P	SUB	PRATIPAL SINGH
1000	JC	747052N	SUB	PREM BAHADUR
1001	JC	748592Y	SUB	RAJENDER KUMAR
1002	JC	750901P	SUB	RAM EKBAL RAM
1003	JC	749445H	SUB	RAMESH KUMAR
1004	JC	752507H	SUB	RAMJOY SINGHA
1005	JC	752396W	SUB	RAM NARAIN KESHARI
1006	JC	751460W	SUB	ROHANI RAMAN PRATAP BAHADUR SINGH
1007	JC	748365Y	SUB	ROSHAN LAL THAKUR
1008	JC	749927X	SUB	SATPAUL SAINI
1009	JC	749866L	SUB	SHAKE KHAJAVALLI
1010	JC	748850N	SUB	SHEOJEE BAITHA
1011	JC	754832F	SUB	SHIV SHANKER MISHRA
1012	JC	753832P	SUB	SHRI RAM OJHA
1013	JC	749489A	SUB	SHRI VITHAL RUNJAJI MOTHE
1014	JC	753255N	SUB	SHYAM SINGH
1015	JC	749987M	SUB	SINGARAM MANOHARAN
1016	JC	752731P	SUB	SUBRAMANIA KARUPPA
1017	JC	750857W	SUB	SUMER SINGH KHALER
1018	JC	752501F	SUB	TEJ SINGH
1019	JC	751721Y	SUB	TIRLANGI KONDALA RAO
1020	JC	750191H	SUB	VIDYADHAR SINGH
1021	JC	751720W	SUB	VIJAI BAHADUR

ARMY EDUCATION CORPS

1022	JC	198457K	SUB MAJ	BALBIR SINGH
1023	JC	802431M	SUB MAJ	BANWARI SINGH
1024	JC	203978K	SUB MAJ	BRAJ KISHORE SINGH
1025	JC	193363H	SUB MAJ	CHET RAM
1026	JC	201643N	SUB MAJ	MAHENDER SINGH
1027	JC	206130H	SUB MAJ	MAHESH CHAND
1028	JC	206348P	SUB MAJ	MARKANDEY PANDEY
1029	JC	206128L	SUB MAJ	OM VIR SINGH KADYAN
1030	JC	198444M	SUB MAJ	PREM LAL VARMI
1031	IC	200574W	SUB MAJ	RAM SALONE MISHRA
1032	JC	206344Y	SUB MAJ	RANDHIR SINGH
1033	JC	802541F	SUB	BIKASH CHANDRA MOHANTY
1034	JC	216199A	SUB	JOGINDER SINGH
1035	JC	206798M	SUB	MOHINDER SINGH MEHRA

REMOUNT AND VETERINARY CORPS

1036	RV	7744N	RIS MAJ	TUSHAR KANTI MANDAL
1037	JC	797149P	RIS	BHOPAL SINGH JANGIR
1038	JC	797144W	RIS	ISSAC P C

THE INTELLIGENCE CORPS

1039	JC	186633K	SUB MAJ	BALDEV SINGH
1040	JC	198164Y	SUB MAJ	GURPAL SINGH SANDHU

1041	JC	191209L	SUB MAJ	KANCHAN SINGH
1042	JC	197804L	SUB MAJ	LAKHBIR SINGH RANDHAWA
1043	JC	186631Y	SUB MAJ	MANGAL SINGH
1044	JC	195886A	SUB MAJ	MOHINDER SINGH JAMWAL
1045	JC	186612N	SUB MAJ	SURAM CHAND
1046	JC	810005N	SUB	MAHENDRA SINGH RATHORE

CORPS OF MILITARY POLICE

1047	JC	214727A	SUB MAJ	BABATON SINGHA
1048	JC	210122F	SUB MAJ	BALDEV SINGH
1049	JC	214754K	SUB MAJ	SHYAM LAL GORLAL
1050	JC	818225M	SUB	HUKUM SINGH BENIWAI
1051	JC	818300L	SUB	NURUL ISLAM
1052	JC	818291P	SUB	PHANIDHAR GOGOI
1053	JC	818341P	SUB	P THANGA PANDIAN
1054	JC	818256M	SUB	VYANKAT PRASAD

ARMY PHYSICAL TRAINING CORPS

1055	JC	186813M	SUB MAJ	BHAGWAN SINGH
1056	JC	826041H	SUB	CHANDRAN V

THE PIONEER CORPS

1057	JC	186831P	SUB MAJ	PRATAP SINGH KUSHWAH
------	----	---------	---------	----------------------

ARMY POSTAL SERVICE

1058	JC	834098M	SUB	INDRA PAL
------	----	---------	-----	-----------

DEFENCE SECURITY CORPS

1059	JC	840466M	SUB	BHANWAR SINGH
1060	JC	150823L	SUB	HARBANS LAL
1061	JC	840661K	SUB	JAI SINGH
1062	JC	840557W	SUB	KARAM SINGH
1063	JC	172456K	SUB	N BALASUBRAMANIAN
1064	JC	840173F	SUB	RAGHBIR SINGH
1065	JC	217594A	SUB	RAJ MANI
1066	JC	211840K	SUB	RAM KUNWAR

TERRITORIAL ARMY

1067	TJ	3283X	SUB MAJ	KARAM SINGH
1068	TJ	4296	SUB	ALBAIL SINGH
1069	TJ	3135	SUB	HARBANS LAL
1070	TJ	3467W	SUB	LAXMAN SINGH
1071	TJ	3468Y	SUB	MADAN SINGH
1072	TJ	3022	SUB	MAN SINGH
1073	TJ	3201K	SUB	M I KRISHNAN
1074	TJ	3140X	SUB	NAGAPPA BHUSHI
1075	TJ	3202	SUB	RAM CHANDER
1076	TJ	3064	SUB	SHAIKH BABA SAHEB WALI SAHEB
1077	TJ	3028	SUB	SUR YAWANSHI SURESH MADHAV RAO

1078	TJ	3627L	SUB	T K VIJAYAN
1079	TJ	3380P	SUB	UMED SINGH
1080	TJ	3049	SUB	VINOD KUMAR SINGH
1081	TJ	3387N	SUB	VISHNU NATHU KADBHANE

[No. B/43432/RD-05/AG/CW-2]

MOHINDER SINGH, Lt. Gen., Adjutant General

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जनवरी, 2005

सं० 02(अ) दिनांक 26 जनवरी, 2005.—राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस के अवसर पर निम्नलिखित अवैतनिक जे सी ओज को उनकी सेवा पूरी होने पर उनके नामों के सामने दी हुई तारीख से सेना विनियमावली 1987 के पैरा 179 के अधीन अवैतनिक पद प्रदान करते हैं :—

अवैतनिक कप्तान के रूप में

कवचित्त कोर

1	जेसी	219085ए	रिसालदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	दीगम्बर सिंह चाउधी	1-12-2004
2	जेसी	236228एल	रिसालदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	जी नरसिंह दास	1-12-2004
3	जेसी	235568डब्ल्यू	रिसालदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	हंस राज	1-12-2004
4	जेसी	235659एल	रिसालदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	लिला राम गीना	1-12-2004
5	जेसी	236422ए	रिसालदार एवं अवैतनिक लै.	बछीन्द्रा कुमार गरनायक	1-10-2004
6	जेसी	237045एफ	रिसालदार एवं अवैतनिक लै.	चंद्र सिंह	1-10-2004
7	जेसी	236557एफ	रिसालदार एवं अवैतनिक लै.	दसारथी बेउरा	1-10-2004
8	जेसी	237722एन	रिसालदार एवं अवैतनिक लै.	द्वारका प्रसाद	1-10-2004
9	जेसी	236278डब्ल्यू	रिसालदार एवं अवैतनिक लै.	गिरिधारी लाल	1-11-2004
10	जेसी	235903ए	रिसालदार एवं अवैतनिक लै.	हमजा एग	1-10-2004
11	जेसी	235845एफ	रिसालदार एवं अवैतनिक लै.	इंदल सिंह	1-9-2004
12	जेसी	237565एम	रिसालदार एवं अवैतनिक लै.	जगतार सिंह	1-10-2004
13	जेसी	211455ए	रिसालदार एवं अवैतनिक लै.	करन सिंह	1-9-2004
14	जेसी	237721एल	रिसालदार एवं अवैतनिक लै.	करतार सिंह	1-11-2004
15	जेसी	237485पी	रिसालदार एवं अवैतनिक लै.	मान सिंह	1-9-2004

16	जेसी	237981डब्ल्यू	रिवालदार एवं अवैतनिक लै.	मुकन्डा राम	1-1-2005
17	जेसी	238538पी	रिवालदार एवं अवैतनिक लै.	ओम सिंह	1-11-2004
18	जेसी	237953के	रिवालदार एवं अवैतनिक लै.	राम पाल सिंह	1-10-2004
19	जेसी	236885पी	रिवालदार एवं अवैतनिक लै.	रामजी सिंह	1-9-2004
20	जेसी	237055एल	रिवालदार एवं अवैतनिक लै.	समपंगी रमन एस	1-10-2004
21	जेसी	223478एन	रिवालदार एवं अवैतनिक लै.	शमशेर सिंह	1-11-2004
22	जेसी	236370पी	रिवालदार एवं अवैतनिक लै.	शंकर लाल	1-11-2004
23	जेसी	238585एम	रिवालदार एवं अवैतनिक लै.	स्वर्ण सिंह	1-11-2004

रेजिमेन्ट आफ तोपखाना

24	जेसी	200489एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	अमर सिंह	1-10-2004
25	जेसी	256437के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	अमरेन्द्र शर्मा	1-10-2004
26	जेसी	195114एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	बहादुर सिंह	1-1-2005
27	जेसी	223296ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	दिलबाग सिंह	1-10-2004
28	जेसी	218655वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	कुलदीप सिंह	1-9-2004
29	जेसी	200391ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	प्यारे लाल यादव	1-11-2004
30	जेसी	202404एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	राजेंद्र सिंह	1-12-2004
31	जेसी	172704पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	राजू पीएम	1-10-2004
32	जेसी	195086एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	तेहल सिंह	1-9-2004
33	जेसी	181990एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	तिलक राज	1-9-2004
34	जेसी	209371एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	अनन्त राम चौहान	1-12-2004
35	जेसी	257605के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बलजिन्दर सिंह गिर्न	1-10-2004
36	जेसी	226762पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बसंत राज	1-11-2004
37	जेसी	281381एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	ब्रह्म चंद	1-10-2004
38	जेसी	260870एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	चैन सिंह	1-10-2004
39	जेसी	259843पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	चंचल सिंह संधू	1-1-2005

40	जेसी	259578के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	दलीप सिंह	1-9-2004
41	जेसी	256065के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	दशरथ लाल यादव	1-11-2004
42	जेसी	258020एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	दाता राम यादव	1-10-2004
43	जेसी	259347एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	दौलत सिंह भाटी	1-12-2004
44	जेसी	260780के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	धर्मराज	1-12-2004
45	जेसी	262845एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	दुरई राजू	1-1-2005
46	जेसी	259128एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	गुरचरण सिंह	1-12-2004
47	जेसी	201250एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	गुरमेल सिंह	1-9-2004
48	जेसी	255203एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	हरी कुमार कुरुप के	1-10-2004
49	जेसी	261818पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	हिंद कुमार	1-9-2004
50	जेसी	261093ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	जगदीश चंद्र	1-11-2004
51	जेसी	260816एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	जगमाल सिंह	1-1-2005
52	जेसी	255838एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	जय सिंह	1-9-2004
53	जेसी	262010डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	जयराज एन	1-1-2005
54	जेसी	257143एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	के राधाकृष्णन	1-11-2004
55	जेसी	261155पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	केवल सिंह गुरूग	1-10-2004
56	जेसी	255135एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	कृष्ण लाल	1-9-2004
57	जेसी	260223एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	लोचन सिंह यादव	1-1-2005
58	जेसी	223707एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	एम एस सत्य मुर्ती	1-1-2005
59	जेसी	260488पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	मदन लाल	1-10-2004
60	जेसी	226072एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	मदन सिंह	1-1-2005
61	जेसी	259345एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	मेहर सिंह	1-1-2005
62	जेसी	178916डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	मोहिन्दर सिंह	1-10-2004
63	जेसी	214428एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	ओम प्रकाश लथेर	1-11-2004
64	जेसी	226576वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	पवार नंदराम तुलसीराम	1-11-2004

65	जेसी	225372ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	प्यार चंद	1-9-2004
66	जेसी	261744एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	आर कृष्णमूर्ति	1-10-2004
67	जेसी	258819एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राज सिंह मलिक	31.08.2004
68	जेसी	256867एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राजेंद्र सिंह	1-12-2004
69	जेसी	257091एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राजपाल सिंह	1-9-2004
70	जेसी	257074एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	रनबीर सिंह	1-1-2005
71	जेसी	256007ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सदानन्दा कलिता	1-11-2004
72	जेसी	255656वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सीता राम	1-1-2005
73	जेसी	256665एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सुरेश कुमार	1-11-2004
74	जेसी	257204पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	तारा दत्त	1-1-2005
75	जेसी	259236डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	थमन बहादुर पुन	1-10-2004
76	जेसी	223109डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	उदय सिंह	1-9-2004
77	जेसी	224737एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	उम्मेद सिंह भाटी	1-9-2004
78	जेसी	255845एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	विजय कुमार	1-1-2005
79	जेसी	257337एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	विजय सिंह	1-9-2004

कोर आफ वायु रक्षा तोपखाना

80	जेसी	174151एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	बालाक वारायडल	1-10-2004
81	जेसी	175300एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	बांस गोपाल शर्मा	1-12-2004
82	जेसी	153213के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	आइ रोसे एच	1-12-2004
83	जेसी	169923एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	पदम सिंह	1-1-2005
84	जेसी	190740एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	पिताम्बर थापा	1-10-2004
85	जेसी	179215एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	आर एसाकी	1-12-2004
86	जेसी	172101वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	रामपुकार शर्मा	1-11-2004
87	जेसी	172119पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	सुरिन्दर कुमार	1-11-2004
88	जेसी	165628एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	टेक बहादुर थापा	1-9-2004

89	जेसी	296172एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	चमन लाल वर्मा	1-1-2005
90	जेसी	186484एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	देस राज	1-10-2004
91	जेसी	296957एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	दीवान सिंह	1-1-2005
92	जेसी	211889ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	गिरीश चंद्रा	1-10-2004
93	जेसी	296171एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	कुलदीप कुमार	1-11-2004
94	जेसी	296508एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	नित्या नन्द यादव	1-1-2005
95	जेसी	296695एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राज सिंह	1-10-2004

मद्रास इंजीनियर ग्रुप

96	जेसी	174455ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	ए यादगिरि	1-9-2004
97	जेसी	177266एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	चेन्नाप्पन चेन्नाप्पन	1-9-2004
98	जेसी	305137पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	देवादसन ओ के	1-12-2004
99	जेसी	219359ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	कोडंडा रमा	1-10-2004
100	जेसी	220888वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	कोशी वरधसे	1-9-2004
101	जेसी	177295डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	गथाई कुदटी सी	1-9-2004
102	जेसी	177379के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	गोहनदास के	1-11-2004
103	जेसी	179979एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	मुनुसामी अंबालागन	1-12-2004
104	जेसी	179959एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	नटेशन मोहन	1-12-2004
105	जेसी	177320के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	तिरुवेंगरम	1-12-2004
106	जेसी	177268एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	ए दक्षिणा मूर्ति	1-12-2004
107	जेसी	215768डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	डी सवारिनाथेन	1-12-2004
108	जेसी	306098एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	के डी	1-12-2004
109	जेसी	305478ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	के शिवारामाकृष्णामूर्ती	1-11-2004
110	जेसी	305029एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	एल राजेन्द्रन	1-9-2004
111	जेसी	215701एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	लोगानाथन एम	1-1-2005
112	जेसी	305057एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	परेपल्ली भारकर राव	1-10-2004

113	जेसी	306099डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	प्रभाकरण एम जी	1-12-2004
114	जेसी	305521डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राजेन्द्रन एम	1-12-2004
115	जेसी	305680एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	एस मोहनदोस	1-12-2004
116	जेसी	215765एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	समन के	1-12-2004
117	जेसी	438273ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सेकार जी ए एसएम	1-10-2004
118	जेसी	197098पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सुरेशन के पी	1-9-2004
119	जेसी	197021एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	तिलक सिंह नरवारिया	1-12-2004

बंगाल इंजीनियर ग्रुप

120	जेसी	210603एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	बालक राम शर्मा	1-1-2005
121	जेसी	182488ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	बांस नारायण रौय	1-1-2005
122	जेसी	202917ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	हर मोहिन्दर राम	1-9-2004
123	जेसी	174872एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	जवाहर प्रसाद	1-11-2004
124	जेसी	177105वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	निर्मल सिंह	1-11-2004
125	जेसी	210564ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	रमेश चंद्र शर्मा	1-12-2004
126	जेसी	182445एल-	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	शीश राम	1-11-2004
127	जेसी	326528एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	अजयपाल सिंह चौहान	1-10-2004
128	जेसी	325236वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	आनंद बल्लभ जोशी	1-10-2004
129	जेसी	325219वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	दलीप सिंह	1-10-2004
130	जेसी	326599पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	धन सिंह	1-10-2004
131	जेसी	325424ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	धर्म सिंह नेगी	1-10-2004
132	जेसी	325394एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	दीन बंधु राम	1-9-2004
133	जेसी	325779एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	फोजा सिंह	1-1-2005
134	जेसी	325247एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	गुप्तेश्वर नाथ सिंह	1-11-2004
135	जेसी	219513एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	हरी सिंह	1-9-2004
136	जेसी	326073एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	हरीश सिंह	1-10-2004

137	जेसी	325226पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	हरवीर सिंह	1-10-2004
138	जेसी	325403के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	हिम्मत सिंह	1-10-2004
139	जेसी	325114पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	जगत सिंह	1-9-2004
140	जेसी	325420के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	जगदीश सिंह	1-11-2004
141	जेसी	326255डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	जगतार सिंह	1-10-2004
142	जेसी	325396वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	करन जीत सिंह	1-9-2004
143	जेसी	325147ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	कृपाल सिंह	1-11-2004
144	जेसी	325419पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	ललित मोहन	1-11-2004
145	जेसी	325091वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	महाबीर सिंह	1-9-2004
146	जेसी	325432वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	महाबीर सिंह	1-11-2004
147	जेसी	326568पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	महीपाल सिंह	1-9-2004
148	जेसी	326486एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	मोहन चंद्रा	1-10-2004
149	जेसी	326105ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	नरेन्द्र सिंह	1-11-2004
150	जेसी	325231ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राजन वी	1-10-2004
151	जेसी	325405पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राम दत्त सिंह	1-10-2004
152	जेसी	325409एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राम नाथ शर्मा	1-10-2004
153	जेसी	325249डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	संध्या लाल	1-11-2004
154	जेसी	325118एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सरयू प्रसाद सिंह	1-10-2004
155	जेसी	325459डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	शक्ति सिंह	1-10-2004
156	जेसी	326126डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	शिवा नन्द सिंह	1-10-2004
157	जेसी	325162पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सुरेद्र सिंह रावत	1-9-2004
158	जेसी	325239एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	उदय भान सिंह	1-10-2004
159	जेसी	142711डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	उमेश नैथानी	1-11-2004
बंबई इंजीनियर ग्रुप					
160	जेसी	203062पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	अजित लकरा	1-11-2004

161	जेसी	191635वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	चंदगी राम	1-1-2005
162	जेसी	186335एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	दिलबाग सिंह	1-9-2004
163	जेसी	191629एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	मस्त राम	1-1-2005
164	जेसी	203095ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	पर्शातम चंद शर्मा	1-1-2005
165	जेसी	203125एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	सरूप सिंह	1-12-2004
166	जेसी	199993वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	सुरिन्दर सिंह	1-10-2004
167	जेसी	347944एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	दर्शन सिंह	1-9-2004
168	जेसी	203098एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	दिलीप कुमार	1-1-2005
169	जेसी	347916वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	दुधाले श्रीकांत बालू	1-9-2004
170	जेसी	347162पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	कर्म सिंह	1-9-2004
171	जेसी	347189एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	नियाज अहमद	1-9-2004
172	जेसी	347646एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राम नन्दन ठाकुर	1-9-2004
कोर आफ सिगनल्स					
173	जेसी	214278डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	बम पाडा साहा	1-10-2004
174	जेसी	188061एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	भोगेस्वर बोर्डालय	1-11-2004
175	जेसी	221479एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	बिरमानी सिंघा	1-10-2004
176	जेसी	188047ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	बिशम्बर दास	1-9-2004
177	जेसी	223817एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	गजे सिंह तमक	1-10-2004
178	जेसी	207353एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	घनसवन्त रामचंद्र	1-1-2005
179	जेसी	175758एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	जगदीश चंद	1-12-2004
180	जेसी	223455एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	किशन चंद	1-10-2004
181	जेसी	367031एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	मगन बिहारी पान्डे	1-10-2004
182	जेसी	367026ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	मानकाडी प्रसाद	1-11-2004
183	जेसी	215332एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	मेघा राम सुमन	1-1-2005
184	जेसी	221476के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	मोहन लाल	1-12-2004

185	जेसी	368911एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	नन्द किशोर	1-12-2004
186	जेसी	175751एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	प्रदीप कुमार लाल	1-10-2004
187	जेसी	182158एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	प्रकाश चंद	1-9-2004
188	जेसी	172839डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	प्रहलाद शंकर चोपड	1-9-2004
189	जेसी	367054एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	राम अयोध्या सिंह	1-12-2004
190	जेसी	367029एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	राम कुमार कुशावाहा	1-12-2004
191	जेसी	221481पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	रमेश चंद	1-12-2004
192	जेसी	78056वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	रूप कृष्णा शुक्ला	1-9-2004
193	जेसी	367040एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	सीता राम	1-12-2004
194	जेसी	367041पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	सुरेंद्र प्रसाद दुबे	1-1-2005
195	जेसी	180932एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	सुरिन्दर पाल	1-12-2004
196	जेसी	163323एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	तरसेम लाल	1-11-2004
197	जेसी	367370एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	यग्यानारायण वर्मा	1-1-2005
198	जेसी	371723एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बाल राज	1-12-2004
199	जेसी	367362एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बालचन्द्रन जे	1-10-2004
200	जेसी	371073पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बिधु भुसन नाथ	1-1-2005
201	जेसी	369844ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सी जयक	1-12-2004
202	जेसी	371056पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	देव नाथ सिंह	1-11-2004
203	जेसी	370131एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	हरे राम ठाकुर	1-1-2005
204	जेसी	371101डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	हरी नाम	1-12-2004
205	जेसी	371701वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	हरिहर राम	1-10-2004
206	जेसी	372336पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	हरीश चंद्रा	1-10-2004
207	जेसी	371336एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	जगदीश लाल	1-10-2004
208	जेसी	371427एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	जीवन सिंह	1-9-2004
209	जेसी	368339एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	कल्लू मिह	1-10-2004

210	जेसी	371327एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	कपिल देव भगत	1-9-2004	
211	जेसी	188068डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	क्षीतिश चंद्रा सिंह	1-12-2004	
212	जेसी	370823डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	मनी बी सी	1-12-2004	
213	जेसी	370836एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	मनी राम	1-1-2005	
214	जेसी	370626एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	मोहन प्रसाद	1-1-2005	
215	जेसी	368003एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राजेंद्र राम	1-11-2004	
216	जेसी	371401एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राम सागर यादव	1-10-2004	
217	जेसी	371547एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	रोहतास सिंह	1-9-2004	उद्घाटनार्थ
गार्डस						
218	जेसी	157789वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	राघवन नायर राजन ए	एसएम. 1-12-2004	
219	जेसी	208295ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	तेग सिंह चौहान	1-11-2004	
220	जेसी	402195एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	अंग्राहित सिंह यादव	1-1-2005	
221	जेसी	402768एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	दुलाल च. दौ	1-10-2004	
222	जेसी	402673एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	गनेश दत्त	1-10-2004	
223	जेसी	402676पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	गुरी सिंह	1-10-2004	
224	जेसी	402558डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	जयंत कुमार राय	1-10-2004	
225	जेसी	402345एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	मेख बहादुर सिंह	1-9-2004	
226	जेसी	402491एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	मिश्री लाल	1-9-2004	
227	जेसी	402767वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	पूरन चंद्रा	1-10-2004	
228	जेसी	402349के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	रामनिवास	1-9-2004	उद्घाटनार्थ
229	जेसी	402675एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	रवीन्द्र नाथ ठाकुर	1-10-2004	
पैराशूट रेजीमेन्ट						
230	जेसी	194508पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	रति राम	1-9-2004	
231	जेसी	412090एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	अशोक रामु मोरे	1-10-2004	
232	जेसी	412233एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	इकबाल सिंह	1-10-2004	

233	जेसी	222618एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	जगरूप सिंह	1-10-2004
234	जेसी	412095एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	करन सिंह यादव	1-10-2004
235	जेसी	412253पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	छ्छ अयप्पा	1-9-2004
236	जेसी	412255ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	प्यारा सिंह	1-1-2005
237	जेसी	412235एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	पूरन सिंह	1-10-2004
238	जेसी	412075एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	रुद्रा के आर राय	1-12-2004
239	जेसी	412333एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सतीश कुमार थापा	1-11-2004

मैकेनाइज्ड पैदल सेना रेजीमेन्ट

240	जेसी	204604ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	बारगे दत्तात्रेय शिवाजी	1-11-2004
241	जेसी	200866वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	गगन सिंह	1-10-2004
242	जेसी	200837के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	गोपी चंद	1-10-2004
243	जेसी	194231एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	हरी दत्त राय	1-11-2004
244	जेसी	168730वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	जगदीश चंद	1-10-2004
245	जेसी	189721एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	राम सिंह	1-9-2004
246	जेसी	204608डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	सोम राज	1-1-2005
247	जेसी	418189वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बुआ सिंह	1-9-2004
248	जेसी	181407एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	नरेन्द्र सिंह	1-9-2004
249	जेसी	216390एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	रामबीर सिंह चौहान	1-9-2004
250	जेसी	418627डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	युद्धवीर सिंह ए एसएम	1-10-2004

पंजाब रेजिमेन्ट

251	जेसी	428127एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	दरबारा सिंह	1-1-2005
252	जेसी	192522एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	जसपाल सिंह	1-11-2004
253	जेसी	174911ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	सतनाम सिंह	1-10-2004
254	जेसी	428717एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	अवतार सिंह राणा	1-10-2004

255	जेसी	428260पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बलदेव सिंह	1-10-2004
256	जेसी	428436पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	चमेल सिंह जामवाल	1-10-2004
257	जेसी	428612एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	गेंदा सिंह	1-11-2004
258	जेसी	428622एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	घरू राम	1-10-2004
259	जेसी	428225एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	झिलमल सिंह	1-9-2004
260	जेसी	212831पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	मनजीत सिंह	1-10-2004
261	जेसी	428356एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	नरिंद्र सिंह	1-9-2004
262	जेसी	428141वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	निर्मल सिंह	1-9-2004
263	जेसी	428222वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	प्यारा लाल	1-10-2004
264	जेसी	428407ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राजिन्दर सिंह कटोच	1-10-2004
265	जेसी	428420के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राम दास	1-9-2004
266	जेसी	428263एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राम लाल	1-9-2004
267	जेसी	428354एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	रमेश चंद	1-10-2004
268	जेसी	428199डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	रंजीत सिंह	1-1-2005
269	जेसी	428443एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	रेशम सिंह	1-12-2004
270	जेसी	428656वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सरदारी लाल	1-10-2004
271	जेसी	428639वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सुबाष चंद चम्बियाल	1-11-2004
272	जेसी	428376एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सुखदेव सिंह	1-11-2004
273	जेसी	428309ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सुखवीर सिंह	1-9-2004
274	जेसी	428637एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	त्रिलोक चंद राणा	1-10-2004
275	जेसी	428438ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	विजय कुमार	1-9-2004
मद्रास रेजीमेन्ट					
276	जेसी	160867डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	बाबू पुथिया पुरायील	1-12-2004
277	जेसी	148304के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	एम पीटर	1-9-2004
278	जेसी	156870वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	पी गणेशन	1-9-2004

279	जे०सी	156857पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	श्रीधरण	1-10-2004
280	जे०सी	438181एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	ए सेनगोला	1-9-2004
281	जे०सी	216486के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	हल्लियाल शिवप्पा कानटेपा	1-10-2004
282	जे०सी	201814पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	एम वेल्लीइ	1-12-2004
283	जे०सी	212496डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	एस राजामूर्ती	1-10-2004
284	जे०सी	181751एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	थुलासिधरन पिल्लै ए	1-9-2004
ग्रेनेडियर्स					
285	जे०सी	448010पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	भंवर सिंह	1-9-2004
286	जे०सी	167423पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	लक्ष्मन गंगाराम दबेकर	1-3-2004
287	जे०सी	205478एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	मंगल सिंह	1-12-2004
288	जे०सी	210966एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	नारपाल सिंह	1-1-2005
289	जे०सी	155066एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	सादिक मोहम्मद भाटिआ	1-9-2004
290	जे०सी	448555एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बजरंग सिंह	1-10-2004
291	जे०सी	448482एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	भूर सिंह	1-1-2005
292	जे०सी	448349एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	धन पत्ति	1-10-2004
293	जे०सी	448570एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	दिलबाग सिंह कौंडले	1-10-2004
294	जे०सी	448397एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	हसम अली	1-1-2005
295	जे०सी	448385एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	हुसैन खान	1-10-2004
296	जे०सी	448745वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	इश्वर सिंह शेखावत	1-10-2004
297	जे०सी	448984एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	जय सिंह	1-11-2004
298	जे०सी	448537के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	किरन पाल सिंह	1-10-2004
299	जे०सी	448481एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	कृष्ण सिंह	1-9-2004
300	जे०सी	448135एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	कुशाल सिंह	1-10-2004
301	जे०सी	448525पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	मदन सिंह	1-1-2005
302	जे०सी	448276एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	एम बालासाहेब	1-12-2004

303	जेसी	448866ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	नफे सिंह	1-11-2004
304	जेसी	449008के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	नरिंद्र जीत	1-11-2004
305	जेसी	448643एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	ओम प्रकाश	1-10-2004
306	जेसी	448395एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	पारस नाथ सिंह	1-12-2004
307	जेसी	448541एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	आर सिंह देसवाल	1-11-2004
308	जेसी	448709एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	रामपाल सिंह यादव	1-12-2004
309	जेसी	448704पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	उमा राम देरू	1-10-2004
310	जेसी	448428एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	उमराव अली खान	1-10-2004
311	जेसी	448547एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	विजय कुमार	1-11-2004
312	जेसी	448691वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	यादव सिंह	1-11-2004

मराठा लघु पैदल सेना

313	जेसी	167422एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	हिंगमिरे रामलींग	1-11-2004
314	जेसी	151248एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	जाधव समभाजी शिवाजी	1-10-2004
315	जेसी	458206डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	कम्बलेकार बाबासाहेब गोविंद	1-11-2004
316	जेसी	156881एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	पाटिल रामचंद्र पांडुरंग	1-12-2004
317	जेसी	171851एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	सातुखे कृष्णा भाऊ	1-12-2004
318	जेसी	155100ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	धोंबरे दन्यानोवा रामराव	1-10-2004
319	जेसी	458636ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बिलौर अहमद खान	1-11-2004
320	जेसी	212542ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	जतींद्र रामचंद्र भोगड	1-10-2004
321	जेसी	458184एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	आर एल कृष्णा	1-1-2005

राजपूत राइफलस

322	जेसी	151689एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	नारायण सिंह देवरा	1-10-2004
323	जेसी	468676पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	अमे सिंह	1-12-2004
324	जेसी	468451एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	आमी लाल कुलहया	1-11-2004
325	जेसी	468337पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बहादुर सिंह ए एसएम	1-10-2004

326	जेसी	468399पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	देवी सिंह	1-12-2004
327	जेसी	468856एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	जबार सिंह	1-1-2005
328	जेसी	468773एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	जवान सिंह	1-12-2004
329	जेसी	468122डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	कृष्ण सिंह	1-12-2004
330	जेसी	468673एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	ओम देव	1-1-2005
331	जेसी	468275ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राजेन्द्र सिंह	1-12-2004
332	जेसी	468324एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राजेंद्र सिंह महला	1-9-2004
333	जेसी	468439एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राम निवास	1-11-2004
334	जेसी	468179एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	रामेश्वर दयाल	1-12-2004
335	जेसी	468890एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	रोहिताश्व राघवा	1-12-2004
336	जेसी	216808वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सतबीर सिंह	1-12-2004
337	जेसी	218461डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सवाई सिंह तन्वर	1-9-2004
338	जेसी	218456एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	श्रवण सिंह	1-12-2004
339	जेसी	468579एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सुखवीर सिंह	1-9-2004
राजपूत रेजीमेन्ट					
340	जेसी	205116के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	बलबीर सिंह	1-12-2004
341	जेसी	208066पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	ब्रमा प्रकाश दुबे	1-1-2005
342	जेसी	478474एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	अर्जुन सिंह	1-1-2005
343	जेसी	203675पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बलबीर सिंह चौहान	1-10-2004
344	जेसी	220938एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	भगवान सिंह	1-11-2004
345	जेसी	478808एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बीरपाल सिंह	1-9-2004
346	जेसी	478251के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बृज पाल	1-9-2004
347	जेसी	478022वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	दलीप सिंह	1-11-2004
348	जेसी	478341एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	देवी चंद	1-11-2004
349	जेसी	478255ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	फतेह सिंह	1-9-2004

350	जेसी	478002एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	गेंदा सिंह	1-9-2004
351	जेसी	478430के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	गिरान्द सिंह	1-10-2004
352	जेसी	478515ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	गिरधारी लाल	1-10-2004
353	जेसी	478288एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	हनुमान सिंह	1-10-2004
354	जेसी	478754पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	हरी सिंह	1-10-2004
355	जेसी	478153के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	जयबीर सिंह	1-9-2004
356	जेसी	478261एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	कुरा राम	1-1-2005
357	जेसी	478177एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	कुशल पाल सिंह	1-10-2004
358	जेसी	217990डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	मदन लाल	1-10-2004
359	जेसी	478342एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	मान सिंह	1-10-2004
360	जेसी	478396पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	मारदान सिंह	1-12-2004
361	जेसी	478720एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	नाथू सिंह	1-9-2004
362	जेसी	478337एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राज पाल	1-10-2004
363	जेसी	478335एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राजेंद्र सिंह	1-9-2004
364	जेसी	211037एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राम सिंह	1-10-2004
365	जेसी	478848एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	रवीन्द्र नाथ सिंह	1-10-2004
366	जेसी	478477पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	रूप चंद	1-9-2004
367	जेसी	478486डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	समय सिंह	1-10-2004
368	जेसी	478458के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सारदा राम	1-10-2004
369	जेसी	478663एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	शिशुपाल सिंह	1-10-2004
370	जेसी	478422एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सुरेश सिंह	1-10-2004
371	जेसी	218472एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	तिलोक सिंह	1-9-2004
372	जेसी	478207ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	दीजेन्द्र सिंह	1-9-2004

जाट रेजीमेन्ट

373	जेसी	181833डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	भगवान सिंह	1-12-2004
-----	------	---------------	---------------------------------	------------	-----------

374	जेसी	201037एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	हरदयाल सिंह जाट	1-10-2004
375	जेसी	179353एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	मांगी लाल चौधरी	1-9-2004
376	जेसी	204075बाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	ओम प्रकाश	1-12-2004
377	जेसी	179352एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	रणधीर सिंह	1-1-2005
378	जेसी	488689एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बलवान सिंह	1-12-2004
379	जेसी	488410के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	जयबीर सिंह	1-10-2004
380	जेसी	488790एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	मान मोहन सिंह	1-12-2004
381	जेसी	488474पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	संतोष पाल	1-12-2004
382	जेसी	488472के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	यशपाल	1-10-2004

सिख रेजीमेन्ट

383	जेसी	171735एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	भजन सिंह	1-12-2004
384	जेसी	171737एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	गुरनान सिंह	1-1-2005
385	जेसी	498126एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बागीचा सिंह	1-12-2004
386	जेसी	498239के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बलदेव सिंह	1-10-2004
387	जेसी	498192के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बलविन्दर सिंह	1-10-2004
388	जेसी	498152एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बलविन्दर सिंह	1-10-2004
389	जेसी	498053ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	चरन सिंह	1-9-2004
390	जेसी	498076एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	दर्शन सिंह	1-1-2005
391	जेसी	498307एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	गुरमेज सिंह	1-11-2004
392	जेसी	498331एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	हरदेव सिंह	1-1-2005
393	जेसी	498582एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	हरदेव सिंह	1-9-2004
394	जेसी	498059एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	जसविन्दर सिंह	1-12-2004
395	जेसी	498518पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	कुलदीप सिंह	1-10-2004
396	जेसी	498180पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	लखविन्दर सिंह	1-1-2005
397	जेसी	498189के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	मंगल सिंह	1-12-2004

398	जेसी	498379डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	प्रीतम सिंह	1-10-2004
399	जेसी	498351डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सरदारा सिंह	1-10-2004
400	जेसी	498011एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सरदुल सिंह	1-10-2004
401	जेसी	498175के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सतनाम सिंह	1-8-2004
402	जेसी	498120ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सेवा सिंह	1-11-2004

सिख लघु पैदल सेना

403	जेसी	196504एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	जीत सिंह	1-11-2004
404	जेसी	222715ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	मनजीत सिंह	1-9-2004
405	जेसी	218290पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	मुख्त्यार सिंह	1-1-2005
406	जेसी	211131पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	अवतार सिंह	1-1-2005
407	जेसी	221004एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	गुरदर्शनजीत सिंह	1-10-2004
408	जेसी	508091एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	गुरदेव सिंह	1-12-2004
409	जेसी	218285के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	गुरनाम सिंह	1-10-2004
410	जेसी	205975पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	हरदयाल सिंह	1-10-2004
411	जेसी	508066एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	लाल सिंह	1-12-2004
412	जेसी	508139पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	मोहिन्दर सिंह	1-12-2004
413	जेसी	193789के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सोहन सिंह	1-1-2005
414	जेसी	117712एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सुरजीत सिंह	1-10-2004
415	जेसी	508160एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सुरजीत सिंह	1-1-2005
416	जेसी	218494एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	तरसेम सिंह	1-10-2004

डोगरा रेजीमेन्ट

417	जेसी	518143एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	गुरचरण सिंह	1-1-2005
418	जेसी	95769ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	खिमा नन्द बहुगुणा	1-10-2004
419	जेसी	518534डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	अनन्त राम	1-9-2004
420	जेसी	518615डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बाबू राम	1-9-2004

421	जेसी	519049एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	भोला नाथ शर्मा ए एसएम	1-12-2004
422	जेसी	518894एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	चंद्र मनी	1-9-2004
423	जेसी	518819एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	देश राज चन	1-9-2004
424	जेसी	518897ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	जोगिंदर सिंह	1-10-2004
425	जेसी	519033एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	करन सिंह	1-9-2004
426	जेसी	518528एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	कुलदीप सिंह	1-10-2004
427	जेसी	518414एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	नरेन्द्र सिंह	1-10-2004
428	जेसी	518677डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	नेत्र पाल	1-1-2005
429	जेसी	518547एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	प्रकाश चंद आज	1-10-2004
430	जेसी	518756एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	प्रेम प्रकाश	1-12-2004
431	जेसी	519215डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सरजीत सिंह मन्हास	1-1-2005
432	जेसी	518731वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	शिव राम ठाकुर	1-12-2004
433	जेसी	519174एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सोम दत्त ए एसएम	1-9-2004
434	जेसी	519119एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सूरम सिंह	1-9-2004
गढवाल राइफल्स					
435	जेसी	185541एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	सरत चंद्रा सिंह गुसाई	1-1-2005
436	जेसी	166097एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	श्याम सिंह	1-10-2004
437	जेसी	528729पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	अजय सिंह	1-10-2004
438	जेसी	528812एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बैग सिंह	1-11-2004
439	जेसी	528487एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बालाप सिंह	1-12-2004
440	जेसी	528531डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बलबीर सिंह	1-10-2004
441	जेसी	488399डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बिक्रम सिंह	1-11-2004
442	जेसी	528320एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	चंद्रा मोहन	1-10-2004
443	जेसी	528702एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	छत्तर सिंह	1-9-2004
444	जेसी	528837वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	गीता सिंह	1-10-2004

445	जेसी	528528डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	लक्ष्मन सिंह	1-9-2004
446	जेसी	528513एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	लक्ष्मन सिंह नेगी	1-9-2004
447	जेसी	528635एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	मान सिंह	1-11-2004
448	जेसी	528816एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	मानबार सिंह रावत	1-12-2004
449	जेसी	528690एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	नन्दन सिंह	1-9-2004
450	जेसी	528773वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	नार सिंह	1-9-2004
451	जेसी	528676एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	प्रकाश चंद्रा	1-12-2004
452	जेसी	528759एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	प्रकाश चंद्रा	1-1-2005
453	जेसी	528080एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	प्रेम सिंह	1-10-2004
454	जेसी	528737एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	प्रेम सिंह	1-9-2004
455	जेसी	528821एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	पृथ्वी राज सिंह	1-11-2004
456	जेसी	528560एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राजेंद्र सिंह	1-10-2004
457	जेसी	528222एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	रंजीत सिंह	1-11-2004
458	जेसी	528458एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	विजय कुमार	1-12-2004
कुमाँच रेजीमेन्ट					
459	जेसी	219740एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	ब्रमा नन्द यादव	1-9-2004
460	जेसी	183053के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	मदन मोहन सिंह	1-9-2004
461	जेसी	178058वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	मोहन सिंह	1-12-2004
462	जेसी	201108एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	नरेन्द्र सिंह	1-11-2004
463	जेसी	219743एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	प्येरे लाल सिंह	1-12-2004
464	जेसी	193005एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	राज बहादुर सिंह	1-11-2004
465	जेसी	538161पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	दीवान सिंह	1-9-2004
466	जेसी	538753वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	दीवानी चंद	1-9-2004
467	जेसी	538484एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	डूंगर सिंह	1-1-2005
468	जेसी	538469एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	दुर्गा सिंह	1-9-2004

469	जेसी	538648एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	गजेन्द्र सिंह	1-11-2004
470	जेसी	538888ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	गोविंद सिंह	1-10-2004
471	जेसी	538630एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	हकीम सिंह	1-11-2004
472	जेसी	538748एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	जोगा सिंह	1-10-2004
473	जेसी	538454ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	कोक सिंह	1-10-2004
474	जेसी	538328एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	कृष्ण सिंह	1-1-2005
475	जेसी	538796एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	महाबीर सिंह	1-9-2004
476	जेसी	590065पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	महादेव भाट	1-12-2004
477	जेसी	538178एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	प्रताप सिंह	1-11-2004
478	जेसी	538591वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	पूरन सिंह	1-12-2004
479	जेसी	538272एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राजेंद्र सिंह राठौड़	1-10-2004
480	जेसी	538155एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	रत्तन सिंह	1-9-2004
481	जेसी	590004एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	एस के लोमार	1-10-2004
482	जेसी	538475डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	श्याम सिंह	1-11-2004
483	जेसी	538939एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	यशवंत सिंह	1-12-2004
असम रेजीमेन्ट					
484	जेसी	178638एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	अदानी मांओ	1-12-2004
485	जेसी	175397एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	अनंत बोराह	1-9-2004
486	जेसी	166742पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	दिलीप बोरगोहैन	1-9-2004
487	जेसी	172788एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	राम बहादुर गुरुंग	1-9-2004
488	जेसी	177799के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	रोमेश अनल	1-1-2005
489	जेसी	548129एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	लखेस्वर भोगोई	1-10-2004
490	जेसी	548175एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	नबीन चंद्रा डेका	1-10-2004
491	जेसी	224568एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	रतनेश्वर बोराह	1-12-2004
बिहार रेजीमेन्ट					

492	जेसी	218349के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	भृगु नाथ सिंह	1-11-2004
493	जेसी	216639एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	बीशान सिंह यादव	1-11-2004
494	जेसी	558191एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	विद्याधर राय	1-10-2004
495	जेसी	558560ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	एबान मुंडा	1-10-2004
496	जेसी	558333ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बान्दिराम सिंह पूर्ति	1-10-2004
497	जेसी	558663वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	क्रिस्टोफर लकरा	1-10-2004
498	जेसी	558483डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	जेम्स लकरा	1-11-2004
499	जेसी	199348के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	मान सिंह पूर्ति	1-10-2004
500	जेसी	558196एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	मनसिद्ध मंगरा	1-11-2004
501	जेसी	558670पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	परमेश्वर राम	1-10-2004
502	जेसी	168914एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सैमुअल टूडू	1-9-2004
503	जेसी	558576एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सरजू सिंह यादव	1-10-2004
504	जेसी	558011ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	श्रीराम समद	1-11-2004
महार रेजीमेन्ट					
505	जेसी	173938एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	अरुण लक्ष्मन पंतावने	1-12-2004
506	जेसी	185850एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	बलबीर सिंह	1-10-2004
507	जेसी	184002एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	गोविंद राम	1-10-2004
508	जेसी	168566पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	खिम सिंह	1-11-2004
509	जेसी	168589एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	लोकपाल सिंह	1-10-2004
510	जेसी	220784एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	आज्ञा दत्त	1-10-2004
511	जेसी	586218एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बीर सिंह	1-1-2005
512	जेसी	203831एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	दर्योधन सिंह चन्देल	1-9-2004
513	जेसी	568790एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	दया राम	1-10-2004
514	जेसी	568453एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	गिरधारी लाल	1-10-2004
515	जेसी	211302डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	गोपीनाथ मिश्रा	1-1-2005

516	जेसी	568595के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	जगतार सिंह	1-11-2004
517	जेसी	219778एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	जनक राज	1-1-2005
518	जेसी	568307एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	कला सिंह	1-10-2004
519	जेसी	568532एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	कालासुआ सिलवानस एस भाई	1-9-2004
520	जेसी	568465एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	कर्म चंद	1-11-2004
521	जेसी	224462पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	लक्ष्मी नारायण पंडा	1-10-2004
522	जेसी	568011एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	नथुराम शर्मा	1-10-2004
523	जेसी	568636एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राज कुमार	1-10-2004
524	जेसी	568830एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राम स्वरूप	1-1-2005
525	जेसी	568296एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	रनवीर सिंह	1-9-2004
526	जेसी	568281एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	रोशन लाल यादव	1-9-2004
527	जेसी	568358ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सुखदेव सिंह	1-10-2004
528	जेसी	568266एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	थामस कुट्टी एम डी	1-11-2004

जम्मू एवं कश्मीर राइफल्स

529	जेसी	211329एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	अब्दुल गनी	1-1-2005
530	जेसी	213008पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	काली दास	1-9-2004
531	जेसी	219788एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	मान चंद चौहान	1-11-2004
532	जेसी	578743एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बुधी चंद सूरज	1-9-2004
533	जेसी	579050एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	देवर्का नाथ	1-1-2005
534	जेसी	578538डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	गुरचरण सिंह	1-10-2004
535	जेसी	578709एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	हरबंस लाल	1-1-2005
536	जेसी	579020पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	इंद्र सिंह	1-10-2004
537	जेसी	579056एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	इश्वर सिंह	1-10-2004
538	जेसी	578143पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	जगदेव सिंह सिद्धू	1-12-2004
539	जेसी	578820एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	कृष्ण सिंह	1-9-2004

540	जेसी	578939एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	मलकियत सिंह साहनी	1-1-2005
541	जेसी	578249एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राजिन्दर कुमार शर्मा	1-10-2004
542	जेसी	578773पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राम दास	1-9-2004
543	जेसी	579159एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सोढ राम	1-1-2005
544	जेसी	579040एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सुखदेव सिंह	1-10-2004
545	जेसी	578572डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सुरेश कुमार	1-9-2004
546	जेसी	578708पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	स्वर्ण सिंह	1-10-2004
547	जेसी	578520ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	टांक बहादुर खंड ए	एसएम 1-1-2005
548	जेसी	579002एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	तरसेम सिंह	1-1-2005
लद्दाख स्काउट					
549	जेसी	175141एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	छेरिंग अंगचोक ए	एसएम 1-10-2004
550	जेसी	175133एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	छेरिंग दोरजी	1-10-2004
551	जेसी	175145एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	छेरिंग मुतुप	1-11-2004
552	जेसी	588077एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	मुरूफ दोर्जे	1-12-2004
जम्मू एवं कश्मीर लघु पैदल सेना					
553	जेसी	592010के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	बाबू सिंह	1-1-2005
554	जेसी	592167के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	हुटमैन गुरूंग	1-12-2004
555	जेसी	169283एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	रेसाल सिंह	1-1-2005
556	जेसी	205721एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	सुजान सिंह कोतवाल	1-11-2004
557	जेसी	592137एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	ए बी गनी भाट	1-12-2004
558	जेसी	592252एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	अमर सिंह	1-10-2004
559	जेसी	592358वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बाहादेर सिंह	1-1-2005
560	जेसी	592251के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बन्सी लाल रेना	1-9-2004
581	जेसी	592207ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	भिकम सिंह	1-10-2004
582	जेसी	592344वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बंटी राम	1-11-2004

563	जेसी	592214डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	घर सिंह	1-9-2004
564	जेसी	592704के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	जगदीश सिंह	1-9-2004
565	जेसी	592506वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	जगदीश सिंह	1-11-2004
566	जेसी	592302एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	जोगिंदर सिंह	1-10-2004
567	जेसी	592501ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	खादम हुसैन	1-9-2004
568	जेसी	592299एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	लाल सिंह	1-10-2004
569	जेसी	592263वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	मोहन लाल शर्मा	1-10-2004
570	जेसी	592198एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	मोहम्मद बशीर	1-12-2004
571	जेसी	592224ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	मोहम्मद रशीद	1-10-2004
572	जेसी	592238ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	मोहम्मद याकूब	1-11-2004
573	जेसी	592377के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राशपोल शर्मा	1-11-2004
574	जेसी	592091पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	रत्तन लाल डोगरा	1-9-2004
1 गोरखा राइफल्स					
575	जेसी	602006एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	गम बहादुर राणा	1-9-2004
576	जेसी	185271एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	हेम बहादुर गुरूग	1-10-2004
577	जेसी	602339के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	चंद्रा बहादुर पुर	1-1-2005
578	जेसी	602189वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	देब बहादुर थापा	1-9-2004
579	जेसी	602156एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	कृष्णा बहादुर गुरूग	1-1-2005
580	जेसी	602183एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	लील बहादुर पुन	1-10-2004
581	जेसी	602226एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	मान बहादुर थापा	1-12-2004
582	जेसी	602150एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	रण बहादुर गुरूग	1-12-2004
583	जेसी	602100एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सुधीर कुमार थापा	1-11-2004
3 गोरखा राइफल्स					
584	जेसी	188584एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	हरीश चंद्रा छत्री	31.08.2004
585	जेसी	607098वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	अरुण कुमार गुरूग	1-9-2004

586	जेसी	607250एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बाल बहादुर पुन	1-1-2005
587	जेसी	607195डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	गनेश बहादुर गुरुंग	1-10-2004
588	जेसी	607202एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	कमल बहादुर थापा	1-10-2004
589	जेसी	607102डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	लासे बहादुर थापा	1-10-2004
590	जेसी	607119के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	नार बहादुर पुन	1-10-2004
591	जेसी	607199एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सुख बहादुर थापा	1-10-2004
4 गोरखा राइफल्स					
592	जेसी	169288एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	नारायण सिंह गुरुंग	1-12-2004
593	जेसी	612108एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	दल बहादुर गुरुंग	1-12-2004
594	जेसी	612289एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	गम बहादुर थापा ए	वीआरसी 1-10-2004
595	जेसी	211388ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	प्रीतम चंद	1-10-2004
596	जेसी	612224के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	शांता शिरिंग लेपचा	1-10-2004
5 गोरखा राइफल्स					
597	जेसी	204209एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	याम बहादुर थापा	1-9-2004
598	जेसी	617220एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	भक्त बहादुर थापा	1-12-2004
599	जेसी	220349एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	मुक्ता बहादुर गुरुंग	1-11-2004
600	जेसी	617219एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	रबीन्द्र लामा गुरुंग	1-12-2004
601	जेसी	617225डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राज कुमार गुरुंग	1-1-2005
602	जेसी	617062एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सूर्या बहादुर श्रेष्ठ	1-11-2004
603	जेसी	617260वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	उरेन कुमार गुरुंग	1-12-2004
8 गोरखा राइफल्स					
604	जेसी	180819एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	सुक बहादुर गुरुंग	1-10-2004
605	जेसी	623133ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	ओम बहादुर पुन	1-10-2004
606	जेसी	623171डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	प्रेम बहादुर घले ए एसएम	1-10-2004
607	जेसी	623257पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	शिव राज कुमार माल	1-12-2004

9 गोरख: राइफल्स

608	जेसी	629019वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	कुशल सिंह बोहरा	1-9-2004
609	जेसी	629371एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	कमल बिक्रम थापा	1-11-2004
610	जेसी	629189एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	के बहादुर साही	1-11-2004
611	जेसी	629396पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	कृष्णा बहादुर मल्ला	1-1-2005

11 गोरखा राइफल्स

612	जेसी	162341एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	पदम बहादुर प्रधान	1-10-2004
613	जेसी	179479एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	किशोर कुमार लिम्बु	1-10-2004
614	जेसी	634128पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	कुमार सिंह लिम्बु	1-1-2005
615	जेसी	205749एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राम बहादुर राय	1-10-2004
616	जेसी	634034एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सागर राम	1-10-2004
617	जेसी	205744वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	श्याम कुमार राय	1-9-2004

सेना सेवा कोर (दक्षिण)

618	जेसी	660391एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	अरब सिंह	1-9-2004
619	जेसी	209908एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	बिक्रम सिंह	1-10-2004
620	जेसी	640202एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	दिलबाग सिंह	1-11-2004
621	जेसी	661280एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	मोहन राम	1-11-2004
622	जेसी	640059ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	मोहित दिलीप शंकर	1-9-2004
623	जेसी	214695एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	नित्यालाल घोष	1-9-2004
624	जेसी	660402वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	प्रेम सिंह	1-11-2004
625	जेसी	209003वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	रूल्दा राम	1-1-2005
626	जेसी	208979डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	सुच्या सिंह	1-10-2004
627	जेसी	660417एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	सुरेंद्र सिंह	1-1-2005
628	जेसी	221587एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	योगेन्द्र साह	1-1-2005
629	जेसी	661050वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	अवध किशोर सिंह	1-11-2004

630	जेसी	208962एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	भगवती सिंह यादव	1-9-2004
631	जेसी	661659डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	भेषनरायण मेहतो	1-9-2004
632	जेसी	213520एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	दिबाकर बेरा	1-10-2004
633	जेसी	660975एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	हरिहर प्रसाद	1-12-2004
634	जेसी	661656एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	हीरा लाल मेहतो	1-11-2004
635	जेसी	660916डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	जीवन चंद्र जोशी	1-9-2004
636	जेसी	660919के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	कंदार नाथ	1-10-2004
637	जेसी	661115एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	लखी चंद	1-11-2004
638	जेसी	641020ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	लक्ष्मणन टी	1-11-2004
639	जेसी	660958एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	मदन लाल	1-9-2004
640	जेसी	660939एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	मनीरीका राम	1-11-2004
641	जेसी	661339एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	मोहन सिंह	1-11-2004
642	जेसी	660914एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	ओम प्रकाश	1-11-2004
643	जेसी	214703डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	ओमाना कुट्टन एन	1-12-2004
644	जेसी	661318ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राज बिलोचन सिंह	1-11-2004
645	जेसी	661424के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राजिन्दर पौल	1-11-2004
646	जेसी	661013एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	रामपाल	1-9-2004
647	जेसी	214701एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	संसार चंद वर्मा	1-12-2004
648	जेसी	213675एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सरयू प्रसाद	1-1-2005
649	जेसी	202561एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	शिरीष विथल कदम	1-10-2004
650	जेसी	661119एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	विजय कुमार	1-11-2004
651	जेसी	193304डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	योगेन्द्र सिंह	1-11-2004

सेना चिकित्सा कोर

652	जेसी	690778पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	बन्सी लाल	1-1-2005
653	जेसी	691391वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	भगवन्त माने	1-1-2005

654	जेसी	690787डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	बिजय कुमार	1-1-2005
655	जेसी	691398एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	गायकवाड गनपत	1-1-2005
656	जेसी	690782एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	हबीबुर रहमान	1-11-2004
657	जेसी	690260एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	हरनोल्ड एविन लालसेलेट	1-9-2004
658	जेसी	690203ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	कुनवेरचजी सिंह	1-1-2005
659	जेसी	690209एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	लाल बाबू शर्मा	1-12-2004
660	जेसी	691379एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	महावीर सिंह	1-11-2004
661	जेसी	212155एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	मोहम्मद अख्तर हुसैन	1-1-2005
662	जेसी	161541एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	पाटिल कृष्णा शंकर	1-1-2005
663	जेसी	690185एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	प्रसादा चन्द्रन नायर एम	1-12-2004
664	जेसी	690780एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	राज नारायण यादव	1-12-2004
665	जेसी	690663एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	राजू पी ओ	1-9-2004
666	जेसी	690978एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	रामचंद्र नामदेव इंदलकार	1-1-2005
667	जेसी	182827पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	रेहिताशवा भाकेर	1-9-2004
668	जेसी	690784एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	रोहताश सिंह	1-12-2004
669	जेसी	182834एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	शमशेर सिंह राणा	1-11-2004
670	जेसी	690664के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	एस मंगलाथु वादेक्केथील	1-12-2004
671	जेसी	691396एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	सुख देव सिंह	1-11-2004
672	जेसी	691382एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	सयदाली हुसैन रीजूइ	1-10-2004
673	जेसी	691683एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	करमीर सिंह राणा	1-1-2005
674	जेसी	691460के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सुरेश चंद	1-11-2004

सेना आर्डर्नैस कोर

675	जेसी	204652ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	अनिल कुमार साहा	1-11-2004
676	जेसी	213235पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	अनोख सिंह	1-9-2004
677	जेसी	221651एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	गुरनेक सिंह बी	1-11-2004

678	जेसी	202472वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	जे एन सिंह	1-10-2004
679	जेसी	212255डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	जगदीश चंद्र	1-1-2005
680	जेसी	217485एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	जगदीश चौधरी	1-11-2004
681	जेसी	92354ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	जगदीश प्रसाद पान्डे	1-1-2005
682	जेसी	213120एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	मोहन कुमार एम जी	1-10-2004
683	जेसी	217477पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	नफे सिंह सेलवाल	1-10-2004
684	जेसी	212407एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	संत कुमार सिंह	1-10-2004
685	जेसी	223127वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	अनिल कुमार सक्सेना	1-10-2004
686	जेसी	723208एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	दलवी अशोक रामचंद्र	1-1-2005
687	जेसी	722722वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	देवेंदर नाथ सूदन	1-9-2004
688	जेसी	722953पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	हेमा राम पूनिया	1-9-2004
689	जेसी	723332एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	हिर्द्या नारायण सिंह यादव	1-10-2004
690	जेसी	722555एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	जैकब सैम	1-1-2005
691	जेसी	723291के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	जगदीश सिंह लतवाल	1-12-2004
692	जेसी	722216एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	जयपाल केस्ती	1-11-2004
693	जेसी	221646एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	के कुमार सी तैवाडे	1-11-2004
694	जेसी	722510एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	मनोहर लाल शर्मा	1-9-2004
695	जेसी	722726पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राजेन्द्रन एस	1-11-2004
696	जेसी	722651एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राम कृष्ण	1-9-2004
697	जेसी	723333एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राम सहोदर यादव	1-10-2004
698	जेसी	722955ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	रोमेश चंद्र	1-9-2004
699	जेसी	724710एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सिराजुल हक	1-11-2004
700	जेसी	723979डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	थामस के एस	1-11-2004
कोर आफ वैद्युत एवं यांत्रिक इंजीनियर्स					
701	जेसी	189289पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	एकबाल हुसैन अन्सारी	1-1-2005

702	जेसी	215089वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	बालागोपालन के आर	1-11-2004
703	जेसी	181485ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	भगवान सिंह काकी	1-10-2004
704	जेसी	222430एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	भगवान सिंह राणा	1-11-2004
705	जेसी	224663एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	विक्रम सिंह	1-9-2004
706	जेसी	182315एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	चंद्रशेखरन सी	1-12-2004
707	जेसी	176158एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	दलबीर सिंह परमार	1-12-2004
708	जेसी	184175ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	दरबारी लाल	1-12-2004
709	जेसी	747554डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	दया नन्द राय	1-1-2005
710	जेसी	217206एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	धरनी धर	1-9-2004
711	जेसी	189103ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	गंगा सिंह मेहता	1-11-2004
712	जेसी	748809एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	गुरुदयाल शर्मा	1-10-2004
713	जेसी	747095एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	हरी प्रकाश शर्मा	1-1-2005
714	जेसी	214099डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	होशियार सिंह	1-11-2004
715	जेसी	181596एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	जागीर सिंह	1-11-2004
716	जेसी	235323एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	कश्मीर सिंह	1-10-2004
717	जेसी	218912एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	किशन राम	1-9-2004
718	जेसी	747235के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	कोमारा सिव राव	1-12-2004
719	जेसी	181462वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	कृष्ण लाल	1-1-2005
720	जेसी	752359एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	कृष्ण लाल	1-10-2004
721	जेसी	202203एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	लिलाधार उपाध्या	1-11-2004
722	जेसी	750987वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	मोहम्मद अख्तर हुसैन	1-1-2005
723	जेसी	215086एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	नानू खान	1-11-2004
724	जेसी	182314ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	राम सिंह	1-11-2004
725	जेसी	753008ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	सतीश चंद्र	1-11-2004
726	जेसी	182408एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	श्याम सिंह त्यागी	1-11-2004

727	जेसी	182395एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	सुच्या सिंह	1-12-2004
728	जेसी	189381एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	सुरेश चंद्रा शर्मा	1-11-2004
729	जेसी	181592एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	सूर्या नारायण यादव	1-9-2004
730	जेसी	751431एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बच्चा राम	1-11-2004
731	जेसी	748808पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बृज लाल	1-9-2004
732	जेसी	751207पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	चमन लाल मालवाल	1-12-2004
733	जेसी	748726एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	चंद्रा कुमार के आर	1-10-2004
734	जेसी	748270वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	चंद्रा राय	1-1-2005
735	जेसी	751433एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	छबिनाथ सिंह	1-11-2004
736	जेसी	747502ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	दर्शन सिंह	1-10-2004
737	जेसी	750243एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	दया शंकर ठाकुर	1-9-2004
738	जेसी	754482ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	दयानन्द गीतम	1-10-2004
739	जेसी	751496पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	धरमराज आर	1-1-2005
740	जेसी	750014एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	दोगुपार्थी एम राव	1-9-2004
741	जेसी	751062पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	घान श्याम सिंह परमार	1-12-2004
742	जेसी	749415एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	गिरि गोसवी डी कृष्णा	1-9-2004
743	जेसी	748361एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	हवा सिंह	1-12-2004
744	जेसी	751941एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	हीरालाल पाल	1-1-2005
745	जेसी	751928वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	जयपाल सिंह	1-9-2004
746	जेसी	754605एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	करानी दान	1-1-2005
747	जेसी	747184एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	करतार सिंह	16.08.2004
748	जेसी	750016एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	पुख राज विश्णोई	1-10-2004
749	जेसी	750023के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राम चंद्र	1-1-2005
750	जेसी	751336पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राम नरेश प्रसाद	1-9-2004
751	जेसी	751628एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राम निवास	1-1-2005

752	जेसी	751447एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राम सिया मिश्रा	1-12-2004
753	जेसी	747808एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	रेघु पी आर	1-10-2004
754	जेसी	747080ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	ऋषिदेव सिंह	1-1-2005
755	जेसी	751128पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	शत्रुघन सिंह	1-10-2004
756	जेसी	169988वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सोहन सिंह	1-1-2005
757	जेसी	748442एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सुघार सिंह	1-10-2004
758	जेसी	763248एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सुरेंद्र सिंह	1-12-2004
759	जेसी	750072एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	विजयन पिल्लै के	1-10-2004
760	जेसी	749418एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	वामन दिथोवा बोरकर	1-11-2004

सेना शिक्षा कोर

761	जेसी	195200एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	अनूप नारायण सिंह	1-9-2004
762	जेसी	206090एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	अर्जुन सिंह नेगी	1-12-2004
763	जेसी	195182डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	बलबीर सिंह	1-9-2004
764	जेसी	195229डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	शालिग्राम पान्डे	1-12-2004
765	जेसी	223003के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	अशोक कुमार विश्वास	1-1-2005
766	जेसी	216228के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बैकुण्ठ बिस्वाल	1-9-2004
767	जेसी	797138एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	करुणा कांता मंडल	1-10-2004
768	जेसी	225476एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	काशी नाथ बन्धोपाध्याय	1-10-2004
769	जेसी	217168एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	मधुसुधनन के	1-11-2004
770	जेसी	212044एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	महानंद झा	1-9-2004
771	जेसी	802101एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	नरेन्द्र सिंह	1-11-2004

रिमाउंट एवं वेटेरिनरी कोर

772	जेसी	797124एच	रिसालदार एवं अवैतनिक लै.	लेबाजी	1-10-2004
-----	------	----------	-----------------------------	--------	-----------

आसूचना कोर

773	जेसी	195520एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	बलवंत सिंह कंधारी	1-12-2004
-----	------	----------	---------------------------------	-------------------	-----------

774	जेसी	186620एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	हज सिंह चीमा	1-11-2004
775	जेसी	195882के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	कमल चंद	1-12-2004
776	जेसी	183281वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	ओम प्रकाश यादव	1-10-2004
777	जेसी	195514पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	प्रेम सिंह	1-12-2004
778	जेसी	195883एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	राजिन्दर सिंह	1-1-2005
779	जेसी	197795पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	मदन सिंह शेखावत	1-12-2004
780	जेसी	206309डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	पर्शोतम चंद	1-12-2004
कोर आफ सेना पुलिस					
781	जेसी	818125एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	निजामुरदीन हैदर	1-9-2004
782	जेसी	818237एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राम बेलस भुज	1-1-2005
783	जेसी	818030एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	शिव लाल	1-9-2004
784	जेसी	818147ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सुरेंद्र त्रिपाठी	1-9-2004
सेना शारिरिक प्रशिक्षण कोर					
785	जेसी	174216एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	भंगी मारूति निंगपा	1-9-2004
रक्षा सुरक्षा कोर					
786	जेसी	192025वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बिक्रमजीत यादव	1-1-2005
787	जेसी	202181वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	गिरधारी लाल	1-1-2005
788	जेसी	840189वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सत पाल	1-12-2004
प्रादेशिक सेना					
789	टिजे	3119पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	ए कृष्णा मुर्ती	30-9-2004
790	टिजे	3039एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सी बालन	30-11-2004
791	टिजे	3351ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	श्री गोपालाकृष्णन	30-11-2004
792	टिजे	3211एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सी रमन	30-11-2004
793	टिजे	3181एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	छुना राम एच	31-8-2004
794	टिजे	2814	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	मोहिन्दर कुमार	31-8-2004
795	टिजे	2811एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	प्रकाश	31-8-2004
796	टिजे	3828एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राजेर भगत	30-11-2004

797	टिजे	3636एम	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	रमनियाह	31-8-2004
798	टिजे	3511एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	सदासिव बंदू चव्हाण	31-10-2004

अवैतनिक ले

कवचित कोर

1	जेसी	235802एम	रिसालदार मेजर गिरवर सिंह शेखावत		1-11-2004
2	जेसी	235828एल	रिसालदार मेजर हरी सिंह		1-10-2004
3	जेसी	160800एक्स	रिसालदार मेजर कोंडला राव वाई		1-12-2004
4	जेसी	211448के	रिसालदार मेजर प्रीतम सिंह अत्री		1-11-2004
5	जेसी	236677ए	रिसालदार मेजर राजिन्दर सिंह		1-12-2004
6	जेसी	219106एल	रिसालदार मेजर रवीन्द्र ए चौधरी		1-11-2004

रेजिमेन्ट आफ तोपखाना

7	जेसी	223602के	सुबेदार मेजर ईश सिंह		1-9-2004
8	जेसी	180413के	सुबेदार मेजर जितेन्द्रा सिंह		1-10-2004
9	जेसी	176995एक्स	सुबेदार मेजर कुलदीप सिंह मन्हास		1-11-2004
10	जेसी	184577एक्स	सुबेदार मेजर महान सिंह		1-10-2004
11	जेसी	200452एम	सुबेदार मेजर ओम प्रकाश		1-10-2004
12	जेसी	184036डब्ल्यू	सुबेदार मेजर राजिन्दर सिंह		1-11-2004
13	जेसी	195278वाइ	सुबेदार मेजर रवीन्द्र कुमार		1-11-2004
14	जेसी	190685एक्स	सुबेदार मेजर श्रीपील		1-11-2004
15	जेसी	257758एच	सुबेदार मेजर सोलमन राजू एम		1-1-2005
16	जेसी	211857एक्स	सुबेदार मेजर विजयन के		1-1-2005
17	जेसी	193505पी	सुबेदार मेजर वीरेंद्र सिंह		1-10-2004

कोर आफ वायु रक्षा तोपखाना

18	जेसी	195287ए	सुबेदार मेजर गंगा दत्त यादव		1-10-2004
----	------	---------	-----------------------------	--	-----------

मद्रास इंजीनियर ग्रुप

19	जेसी	305770पी	सुबेदार मेजर ए सित्वाराजू		1-12-2004
20	जेसी	219498के	सुबेदार मेजर सी रघुनाथन		1-10-2004
21	जेसी	219365एन	सुबेदार मेजर एफ मार्क		1-9-2004
22	जेसी	179983एन	सुबेदार मेजर गोविन्दसामी पुरुषोत्तमन		1-1-2005
23	जेसी	219364एल	सुबेदार मेजर मुनिस्वामी आर		1-9-2004
24	जेसी	219496वाइ	सुबेदार मेजर पवित्रन पी वी		1-11-2004
25	जेसी	219505पी	सुबेदार मेजर सिद्धार्थन टी		1-12-2004
26	जेसी	219444एच	सुबेदार मेजर सोमराजन नायर जे		1-10-2004
27	जेसी	219392एक्स	सुबेदार मेजर वेनुगोपालन पी		1-9-2004
28	जेसी	219396एन	सुबेदार मेजर वी कुमारन टी		1-10-2004

बंगाल इंजीनियर ग्रुप

29	जेसी	207595पी	सुबेदार मेजर अमरजीत सिंह		1-10-2004
30	जेसी	210463एम	सुबेदार मेजर अशोक कुमार चातेजी		1-9-2004
31	जेसी	210460वाइ	सुबेदार मेजर विश्वामोहन सामल		1-9-2004
32	जेसी	186241डब्ल्यू	सुबेदार मेजर डी संजय नारायण		1-11-2004
33	जेसी	325339एक्स	सुबेदार मेजर गायना सिंह		1-9-2004
34	जेसी	207598एच	सुबेदार मेजर गिरीश चंद्रा		1-10-2004
35	जेसी	210474वाइ	सुबेदार मेजर गोपाल सिंह		1-10-2004
36	जेसी	210573एफ	सुबेदार मेजर गोविंद सिंह		1-12-2004
37	जेसी	210525एफ	सुबेदार मेजर हरेन च. एम		1-10-2004

38	जेसी	325350डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	हरजिन्द्र सिंह	1-11-2004
39	जेसी	210468एल	सुबेदार मेजर	हरपाल सिंह	1-10-2004
40	जेसी	186243एफ	सुबेदार मेजर	इश्वर सिंह	1-11-2004
41	जेसी	210793एल	सुबेदार मेजर	जगदीश सिंह कोमल	1-1-2005
42	जेसी	210469एन	सुबेदार मेजर	जय प्रकाश शर्मा	1-9-2004
43	जेसी	210570एन	सुबेदार मेजर	जतिन्द्र नाथ शर्मा	1-11-2004
44	जेसी	224823एच	सुबेदार मेजर	जे कुमार पी	1-9-2004
45	जेसी	169518एन	सुबेदार मेजर	के एल दयानिधि	1-9-2004
46	जेसी	182516एफ	सुबेदार मेजर	कर्मजीत सिंह	1-9-2004
47	जेसी	210560के	सुबेदार मेजर	किरण संकर मुखजी	1-10-2004
48	जेसी	177101एच	सुबेदार मेजर	मदन किशोर सिंह	1-11-2004
49	जेसी	203006डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	एम रंगा स्वामी	1-11-2004
50	जेसी	210476के	सुबेदार मेजर	एन प्रेम कुमार	1-11-2004
51	जेसी	210550ए	सुबेदार मेजर	एन चंद्रा चेतिया	1-9-2004
52	जेसी	210549एल	सुबेदार मेजर	ओम प्रकाश	1-11-2004
53	जेसी	202939वाइ	सुबेदार मेजर	ओम सिंह	1-11-2004
54	जेसी	210565एच	सुबेदार मेजर	पानी राम आर्य	1-11-2004
55	जेसी	207580एम	सुबेदार मेजर	प्रहलाद भगत	1-9-2004
56	जेसी	210407एन	सुबेदार मेजर	प्रकाश चंद्रा बी	1-11-2004
57	जेसी	210605वाइ	सुबेदार मेजर	राघवेन्द्रा प्रताप मिश्रा	1-12-2004
58	जेसी	210572वाइ	सुबेदार मेजर	रामेन्द्र कुमार चक्रवती	1-12-2004
59	जेसी	210554डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	रोमेश चंद्र	1-11-2004
60	जेसी	210461एफ	सुबेदार मेजर	रोमेश दत्त	1-9-2004
61	जेसी	210473डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	एस बिकाश	1-9-2004
62	जेसी	182483एफ	सुबेदार मेजर	शिवराज सिंह	1-12-2004
63	जेसी	174828एच	सुबेदार मेजर	श्याम सिंह	1-11-2004
64	जेसी	207880एन	सुबेदार मेजर	सुनीत आर	1-9-2004
65	जेसी	210785एम	सुबेदार मेजर	सुरेश चंद्रा गुप्ता	1-1-2005
66	जेसी	215992एच	सुबेदार मेजर	टेक सिंह	1-11-2004
67	जेसी	169509एम	सुबेदार मेजर	वेकटेशन के जे	1-9-2004
बंबई इंजीनियर ग्रुप					
68	जेसी	203086वाइ	सुबेदार मेजर	बलजीत सिंह	1-9-2004
69	जेसी	191624एम	सुबेदार मेजर	गुरदेव सिंह	1-1-2005
70	जेसी	203090एफ	सुबेदार मेजर	जगजीत सिंह घरू	1-9-2004
71	जेसी	203117एन	सुबेदार मेजर	जौहरी सिंह	1-10-2004
72	जेसी	203092एम	सुबेदार मेजर	मोहिन्दर सिंह	1-1-2005
73	जेसी	197262एम	सुबेदार मेजर	पी पद्मकर भीमराव	1-12-2004
74	जेसी	203119वाइ	सुबेदार मेजर	पूनी लाल	1-11-2004
75	जेसी	203115एच	सुबेदार मेजर	सोलंकी पी कांजी	1-11-2004
76	जेसी	203116एल	सुबेदार मेजर	सुखमंदर सिंह	1-12-2004
77	जेसी	191663एल	सुबेदार मेजर	टी लक्ष्मन निकम	1-9-2004
कोर आफ सिगनल्स					
78	जेसी	173617एन	सुबेदार मेजर	अनुप सिंह शेखावत	1-1-2005
79	जेसी	221431के	सुबेदार मेजर	अर्जुनन कुगान	1-1-2005
80	जेसी	172846एम	सुबेदार मेजर	बलदेव राम	1-10-2004
81	जेसी	188329वाइ	सुबेदार मेजर	बिजयी बहादुर पाल	1-1-2005
82	जेसी	220552वाइ	सुबेदार मेजर	चको एम वी	1-12-2004
83	जेसी	220567एफ	सुबेदार मेजर	हरी मोहन त्रिपाठी	1-1-2005
84	जेसी	180947पी	सुबेदार मेजर	हरमोहन बारो	1-10-2004

85	जेसी	188067एन	सुबेदार मेजर	जोगिंदर सिंह	1-1-2005
86	जेसी	157042ए	सुबेदार मेजर	लक्ष्मण दोस एम जे	1-10-2004
87	जेसी	214270के	सुबेदार मेजर	राम प्रसाद मिश्रा	1-10-2004
गार्ड्स					
88	जेसी	196800एच	सुबेदार मेजर	भगवान सिंह	1-1-2005
89	जेसी	181726पी	सुबेदार मेजर	बिक्रम सिंह	1-10-2004
90	जेसी	177898एम	सुबेदार मेजर	शिंदर पाल सिंह	1-9-2004
91	जेसी	177900वाइ	सुबेदार मेजर	शीश पाल सिंह	1-10-2004
मैकेनाइज्ड पैदल सेना रेजीमेन्ट					
92	जेसी	196785वाइ	सुबेदार मेजर	दिनेश चंद्र धस्माना	1-1-2005
93	जेसी	211595एम	सुबेदार मेजर	शेर सिंह	1-9-2004
94	जेसी	177499एच	सुबेदार मेजर	सुरेश सिंह	1-11-2004
95	जेसी	195475एफ	सुबेदार मेजर	सुरजीत सिंह	1-12-2004
जम्मू पंजाब रेजीमेन्ट					
96	जेसी	428193पी	सुबेदार मेजर	ज्ञान चंद	1-10-2004
97	जेसी	428077एम	सुबेदार मेजर	हरदयाल सिंह	1-9-2004
98	जेसी	174956ए	सुबेदार मेजर	सुरजीत सिंह	1-12-2004
मद्रास रेजीमेन्ट					
99	जेसी	181764एल	सुबेदार मेजर	जगन मोहाना राव सुन्कारा	1-1-2005
100	जेसी	167161के	सुबेदार मेजर	एम एम पूनाचा	1-1-2005
ग्रैनेडियर्स					
101	जेसी	208304डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	देवेन्द्रा सिंह	1-11-2004
मराठा लघु पैदल सेना					
102	जेसी	458233ए	सुबेदार मेजर	के उत्तम मारुति	1-1-2005
103	जेसी	182960एक्स	सुबेदार मेजर	मुख्त्यार सिंह	1-10-2004
राजपूत राइफल्स					
104	जेसी	468192पी	सुबेदार मेजर	भगवान सिंह	1-9-2004
105	जेसी	183415ए	सुबेदार मेजर	दया राम जाट	1-11-2004
106	जेसी	179332एक्स	सुबेदार मेजर	एजाज अहमद खान	1-12-2004
107	जेसी	196209पी	सुबेदार मेजर	शिशु पाल सिंह एम	1-10-2004
राजपूत रेजीमेन्ट					
108	जेसी	205111एल	सुबेदार मेजर	अनुप सिंह	1-1-2005
109	जेसी	178257एम	सुबेदार मेजर	हीराम सिंह	1-10-2004
110	जेसी	169163एन	सुबेदार मेजर	मोहिन्दर सिंह	1-1-2005
111	जेसी	193719एल	सुबेदार मेजर	मोती राम	1-10-2004
112	जेसी	183435एन	सुबेदार मेजर	नवरंग लाल	1-12-2004
113	जेसी	184990एन	सुबेदार मेजर	प्रीतम सिंह जी	1-12-2004
114	जेसी	192930एन	सुबेदार मेजर	सुरेंद्र सिंह	1-11-2004
जाट रेजीमेन्ट					
115	जेसी	181835एफ	सुबेदार मेजर	आज सिंह	1-11-2004

सिख लघु पैदल सेना

116	जेसी	203725पी	सुबेदार मेजर	लखविन्दर सिंह	1-11-2004
117	जेसी	194613एल	सुबेदार मेजर	तीरथ सिंह	1-11-2004
गढ़वाल राइफलस					
118	जेसी	205213एफ	सुबेदार मेजर	भजन सिंह रावत	1-10-2004
119	जेसी	176329एम	सुबेदार मेजर	सतेंद्र सिंह नेगी	1-1-2005
कुर्माँठ रेजीमेन्ट					
120	जेसी	193006ए	सुबेदार मेजर	एन सिंह	1-10-2004
121	जेसी	172596डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	तिका राम पान्डे	1-1-2005
122	जेसी	183054एम	सुबेदार मेजर	त्रिलोक सिंह	1-10-2004
असम रेजीमेन्ट					
123	जेसी	178636एच	सुबेदार मेजर	दलकोहेन	1-11-2004
124	जेसी	178958एच	सुबेदार मेजर	के एस छिंगरी	1-1-2005
बिहार रेजीमेन्ट					
125	जेसी	558163एफ	सुबेदार मेजर	जंग सिंह	1-12-2004
126	जेसी	558238एन	सुबेदार मेजर	नगेंद्र नाथ साहा	1-10-2004
127	जेसी	194684एम	सुबेदार मेजर	सोहराय लाल यादव	1-10-2004
महार रेजीमेन्ट					
128	जेसी	168594एन	सुबेदार मेजर	चंदू राम	1-10-2004
129	जेसी	178312एक्स	सुबेदार मेजर	केदार सिंह	1-11-2004
130	जेसी	185851डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	नरेश चंद्रा	1-12-2004
131	जेसी	178403एच	सुबेदार मेजर	श्रवण सिंह	1-10-2004
जम्मू एवं कश्मीर राइफलस					
132	जेसी	578193ए	सुबेदार मेजर	गिरधारी लाल नर्वाल	1-1-2005
133	जेसी	196911ए	सुबेदार मेजर	कश्मीर चंद	1-9-2004
134	जेसी	205720पी	सुबेदार मेजर	रंजीत सिंह राणा	1-11-2004
135	जेसी	188559एम	सुबेदार मेजर	रशीद मोहम्मद	1-12-2004
1 गोरखा राइफलस					
136	जेसी	198626एफ	सुबेदार मेजर	गोविंद बहादुर गुरूंग	1-10-2004
3 गोरखा राइफलस					
137	जेसी	205377एक्स	सुबेदार मेजर	मदन सिंह	1-11-2004
4 गोरखा राइफलस					
138	जेसी	184495पी	सुबेदार मेजर	दिल्ली राज पुन	1-12-2004
5 गोरखा राइफलस					
139	जेसी	224593ए	सुबेदार मेजर	बिष्णु प्रसाद पुन	1-1-2005
140	जेसी	205797एक्स	सुबेदार मेजर	राम बहादुर अले एम	1-10-2004
8 गोरखा राइफलस					
141	जेसी	178333एन	सुबेदार मेजर	प्रेम बहादुर गुरूंग	1-10-2004

11 गोरखा राइफल्स

142	जेसी	175483वाइ	सुबेदार मेजर	रण बहादुर राय	1-10-2004
	सेना सेवा कोर	दक्षिण द्व			
143	जेसी	214676एक्स	सुबेदार मेजर	आनंद राम	1-1-2005
144	जेसी	213635एफ	सुबेदार मेजर	दल चंद	1-11-2004
145	जेसी	208951डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	हरदयाल सिंह संधू	1-9-2004
146	जेसी	640172पी	सुबेदार मेजर	जगादीश चंद्र	1-10-2004
147	जेसी	213580एच	सुबेदार मेजर	कृष्णन कुट्टी नारी पी एन	1-10-2004
148	जेसी	208987पी	सुबेदार मेजर	मनदीप सिंह	1-12-2004
149	जेसी	640184के	सुबेदार मेजर	मुनेश सिंह	1-11-2004
150	जेसी	640169पी	सुबेदार मेजर	मुनि वैकट	1-10-2004
151	जेसी	208996डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	राधा मोहन राय	1-12-2004
152	जेसी	208990पी	सुबेदार मेजर	एस दास	1-9-2004
153	जेसी	640166एफ	सुबेदार मेजर	सुधाकरण पी	1-9-2004
154	जेसी	213432एक्स	सुबेदार मेजर	सुजान सिंह	1-12-2004
155	जेसी	640021डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	वी नायर के	1-11-2004

सेना चिकित्सा कोर

156	जेसी	690074एल	सुबेदार मेजर	अमर सिंह चुन्दावत	1-11-2004
157	जेसी	690770एच	सुबेदार मेजर	भगवान सिंह रावत	1-1-2005
158	जेसी	690386एफ	सुबेदार मेजर	विभूति भू राय	1-12-2004
159	जेसी	691566डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	गुरदेव सिंह	1-11-2004
160	जेसी	691481ए	सुबेदार मेजर	इंदरा जीत सिंह	1-12-2004
161	जेसी	690560एच	सुबेदार मेजर	कश्मीरी लाल	1-11-2004
162	जेसी	691394एम	सुबेदार मेजर	मैरी सेट्टी पी सुधु	1-11-2004
163	जेसी	690525ए	सुबेदार मेजर	पतकारी किशन	1-9-2004
164	जेसी	690064एफ	सुबेदार मेजर	पृथ्वी सिंह यादव	1-10-2004
165	जेसी	690382एल	सुबेदार मेजर	रनवीर सिंह	1-1-2005
166	जेसी	690184ए	सुबेदार मेजर	सत्यवीर सिंह	1-10-2004
167	जेसी	691047एन	सुबेदार मेजर	सुरेंद्र नाथ तिवारी	1-11-2004
168	जेसी	690332ए	सुबेदार मेजर	सुरेंद्र प्रसाद सिंह	1-9-2004
169	जेसी	690134पी	सुबेदार मेजर	सुरजीत राम	1-11-2004
170	जेसी	690062डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	स्वप्न कुमार देवनाथ	1-1-2005
171	जेसी	691074एक्स	सुबेदार मेजर	टेक बहादुर खादका	1-9-2004
172	जेसी	691000एच	सुबेदार मेजर	उमा शंकर राय	1-11-2004

सेना आर्डनेंस कोर

173	जेसी	213309वाइ	सुबेदार मेजर	दिबाकर बिसोइ	1-9-2004
174	जेसी	217474एफ	सुबेदार मेजर	कुवर सिंह	1-9-2004
175	जेसी	212235एच	सुबेदार मेजर	महेश सिंह	1-9-2004
176	जेसी	221605वाइ	सुबेदार मेजर	राम बिलास राम	1-9-2004
177	जेसी	722114एक्स	सुबेदार मेजर	शार्दूल चंद्र	1-12-2004
178	जेसी	213142ए	सुबेदार मेजर	सुखदेव सिंह	1-12-2004

कोर आफ वैधुत एवं यांत्रिक इंजीनियर्स

179	जेसी	182324के	सुबेदार मेजर	बी विथोवा गुरबल	1-11-2004
180	जेसी	182319वाइ	सुबेदार मेजर	बी सुमन	1-11-2004
181	जेसी	181125के	सुबेदार मेजर	दलीप कुमार चातोपाध्यई	1-11-2004
182	जेसी	182328ए	सुबेदार मेजर	दयाराम सिंह कुशवाहा	1-1-2005

183	जेसी	202188एक्स	सुबेदार मेजर	हर नरायण दास	1-11-2004
184	जेसी	182321डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	माता दीन	1-10-2004
185	जेसी	749015वाइ	सुबेदार मेजर	पी कुमार मोहन सी	1-9-2004
186	जेसी	181835एल	सुबेदार मेजर	प्रदीप कुमार शर्मा	1-10-2004
187	जेसी	181570एच	सुबेदार मेजर	प्रेम सिंह शाह	1-12-2004
188	जेसी	181116एच	सुबेदार मेजर	राम के राम	1-10-2004
189	जेसी	182403वाइ	सुबेदार मेजर	रमा शंकर सिंह	1-11-2004
190	जेसी	178153एम	सुबेदार मेजर	रत्तन सिंह	1-10-2004
191	जेसी	181620एच	सुबेदार मेजर	रवीन्द्रन के वी	1-10-2004
192	जेसी	218775एक्स	सुबेदार मेजर	सुरेंद्र नाथ पान्डे	1-12-2004
193	जेसी	176157एच	सुबेदार मेजर	स्वर्ण सिंह	1-9-2004

जम् आसूचना कोर

194	जेसी	183260डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	भंवर सिंह राठौर	1-11-2004
195	जेसी	195516ए	सुबेदार मेजर	पृथु राज गुरूग	1-11-2004
196	जेसी	191208एच	सुबेदार मेजर	रमेश सिंह	1-11-2004
197	जेसी	195509के	सुबेदार मेजर	एस सूर्यकांत	1-11-2004

कोर आफ सेना पुलिस

198	जेसी	214536एल	सुबेदार मेजर	के राम दिश्वास	1-1-2005
199	जेसी	197632एफ	सुबेदार मेजर	पेमा राम	1-11-2004
200	जेसी	197643एन	सुबेदार मेजर	प्रेम चंद सिंह	1-12-2004
201	जेसी	192008वाइ	सुबेदार मेजर	विजय कुमार शर्मा	1-11-2004

सेना शारिरिक प्रशिक्षण कोर

202	जेसी	174222वाइ	सुबेदार मेजर	विजय कुमार वी	1-12-2004
-----	------	-----------	--------------	---------------	-----------

पायोनियर कोर

203	जेसी	192392एल	सुबेदार मेजर	भोसले सूर्यकांत भीमराव	1-9-2004
204	जेसी	188774एक्स	सुबेदार मेजर	हरी शंकर	1-1-2005

रक्षा सुरक्षा कोर

205	जेसी	180006ए	सुबेदार मेजर	ए पीटर	1-9-2004
206	जेसी	138463एन	सुबेदार मेजर	हेम सिंह	1-12-2004
207	जेसी	168977ए	सुबेदार मेजर	शिब कुमार	1-12-2004

अवैतनिक रिसालदार

कवचित कोर

1	जेसी	236465पी	रिसालदार	आदित्य कुमार मोहापत्रा	1-1-2005
2	जेसी	237240वाइ	रिसालदार	अजित सिंह	1-1-2005
3	जेसी	236500एम	रिसालदार	अमर पाल सिंह	1-9-2004
4	जेसी	238999वाइ	रिसालदार	आमी लाल भास्कर	1-12-2004
5	जेसी	238943एम	रिसालदार	आनंद सिंह	1-9-2004
6	जेसी	238907एच	रिसालदार	अर्जुन सिंह	1-11-2004
7	जेसी	238527एच	रिसालदार	अशोक कुमार	1-10-2004
8	जेसी	238283ए	रिसालदार	अशोक कुमार शर्मा	1-12-2004
9	जेसी	238474पी	रिसालदार	अवदाश सिंह	1-10-2004
10	जेसी	238444एक्स	रिसालदार	बाबू लाल	1-9-2004
11	जेसी	237737डब्ल्यू	रिसालदार	बहादुर सिंह	1-1-2005
12	जेसी	238882ए	रिसालदार	बहादुर सिंह	1-11-2004

13	जेसी	236995के	रिसालदार	बलबीर सिंह	1-11-2004
14	जेसी	237972पी	रिसालदार	बलबीर सिंह	1-11-2004
15	जेसी	236812एच	रिसालदार	बलदेव सिंह	1-10-2004
16	जेसी	237129पी	रिसालदार	बलदेव सिंह	1-12-2004
17	जेसी	238958पी	रिसालदार	बलदेव सिंह	1-10-2004
18	जेसी	236575के	रिसालदार	बलजीत सिंह	1-11-2004
19	जेसी	237489एल	रिसालदार	बालकर सिंह	1-10-2004
20	जेसी	237038एल	रिसालदार	बलराज सिंह	1-12-2004
21	जेसी	236716एन	रिसालदार	बलविन्दर सिंह	1-10-2004
22	जेसी	237472एक्स	रिसालदार	बलविन्दर सिंह	1-9-2004
23	जेसी	237746एक्स	रिसालदार	बेसरेया लाल	1-1-2005
24	जेसी	237654एल	रिसालदार	भीम सिंह	1-9-2004
25	जेसी	237696एक्स	रिसालदार	भूला सिंह	1-1-2005
26	जेसी	236300डब्ल्यू	रिसालदार	भुनेश	1-10-2004
27	जेसी	237772वाइ	रिसालदार	भूरा राम चौधरी	1-1-2005
28	जेसी	237655एन	रिसालदार	बिधि चंद फटोच	1-12-2004
29	जेसी	237462एन	रिसालदार	बिहारी सिंह	1-10-2004
30	जेसी	238653पी	रिसालदार	ब्रम प्रकाश	1-9-2004
31	जेसी	236942एल	रिसालदार	बृज नारायण राम	1-9-2004
32	जेसी	236927डब्ल्यू	रिसालदार	सी एस नायर टी एन	1-12-2004
33	जेसी	237243एम	रिसालदार	चैन सिंह	1-12-2004
34	जेसी	238161डब्ल्यू	रिसालदार	चंद्र भान	1-1-2005
35	जेसी	235820पी	रिसालदार	चंद्र भान लाम्बा	1-11-2004
36	जेसी	237856एम	रिसालदार	चंदगी राम	1-9-2004
37	जेसी	238386वाइ	रिसालदार	चिमन लाल यादवा	1-10-2004
38	जेसी	238679के	रिसालदार	चून सिंह	1-11-2004
39	जेसी	239066डब्ल्यू	रिसालदार	दलबीर सिंह	1-1-2005
40	जेसी	237213पी	रिसालदार	दलजीत सिंह	1-11-2004
41	जेसी	237433वाइ	रिसालदार	दंबेर कुमार भुजल	1-9-2004
42	जेसी	236935पी	रिसालदार	दर्शन सिंह	1-10-2004
43	जेसी	238227एफ	रिसालदार	दया नन्द	1-9-2004
44	जेसी	236791एक्स	रिसालदार	देव मुनि प्रसाद	1-12-2004
45	जेसी	237878एल	रिसालदार	देस राज समायाल	1-10-2004
46	जेसी	237656डब्ल्यू	रिसालदार	देश राज	1-11-2004
47	जेसी	238151एम	रिसालदार	देव नारायण सिंह	1-1-2005
48	जेसी	238385डब्ल्यू	रिसालदार	घनतर सिंह	1-12-2004
49	जेसी	237119एल	रिसालदार	धर्म पौल	1-12-2004
50	जेसी	236924एच	रिसालदार	धर्म सिंह	1-12-2004
51	जेसी	238727वाइ	रिसालदार	दिलबाग सिंह लोहया	1-12-2004
52	जेसी	237138डब्ल्यू	रिसालदार	दिनेश कुमार सिंह	1-10-2004
53	जेसी	237916डब्ल्यू	रिसालदार	दिवाकर प्रसाद सिंह	1-9-2004
54	जेसी	237447वाइ	रिसालदार	गर्जाराज शर्मा	1-9-2004
55	जेसी	235670के	रिसालदार	जी वरघोसे के	1-9-2004
56	जेसी	237662के	रिसालदार	घनश्याम सिंह ठाकुर	1-9-2004
57	जेसी	237705एन	रिसालदार	गिरधारी सिंह भाटी	1-11-2004
58	जेसी	237422एम	रिसालदार	गुलज सिंह	1-1-2005
59	जेसी	238622पी	रिसालदार	गुरमेल सिंह	1-10-2004
60	जेसी	237030वाइ	रिसालदार	गुरवंत सिंह	1-12-2004
61	जेसी	237663एम	रिसालदार	हरबंस सिंह	1-9-2004
62	जेसी	238282एक्स	रिसालदार	हरभजन सिंह	1-12-2004
63	जेसी	238318एल	रिसालदार	हरभजन सिंह	1-11-2004
64	जेसी	237958एच	रिसालदार	हरबीर सिंह	1-9-2004
65	जेसी	235757एल	रिसालदार	हरी चरन संतरा	1-9-2004
66	जेसी	237423पी	रिसालदार	हरजिन्दर सिंह	1-9-2004

67	जेसी	236366एम	रिसालदार	हारुन अली खान	1-1-2005
68	जेसी	237666ए	रिसालदार	हवा सिंह	1-9-2004
69	जेसी	237143एफ	रिसालदार	हेम राज	1-10-2004
70	जेसी	238230एफ	रिसालदार	हेम सिंह एस	1-10-2004
71	जेसी	239065एन	रिसालदार	इंद्र पाल सिंह	1-11-2004
72	जेसी	237788के	रिसालदार	इंदरा सिंह	1-9-2004
73	जेसी	237777एक्स	रिसालदार	इंदराज सिंह	1-10-2004
74	जेसी	237175के	रिसालदार	जगदीश चंद	1-10-2004
75	जेसी	237272एफ	रिसालदार	जगदीश सिंह	1-9-2004
76	जेसी	238871एन	रिसालदार	जगमोहन सिंह	1-1-2005
77	जेसी	238019एम	रिसालदार	जे सिंह जसवाल	1-9-2004
78	जेसी	236643एम	रिसालदार	जशवन्त लाल केवट	1-10-2004
79	जेसी	236702एन	रिसालदार	जसवंत सिंह	1-11-2004
80	जेसी	236571एन	रिसालदार	जसविन्दर सिंह	1-10-2004
81	जेसी	237783एल	रिसालदार	जवाहर लाल	1-1-2005
82	जेसी	236859एन	रिसालदार	छरमाल सिंह	1-10-2004
83	जेसी	236041वाइ	रिसालदार	जोगिंदर सिंह कंडोला	1-9-2004
84	जेसी	237617एक्स	रिसालदार	जों के जे	1-10-2004
85	जेसी	237403एफ	रिसालदार	कमल सिंह	1-9-2004
86	जेसी	238713वाइ	रिसालदार	कमल सिंह	1-10-2004
87	जेसी	238164के	रिसालदार	कमलजीत सिंह	1-9-2004
88	जेसी	238128वाइ	रिसालदार	कर्मवीर सिंह	1-10-2004
89	जेसी	237743के	रिसालदार	किरणपाल सिंह	1-1-2005
90	जेसी	238829पी	रिसालदार	कृष्ण कुमार	1-1-2005
91	जेसी	204554ए	रिसालदार	कृष्ण लाल	1-9-2004
92	जेसी	237071एच	रिसालदार	कृष्णा नन्द एस	1-1-2005
93	जेसी	236029एक्स	रिसालदार	कृष्णन टी	1-11-2004
94	जेसी	237039एन	रिसालदार	कुलदीप सिंह	1-1-2005
95	जेसी	237984के	रिसालदार	एल एस रनघावा	1-12-2004
96	जेसी	235988एफ	रिसालदार	ललन सिंह	1-10-2004
97	जेसी	238106ए	रिसालदार	एम देवेन्द्रन	1-10-2004
98	जेसी	237735एल	रिसालदार	महावीर सिंह	1-11-2004
99	जेसी	238180एफ	रिसालदार	महावीर सिंह	1-1-2005
100	जेसी	237572एच	रिसालदार	महावीर सिंह	एन 1-10-2004
101	जेसी	236990एल	रिसालदार	महेंद्र सिंह	1-10-2004
102	जेसी	237501एफ	रिसालदार	मान सिंह राठौर	1-10-2004
103	जेसी	237902डब्ल्यू	रिसालदार	एम आर	1-10-2004
104	जेसी	238750एम	रिसालदार	मरचु राम	1-12-2004
105	जेसी	238012एच	रिसालदार	मोहम्मद नूर एस एस	1-9-2004
106	जेसी	238539एक्स	रिसालदार	मोहर सिंह	1-11-2004
107	जेसी	238554एम	रिसालदार	मोहम्मद इलियास	1-12-2004
108	जेसी	238140ए	रिसालदार	मोहम्मद कासिम	1-10-2004
109	जेसी	237309एक्स	रिसालदार	मोहिन्दर सिंह	1-11-2004
110	जेसी	238525एक्स	रिसालदार	मोहिन्दर सिंह	1-9-2004
111	जेसी	237199एन	रिसालदार	मोहिन्दर सिंह चौहान	1-10-2004
112	जेसी	238688एल	रिसालदार	नफे सिंह	1-10-2004
113	जेसी	237219डब्ल्यू	रिसालदार	नन्द लाल	1-12-2004
114	जेसी	238661एन	रिसालदार	नंदलाल राम	1-11-2004
115	जेसी	238109एन	रिसालदार	नरेश कुमार	1-9-2004
116	जेसी	238182एम	रिसालदार	नरेश कुमार	1-11-2004
117	जेसी	237935एफ	रिसालदार	नरिंद्र कुमार	1-12-2004
118	जेसी	236310ए	रिसालदार	नरिंद्र सिंह	1-10-2004
119	जेसी	237894एच	रिसालदार	एन सिंह तोमर	1-10-2004
120	जेसी	238660एल	रिसालदार	नेहरू लाल	1-11-2004

121	जेसी	238933एच	रिसालदार	निरंजन कुमार गेन	1-9-2004
122	जेसी	236719एफ	रिसालदार	ओम प्रकाश	1-11-2004
123	जेसी	236899पी	रिसालदार	ओम प्रकाश	1-10-2004
124	जेसी	237114एम	रिसालदार	ओमकार सिंह भदोरिया	1-9-2004
125	जेसी	238376डब्ल्यू	रिसालदार	पी सिंह	1-9-2004
126	जेसी	237971एम	रिसालदार	परमिन्दर सिंह	1-1-2005
127	जेसी	238746के	रिसालदार	पवन कुमार तिवारी	1-9-2004
128	जेसी	238123ए	रिसालदार	पीतम सिंह	1-11-2004
129	जेसी	238779डब्ल्यू	रिसालदार	प्रभु राम एम	1-10-2004
130	जेसी	238344एन	रिसालदार	प्रेम प्रकाश	1-1-2005
131	जेसी	237018एक्स	रिसालदार	प्रेम सिंह राठौर	1-10-2004
132	जेसी	237901एन	रिसालदार	प्रीतम सिंह	1-1-2005
133	जेसी	237988पी	रिसालदार	प्रीतिपाल सिंह	1-12-2004
134	जेसी	237980ए	रिसालदार	पूरन माल	1-11-2004
135	जेसी	236333एफ	रिसालदार	प्यारे लाल वर्मा	1-9-2004
136	जेसी	236501पी	रिसालदार	राधाकृष्णन नायर सी	1-9-2004
137	जेसी	236334के	रिसालदार	रघुबीर सिंह	1-10-2004
138	जेसी	236238एन	रिसालदार	राज कुमार सिंह	1-11-2004
139	जेसी	237316एन	रिसालदार	राज पाल	1-9-2004
140	जेसी	238468डब्ल्यू	रिसालदार	राजबीर सिंह चाहर	1-9-2004
141	जेसी	237461एल	रिसालदार	राजेंद्र सिंह शेखावत	1-9-2004
142	जेसी	237260एम	रिसालदार	राजेंद्र सिंह	1-11-2004
143	जेसी	237493एन	रिसालदार	राजेन्द्रन के एस	1-10-2004
144	जेसी	238149पी	रिसालदार	राजपाल टेक बहादुर	1-10-2004
145	जेसी	237558एल	रिसालदार	राम अवतार	1-1-2005
146	जेसी	237640एल	रिसालदार	राम बाली प्रसाद सिंह	1-10-2004
147	जेसी	238374के	रिसालदार	राम चरन सिंह	1-9-2004
148	जेसी	236288ए	रिसालदार	राम चरित्रा सिंह	1-9-2004
149	जेसी	236311एच	रिसालदार	राम दशश यादवा	1-11-2004
150	जेसी	237320डब्ल्यू	रिसालदार	राम गोपाल सिंह	1-12-2004
151	जेसी	238319एन	रिसालदार	राम करन	1-9-2004
152	जेसी	238295पी	रिसालदार	राम किशन	1-11-2004
153	जेसी	237259एक्स	रिसालदार	राम फल	1-10-2004
154	जेसी	237987एक्स	रिसालदार	रामचन्द्रन नायर वी के	1-9-2004
155	जेसी	236948एम	रिसालदार	आर यादव	1-11-2004
156	जेसी	238776एफ	रिसालदार	रामदेओ भाकर	1-12-2004
157	जेसी	238844एल	रिसालदार	रमेश चंद बढियार	1-10-2004
158	जेसी	238659डब्ल्यू	रिसालदार	रमेश चंद यादवा	1-11-2004
159	जेसी	237787एफ	रिसालदार	रमेश चंद्र	1-10-2004
160	जेसी	238571एम	रिसालदार	रमेश चंद्र	1-1-2005
161	जेसी	237891वाइ	रिसालदार	रमेश चंद्रा	1-11-2004
162	जेसी	237621ए	रिसालदार	रंजीत सिंह	1-1-2005
163	जेसी	237283एन	रिसालदार	रनबीर सिंह	1-9-2004
164	जेसी	237864पी	रिसालदार	रतन लाल	1-11-2004
165	जेसी	238168ए	रिसालदार	रतन सिंह	1-12-2004
166	जेसी	238038ए	रिसालदार	राउत रमन किसान	1-10-2004
167	जेसी	237570एक्स	रिसालदार	रविकरण सिंह पंवार	1-10-2004
168	जेसी	237816एल	रिसालदार	रेथी कुमार बी	1-11-2004
169	जेसी	237897डब्ल्यू	रिसालदार	रोहताश सिंह दलाल	1-10-2004
170	जेसी	238475एक्स	रिसालदार	रोमेश चंद	1-1-2005
171	जेसी	237488एच	रिसालदार	रूप लाल	1-9-2004
172	जेसी	238049के	रिसालदार	रून्दा सिंह	1-11-2004
173	जेसी	237899एफ	रिसालदार	एस मुथु	1-12-2004
174	जेसी	238228के	रिसालदार	साहब राम	1-10-2004
175	जेसी	236258एच	रिसालदार	सहदेवन टी	1-9-2004

176	जेसी	237795ए	रिसालदार	समुद्र सिंह	1-9-2004
177	जेसी	235999एम	रिसालदार	संत सिंह	1-9-2004
178	जेसी	237443एच	रिसालदार	संतोष कुमार	1-1-2005
179	जेसी	238449डब्ल्यू	रिसालदार	संतोष कुमार	1-10-2004
180	जेसी	236720डब्ल्यू	रिसालदार	सार बचन सिंह	1-11-2004
181	जेसी	237019ए	रिसालदार	सरवर सिंह	1-9-2004
182	जेसी	237821डब्ल्यू	रिसालदार	सत बीर सिंह	1-12-2004
183	जेसी	236845एन	रिसालदार	सतींद्र चंद	1-11-2004
184	जेसी	237850पी	रिसालदार	सतीश चंद्र	1-11-2004
185	जेसी	237473ए	रिसालदार	सतवीर सिंह मलिक	1-10-2004
186	जेसी	237675एफ	रिसालदार	सत्यपाल सिंह	1-9-2004
187	जेसी	236463के	रिसालदार	सावी वीराना	1-10-2004
188	जेसी	237468पी	रिसालदार	शाम लाल	1-11-2004
189	जेसी	238114वाइ	रिसालदार	शम्भू नाथ सिंह	1-9-2004
190	जेसी	238555पी	रिसालदार	शंकर सिंह	1-12-2004
191	जेसी	236900वाइ	रिसालदार	शेर सिंह एन	1-1-2005
192	जेसी	236270के	रिसालदार	सीरोमणी सिंह	1-9-2004
193	जेसी	237917वाइ	रिसालदार	शिव शंकर	1-9-2004
194	जेसी	238691एल	रिसालदार	श्री पंच सिंह यादव	1-11-2004
195	जेसी	238165एम	रिसालदार	श्री राम यादव	1-1-2005
196	जेसी	237771डब्ल्यू	रिसालदार	श्याम सिंह	1-10-2004
197	जेसी	237589डब्ल्यू	रिसालदार	सोमवीर सिंह टी	1-12-2004
198	जेसी	238150के	रिसालदार	सूबे सिंह	1-11-2004
199	जेसी	237638एच	रिसालदार	सुजेन्द्र सिंह	1-10-2004
200	जेसी	237537ए	रिसालदार	सुखदेव सिंह	1-11-2004
201	जेसी	238446एच	रिसालदार	सुखवीर सिंह सुहाग	1-10-2004
202	जेसी	237426एच	रिसालदार	सुखविंदर सिंह	1-9-2004
203	जेसी	236895वाइ	रिसालदार	सुमेर सिंह	1-11-2004
204	जेसी	237854एम	रिसालदार	सुमेर सिंह	1-10-2004
205	जेसी	237280ए	रिसालदार	सुंदर लाल	1-1-2005
206	जेसी	237035एक्स	रिसालदार	सुनीत सिंह	1-10-2004
207	जेसी	237454पी	रिसालदार	सुरेंद्र पाल	1-10-2004
208	जेसी	237639डब्ल्यू	रिसालदार	सुरेंद्र प्रताप सिंह	1-11-2004
209	जेसी	237992एच	रिसालदार	सुरेन्द्रन पिल्लै आर	1-10-2004
210	जेसी	238944पी	रिसालदार	सुरेश चंद	1-10-2004
211	जेसी	235819ए	रिसालदार	सुरेश सिंह	1-11-2004
212	जेसी	238665के	रिसालदार	सुरेश सिंह भादौरिया	1-10-2004
213	जेसी	237181एक्स	रिसालदार	सुरिन्दर कुमार	1-1-2005
214	जेसी	237513डब्ल्यू	रिसालदार	सुरिन्दर सिंह	1-11-2004
215	जेसी	238062पी	रिसालदार	तापश चौधरी	1-9-2004
216	जेसी	237723डब्ल्यू	रिसालदार	तारा चंद	1-11-2004
217	जेसी	238481एल	रिसालदार	टी एन भूश भाई	1-9-2004
218	जेसी	237396डब्ल्यू	रिसालदार	त्रिलोचन सिंह	1-1-2005
219	जेसी	237658एफ	रिसालदार	तरसेम लाल	1-12-2004
220	जेसी	238344एम	रिसालदार	तिलक राज	1-12-2004
221	जेसी	238384ए	रिसालदार	टी बुश जी	1-9-2004
222	जेसी	237250एच	रिसालदार	तुलसी दास रेना	1-11-2004
223	जेसी	236734डब्ल्यू	रिसालदार	उदा प्रताप सिंह	1-1-2005
224	जेसी	237238डब्ल्यू	रिसालदार	वरुधिस टी जी	1-12-2004
225	जेसी	237782एच	रिसालदार	विजय कुमार	1-10-2004
226	जेसी	237233एच	रिसालदार	विजयाकुमार एम	1-12-2004
227	जेसी	236989डब्ल्यू	रिसालदार	विक्रम सिंह	1-9-2004
228	जेसी	238392एम	रिसालदार	पी दयाल	1-10-2004

रेजिमेन्ट आफ तोपखाना

229	जेसी	255073डब्ल्यू	सुबेदार	अजित के	1-10-2004
230	जेसी	214921पी	सुबेदार	अजित कुमार एस	1-11-2004
231	जेसी	255621एच	सुबेदार	अमीलाल यादव	1-12-2004
232	जेसी	255039डब्ल्यू	सुबेदार	अमरीक सिंह	1-9-2004
233	जेसी	258204एफ	सुबेदार	अनिल सी एच शर्मा	1-9-2004
234	जेसी	214976वाइ	सुबेदार	अन्ना एस वेन्कटेश्वरलु	1-12-2004
235	जेसी	259880एच	सुबेदार	अरविंद शुक्ला	1-1-2005
236	जेसी	262045एम	सुबेदार	अर्जुन सिंह	1-10-2004
237	जेसी	255309ए	सुबेदार	अवतार सिंह	1-11-2004
238	जेसी	211897वाइ	सुबेदार	बचन सिंह	1-10-2004
239	जेसी	195702डब्ल्यू	सुबेदार	बलबीर सिंह	1-9-2004
240	जेसी	255063एम	सुबेदार	बलबीर सिंह	1-9-2004
241	जेसी	259171एन	सुबेदार	बलबीर सिंह	1-10-2004
242	जेसी	259861एक्स	सुबेदार	बलवीर सिंह	1-10-2004
243	जेसी	225377वाइ	सुबेदार	बलविन्दर सिंह	1-1-2005
244	जेसी	182015एफ	सुबेदार	बेद प्रकाश सिंह	1-10-2004
245	जेसी	261109ए	सुबेदार	भाग सिंह	1-1-2005
246	जेसी	258812एच	सुबेदार	चंद्रपाल सिंह चौहान	1-9-2004
247	जेसी	257344एफ	सुबेदार	दर्शन सिंह	1-10-2004
248	जेसी	257801के	सुबेदार	दर्शन सिंह	1-10-2004
249	जेसी	260584के	सुबेदार	दर्शन सिंह	1-10-2004
250	जेसी	258763एल	सुबेदार	देब बहादुर पुन	1-9-2004
251	जेसी	256304एन	सुबेदार	देस राम	1-10-2004
252	जेसी	255747एच	सुबेदार	देश राज	1-12-2004
253	जेसी	260022एम	सुबेदार	देव दत्ता यादवा	1-12-2004
254	जेसी	261159एल	सुबेदार	देव राज	1-10-2004
255	जेसी	213379एक्स	सुबेदार	देवी दयाल	1-1-2005
256	जेसी	261114एल	सुबेदार	देवी सिंह राठीर	1-9-2004
257	जेसी	257905एल	सुबेदार	धर्मवीर	1-1-2005
258	जेसी	225275एच	सुबेदार	दिनेश शर्मा	1-10-2004
259	जेसी	255042डब्ल्यू	सुबेदार	गवस उत्तम लक्ष्मन	1-9-2004
260	जेसी	259248एल	सुबेदार	ज्ञान चंद	1-9-2004
261	जेसी	223305डब्ल्यू	सुबेदार	गोविंद सिंह	1-9-2004
262	जेसी	256183एक्स	सुबेदार	गुरदीप सिंह	1-12-2004
263	जेसी	256916एल	सुबेदार	गुरमेल सिंह	1-1-2005
264	जेसी	257718एम	सुबेदार	गुरनाम सिंह	1-9-2004
265	जेसी	257826डब्ल्यू	सुबेदार	एच कृष्णा मूर्ति	1-10-2004
266	जेसी	255067एच	सुबेदार	हरी चरन	1-9-2004
267	जेसी	259030वाइ	सुबेदार	इश्वर दास	1-10-2004
268	जेसी	257026एक्स	सुबेदार	जय सिंह	1-1-2005
269	जेसी	256244के	सुबेदार	जस्राम	1-1-2005
270	जेसी	258512एफ	सुबेदार	जसवंत सिंह	1-12-2004
271	जेसी	262226एक्स	सुबेदार	के वी	1-10-2004
272	जेसी	260874एफ	सुबेदार	कदम दलीप एस	1-11-2004
273	जेसी	260030एल	सुबेदार	कमल देव	1-12-2004
274	जेसी	255617ए	सुबेदार	केहर सिंह	1-12-2004
275	जेसी	260825वाइ	सुबेदार	कृष्ण दास	1-9-2004
276	जेसी	255943एच	सुबेदार	कृष्ण सिंह	1-1-2005
277	जेसी	260245के	सुबेदार	कृष्णन उन्नी टी आर	1-10-2004
278	जेसी	262290पी	सुबेदार	कुलदीप सिंह	1-10-2004
279	जेसी	226532एफ	सुबेदार	कुमावत मधुकर गोविन्दा	1-1-2005
280	जेसी	256030एन	सुबेदार	लाल बख्श पान्डे	1-11-2004

281	जेसी	225201एन	सुबेदार	लालु प्रसाद शाह	1-12-2004
282	जेसी	259394एल	सुबेदार	लेख राज	1-1-2005
283	जेसी	226284डब्ल्यू	सुबेदार	माधव राव एस	1-10-2004
284	जेसी	2588440एच	सुबेदार	मधुसूदन सिन्हा	1-10-2004
285	जेसी	199065एच	सुबेदार	महा सिंह यादव	1-10-2004
286	जेसी	257664डब्ल्यू	सुबेदार	महाबीर सिंह एस	1-12-2004
287	जेसी	257844वाइ	सुबेदार	महादेव एच	1-1-2005
288	जेसी	257920ए	सुबेदार	मेजर सिंह	1-10-2004
289	जेसी	255184एन	सुबेदार	मान सिंह	1-1-2005
290	जेसी	258589के	सुबेदार	एम पाल सिंह	1-12-2004
291	जेसी	257700डब्ल्यू	सुबेदार	मोहन सिंह	1-1-2005
292	जेसी	255315एन	सुबेदार	मोहिन्दर सिंह	1-11-2004
293	जेसी	258787पी	सुबेदार	मोहिन्दर सिंह	1-11-2004
294	जेसी	258282वाइ	सुबेदार	मोरे विलास कृष्णराव	1-10-2004
295	जेसी	226021एक्स	सुबेदार	मुख्तार सिंह	1-11-2004
296	जेसी	255021ए	सुबेदार	मुकुल कुमार घोष	1-1-2005
297	जेसी	257852एक्स	सुबेदार	एन चंद्रा मोहन	1-10-2004
298	जेसी	257543पी	सुबेदार	नंदा लाल थापा	1-10-2004
299	जेसी	257110एक्स	सुबेदार	एन प्रसाद	1-10-2004
300	जेसी	226821डब्ल्यू	सुबेदार	नरेन्द्र नाथ तिवारी	1-11-2004
301	जेसी	257732वाइ	सुबेदार	नरिजन सिंह	1-10-2004
302	जेसी	255489एन	सुबेदार	नवीन चंद्रा	1-1-2005
303	जेसी	261683वाइ	सुबेदार	एन सिंह वर्मा	1-1-2005
304	जेसी	255488एल	सुबेदार	निरंजन सिंह यादव	1-1-2005
305	जेसी	256552के	सुबेदार	ओम प्रकाश एस	1-9-2004
306	जेसी	260578डब्ल्यू	सुबेदार	परमजीत सिंह	1-11-2004
307	जेसी	255368एम	सुबेदार	पी सिंह	1-9-2004
308	जेसी	257177डब्ल्यू	सुबेदार	पी सिंह जामवाल	1-9-2004
309	जेसी	226705एन	सुबेदार	पाटिल बाबू बंदू	1-12-2004
310	जेसी	256010ए	सुबेदार	पाटिल धनयानेश्वर विथल	1-10-2004
311	जेसी	226819वाइ	सुबेदार	प्यार चंद	1-1-2005
312	जेसी	255669डब्ल्यू	सुबेदार	पृथ्वी सिंह	1-12-2004
313	जेसी	261646एल	सुबेदार	पुरुषोत्तम सिंह	1-10-2004
314	जेसी	259132पी	सुबेदार	आर थंगाराजु	1-1-2005
315	जेसी	226817एन	सुबेदार	रछपाल सिंह	1-9-2004
316	जेसी	256292के	सुबेदार	राज सिंह	1-1-2005
317	जेसी	214902के	सुबेदार	राजेंद्र कुमार यादव	1-10-2004
318	जेसी	260423एफ	सुबेदार	राजेंद्र प्रसाद यादवा	1-11-2004
319	जेसी	260192डब्ल्यू	सुबेदार	राम एल	1-10-2004
320	जेसी	257847एम	सुबेदार	राम निवास यादव	1-10-2004
321	जेसी	225690के	सुबेदार	रामप्पा एम	1-12-2004
322	जेसी	200364डब्ल्यू	सुबेदार	रमेश चंद्र	1-1-2005
323	जेसी	257836ए	सुबेदार	रमेश सिंह	1-12-2004
324	जेसी	260751पी	सुबेदार	रानी दान सिंह राठौर	1-1-2005
325	जेसी	200196एच	सुबेदार	रतवीर सिंह	1-11-2004
326	जेसी	257114एन	सुबेदार	रतवीर सिंह	1-12-2004
327	जेसी	256251ए	सुबेदार	आर नायर आर	1-10-2004
328	जेसी	256965एन	सुबेदार	आर ब्रमा	1-9-2004
329	जेसी	259300एच	सुबेदार	रोशन लाल	1-10-2004
330	जेसी	260569पी	सुबेदार	सदानंदन पी	1-1-2005
331	जेसी	260104पी	सुबेदार	सागर एम सी	1-10-2004
332	जेसी	259408ए	सुबेदार	सहदेवन टी के	1-12-2004
333	जेसी	198735एम	सुबेदार	साजन सिंह	1-1-2005
334	जेसी	256720एक्स	सुबेदार	समशेर सिंह	1-9-2004

335	जेसी	255533एम	सुबेदार	सरूप सिंह	1-9-2004
336	जेसी	225495एम	सुबेदार	सावत तुकाराम दादा	1-10-2004
337	जेसी	257593ए	सुबेदार	सवरनजीत सिंह	1-11-2004
338	जेसी	257125ए	सुबेदार	शोक खादर वाई	1-1-2005
339	जेसी	262185वाइ	सुबेदार	शोक सत्तार	1-12-2004
340	जेसी	261978पी	सुबेदार	शिव चरण सिंह	1-1-2005
341	जेसी	258291ए	सुबेदार	श्री राम	1-10-2004
342	जेसी	258963एफ	सुबेदार	श्री रमन दुबे	1-1-2005
343	जेसी	256319डब्ल्यू	सुबेदार	सुबाष चंद्र	1-9-2004
344	जेसी	261708ए	सुबेदार	सुर्दशन कुमार एस जी	1-12-2004
345	जेसी	257347पी	सुबेदार	सुखविंदर सिंह	1-11-2004
346	जेसी	215382डब्ल्यू	सुबेदार	सुरिन्दर सिंह एम	1-11-2004
347	जेसी	255414डब्ल्यू	सुबेदार	सुरजीत सिंह	1-12-2004
348	जेसी	256914ए	सुबेदार	तारा चंद	1-12-2004
349	जेसी	259073एन	सुबेदार	टी लाल सैनी	1-10-2004
350	जेसी	256463एल	सुबेदार	तिलक राम	1-1-2005
351	जेसी	259446डब्ल्यू	सुबेदार	वी रामकृष्णन	1-11-2004
352	जेसी	261369एल	सुबेदार	वी एस वी सतियाग	1-1-2005
353	जेसी	257710ए	सुबेदार	विजय बहादुर सिंह	1-10-2004
354	जेसी	260986एफ	सुबेदार	विजय कुमार	1-12-2004
355	जेसी	225429के	सुबेदार	विजेन्द्र कुमार यादव	1-10-2004
356	जेसी	221218के	सुबेदार	यशवंत सिंह यादव	1-10-2004
कोर आफ वायु रक्षा तोपखाना					
357	जेसी	296228पी	सुबेदार	ए जी जी दोस	1-10-2004
358	जेसी	296370वाइ	सुबेदार	चील सिंह राजपूत	1-9-2004
359	जेसी	200350डब्ल्यू	सुबेदार	धर्मबीर यादव	1-10-2004
360	जेसी	296516एफ	सुबेदार	दीन दयाल पान्डे	1-9-2004
361	जेसी	226328एच	सुबेदार	हरी शरण सिंह	1-11-2004
362	जेसी	297308वाइ	सुबेदार	होशियार सिंह	1-10-2004
363	जेसी	296837वाइ	सुबेदार	कैलाश चंद	1-11-2004
364	जेसी	297205ए	सुबेदार	कुदन लाल	1-12-2004
365	जेसी	296432एन	सुबेदार	मेहर सिंह हीरा	1-1-2005
366	जेसी	296295ए	सुबेदार	एन बी राव	1-12-2004
367	जेसी	186651एम	सुबेदार	ओमविर सिंह	1-10-2004
368	जेसी	296947एन	सुबेदार	प्यारे लाल	1-9-2004
369	जेसी	255722डब्ल्यू	सुबेदार	पी बी शर्मा	1-9-2004
370	जेसी	296325एम	सुबेदार	प्रीतम सिंह	1-10-2004
371	जेसी	224607पी	सुबेदार	राज कुमार	1-11-2004
372	जेसी	296319वाइ	सुबेदार	राजेंद्र सिंह	1-10-2004
373	जेसी	296525एच	सुबेदार	राजेंद्र सिंह	1-10-2004
374	जेसी	296924एम	सुबेदार	राम बहादुर	1-10-2004
375	जेसी	297769एच	सुबेदार	राम किशन	1-10-2004
376	जेसी	226695पी	सुबेदार	रमेश चंद्रा	1-10-2004
377	जेसी	297039एक्स	सुबेदार	रत्तन सिंह	1-9-2004
378	जेसी	296894ए	सुबेदार	एस सिंह जे	1-9-2004
379	जेसी	226691वाइ	सुबेदार	सुबाष चंद्र	1-1-2005
380	जेसी	215350एन	सुबेदार	सुखदेव सिंह	1-9-2004
मद्रास इंजीनियर ग्रुप					
381	जेसी	305575एक्स	सुबेदार	ए ई निधि	1-11-2004
382	जेसी	219379एन	सुबेदार	ए रामु	1-9-2004
383	जेसी	207496एम	सुबेदार	अशोकन जी	1-11-2004
384	जेसी	219330एक्स	सुबेदार	बालन के वी	1-9-2004

385	जैसी	305120एफ	सुबेदार	गोपाकुमार के जी	1-1-2006
386	जैसी	306144एक्स	सुबेदार	जे एल	1-9-2004
387	जैसी	306924डब्ल्यू	सुबेदार	के जे	1-9-2004
388	जैसी	305426के	सुबेदार	के एस	1-12-2004
389	जैसी	305979ए	सुबेदार	कुरियाकोस पी टी	1-9-2004
390	जैसी	219334एन	सुबेदार	मनी एम	1-12-2004
391	जैसी	305232एफ	सुबेदार	एम रामकृष्ण	1-12-2004
392	जैसी	305992के	सुबेदार	मुकुंदन नायर वी	1-1-2005
393	जैसी	305760एल	सुबेदार	एन चंद्रा एस	1-11-2004
394	जैसी	305758डब्ल्यू	सुबेदार	एन एम	1-10-2004
395	जैसी	306608के	सुबेदार	नागराजा डी	1-10-2004
396	जैसी	177321एम	सुबेदार	पी बी जॉन	1-12-2004
397	जैसी	308100ए	सुबेदार	पी रत्नम	1-1-2005
398	जैसी	197022पी	सुबेदार	आर आलन्दन	1-12-2004
399	जैसी	210332एफ	सुबेदार	आर स्वामीनाथन	1-9-2004
400	जैसी	219422के	सुबेदार	राजन जी एल	1-12-2004
401	जैसी	305519वाइ	सुबेदार	राजेंद्र रेडी	1-12-2004
402	जैसी	215708एफ	सुबेदार	एस अरुमुगम	1-12-2004
403	जैसी	305060एक्स	सुबेदार	ससिधरन के के	1-9-2004
404	जैसी	305993एम	सुबेदार	ससिधरन थिल्लै	1-1-2005
405	जैसी	305974एफ	सुबेदार	एस जी	1-9-2004
406	जैसी	305941डब्ल्यू	सुबेदार	सन्नी पी वी	1-10-2004
407	जैसी	181758एक्स	सुबेदार	थामस पी एस	1-12-2004
408	जैसी	219375एक्स	सुबेदार	थामस टी टी	1-1-2005
409	जैसी	306465पी	सुबेदार	तुलसी एम	1-9-2004
410	जैसी	438513एम	सुबेदार	वी टी मेथ्यू	1-9-2004
411	जैसी	305954एन	सुबेदार	वी जी	1-12-2004
बंगाल इंजीनियर ग्रुप					
412	जैसी	326403डब्ल्यू	सुबेदार	अबदुलाली एम	1-1-2005
413	जैसी	325248एन	सुबेदार	अजय कुमार सिंह	1-11-2004
414	जैसी	326855एच	सुबेदार	अमल चंद्रा दास	1-10-2004
415	जैसी	179658वाइ	सुबेदार	अमर सिंह नेगी	1-10-2004
416	जैसी	325416एफ	सुबेदार	अम्बा दत्त	1-10-2004
417	जैसी	325131पी	सुबेदार	अशोक कुमार प्रधान	1-9-2004
418	जैसी	325216एल	सुबेदार	अवतार सिंह	1-9-2004
419	जैसी	325240एफ	सुबेदार	बहादुर राम	1-10-2004
420	जैसी	325456एच	सुबेदार	बैज नाथ सिंह	1-9-2004
421	जैसी	224905एल	सुबेदार	बलबीर सिंह भाटी	1-10-2004
422	जैसी	325212पी	सुबेदार	बलविन्दर सिंह	1-9-2004
423	जैसी	326078डब्ल्यू	सुबेदार	बलविन्दर सिंह	1-11-2004
424	जैसी	325775पी	सुबेदार	बसंत बल्लभ लोहनी	1-11-2004
425	जैसी	326363ए	सुबेदार	बसंत कुमार स्वेन	1-12-2004
426	जैसी	326855वाइ	सुबेदार	भगवान सिंह राणा	1-1-2005
427	जैसी	210371ए	सुबेदार	भूपाल सिंह	1-1-2005
428	जैसी	325444एन	सुबेदार	मुपेन्द्र चंद	1-11-2004
429	जैसी	325223एफ	सुबेदार	भुपिन्द्र सिंह	1-11-2004
430	जैसी	202978एक्स	सुबेदार	बी बंधु मित्रा	1-10-2004
431	जैसी	325213एक्स	सुबेदार	बिंदेश्वरी सिंह	1-1-2005
432	जैसी	326843के	सुबेदार	बिरेन्द्र नाथ दत्ता	1-1-2005
433	जैसी	325258एक्स	सुबेदार	बिरेन्द्र सिंह	1-11-2004
434	जैसी	326588एम	सुबेदार	बिरेन्द्र सिंह	1-10-2004
435	जैसी	207583ए	सुबेदार	बिरेन्द्र सिंह साजवान	1-12-2004
436	जैसी	326378एक्स	सुबेदार	ब्रम दास	1-12-2004

437	जेसी	325709एम	सुबेदार	ब्रज बिहारी सिंह	1-10-2004
438	जेसी	325573एन	सुबेदार	दलबीर सिंह	1-1-2005
439	जेसी	326181एम	सुबेदार	दाऊद खान	1-10-2004
440	जेसी	325433एफ	सुबेदार	दया नन्द एस	1-11-2004
441	जेसी	325246एच	सुबेदार	देवेंद्र सिंह	1-10-2004
442	जेसी	210607के	सुबेदार	देवेन्द्रा कुमार शर्मा	1-1-2005
443	जेसी	255707एफ	सुबेदार	देवेन्द्रा प्रसाद सिंह	1-10-2004
444	जेसी	325256एम	सुबेदार	डी नन्दन पान्डे	1-11-2004
445	जेसी	325211एम	सुबेदार	धीरज मोहन	1-9-2004
446	जेसी	325774एम	सुबेदार	डी चंद्रा जुयाल	1-9-2004
447	जेसी	326643एन	सुबेदार	दिलराज सिंह	1-1-2005
448	जेसी	327091एक्स	सुबेदार	दिनेश पाल सिंह	1-10-2004
449	जेसी	325467पी	सुबेदार	गामा सिंह	1-1-2005
450	जेसी	325470पी	सुबेदार	गिरीश चंद्रा	1-1-2005
451	जेसी	325412एल	सुबेदार	गीता राम	1-10-2004
452	जेसी	325410ए	सुबेदार	गोपाल सिंह	1-10-2004
453	जेसी	326685ए	सुबेदार	गोविंद सिंह	1-10-2004
454	जेसी	327457के	सुबेदार	गुरदेव सिंह	1-9-2004
455	जेसी	325861ए	सुबेदार	गुरनाम सिंह	1-9-2004
456	जेसी	210446एम	सुबेदार	हरेन्द्र सिंह	1-10-2004
457	जेसी	325245ए	सुबेदार	हरजिन्द्र सिंह	1-10-2004
458	जेसी	326789एफ	सुबेदार	हयात सिंह	1-11-2004
459	जेसी	326689डब्ल्यू	सुबेदार	होशियार सिंह	1-12-2004
460	जेसी	325163एक्स	सुबेदार	जगत सिंह	1-9-2004
461	जेसी	325209पी	सुबेदार	जगदीश चंद्रा	1-9-2004
462	जेसी	326653एक्स	सुबेदार	जगदीश सिंह यादव	1-9-2004
463	जेसी	325451के	सुबेदार	जरनैल सिंह	1-9-2004
464	जेसी	326274एफ	सुबेदार	जसपाल सिंह	1-9-2004
465	जेसी	325227एक्स	सुबेदार	जीवन सिंह	1-9-2004
466	जेसी	325437एक्स	सुबेदार	जीवन सिंह	1-11-2004
467	जेसी	326687एल	सुबेदार	जुहार सिंह सोहेल	1-10-2004
468	जेसी	326104एक्स	सुबेदार	कर्म चंद	1-10-2004
469	जेसी	210675एक्स	सुबेदार	करनैल सिंह	1-9-2004
470	जेसी	325217एन	सुबेदार	कश्मीर सिंह	1-9-2004
471	जेसी	325244एक्स	सुबेदार	कश्मीर सिंह	1-10-2004
472	जेसी	326844एम	सुबेदार	केशव प्रसाद	1-10-2004
473	जेसी	179860एफ	सुबेदार	कृष्णा चंद्रा सिंह	1-1-2005
474	जेसी	325859एच	सुबेदार	कुलबन्त सिंह	1-10-2004
475	जेसी	326587ए	सुबेदार	लखविन्दर सिंह	1-10-2004
476	जेसी	325443एल	सुबेदार	मदन सिंह बिष्ट	1-12-2004
477	जेसी	325117एच	सुबेदार	महीपाल सिंह पवार	1-9-2004
478	जेसी	326793के	सुबेदार	मकसूद अली	1-12-2004
479	जेसी	325484एफ	सुबेदार	मान सिंह	1-1-2005
480	जेसी	326682एम	सुबेदार	मेहेन्द्र सिंह सेठी	1-10-2004
481	जेसी	325118ए	सुबेदार	एम सिंह	1-10-2004
482	जेसी	325238के	सुबेदार	नन्द किशोर कुमार	1-10-2004
483	जेसी	325440एक्स	सुबेदार	नन्दन सिंह	1-12-2004
484	जेसी	325576एफ	सुबेदार	नरेश कुमार	1-1-2005
485	जेसी	326722एच	सुबेदार	निरंजन सिंह छैल	1-1-2005
486	जेसी	326237एन	सुबेदार	निर्मल सिंह	1-9-2004
487	जेसी	325229एच	सुबेदार	नित्या नन्द	1-10-2004
488	जेसी	325411एच	सुबेदार	ओम प्रकाश	1-10-2004
489	जेसी	325224के	सुबेदार	ओम प्रकाश सिंह आरोला	1-10-2004
490	जेसी	326236एल	सुबेदार	पवाले विष्णू बालू	1-9-2004

491	जेसी	325166एल	सुबेदार	पदम राम	1-9-2004
492	जेसी	207597ए	सुबेदार	पंचम राम	1-12-2004
493	जेसी	191602एन	सुबेदार	पाटिल रमेश दामू	1-9-2004
494	जेसी	325214ए	सुबेदार	प्यारा सिंह चहल	1-9-2004
495	जेसी	325399एम	सुबेदार	प्रहलाद	1-10-2004
496	जेसी	326137एच	सुबेदार	प्रकाश सिंह	1-12-2004
497	जेसी	325257पी	सुबेदार	प्रताप सिंह	1-11-2004
498	जेसी	326794एम	सुबेदार	प्रताप सिंह धामी	1-9-2004
499	जेसी	202979ए	सुबेदार	पूरन सिंह कन्याल	1-9-2004
500	जेसी	325158एम	सुबेदार	रघवीर सिंह भाऊ	1-9-2004
501	जेसी	325785वाइ	सुबेदार	रघुवीर सिंह	1-1-2005
502	जेसी	325160के	सुबेदार	रघुवीर सिंह	1-9-2004
503	जेसी	325165एच	सुबेदार	राज किशोर सिंह	1-9-2004
504	जेसी	325427एन	सुबेदार	राजा राम सिंह	1-11-2004
505	जेसी	325483वाइ	सुबेदार	राम प्रवेश सिंह	1-12-2004
506	जेसी	325460एल	सुबेदार	रमाकांत बिस्वाल	1-11-2004
507	जेसी	210622वाइ	सुबेदार	रामेन्द्र नाथ के	1-1-2005
508	जेसी	325428एल	सुबेदार	रमेश चंद जोशी	1-10-2004
509	जेसी	325438पी	सुबेदार	रंजीत सिंह	1-10-2004
510	जेसी	326721ए	सुबेदार	रंजीत सिंह	1-1-2005
511	जेसी	325784डब्ल्यू	सुबेदार	रूप नाथ	1-1-2005
512	जेसी	325421एम	सुबेदार	रूप सिंह	1-11-2004
513	जेसी	326098पी	सुबेदार	रूप सिंह	1-1-2005
514	जेसी	326384डब्ल्यू	सुबेदार	समय सिंह एस	1-1-2005
515	जेसी	325712एम	सुबेदार	सरजीत सिंह	1-12-2004
516	जेसी	325242एम	सुबेदार	शिव नायक सिंह	1-10-2004
517	जेसी	326636एक्स	सुबेदार	शिव दर्शन सिंह	1-9-2004
518	जेसी	325208एम	सुबेदार	शिव दत्त भट्ट	1-9-2004
519	जेसी	210763एन	सुबेदार	शिव कुमार त्रिवेदी	1-10-2004
520	जेसी	325167एन	सुबेदार	श्री कृष्ण	1-9-2004
521	जेसी	209440वाइ	सुबेदार	श्री कुमार दत्तता	1-9-2004
522	जेसी	210405एच	सुबेदार	एस अन्सारी	1-9-2004
523	जेसी	325423एक्स	सुबेदार	सुदामा सिंह	1-10-2004
524	जेसी	325404एम	सुबेदार	सुदर्शन सिंह नेगी	1-9-2004
525	जेसी	326692डब्ल्यू	सुबेदार	सुखदेव सिंह	1-12-2004
526	जेसी	326709वाइ	सुबेदार	सुरेंद्र पाल सिंह राठौर	1-9-2004
527	जेसी	325418एम	सुबेदार	सुरिन्दर सिंह	1-11-2004
528	जेसी	326854डब्ल्यू	सुबेदार	त्रिलोचन सिंह	1-9-2004
529	जेसी	326783ए	सुबेदार	ठाकुर सिंह	1-12-2004
530	जेसी	197216एक्स	सुबेदार	वैदपाल सिंह	1-10-2004
531	जेसी	326695के	सुबेदार	विजय प्रकाश सिंह	1-1-2005
532	जेसी	325202एल	सुबेदार	वीरेंद्र सिंह	1-10-2004
533	जेसी	325446वाइ	सुबेदार	यशपाल सिंह	1-12-2004
534	जेसी	325237एफ	सुबेदार	योगेन्द्र प्रसाद सिंह	1-10-2004
चंबई इंजीनियर ग्रुप					
535	जेसी	347459डब्ल्यू	सुबेदार	अलानूर	1-11-2004
536	जेसी	347662एम	सुबेदार	अअमृतराव विश्वनाथ पाटिल	1-9-2004
537	जेसी	347984एम	सुबेदार	अवतार सिंह	1-12-2004
538	जेसी	347673वाइ	सुबेदार	बाबन चवाण	1-11-2004
539	जेसी	348105ए	सुबेदार	बी खान	1-12-2004
540	जेसी	348359एक्स	सुबेदार	भंडारे बालासाहब विथोवा	1-10-2004
541	जेसी	347756के	सुबेदार	चान्द्राकान्त दादाराव देशमुख	1-10-2004
542	जेसी	347880एल	सुबेदार	चौधरी लक्ष्मण जनार्दन	1-11-2004

543	जेसी	347728एक्स	सुबेदार	गेन सिंह	1-9-2004
544	जेसी	348068एक्स	सुबेदार	गुरदीप सिंह	1-1-2005
545	जेसी	347771वाइ	सुबेदार	गुरसेवक सिंह	1-12-2004
546	जेसी	347416एफ	सुबेदार	हनुमंत भाऊ थोरात	1-1-2005
547	जेसी	347807एम	सुबेदार	हरबंस सिंह	1-10-2004
548	जेसी	347323एम	सुबेदार	हरचंद सिंह	1-11-2004
549	जेसी	347297डब्ल्यू	सुबेदार	हरदीप सिंह चहल	1-12-2004
550	जेसी	348244के	सुबेदार	हरी सिंह	1-1-2005
551	जेसी	203113एक्स	सुबेदार	कैलाश चंद्रा	1-1-2005
552	जेसी	199996एम	सुबेदार	के मारुति लक्ष्मण	1-10-2004
553	जेसी	347828एच	सुबेदार	नरिंद्र सिंह	1-11-2004
554	जेसी	347699एन	सुबेदार	नविंद्र सिंह	1-10-2004
555	जेसी	216106ए	सुबेदार	निर्मल सिंह	1-9-2004
556	जेसी	347247एल	सुबेदार	निर्मल सिंह	1-11-2004
557	जेसी	347625वाइ	सुबेदार	नूर मोहम्मद	1-11-2004
558	जेसी	348236एल	सुबेदार	पवार अशोक सी	1-9-2004
559	जेसी	348248ए	सुबेदार	प्रेम सिंह	1-9-2004
560	जेसी	347203एन	सुबेदार	सैयद मोहम्मद मुलाब	1-11-2004
561	जेसी	347397एफ	सुबेदार	सुरिन्दर सिंह	1-9-2004
कोर आफ सिगनल्स					
562	जेसी	368968एच	सुबेदार	ए जगदीशन	1-1-2005
563	जेसी	367073एक्स	सुबेदार	अक्षय कुमार सिंह	1-12-2004
564	जेसी	371279एम	सुबेदार	अमरेन्द्र सिंह	1-11-2004
565	जेसी	368104वाइ	सुबेदार	आनंद कुमार जायरावाल	1-12-2004
566	जेसी	368114एच	सुबेदार	अरुण कुमार गोस्वामी	1-1-2005
567	जेसी	369677पी	सुबेदार	अशोक कुमार ठाकुर	1-1-2005
568	जेसी	367691एच	सुबेदार	अशोक कुमार तिवारी	1-11-2004
569	जेसी	370122ए	सुबेदार	आश कुमार	1-12-2004
570	जेसी	368337ए	सुबेदार	बी के भट्टाचाजी	1-11-2004
571	जेसी	221445के	सुबेदार	बच्चू सिंह	1-9-2004
572	जेसी	370454के	सुबेदार	बलवीर सिंह राजपूत	1-11-2004
573	जेसी	369663पी	सुबेदार	बलवीर सिंह	1-9-2004
574	जेसी	368001ए	सुबेदार	बनमाली सेठ	1-10-2004
575	जेसी	371077एल	सुबेदार	बी बट्टू	1-1-2005
576	जेसी	368827एन	सुबेदार	भजन सिंह	1-1-2005
577	जेसी	368460वाइ	सुबेदार	भंडारी गोविंद वामन	1-12-2004
578	जेसी	370459एच	सुबेदार	भासकरण टी	1-1-2005
579	जेसी	206880एफ	सुबेदार	भूप सिंह	1-10-2004
580	जेसी	206882एम	सुबेदार	भृगु नाथ यादवा	1-11-2004
581	जेसी	368122एफ	सुबेदार	भूपाल दत्त	1-11-2004
582	जेसी	223425पी	सुबेदार	चंद्रिका प्रसाद यादव	1-11-2004
583	जेसी	370618पी	सुबेदार	छबि लाल राणा	1-9-2004
584	जेसी	370118एक्स	सुबेदार	दलीप सिंह देव सिंह	1-9-2004
585	जेसी	371705पी	सुबेदार	दुराग सिंह	1-10-2004
586	जेसी	371390डब्ल्यू	सुबेदार	फन्दी लाल	1-9-2004
587	जेसी	367727डब्ल्यू	सुबेदार	जी के मुखोपाध्याय	1-12-2004
588	जेसी	369525एन	सुबेदार	हरीश राम	1-9-2004
589	जेसी	188326एल	सुबेदार	हारुन अल रशीद	1-1-2005
590	जेसी	370123एच	सुबेदार	होम सिंह	1-12-2004
591	जेसी	369530वाइ	सुबेदार	जगमाल सिंह	1-1-2005
592	जेसी	200676एम	सुबेदार	जय प्रकाश	1-12-2004
593	जेसी	369973ए	सुबेदार	जय सिंह	1-11-2004
594	जेसी	367542पी	सुबेदार	जे चंद्रा बेहेरा	1-11-2004
595	जेसी	367067के	सुबेदार	जनक राज	1-12-2004

596	जेसी	367014एल	सुबेदार	जनार्दन राम	1-10-2004
597	जेसी	371549डब्ल्यू	सुबेदार	जोगेश चंद्रा ए	1-10-2004
598	जेसी	220651एफ	सुबेदार	जोनाथन एक्स	1-12-2004
599	जेसी	371722पी	सुबेदार	के मनी	1-11-2004
600	जेसी	368154के	सुबेदार	के सेथु एम रमन	1-11-2004
601	जेसी	220466एन	सुबेदार	कमल कृष्णा दास	1-9-2004
602	जेसी	367070के	सुबेदार	कमलजीत सिंह	1-9-2004
603	जेसी	370119ए	सुबेदार	के एस आर प्रसाद	1-10-2004
604	जेसी	369242एम	सुबेदार	केसरी प्रसाद	1-8-2004
605	जेसी	371240ए	सुबेदार	खेम करन	1-9-2004
606	जेसी	368531पी	सुबेदार	खोट बलवंत गंगा राम	1-10-2004
607	जेसी	370315ए	सुबेदार	लखबीर सिंह	1-11-2004
608	जेसी	206896एम	सुबेदार	लक्ष्मन सिंह	1-9-2004
609	जेसी	370619एक्स	सुबेदार	एम एस पांडि	1-9-2004
610	जेसी	371556एम	सुबेदार	एम मोहन बेहेरा	1-1-2005
611	जेसी	371022एफ	सुबेदार	महाजन	1-1-2005
612	जेसी	371114एन	सुबेदार	महेंद्र प्रसाद	1-1-2005
613	जेसी	369343ए	सुबेदार	मांगे राम	1-9-2004
614	जेसी	188202डब्ल्यू	सुबेदार	मनजीत सिंह	1-12-2004
615	जेसी	369974एच	सुबेदार	एम हसन	1-11-2004
616	जेसी	371400पी	सुबेदार	नरेन्द्र कुमार मिश्रा	1-11-2004
617	जेसी	369429वाइ	सुबेदार	नेक सिंह राणा	1-12-2004
618	जेसी	369474एल	सुबेदार	एन सिंह गिल	1-10-2004
619	जेसी	369116ए	सुबेदार	एन शेखर मिश्रा	1-1-2005
620	जेसी	221448एक्स	सुबेदार	ओम प्रकाश सिंह	1-11-2004
621	जेसी	368098डब्ल्यू	सुबेदार	प्रताप सिंह	1-9-2004
622	जेसी	370822एन	सुबेदार	पी सिंह	1-9-2004
623	जेसी	368606एफ	सुबेदार	प्रफुल्ल चंद्रा ढ	1-12-2004
624	जेसी	218936पी	सुबेदार	प्रहलाद मिश्रा	1-11-2004
625	जेसी	370433एन	सुबेदार	प्रकाश चंद्र	1-10-2004
626	जेसी	369346एन	सुबेदार	प्रसाद के	1-10-2004
627	जेसी	370622एक्स	सुबेदार	प्रेम बहादुर गुरुंग	1-10-2004
628	जेसी	368166वाइ	सुबेदार	प्रेम बीर सिंह	1-12-2004
629	जेसी	370472एम	सुबेदार	प्रेम कुमार यादव	1-1-2005
630	जेसी	368310एच	सुबेदार	पूरन सिंह	1-1-2005
631	जेसी	370361पी	सुबेदार	पुष्कर सिंह	1-11-2004
632	जेसी	371274एन	सुबेदार	आर एम पिल्लै	1-9-2004
633	जेसी	371408एफ	सुबेदार	रवीन्द्र नाथ वैग	1-10-2004
634	जेसी	369342एक्स	सुबेदार	शधाकृष्ण कुरुप वी आर	1-9-2004
635	जेसी	370411पी	सुबेदार	राय सिंह धंकार	1-1-2005
636	जेसी	368752एफ	सुबेदार	आर प्रसाद शर्मा	1-9-2004
637	जेसी	218927एन	सुबेदार	राजारमन ए	1-11-2004
638	जेसी	371275डब्ल्यू	सुबेदार	राम बाबू सौ	1-9-2004
639	जेसी	370316एच	सुबेदार	राम पुकार सिंह	1-12-2004
640	जेसी	371702एफ	सुबेदार	राम रत्तन	1-10-2004
641	जेसी	371283पी	सुबेदार	रमेश कुमार सिंह	1-12-2004
642	जेसी	371785एक्स	सुबेदार	रमेश राज	1-10-2004
643	जेसी	368701एन	सुबेदार	रमेश सिंह	1-9-2004
644	जेसी	371221पी	सुबेदार	रंजीत सिंह	1-1-2005
645	जेसी	206898एक्स	सुबेदार	रास बिहारी सिंह	1-10-2004
646	जेसी	370879एच	सुबेदार	रतन लाल	1-1-2005

647	जेसी	368458एफ	सुबेदार	रवीन्द्रन पिल्लै पी के	1-9-2004
648	जेसी	370825एफ	सुबेदार	रवीन्द्र नाथ तिवारी	1-12-2004
649	जेसी	368515एक्स	सुबेदार	आर बी	1-10-2004
650	जेसी	369093के	सुबेदार	एस गणेशन	1-10-2004
651	जेसी	370467एफ	सुबेदार	ससिधरन नायर ए के	1-9-2004
652	जेसी	368077ए	सुबेदार	सतबीर सिंह	1-11-2004
653	जेसी	367008एक्स	सुबेदार	सतीश चंद जायसवाल	1-12-2004
654	जेसी	367250एम	सुबेदार	सत्यवीर मलिक	1-12-2004
655	जेसी	206867एक्स	सुबेदार	सत्येन्द्र नाथ एस	1-11-2004
656	जेसी	367891वाइ	सुबेदार	शिवाजी आर डब्ल्यू	1-9-2004
657	जेसी	368185के	सुबेदार	श्री चंद	1-12-2004
658	जेसी	371428पी	सुबेदार	श्रीराम मिश्रा	1-1-2005
659	जेसी	369459डब्ल्यू	सुबेदार	एस साहू	1-1-2005
660	जेसी	368700एल	सुबेदार	सोहन सिंह	1-9-2004
661	जेसी	369503पी	सुबेदार	एस एस भीमाजी	1-11-2004
662	जेसी	372337एक्स	सुबेदार	श्रीकुमारन नायर टी के	1-10-2004
663	जेसी	371021वाइ	सुबेदार	सुबोध चंद्रा बोरा	1-12-2004
664	जेसी	371328के	सुबेदार	सुजीत गांगुली	1-9-2004
665	जेसी	370477एल	सुबेदार	सुकुमारन नायर	1-12-2004
666	जेसी	370455एम	सुबेदार	सुंदर लाल कनुजिया	1-1-2005
667	जेसी	370485के	सुबेदार	सुरेंद्र पी डी सिंह	1-10-2004
668	जेसी	367788एन	सुबेदार	सुरेश चंद्रा भाटिया	1-10-2004
669	जेसी	223795पी	सुबेदार	सुरेश कुमार भाटी	1-9-2004
670	जेसी	370624एच	सुबेदार	सुरिन्दर सिंह	1-11-2004
671	जेसी	369166एल	सुबेदार	सुरजीत सिंह	1-9-2004
672	जेसी	368891एल	सुबेदार	तारा चंद	1-9-2004
673	जेसी	370314एक्स	सुबेदार	तरसेम चंद	1-10-2004
674	जेसी	371078एन	सुबेदार	तेज सिंह	1-1-2005
675	जेसी	371794वाइ	सुबेदार	उदय सिंह के	1-1-2005
676	जेसी	369081पी	सुबेदार	उमेश चंद्रा राय	1-1-2005
677	जेसी	204440पी	सुबेदार	डब्ल्यू भास्कर गुलाब	1-1-2005
678	जेसी	371634वाइ	सुबेदार	यश पौल सिंह	1-10-2004
गार्ड्स					
679	जेसी	402354पी	सुबेदार	अजित सिंह	1-9-2004
680	जेसी	402424एच	सुबेदार	एत राजन जा	1-10-2004
681	जेसी	402420एम	सुबेदार	अनिल कुमार ठाकुर	1-12-2004
682	जेसी	402080पी	सुबेदार	भवानी दीन	1-9-2004
683	जेसी	402558एफ	सुबेदार	भुवन चंद्रा	1-1-2005
884	जेसी	402152एन	सुबेदार	दरिया सिंह	1-1-2005
885	जेसी	402404पी	सुबेदार	गंगा राम मिश्रा	1-9-2004
686	जेसी	402391एच	सुबेदार	गुरभीत सिंह	1-10-2004
687	जेसी	402711एम	सुबेदार	हस राज	1-10-2004
688	जेसी	402443एन	सुबेदार	एच नन्द पान्डे	1-10-2004
689	जेसी	402060एफ	सुबेदार	जगन नाथ	1-1-2005
690	जेसी	217945के	सुबेदार	जय सिंह यादव	1-9-2004
691	जेसी	224172एक्स	सुबेदार	करनैल सिंह	1-9-2004
692	जेसी	402421पी	सुबेदार	केसी चको	1-10-2004
693	जेसी	402006एन	सुबेदार	मोहन प्रसाद पान्डे	1-9-2004
694	जेसी	402550पी	सुबेदार	एम हक चौधुरी	1-9-2004
695	जेसी	402495के	सुबेदार	नेपाल सिंह	1-11-2004

696	जेसी	402666एल	सुबेदार	ओंकार सिंह	1-9-2004
697	जेसी	402234डब्ल्यू	सुबेदार	पाटिल पी रामचंद्र	1-10-2004
698	जेसी	402361एल	सुबेदार	पवन कुमार	1-9-2004
699	जेसी	402018एच	सुबेदार	प्रेम राम	1-10-2004
700	जेसी	402024डब्ल्यू	सुबेदार	पुरुषोत्तमन पी	1-10-2004
701	जेसी	402484एक्स	सुबेदार	रघुबीर सिंह	1-9-2004
702	जेसी	402162एल	सुबेदार	राज मनी	1-9-2004
703	जेसी	402388एच	सुबेदार	राज नाथ सिंह	1-1-2005
704	जेसी	402423ए	सुबेदार	राजन के जी	1-10-2004
705	जेसी	402571एल	सुबेदार	राजेंद्र सिंह	1-10-2004
706	जेसी	402592एफ	सुबेदार	राम चंद	1-10-2004
707	जेसी	402081एक्स	सुबेदार	राम सहाय सी	1-11-2004
708	जेसी	402450के	सुबेदार	रिषि नारायण	1-10-2004
709	जेसी	402536एच	सुबेदार	रोशन लाल	1-9-2004
710	जेसी	402059एम	सुबेदार	एस कृष्णा आर	1-1-2005
711	जेसी	216700एफ	सुबेदार	एस वसंत डी	1-9-2004
712	जेसी	402671डब्ल्यू	सुबेदार	सीता राम यादव	1-10-2004
713	जेसी	402471ए	सुबेदार	सुदर्शन सिंह	1-11-2004
714	जेसी	402492डब्ल्यू	सुबेदार	विजय पाल सिंह	1-10-2004
715	जेसी	402557वाइ	सुबेदार	विक्रम सिंह	1-10-2004
716	जेसी	402137वाइ	सुबेदार	वी सिंह	1-9-2004
717	जेसी	402193एक्स	सुबेदार	डब्ल्यू विक्रम कुंडलिक	1-10-2004
पैराशूट रेजीमेन्ट					
718	जेसी	412174ए	सुबेदार	बलविन्दर सिंह	1-1-2005
719	जेसी	412188ए	सुबेदार	बांके बहादुर सिंह	1-10-2004
720	जेसी	412281एफ	सुबेदार	भास्कर सिंह रावत	1-11-2004
721	जेसी	412039एम	सुबेदार	ब्रम दत्त यादव	1-10-2004
722	जेसी	412434ए	सुबेदार	चित्रा बहादुर थापा	1-1-2005
723	जेसी	412273एच	सुबेदार	गंगा सिंह	1-10-2004
724	जेसी	412332के	सुबेदार	हरी प्रसाद	1-11-2004
725	जेसी	412037एफ	सुबेदार	हरी सिंह	1-10-2004
726	जेसी	412187एक्स	सुबेदार	हवा सिंह	1-10-2004
727	जेसी	412234के	सुबेदार	जगपाल सिंह	1-12-2004
728	जेसी	412163एन	सुबेदार	जगतार सिंह	1-10-2004
729	जेसी	412267पी	सुबेदार	काली राम थपलियाल	1-11-2004
730	जेसी	192853के	सुबेदार	कृष्णा बहादुर थापा	1-10-2004
731	जेसी	412281एन	सुबेदार	कृष्णा प्रधान	1-10-2004
732	जेसी	412222पी	सुबेदार	महाबीर प्रसाद	1-10-2004
733	जेसी	412149एफ	सुबेदार	माही पाल	1-9-2004
734	जेसी	412077एच	सुबेदार	मेहर बेन सिंह	1-10-2004
735	जेसी	412063एच	सुबेदार	प्रकाशन पी पी	1-10-2004
736	जेसी	412376एफ	सुबेदार	राम निवास	1-10-2004
737	जेसी	412231डब्ल्यू	सुबेदार	शिव राम गूजर	1-10-2004
738	जेसी	185699एन	सुबेदार	श्याम सिंह नेगी	1-1-2005
739	जेसी	412025एम	सुबेदार	सूरत सिंह	1-10-2004
740	जेसी	412232वाइ	सुबेदार	सुरेश कुमार सैनी	1-10-2004
मैकेनाइज्ड पैदल सेना रेजीमेन्ट					
741	जेसी	418449वाइ	सुबेदार	आज्ञापाल सिंह	1-10-2004
742	जेसी	418445एच	सुबेदार	अमर सिंह	1-1-2005

743	जेसी	418470एफ	सुबेदार	आनंदा दत्तू सी	1-10-2004
744	जेसी	418322डब्ल्यू	सुबेदार	बी रामचंद्र पाटिल	1-9-2004
745	जेसी	177498ए	सुबेदार	बलबीर सिंह	1-9-2004
746	जेसी	418168एच	सुबेदार	बलवंत सिंह	1-10-2004
747	जेसी	204605एच	सुबेदार	बी रेबासाहिब	1-10-2004
748	जेसी	225977एफ	सुबेदार	भगवान सिंह	1-12-2004
749	जेसी	418643एन	सुबेदार	भरत सिंह	1-11-2004
750	जेसी	216399डब्ल्यू	सुबेदार	भरत भूषण	1-10-2004
751	जेसी	418665एम	सुबेदार	भूर सिंह भाटी	1-1-2005
752	जेसी	418455एम	सुबेदार	चमन लाल	1-11-2004
753	जेसी	418465डब्ल्यू	सुबेदार	चंद्र मोहन	1-1-2005
754	जेसी	206677एल	सुबेदार	चिन्तामानी शर्मा	1-11-2004
755	जेसी	219257के	सुबेदार	सी पुन	1-12-2004
756	जेसी	225653डब्ल्यू	सुबेदार	डी पानी कन्वर	1-1-2005
757	जेसी	418356के	सुबेदार	दाता राम	1-10-2004
758	जेसी	418411पी	सुबेदार	दयाल सिंह विष्ट	1-9-2004
759	जेसी	418203ए	सुबेदार	देव सिंह	1-9-2004
760	जेसी	224403एच	सुबेदार	डी सिंह	1-11-2004
761	जेसी	418840डब्ल्यू	सुबेदार	देवेन्द्रा कुमार	1-9-2004
762	जेसी	206675ए	सुबेदार	धर्म पालजी	1-10-2004
763	जेसी	418262एम	सुबेदार	धर्म पाल सिंह	1-10-2004
764	जेसी	418459एच	सुबेदार	दीनत राम	1-12-2004
765	जेसी	418450एन	सुबेदार	गुरबचन सिंह	1-12-2004
766	जेसी	418534एफ	सुबेदार	गुरदेव सिंह	1-9-2004
767	जेसी	211614एम	सुबेदार	गुरमीत सिंह	1-1-2005
768	जेसी	418317एल	सुबेदार	हरी फल पी	1-10-2004
769	जेसी	418351एल	सुबेदार	हेम सिंह	1-10-2004
770	जेसी	418884एन	सुबेदार	हिम्मत सिंह	1-9-2004
771	जेसी	206612एक्स	सुबेदार	हुम बहादुर राणा	1-11-2004
772	जेसी	418544एल	सुबेदार	इंद्र सिंह ठाकुर	1-10-2004
773	जेसी	418158वाइ	सुबेदार	इंगवले सूर्यकांत तुकाराम	1-9-2004
774	जेसी	418261के	सुबेदार	जगन नाथ	1-10-2004
775	जेसी	201545एन	सुबेदार	जय पाल सिंह राणा	1-10-2004
776	जेसी	418746एम	सुबेदार	जयपाल सिंह	1-9-2004
777	जेसी	418600वाइ	सुबेदार	जमन सिंह	1-9-2004
778	जेसी	418370डब्ल्यू	सुबेदार	जोगिंदर सिंह	1-9-2004
779	जेसी	418620एम	सुबेदार	जोगिंदर सिंह	1-9-2004
780	जेसी	183649के	सुबेदार	जोसेफ सी टी	1-12-2004
781	जेसी	211622एल	सुबेदार	कल्याण सिंह	1-10-2004
782	जेसी	418081एफ	सुबेदार	कप्तान सिंह शिकरदार	1-10-2004
783	जेसी	418163के	सुबेदार	कर्मवीर सिंह	1-10-2004
784	जेसी	211591डब्ल्यू	सुबेदार	केशर देव ढका	1-9-2004
785	जेसी	418751एक्स	सुबेदार	खीर सिंह आर	1-1-2005
786	जेसी	418301ए	सुबेदार	खिभा नन्द	1-10-2004
787	जेसी	418190एन	सुबेदार	कृपाल सिंह	1-9-2004
788	जेसी	418572एक्स	सुबेदार	लाल चंद भारद्वाज	1-10-2004
789	जेसी	418428एच	सुबेदार	महावीर सिंह तन्वर	1-9-2004
790	जेसी	418720एक्स	सुबेदार	मेहर सिंह वर्मा	1-10-2004
791	जेसी	418571पी	सुबेदार	मोहिन्दर सिंह	1-1-2005
792	जेसी	418883एल	सुबेदार	मोहिन्दर सिंह	1-1-2005
793	जेसी	418645वाइ	सुबेदार	मोती सिंह	1-1-2005

794	जेसी	418515डब्ल्यू	सुबेदार	नासायण सिंह गुरूग	1-11-2004
795	जेसी	223526एच	सुबेदार	नरिंद्र कुमार कौशल	1-11-2004
796	जेसी	201548एफ	सुबेदार	नाथू सिंह	1-12-2004
797	जेसी	418604पी	सुबेदार	ओमदिर सिंह	1-10-2004
798	जेसी	418985एफ	सुबेदार	पारस नाथ एस	1-10-2004
799	जेसी	418257एफ	सुबेदार	पारस राम	1-10-2004
800	जेसी	225976वाइ	सुबेदार	प्रकाश सिंह पंवार	1-9-2004
801	जेसी	418532डब्ल्यू	सुबेदार	परमा नन्द	1-9-2004
802	जेसी	418543एच	सुबेदार	प्रताप चंद रंगरा	1-9-2004
803	जेसी	418304एन	सुबेदार	प्रताप सिंह	1-10-2004
804	जेसी	208347एल	सुबेदार	प्रेम पाल सिंह टी	1-10-2004
805	जेसी	418122ए	सुबेदार	प्रेम सिंह सैनी	1-11-2004
806	जेसी	211633एक्स	सुबेदार	रछपाल सिंह सलारिया	1-10-2004
807	जेसी	418602के	सुबेदार	राज पाल	1-10-2004
808	जेसी	418371वाइ	सुबेदार	राजिन्दर सिंह सैन	1-10-2004
809	जेसी	418358पी	सुबेदार	राम चंद्रा सिंह	1-10-2004
810	जेसी	418973एम	सुबेदार	राम कृष्ण	1-10-2004
811	जेसी	418060एल	सुबेदार	रणजीत सिंह परवाल	1-10-2004
812	जेसी	201570एम	सुबेदार	रेशम सिंह	1-10-2004
813	जेसी	195447पी	सुबेदार	रेवात सिंह	1-12-2004
814	जेसी	201541एक्स	सुबेदार	सतनाम सिंह	1-1-2005
815	जेसी	418917एन	सुबेदार	श्याम चंद ठाकुर	1-10-2004
816	जेसी	418617एम	सुबेदार	सोबत सिंह	1-11-2004
817	जेसी	418253एल	सुबेदार	सूरज माल देसवाल	1-10-2004
818	जेसी	211590एन	सुबेदार	वी एन	1-10-2004
819	जेसी	418567एम	सुबेदार	वसुदेव महादेव धुले	1-1-2005
पंजाब रेजिमेन्ट					
820	जेसी	428669डब्ल्यू	सुबेदार	बलबीर सिंह	1-1-2005
821	जेसी	428764एच	सुबेदार	बलबीर सिंह	1-12-2004
822	जेसी	428881एन	सुबेदार	बलदेव राज	1-1-2005
823	जेसी	428277एच	सुबेदार	बलवंत सिंह	1-9-2004
824	जेसी	428393एल	सुबेदार	बलवंत सिंह	1-9-2004
825	जेसी	428893एच	सुबेदार	बोध राज	1-10-2004
826	जेसी	428923पी	सुबेदार	ब्रम दास धीमान	1-1-2005
827	जेसी	428386पी	सुबेदार	चंचल सिंह	1-10-2004
828	जेसी	428898एफ	सुबेदार	दलेर सिंह	1-10-2004
829	जेसी	428418एम	सुबेदार	दर्शन सिंह	1-10-2004
830	जेसी	428659एम	सुबेदार	दीप चंद	1-1-2005
831	जेसी	428867एफ	सुबेदार	धर्म पौल	1-9-2004
832	जेसी	428765एल	सुबेदार	गिरधारी लाल	1-9-2004
833	जेसी	428448के	सुबेदार	गुरचरण सिंह	1-9-2004
834	जेसी	428515के	सुबेदार	गुरनाम सिंह	1-10-2004
835	जेसी	428876एच	सुबेदार	हरभजन सिंह	1-1-2005
836	जेसी	428235डब्ल्यू	सुबेदार	एच सिंह	1-9-2004
837	जेसी	428293ए	सुबेदार	हेम राज जसवाल	1-10-2004
838	जेसी	428204डब्ल्यू	सुबेदार	जगराज सिंह	1-10-2004
839	जेसी	428501के	सुबेदार	जय सिंह	1-9-2004
840	जेसी	428056डब्ल्यू	सुबेदार	जसमेर सिंह	1-1-2005
841	जेसी	428842पी	सुबेदार	कमलजीत	1-9-2004
842	जेसी	428627के	सुबेदार	कर्म सिंह	1-9-2004

843	जेसी	428430एन	सुबेदार	करन सिंह	1-9-2004
844	जेसी	210930वाइ	सुबेदार	करनैल सिंह	1-11-2004
845	जेसी	428474एल	सुबेदार	कसमीर सिंह	1-10-2004
846	जेसी	428423एक्स	सुबेदार	कुलवंत सिंह	1-10-2004
847	जेसी	428608वाइ	सुबेदार	मनोहर लाल	1-10-2004
848	जेसी	428647एक्स	सुबेदार	मोहन सिंह	1-9-2004
849	जेसी	428851डब्ल्यू	सुबेदार	मोहिन्दर लाल	1-12-2004
850	जेसी	428591डब्ल्यू	सुबेदार	ओमप्रकाश	1-9-2004
851	जेसी	428562एफ	सुबेदार	पाल सिंह	1-10-2004
852	जेसी	428319के	सुबेदार	प्रकाश चंद	1-9-2004
853	जेसी	428726एम	सुबेदार	प्रीतम सिंह	1-12-2004
854	जेसी	428870एफ	सुबेदार	राज माल	1-10-2004
855	जेसी	428642वाइ	सुबेदार	रमेश चंद	1-9-2004
856	जेसी	428662एम	सुबेदार	रमेश कुमार	1-10-2004
857	जेसी	428767डब्ल्यू	सुबेदार	रमेश लाल	1-12-2004
858	जेसी	428693एम	सुबेदार	रमेश सिंह	1-10-2004
859	जेसी	428697एच	सुबेदार	रणधीर सिंह	1-9-2004
860	जेसी	428860एक्स	सुबेदार	रंजीत सिंह	1-12-2004
861	जेसी	428897वाइ	सुबेदार	रंजीत सिंह	1-10-2004
862	जेसी	428516एम	सुबेदार	रोमेश कुमार	1-11-2004
863	जेसी	428509डब्ल्यू	सुबेदार	सदाशिवन पी	1-1-2005
864	जेसी	428486ए	सुबेदार	समाई सिंह	1-11-2004
865	जेसी	428597एक्स	सुबेदार	संतोख सिंह	1-9-2004
866	जेसी	428527वाइ	सुबेदार	सतपाल सिंह	1-11-2004
867	जेसी	184279एफ	सुबेदार	शाम सिंह सी	1-10-2004
868	जेसी	428810एम	सुबेदार	एस राम	1-10-2004
869	जेसी	428785वाइ	सुबेदार	शंकर सिंह	1-12-2004
870	जेसी	428521एक्स	सुबेदार	सुच्चा सिंह	1-1-2005
871	जेसी	428545एफ	सुबेदार	सुरेश कुमार	1-10-2004
872	जेसी	428789पी	सुबेदार	सुरिन्दर सिंह	1-9-2004
873	जेसी	428415वाइ	सुबेदार	सुवेन्दर सिंह	1-11-2004
874	जेसी	428431डब्ल्यू	सुबेदार	तारा चंद	1-9-2004
875	जेसी	428388ए	सुबेदार	त्रिलोक सिंह	1-10-2004
876	जेसी	428583एक्स	सुबेदार	तररोम सिंह	1-12-2004
मद्रास रेजीमेन्ट					
877	जेसी	438539एफ	सुबेदार	अन्नामलाई एम	1-9-2004
878	जेसी	200998एम	सुबेदार	बाबू के एस	1-11-2004
879	जेसी	188363वाइ	सुबेदार	चाला वेंकट रेडी	1-10-2004
880	जेसी	438639एम	सुबेदार	चीना सोमेश्वरा राव डांडा	1-9-2004
881	जेसी	438117डब्ल्यू	सुबेदार	डी डेनिअल जे	1-9-2004
882	जेसी	438332एफ	सुबेदार	डी कुप्पन	1-10-2004
883	जेसी	438696एन	सुबेदार	देवदास के	1-1-2005
884	जेसी	438062एक्स	सुबेदार	इ सी उमर	1-11-2004
885	जेसी	226173वाइ	सुबेदार	जवाहर पी जी	1-11-2004
886	जेसी	218189पी	सुबेदार	के सी	1-10-2004
887	जेसी	438162एच	सुबेदार	के मेय्यप्पन	1-9-2004
888	जेसी	438104वाइ	सुबेदार	के ए एन	1-10-2004
889	जेसी	208042एल	सुबेदार	एम एन	1-9-2004
890	जेसी	193659एफ	सुबेदार	मधुसुधनन पिल्लै पी बी	1-12-2004
891	जेसी	213483डब्ल्यू	सुबेदार	एम राव आर	1-10-2004

892	जेसी	210949एक्स	सुबेदार	श्री सतिधरन नायर	1-1-2005
893	जेसी	438074एम	सुबेदार	एन एम बासप्पा	1-9-2004
894	जेसी	438027पी	सुबेदार	एन रामालिंगम	1-10-2004
895	जेसी	438571डब्ल्यू	सुबेदार	एन रामास्वामी	1-9-2004
896	जेसी	438028एक्स	सुबेदार	पी अप्पला नायडू	1-10-2004
897	जेसी	438365एच	सुबेदार	पी श्रीविलासन	1-11-2004
898	जेसी	438670वाइ	सुबेदार	पत्रीर सेलवम पी	1-9-2004
899	जेसी	438238एक्स	सुबेदार	पीएम गणेशन	1-10-2004
900	जेसी	438276एन	सुबेदार	आर एलागरीस्वामी	1-10-2004
901	जेसी	438018एन	सुबेदार	आर गोपीनाथन	1-10-2004
902	जेसी	438296एफ	सुबेदार	आर के	1-10-2004
903	जेसी	438481पी	सुबेदार	राजन सी	1-12-2004
904	जेसी	218425एल	सुबेदार	रामकृष्णन	1-11-2004
905	जेसी	438412वाइ	सुबेदार	सैम पी जे	1-12-2004
906	जेसी	438386एच	सुबेदार	सनकरनारायणन एम	1-9-2004
907	जेसी	219659एफ	सुबेदार	सेलवम रंगराज	1-1-2005
908	जेसी	438021एन	सुबेदार	शोक के	1-10-2004
909	जेसी	168518एफ	सुबेदार	एस एन जनाथ	1-12-2004
910	जेसी	438320एम	सुबेदार	शिवालिंगप्पा के	1-10-2004
911	जेसी	438322एक्स	सुबेदार	सोरीराज ए	1-10-2004
912	जेसी	438029ए	सुबेदार	सुरेश बाबू पी	1-12-2004
913	जेसी	438106के	सुबेदार	टी जेसू	1-12-2004
914	जेसी	438280डब्ल्यू	सुबेदार	उथमन टी	1-11-2004
ग्रेनेडियर्स					
915	जेसी	220905एन	सुबेदार	अरविंद सिंह	1-12-2004
916	जेसी	448501एल	सुबेदार	बहादुर सिंह	1-10-2004
917	जेसी	448567एफ	सुबेदार	बी राम	1-10-2004
918	जेसी	448035एफ	सुबेदार	भानु प्रताप सिंह ए एसएम	1-9-2004
919	जेसी	448971डब्ल्यू	सुबेदार	बिक्रम सिंह	1-12-2004
920	जेसी	448552वाइ	सुबेदार	ब्रज मोहन उप्रेती	1-10-2004
921	जेसी	448766पी	सुबेदार	देव प्रकाश	1-10-2004
922	जेसी	448319एल	सुबेदार	इरशाद एमए एसएम	1-12-2004
923	जेसी	448626एच	सुबेदार	जाधव विलास धोन्दीराम	1-1-2005
924	जेसी	448553एफ	सुबेदार	जय नारायण	1-10-2004
925	जेसी	448205ए	सुबेदार	जेतु सिंह भाटी	1-10-2004
926	जेसी	448845के	सुबेदार	जोगेन्द्र सिंह	1-10-2004
927	जेसी	448960के	सुबेदार	जोगिंदर सिंह	1-1-2005
928	जेसी	448706ए	सुबेदार	कमल सिंह	1-10-2004
929	जेसी	448311वाइ	सुबेदार	कन्वर सिंह चौधरी	1-10-2004
930	जेसी	448523के	सुबेदार	केसर खान	1-10-2004
931	जेसी	448569एम	सुबेदार	कुलदीप सिंह	1-12-2004
932	जेसी	448289एल	सुबेदार	महाबीर सिंह भदोरिया	1-10-2004
933	जेसी	448670एम	सुबेदार	महेन्द्र सिंह	1-10-2004
934	जेसी	448603एफ	सुबेदार	मंगेज सिंह	1-11-2004
935	जेसी	448937डब्ल्यू	सुबेदार	मनफूल सिंह	1-11-2004
936	जेसी	448371एन	सुबेदार	ओम प्रकाश	1-9-2004
937	जेसी	448544ए	सुबेदार	पदम सिंह विष्ट	1-1-2005
938	जेसी	448533एन	सुबेदार	फूल कुमार	1-10-2004
939	जेसी	448821ए	सुबेदार	पूरन सिंह शेखावत	1-1-2005
940	जेसी	448983एल	सुबेदार	राज सिंह बूरा	1-12-2004

941	जेसी	448323एन	सुबेदार	राजेंद्र प्रसाद सिंह	1-10-2004
942	जेसी	448582डब्ल्यू	सुबेदार	राम बाबू	1-1-2005
943	जेसी	448928पी	सुबेदार	राम कुमार	1-10-2004
944	जेसी	448650वाइ	सुबेदार	राम निवास मीना	1-10-2004
945	जेसी	448833पी	सुबेदार	रमेश चंद्र	1-10-2004
946	जेसी	224209एन	सुबेदार	रणधीर सिंह	1-12-2004
947	जेसी	448841एन	सुबेदार	रूपा राम जाट	1-9-2004
948	जेसी	448324डब्ल्यू	सुबेदार	एस सिंह	1-11-2004
949	जेसी	448199एक्स	सुबेदार	शिव राम सिंह	1-10-2004
950	जेसी	448739एल	सुबेदार	श्री राम	1-10-2004
951	जेसी	448386डब्ल्यू	सुबेदार	सुरेंद्र सिंह	1-11-2004
952	जेसी	448460एम	सुबेदार	उम्मेद अली	1-10-2004
953	जेसी	448875एफ	सुबेदार	विदयाघर	1-11-2004

मराठा लघु पैदल सेना

954	जेसी	205523एम	सुबेदार	ए धोडिबा सावन्त	1-10-2004
955	जेसी	178238एफ	सुबेदार	असाराम एम के	1-10-2004
956	जेसी	201830एम	सुबेदार	बालासाहेब तुकाराम भाने	1-1-2005
957	जेसी	458147पी	सुबेदार	बी पी रुकमाना	1-9-2004
958	जेसी	205520वाइ	सुबेदार	घोडके हनमत सदासिव	1-10-2004
959	जेसी	218227ए	सुबेदार	जाधव डी के	1-9-2004
960	जेसी	212541एक्स	सुबेदार	जाधव सदासिव दत्तू	1-10-2004
961	जेसी	458361एक्स	सुबेदार	जोशी उमाकांत मधुसूदन	1-9-2004
962	जेसी	205507पी	सुबेदार	कराले विथल वी	1-10-2004
963	जेसी	220916ए	सुबेदार	काशिनाथ एल	1-11-2004
964	जेसी	458067एक्स	सुबेदार	के सुभाष रमा	1-10-2004
965	जेसी	458220एच	सुबेदार	के कुडलिक	1-10-2004
966	जेसी	184960डब्ल्यू	सुबेदार	एन भारकर नाइक	1-12-2004
967	जेसी	196424ए	सुबेदार	एन हरिचंद्र महादेव	1-11-2004
968	जेसी	458185एल	सुबेदार	एन टी रंभु	1-12-2004
969	जेसी	458030डब्ल्यू	सुबेदार	पतन टी	1-1-2005
970	जेसी	212557एच	सुबेदार	पाटिल सूर्यकांत बालारमन	1-9-2004
971	जेसी	192374एच	सुबेदार	सालुखे डी विठल	1-10-2004
972	जेसी	458111डब्ल्यू	सुबेदार	सावंत आनंदा दी	1-1-2005
973	जेसी	458040ए	सुबेदार	शिंदे विथल सदासिव	1-10-2004
974	जेसी	458162के	सुबेदार	श्रीराम पी के	1-9-2004
975	जेसी	458100के	सुबेदार	सोनवाने तुकाराम जेड	1-10-2004
976	जेसी	205519के.	सुबेदार	सूर्यवंशी गनपति	1-10-2004

राजपूत राइफल

977	जेसी	468489डब्ल्यू	सुबेदार	औतार सिंह	1-10-2004
978	जेसी	468699डब्ल्यू	सुबेदार	बाल बीर सिंह	1-9-2004
979	जेसी	468816डब्ल्यू	सुबेदार	बलबीर सिंह राजपूत	1-12-2004
980	जेसी	468346डब्ल्यू	सुबेदार	ब्रम पाल सिंह	1-11-2004
981	जेसी	468406ए	सुबेदार	भंवर सिंह सी	1-1-2005
982	जेसी	468011वाइ	सुबेदार	बी सिंह बी	1-11-2004
983	जेसी	468413डब्ल्यू	सुबेदार	भीम सिंह	1-10-2004
984	जेसी	468575एफ	सुबेदार	भूप सिंह	1-9-2004
985	जेसी	468187के	सुबेदार	बृजेन्द्र सिंह	1-1-2005
986	जेसी	468744एक्स	सुबेदार	सी राम	1-10-2004
987	जेसी	468262एच	सुबेदार	डी सिंह	1-12-2004

988	जेसी	468684एन	सुबेदार	धर्म पाल सिंह	1-12-2004
989	जेसी	468828एल	सुबेदार	गिरधारी लाल	1-12-2004
990	जेसी	468566ए	सुबेदार	हनुमान सिंह	1-12-2004
991	जेसी	468799एफ	सुबेदार	हरीश कुमार	1-9-2004
992	जेसी	468708एम	सुबेदार	जय प्रकाश	1-12-2004
993	जेसी	211025डब्ल्यू	सुबेदार	जान मोहम्मद	1-12-2004
994	जेसी	468384एम	सुबेदार	जे सिंह झाला	1-10-2004
995	जेसी	468478के	सुबेदार	कल्याण सिंह	1-1-2005
996	जेसी	468719वाइ	सुबेदार	कन्वर सिंह चौहान	1-12-2004
997	जेसी	468609के	सुबेदार	करन सिंह	1-12-2004
998	जेसी	468923एक्स	सुबेदार	करन सिंह	1-12-2004
999	जेसी	468468ए	सुबेदार	कनी सिंह	1-10-2004
1000	जेसी	468332डब्ल्यू	सुबेदार	काशी राम	1-12-2004
1001	जेसी	468849एफ	सुबेदार	लक्ष्मन सिंह	1-10-2004
1002	जेसी	468325ए	सुबेदार	मदन सिंह	1-1-2005
1003	जेसी	192396एफ	सुबेदार	एम राम	1-11-2004
1004	जेसी	468479एम	सुबेदार	महेंद्र सिंह	1-12-2004
1005	जेसी	468532एम	सुबेदार	मालम सिंह	1-12-2004
1006	जेसी	468701एच	सुबेदार	एन राम नेहरा	1-10-2004
1007	जेसी	468429एफ	सुबेदार	नाउ रत्तन सिंह	1-12-2004
1008	जेसी	468254के	सुबेदार	ओम प्रकाश	1-1-2005
1009	जेसी	468855पी	सुबेदार	ओम प्रकाश	1-12-2004
1010	जेसी	468189पी	सुबेदार	प्रकाश चंद्रा महला	1-10-2004
1011	जेसी	468497पी	सुबेदार	प्रताप सिंह	1-12-2004
1012	जेसी	518821ए	सुबेदार	राज कपूर	1-1-2005
1013	जेसी	468512वाइ	सुबेदार	राजिन्दर सिंह	1-12-2004
1014	जेसी	468241एम	सुबेदार	राम किशन	1-10-2004
1015	जेसी	468857ए	सुबेदार	राम फल सिंह	1-10-2004
1016	जेसी	468723एफ	सुबेदार	राम सिंह	1-9-2004
1017	जेसी	468854एम	सुबेदार	आर सिंह तन्वर	1-12-2004
1018	जेसी	468792एक्स	सुबेदार	रति राम	1-10-2004
1019	जेसी	468826ए	सुबेदार	शांता सिंह	1-12-2004
1020	जेसी	224401एक्स	सुबेदार	सरजीत सिंह	1-9-2004
1021	जेसी	468400वाइ	सुबेदार	सरजीत सिंह	1-10-2004
1022	जेसी	224397ए	सुबेदार	सतबीर सिंह मोहर सिंह	1-9-2004
1023	जेसी	468482एम	सुबेदार	सत्यबीर सिंह	1-12-2004
1024	जेसी	468037एन	सुबेदार	सायार सिंह	1-12-2004
1025	जेसी	468276एच	सुबेदार	शेख मोहम्मद नादिर अन्सारी	1-12-2004
1026	जेसी	468736वाइ	सुबेदार	शिव दान सिंह	1-12-2004
1027	जेसी	468412एन	सुबेदार	श्री पाल	1-11-2004
1028	जेसी	220723ए	सुबेदार	श्री राम सिंह	1-11-2004
1029	जेसी	468223के	सुबेदार	तेज सिंह शेखावत	1-9-2004
1030	जेसी	468520एक्स	सुबेदार	जिले सिंह	1-10-2004
राजपूत रेजीमेन्ट					
1031	जेसी	478442वाइ	सुबेदार	अमर सिंह चौहान	1-10-2004
1032	जेसी	478008एम	सुबेदार	अवध बिहारी	1-11-2004
1033	जेसी	478937एल	सुबेदार	अवधेश पान्डे	1-10-2004
1034	जेसी	478715डब्ल्यू	सुबेदार	बाबू लाल गुजर	1-1-2005
1035	जेसी	478628एच	सुबेदार	बाबू लाल गुर्जर	1-12-2004
1036	जेसी	478262डब्ल्यू	सुबेदार	बी साहा	1-10-2004

1037	जेसी	478785पी	सुबेदार	भवन सिंह	1-12-2004
1038	जेसी	204058वाइ	सुबेदार	भूरे सिंह	1-9-2004
1039	जेसी	201020के	सुबेदार	चंद्र भान	1-11-2004
1040	जेसी	478348पी	सुबेदार	सी पाल सिंह	1-1-2005
1041	जेसी	478113एच	सुबेदार	सी पाल सिंह	1-10-2004
1042	जेसी	184986एम	सुबेदार	दामोदर सरकार	31.08.2004
1043	जेसी	478130एच	सुबेदार	देवेन्द्रा सिंह	1-9-2004
1044	जेसी	478093ए	सुबेदार	धर्मवीर	1-9-2004
1045	जेसी	478417ए	सुबेदार	गज सिंह	1-9-2004
1046	जेसी	478491एफ	सुबेदार	गोकुल चंद	1-1-2005
1047	जेसी	226187वाइ	सुबेदार	गुलाम रसूल	1-9-2004
1048	जेसी	478595एच	सुबेदार	आई सिंह सी	1-11-2004
1049	जेसी	478603डब्ल्यू	सुबेदार	जगदीश सिंह	1-1-2005
1050	जेसी	478111एक्स	सुबेदार	जागीर सिंह	1-1-2005
1051	जेसी	478260एल	सुबेदार	जय भानु सिंह	1-10-2004
1052	जेसी	478182वाइ	सुबेदार	जय नारायण	1-12-2004
1053	जेसी	194587पी	सुबेदार	कैलाश नाथ सिंह	1-9-2004
1054	जेसी	478473वाइ	सुबेदार	कालू एल गूजर	1-12-2004
1055	जेसी	478345एफ	सुबेदार	कामेश सिंह	1-10-2004
1056	जेसी	478462एम	सुबेदार	कन्वर सिंह	1-1-2005
1057	जेसी	478625पी	सुबेदार	कपिल देव सिंह	1-1-2005
1058	जेसी	478235एम	सुबेदार	केशर सिंह पोखरिया	1-12-2004
1059	जेसी	478490वाइ	सुबेदार	कुवर सिंह	1-10-2004
1060	जेसी	478258एन	सुबेदार	महावीर	1-9-2004
1061	जेसी	478354एच	सुबेदार	महावीर सिंह	1-9-2004
1062	जेसी	478292एन	सुबेदार	महेन्द्र प्रताप सिंह	1-10-2004
1063	जेसी	478383एक्स	सुबेदार	एम सिंह	1-10-2004
1064	जेसी	478731एन	सुबेदार	मुंशी राम गुर्जर	1-12-2004
1065	जेसी	478211एच	सुबेदार	नानक सिंह राघव	1-11-2004
1066	जेसी	478213एन	सुबेदार	नन्द लाल पान्डे	1-11-2004
1067	जेसी	478485एन	सुबेदार	नाथू राम	1-9-2004
1068	जेसी	478476एम	सुबेदार	ओम प्रकाश	1-1-2005
1069	जेसी	478501ए	सुबेदार	पंचम सिंह	1-11-2004
1070	जेसी	478116डब्ल्यू	सुबेदार	प्रताप सिंह	1-10-2004
1071	जेसी	478503एल	सुबेदार	प्रेम पाल सिंह	1-1-2005
1072	जेसी	478596एल	सुबेदार	पूरन सिंह	1-10-2004
1073	जेसी	478492के	सुबेदार	रघुनंदन सिंह वर्मा	1-12-2004
1074	जेसी	478379पी	सुबेदार	राज बहादुर	1-11-2004
1075	जेसी	478310एल	सुबेदार	राज भान सिंह	1-1-2005
1076	जेसी	478179वाइ	सुबेदार	राज सिंह	1-10-2004
1077	जेसी	478557एम	सुबेदार	राजेंद्र सिंह	1-11-2004
1078	जेसी	478088पी	सुबेदार	राजपाल सिंह	1-12-2004
1079	जेसी	478365पी	सुबेदार	राम कुमार	1-9-2004
1080	जेसी	478154एम	सुबेदार	रामजी सिंह	1-1-2005
1081	जेसी	478800वाइ	सुबेदार	रूप सिंह	1-10-2004
1082	जेसी	192927एन	सुबेदार	संत राम	1-1-2005
1083	जेसी	216826एफ	सुबेदार	सतीश कुमार चौहान	1-1-2005
1084	जेसी	478703एफ	सुबेदार	सत्येन्द्र सिंह चौहान	1-10-2004
1085	जेसी	478191ए	सुबेदार	शंकर सिंह	1-10-2004
1086	जेसी	478665डब्ल्यू	सुबेदार	शेर सिंह	1-10-2004
1087	जेसी	478307एल	सुबेदार	श्री लाल गुर्जर	1-1-2005

1086	जेसी	478139एक्स	सुबेदार	सिंह राज	1-9-2004
1089	जेसी	478542के	सुबेदार	सुधीव सिंह	1-10-2004
1090	जेसी	478371एच	सुबेदार	सुमंत सिंह	1-1-2005
1091	जेसी	478216एफ	सुबेदार	सुरेंद्र सिंह	1-1-2005
1092	जेसी	478246वाइ	सुबेदार	सुरेंद्र सिंह	1-11-2004
1093	जेसी	478412एफ	सुबेदार	सुरेश सिंह	1-1-2005
1094	जेसी	478165वाइ	सुबेदार	वी सिंह	1-10-2004
1095	जेसी	478210ए	सुबेदार	विनोद कुमार दीक्षित	1-10-2004
1096	जेसी	478482ए	सुबेदार	यतेंद्र सिंह	1-12-2004
जाट रेजीमेन्ट					
1097	जेसी	488789वाइ	सुबेदार	दीवान सिंह	1-10-2004
1098	जेसी	488180एफ	सुबेदार	एच सिंह धामी	1-10-2004
1099	जेसी	488622पी	सुबेदार	कृपाल सिंह	1-1-2005
1100	जेसी	488652एम	सुबेदार	कुलदीप सिंह लाम्बा	1-9-2004
1101	जेसी	488788डब्ल्यू	सुबेदार	निर्मल कुमार	1-10-2004
1102	जेसी	488621एम	सुबेदार	प्रताप सिंह	1-10-2004
1103	जेसी	488883एच	सुबेदार	राम करन	1-12-2004
1104	जेसी	488046डब्ल्यू	सुबेदार	रामफाल के	1-10-2004
1105	जेसी	488290डब्ल्यू	सुबेदार	सम्भू दयाल	1-10-2004
1106	जेसी	488469के	सुबेदार	एस सिंह मलिक	1-10-2004
1107	जेसी	488505के	सुबेदार	सोहन सिंह	1-10-2004
1108	जेसी	488752एक्स	सुबेदार	सोहनवीर	1-10-2004
1109	जेसी	488280एम	सुबेदार	तारा चंद जाट	1-12-2004
सिख रेजीमेन्ट					
1110	जेसी	219709एफ	सुबेदार	अवतार सिंह	1-12-2004
1111	जेसी	498367एफ	सुबेदार	अवतार सिंह	1-12-2004
1112	जेसी	498463डब्ल्यू	सुबेदार	बलविन्दर सिंह	1-12-2004
1113	जेसी	508378के	सुबेदार	बलविन्दर सिंह	1-1-2005
1114	जेसी	498235एन	सुबेदार	बुघ सिंह	1-12-2004
1115	जेसी	498121एच	सुबेदार	दलजीत सिंह	1-9-2004
1116	जेसी	498096पी	सुबेदार	धन्ना सिंह	1-10-2004
1117	जेसी	498277ए	सुबेदार	गुरमुख सिंह	1-10-2004
1118	जेसी	220749पी	सुबेदार	गुरपाल सिंह	1-12-2004
1119	जेसी	216853एल	सुबेदार	गुरप्रताप सिंह	1-12-2004
1120	जेसी	498354के	सुबेदार	जग मोहन	1-12-2004
1121	जेसी	498215ए	सुबेदार	जरनैल सिंह	1-10-2004
1122	जेसी	498233एच	सुबेदार	जसविन्दर सिंह	1-10-2004
1123	जेसी	498139वाइ	सुबेदार	जुगराज सिंह	1-10-2004
1124	जेसी	498132पी	सुबेदार	कुलविन्दर सिंह	1-10-2004
1125	जेसी	508187पी	सुबेदार	महंगा सिंह	1-1-2005
1126	जेसी	498038एल	सुबेदार	प्रद्युमन सिंह	1-9-2004
1127	जेसी	498428एन	सुबेदार	राम सिंह	1-1-2005
1128	जेसी	224541के	सुबेदार	रावल सिंह	1-10-2004
1129	जेसी	498083एक्स	सुबेदार	रूप सिंह	1-1-2005
1130	जेसी	220210एल	सुबेदार	संकथा प्रसाद सिंह	1-11-2004
1131	जेसी	498080के	सुबेदार	सतबीर सिंह	1-10-2004
1132	जेसी	224227डब्ल्यू	सुबेदार	सेवक सिंह	1-10-2004
1133	जेसी	498474एच	सुबेदार	एस सिंह	1-12-2004
1134	जेसी	498461एल	सुबेदार	सुखदेव सिंह	1-12-2004

1135	जेसी	498165ए	सुबेदार	स्वर्ण सिंह	1-10-2004
1136	जेसी	205935एन	सुबेदार	सुवेन्दर सिंह	1-10-2004
सिख लघु पैदल सेना					
1137	जेसी	218287पी	सुबेदार	अंतर सिंह	1-1-2005
1138	जेसी	508317एम	सुबेदार	बलदेव सिंह	1-9-2004
1139	जेसी	508126एक्स	सुबेदार	बालकर सिंह	1-1-2005
1140	जेसी	498323के	सुबेदार	छप्पू राम	1-10-2004
1141	जेसी	508012एम	सुबेदार	दलबीर सिंह	1-11-2004
1142	जेसी	498236डब्ल्यू	सुबेदार	दलीप सिंह	1-10-2004
1143	जेसी	478239एच	सुबेदार	गुरदेव सिंह	1-10-2004
1144	जेसी	498225के	सुबेदार	एच सिंह	1-9-2004
1145	जेसी	508201डब्ल्यू	सुबेदार	हरजिन्द सिंह	1-1-2005
1146	जेसी	225829डब्ल्यू	सुबेदार	जगजीत सिंह	1-1-2005
1147	जेसी	508247वाइ	सुबेदार	जगतार सिंह	1-10-2004
1148	जेसी	508052एन	सुबेदार	जसबीर सिंह	1-1-2005
1149	जेसी	508030पी	सुबेदार	जसपाल सिंह	1-12-2004
1150	जेसी	219721एच	सुबेदार	जसवीर सिंह	1-1-2005
1151	जेसी	498462एन	सुबेदार	जसवंत सिंह	1-12-2004
1152	जेसी	498517एम	सुबेदार	जोध सिंह	1-10-2004
1153	जेसी	508121वाइ	सुबेदार	कश्मीर सिंह	1-12-2004
1154	जेसी	181863एन	सुबेदार	कृपाल सिंह	1-9-2004
1155	जेसी	224531ए	सुबेदार	कृपाल सिंह	1-10-2004
1156	जेसी	208115एम	सुबेदार	एल सिंह	1-1-2005
1157	जेसी	192976डब्ल्यू	सुबेदार	मंघीर सिंह	1-1-2005
1158	जेसी	222691एफ	सुबेदार	मनजीत सिंह	1-9-2004
1159	जेसी	508044पी	सुबेदार	नछत्तर सिंह	1-1-2005
1160	जेसी	508034एल	सुबेदार	राम कृष्ण सिंह	1-10-2004
1161	जेसी	508379एम	सुबेदार	समित्त सिंह	1-1-2005
1162	जेसी	221000एक्स	सुबेदार	संतोख सिंह	1-9-2004
1163	जेसी	508096एल	सुबेदार	सतनाम सिंह	1-12-2004
1164	जेसी	222702एच	सुबेदार	सोम राज	1-1-2005
1165	जेसी	508477एम	सुबेदार	सोनी सिंह	1-11-2004
1166	जेसी	508083एन	सुबेदार	सुरजीत सिंह	1-12-2004
1167	जेसी	498188एफ	सुबेदार	त्रिलोक सिंह	1-10-2004
1168	जेसी	508612पी	सुबेदार	तरसेम सिंह	1-1-2005
डोगरा रेजीमेन्ट					
1169	जेसी	518578एन	सुबेदार	अमर सिंह विमल	1-9-2004
1170	जेसी	519205एम	सुबेदार	अनिल कुमार	1-11-2004
1171	जेसी	518916ए	सुबेदार	अर्जन सिंह	1-9-2004
1172	जेसी	519055एफ	सुबेदार	अशोक कुमार	1-10-2004
1173	जेसी	518990एफ	सुबेदार	अवतार सिंह	1-10-2004
1174	जेसी	518382ए	सुबेदार	बख्शी राम	1-9-2004
1175	जेसी	518908एफ	सुबेदार	बलदेव राज	1-9-2004
1176	जेसी	518685पी	सुबेदार	बलवंत सिंह गुलेरिया	1-10-2004
1177	जेसी	518508पी	सुबेदार	बन्सी लाल	1-1-2005
1178	जेसी	518313के	सुबेदार	भगवान दास	1-9-2004
1179	जेसी	518795के	सुबेदार	बी राम	1-12-2004
1180	जेसी	518975एम	सुबेदार	ब्यास देव	1-10-2004
1181	जेसी	519024एफ	सुबेदार	बोध राज शर्मा	1-1-2005

1182	जेसी	518738एच	सुबेदार	ब्रिकाम दास	1-1-2005
1183	जेसी	519109एक्स	सुबेदार	बुआ दत्ता	1-12-2004
1184	जेसी	518669एक्स	सुबेदार	बुआ दत्ता शर्मा	1-12-2004
1185	जेसी	518791एन	सुबेदार	सी राम	1-10-2004
1186	जेसी	518999डब्ल्यू	सुबेदार	दामोदर दास कत्वाल	1-9-2004
1187	जेसी	518595एन	सुबेदार	दान सिंह	1-10-2004
1188	जेसी	518512एक्स	सुबेदार	दर्शन लाल	1-10-2004
1189	जेसी	518667एम	सुबेदार	देस राज जसवाल	1-12-2004
1190	जेसी	518817एक्स	सुबेदार	देवेंदर सिंह	1-10-2004
1191	जेसी	519050एच	सुबेदार	देवी सिंह सी	1-1-2005
1192	जेसी	519214एन	सुबेदार	डी सिंह	1-12-2004
1193	जेसी	518636एम	सुबेदार	धर्म चंद	1-12-2004
1194	जेसी	518668पी	सुबेदार	डी राम चौधरी	1-12-2004
1195	जेसी	518711एल	सुबेदार	दीना नाथ	1-9-2004
1196	जेसी	518658एल	सुबेदार	दुनी चंद	1-10-2004
1197	जेसी	548424डब्ल्यू	सुबेदार	फक चंद	1-1-2005
1198	जेसी	519066एन	सुबेदार	ज्ञान चंद	1-9-2004
1199	जेसी	519113ए	सुबेदार	ज्ञान सिंह	1-1-2005
1200	जेसी	518035एफ	सुबेदार	हरी चंद	1-10-2004
1201	जेसी	518717एम	सुबेदार	हरनाम चंद	1-12-2004
1202	जेसी	518874वाइ	सुबेदार	हरनाम सिंह	1-11-2004
1203	जेसी	518851एक्स	सुबेदार	हेत राम	1-10-2004
1204	जेसी	519005डब्ल्यू	सुबेदार	इश्वर दास	1-12-2004
1205	जेसी	221016एच	सुबेदार	इश्वर सिंह	1-12-2004
1206	जेसी	518003वाइ	सुबेदार	जगदीश चंद	1-11-2004
1207	जेसी	519081एच	सुबेदार	जय पौल	1-9-2004
1208	जेसी	518798एक्स	सुबेदार	जे सिंह मन्हास	1-9-2004
1209	जेसी	518808डब्ल्यू	सुबेदार	जसवंत सिंह	1-10-2004
1210	जेसी	518772एच	सुबेदार	जे प्रकाश	1-9-2004
1211	जेसी	519037वाइ	सुबेदार	जोगिंदर सिंह	1-12-2004
1212	जेसी	518833पी	सुबेदार	जोगिंदर सिंह राणा	1-10-2004
1213	जेसी	488518एफ	सुबेदार	कमल कुमार	1-10-2004
1214	जेसी	518844एफ	सुबेदार	कार्म सिंह	1-9-2004
1215	जेसी	498621ए	सुबेदार	करनैल सिंह	1-12-2004
1216	जेसी	519027पी	सुबेदार	करतार सिंह रंगरा	1-1-2005
1217	जेसी	518937डब्ल्यू	सुबेदार	कश्मीर सिंह	1-9-2004
1218	जेसी	518922एन	सुबेदार	केहर सिंह	1-11-2004
1219	जेसी	518926के	सुबेदार	कुलदीप राज	1-10-2004
1220	जेसी	518896एक्स	सुबेदार	लाल चंद	1-9-2004
1221	जेसी	518761डब्ल्यू	सुबेदार	मदन लाल	1-1-2005
1222	जेसी	518981ए	सुबेदार	मदन लाल	1-12-2004
1223	जेसी	519083एन	सुबेदार	मनोहर लाल	1-1-2005
1224	जेसी	518514एच	सुबेदार	मस्त राम	1-11-2004
1225	जेसी	518949एल	सुबेदार	मोहिन्दर सिंह	1-11-2004
1226	जेसी	519002एच	सुबेदार	मूल सिंह	1-1-2005
1227	जेसी	498380एल	सुबेदार	मोती राम	1-12-2004
1228	जेसी	518579डब्ल्यू	सुबेदार	मुल्ख राज	1-11-2004
1229	जेसी	518666के	सुबेदार	नरेश कुमार	1-12-2004
1230	जेसी	519183वाइ	सुबेदार	नेक राम	1-10-2004
1231	जेसी	518511पी	सुबेदार	ओम प्रकाश शर्मा ए एसएम	1-12-2004
1232	जेसी	919175ए	सुबेदार	पी राम चंद	1-10-2004

1233	जेसी	518749पी	सुबेदार	पारस राम	1-11-2004
1234	जेसी	519016एच	सुबेदार	परमानंद मल्होत्रा	1-10-2004
1235	जेसी	518487के	सुबेदार	पशोतम लाल	1-10-2004
1236	जेसी	519175ए	सुबेदार	पी राम सी	1-10-2004
1237	जेसी	518422डब्ल्यू	सुबेदार	प्यार सिंह	1-10-2004
1238	जेसी	518649के	सुबेदार	प्रेम चंद	1-10-2004
1239	जेसी	519054वाइ	सुबेदार	प्रेम चंद	1-9-2004
1240	जेसी	478706पी	सुबेदार	पूरन सिंह	1-1-2005
1241	जेसी	518650वाइ	सुबेदार	रघु नाथ शर्मा	1-10-2004
1242	जेसी	519141एम	सुबेदार	राज सिंह	1-12-2004
1243	जेसी	518624एक्स	सुबेदार	राजिन्दर कुमार	1-10-2004
1244	जेसी	518652के	सुबेदार	राजिन्दर सिंह	1-10-2004
1245	जेसी	478640के	सुबेदार	राम कृष्ण	1-10-2004
1246	जेसी	518637ए	सुबेदार	राम नाथ	1-10-2004
1247	जेसी	519103वाइ	सुबेदार	आर रजवाल	1-9-2004
1248	जेसी	519019डब्ल्यू	सुबेदार	रमेश चंद	1-1-2005
1249	जेसी	519030पी	सुबेदार	रमेश चंद	1-1-2005
1250	जेसी	518710एच	सुबेदार	रमेश चंद राणा	1-10-2004
1251	जेसी	518491एम	सुबेदार	रमेश चंद शर्मा	1-1-2005
1252	जेसी	518310डब्ल्यू	सुबेदार	रमेश सिंह गुलेरिया	1-1-2005
1253	जेसी	518903एच	सुबेदार	रामजी दास	1-9-2004
1254	जेसी	519045एक्स	सुबेदार	रांझा राम	1-9-2004
1255	जेसी	518972वाइ	सुबेदार	रंजीत सिंह	1-12-2004
1256	जेसी	518693एन	सुबेदार	राशपोल सिंह	1-12-2004
1257	जेसी	519166वाइ	सुबेदार	रत्तन चंद वर्मा	1-10-2004
1258	जेसी	519022डब्ल्यू	सुबेदार	रत्तन लाल	1-11-2004
1259	जेसी	518505एफ	सुबेदार	रूप राम ठाकुर	1-10-2004
1260	जेसी	519195एन	सुबेदार	रूप सिंह	1-10-2004
1261	जेसी	518411के	सुबेदार	संतोख राज	1-1-2005
1262	जेसी	518782एम	सुबेदार	सर्वजीत सिंह	1-9-2004
1263	जेसी	518688एच	सुबेदार	सावन सिंह वर्मा	1-9-2004
1264	जेसी	518582डब्ल्यू	सुबेदार	शमशेर सिंह	1-9-2004
1265	जेसी	519015ए	सुबेदार	शशि शर्मा	1-11-2004
1266	जेसी	518973एफ	सुबेदार	सुभाष चंद	1-12-2004
1267	जेसी	518513ए	सुबेदार	सुरेश कुमार	1-1-2005
1268	जेसी	518755एच	सुबेदार	सुरेश कुमार	1-9-2004
1269	जेसी	518872एन	सुबेदार	सुरेश कुमार	1-11-2004
1270	जेसी	518986वाइ	सुबेदार	सुरिन्दर कुमार	1-9-2004
1271	जेसी	498572एच	सुबेदार	सुरजीत सिंह	1-11-2004
1272	जेसी	519038एफ	सुबेदार	ताश चंद	1-1-2005
1273	जेसी	519067डब्ल्यू	सुबेदार	त्रिलोक चंद	1-9-2004
1274	जेसी	519003एल	सुबेदार	टी राम डेगरा	1-1-2005
1275	जेसी	519036डब्ल्यू	सुबेदार	तिलक चंद	1-9-2004
1276	जेसी	518583वाइ	सुबेदार	वेद प्रकाश	1-1-2005
1277	जेसी	518995ए	सुबेदार	जुल्फी राम	1-10-2004
गढ़वाल राइफल्स					
1278	जेसी	528912एक्स	सुबेदार	अनसूइया सिंह	1-11-2004
1279	जेसी	468359एन	सुबेदार	अवतार सिंह	1-9-2004
1280	जेसी	528863ए	सुबेदार	अवतार सिंह	1-11-2004
1281	जेसी	528457ए	सुबेदार	बादर सिंह	1-11-2004

1282	जेसी	528541ए	सुबेदार	बलवंत सिंह रावत	1-12-2004
1283	जेसी	528694के	सुबेदार	बी सिंह	1-12-2004
1284	जेसी	528321डब्ल्यू	सुबेदार	भगत सिंह	1-11-2004
1285	जेसी	528224वाइ	सुबेदार	बी दत्त	1-10-2004
1286	जेसी	528415एन	सुबेदार	भुपेन्द्र सिंह	1-9-2004
1287	जेसी	528586ए	सुबेदार	बिजय सिंह	1-10-2004
1288	जेसी	528842के	सुबेदार	बिजेन्द्र सिंह	1-10-2004
1289	जेसी	528553पी	सुबेदार	बीरबल सिंह	1-12-2004
1290	जेसी	468724के	सुबेदार	बिरेन्द्र सिंह	1-11-2004
1291	जेसी	528496वाइ	सुबेदार	बिरेन्द्र सिंह	1-12-2004
1292	जेसी	528844पी	सुबेदार	बिरेन्द्र सिंह विष्ट	1-12-2004
1293	जेसी	528665पी	सुबेदार	बिशन सिंह	1-9-2004
1294	जेसी	528449एफ	सुबेदार	बी सिंह	1-9-2004
1295	जेसी	528649एक्स	सुबेदार	बृज मोहन	1-9-2004
1296	जेसी	528565के	सुबेदार	बृजपाल सिंह	1-9-2004
1297	जेसी	528392एक्स	सुबेदार	सी सिंह	1-10-2004
1298	जेसी	528851एल	सुबेदार	चंदन सिंह	1-10-2004
1299	जेसी	528877ए	सुबेदार	चंदन सिंह	1-12-2004
1300	जेसी	528692वाइ	सुबेदार	देवेन्द्रा प्रसाद	1-12-2004
1301	जेसी	528443ए	सुबेदार	देवेन्द्रा सिंह	1-10-2004
1302	जेसी	528673एन	सुबेदार	धन सिंह	1-10-2004
1303	जेसी	528626डब्ल्यू	सुबेदार	धीरज सिंह	1-10-2004
1304	जेसी	528786डब्ल्यू	सुबेदार	दिनेश चंद्रा	1-10-2004
1305	जेसी	528638एल	सुबेदार	दिनेश सिंह मुसाई	1-12-2004
1306	जेसी	528473एक्स	सुबेदार	गजपाल सिंह	1-9-2004
1307	जेसी	528615के	सुबेदार	गोविंद सिंह	1-10-2004
1308	जेसी	528787वाइ	सुबेदार	हरेन्द्र सिंह नेगी	1-12-2004
1309	जेसी	528805डब्ल्यू	सुबेदार	हयात सिंह	1-10-2004
1310	जेसी	528512एल	सुबेदार	हीरा सिंह	1-1-2005
1311	जेसी	528440एम	सुबेदार	जगत सिंह	1-10-2004
1312	जेसी	528798एल	सुबेदार	जगत सिंह	1-10-2004
1313	जेसी	158216एफ	सुबेदार	जगदीश सिंह	1-9-2004
1314	जेसी	528660डब्ल्यू	सुबेदार	जय सिंह	1-10-2004
1315	जेसी	528639एन	सुबेदार	जनार्दन प्रसाद	1-9-2004
1316	जेसी	548458के	सुबेदार	जसवीर सिंह रावत	1-9-2004
1317	जेसी	528424पी	सुबेदार	जरापाल सिंह कंधारी	1-9-2004
1318	जेसी	528442एक्स	सुबेदार	जोगिंदर सिंह	1-10-2004
1319	जेसी	528793एम	सुबेदार	कंदार सिंह	1-10-2004
1320	जेसी	528853डब्ल्यू	सुबेदार	खुशाल सिंह	1-12-2004
1321	जेसी	528796ए	सुबेदार	किशन सिंह	1-11-2004
1322	जेसी	528403वाइ	सुबेदार	कुलदीप कुमार	1-9-2004
1323	जेसी	528379एन	सुबेदार	लाल सिंह	1-11-2004
1324	जेसी	528161एफ	सुबेदार	गणेश सिंह	1-10-2004
1325	जेसी	528771एन	सुबेदार	गणेश सिंह	1-11-2004
1326	जेसी	528246एक्स	सुबेदार	गाकन सिंह चौधरी	1-9-2004
1327	जेसी	528324के	सुबेदार	गरत सिंह	1-9-2004
1328	जेसी	528386के	सुबेदार	गोहरवान सिंह नेगी	1-12-2004
1329	जेसी	529017वाइ	सुबेदार	गोहन सिंह नेगी	1-12-2004
1330	जेसी	528590एम	सुबेदार	मुकुंद सिंह	1-1-2005
1331	जेसी	528312पी	सुबेदार	नरेन्द्र प्रसाद	1-9-2004
1332	जेसी	528785एन	सुबेदार	नाथी सिंह	1-10-2004

1333	जेसी	528481डब्ल्यू	सुबेदार	ओम प्रकाश	1-12-2004
1334	जेसी	528456एक्स	सुबेदार	चन्द सिंह	1-11-2004
1335	जेसी	528727के	सुबेदार	पी दत्त	1-10-2004
1336	जेसी	528724पी	सुबेदार	प्रताप सिंह	1-12-2004
1337	जेसी	528391पी	सुबेदार	प्रेम सिंह	1-9-2004
1338	जेसी	528656एन	सुबेदार	प्रेम सिंह	1-9-2004
1339	जेसी	528576डब्ल्यू	सुबेदार	पुष्कर सिंह	1-10-2004
1340	जेसी	528887के	सुबेदार	रघुबीर सिंह	1-11-2004
1341	जेसी	528691डब्ल्यू	सुबेदार	रघुबीर सिंह रावत	1-12-2004
1342	जेसी	528733एक्स	सुबेदार	राजे सिंह	1-9-2004
1343	जेसी	528835एन	सुबेदार	रमेश चंद्रा प्रसाद	1-1-2005
1344	जेसी	528717ए	सुबेदार	रमेश चंद्रा सिंह	1-9-2004
1345	जेसी	528338के	सुबेदार	एस सिंह	1-11-2004
1346	जेसी	528333एल	सुबेदार	सतेंद्र सिंह	1-9-2004
1347	जेसी	528162के	सुबेदार	सत्यपाल सिंह राणा	1-1-2005
1348	जेसी	528545डब्ल्यू	सुबेदार	श्रीचंद सिंह राणा	1-12-2004
1349	जेसी	528336वाइ	सुबेदार	सुखदेव सिंह	1-1-2005
1350	जेसी	528468एम	सुबेदार	सुरेंद्र सिंह	1-10-2004
1351	जेसी	528570पी	सुबेदार	शूरवीर सिंह	1-10-2004
1352	जेसी	528505पी	सुबेदार	टी सिंह	1-12-2004
1353	जेसी	220230वाइ	सुबेदार	उमा नन्द जुयाल	1-1-2005
1354	जेसी	528573एच	सुबेदार	उमा शंकर	1-1-2005
1355	जेसी	528886एफ	सुबेदार	विजय प्रकाश	1-9-2004
1356	जेसी	528780पी	सुबेदार	विक्रम सिंह	1-9-2004
1357	जेसी	528801ए	सुबेदार	वाई सिंह अस्वाल	1-9-2004
1358	जेसी	528030डब्ल्यू	सुबेदार	यशपाल सिंह	1-1-2005
कुमाँउ रेजीमेन्ट					
1359	जेसी	538148एल	सुबेदार	अमर सिंह	1-1-2005
1360	जेसी	538367एम	सुबेदार	आनंद बल्लभ पाठक	1-10-2004
1361	जेसी	538676पी	सुबेदार	आनंद सिंह	1-10-2004
1362	जेसी	538511डब्ल्यू	सुबेदार	भैरव सिंह	1-10-2004
1363	जेसी	590091डब्ल्यू	सुबेदार	भूपाल सिंह	1-12-2004
1364	जेसी	538392एल	सुबेदार	बुध राम	1-1-2005
1365	जेसी	538824पी	सुबेदार	चंद्र सिंह	1-10-2004
1366	जेसी	538398एम	सुबेदार	चंद्रा सिंह	1-10-2004
1367	जेसी	538393एन	सुबेदार	दलीप सिंह	1-1-2005
1368	जेसी	538531के	सुबेदार	गज राज सिंह	1-1-2005
1369	जेसी	538650ए	सुबेदार	गनेश सिंह	1-10-2004
1370	जेसी	538305एम	सुबेदार	गिरवर सिंह	1-10-2004
1371	जेसी	538856एक्स	सुबेदार	हर्ष बहादुर चंद	1-10-2004
1372	जेसी	190788डब्ल्यू	सुबेदार	हरीश चंद्रा पान्डे	1-1-2005
1373	जेसी	538457एन	सुबेदार	जगदीश चंद्र	1-11-2004
1374	जेसी	538645पी	सुबेदार	जीवन सिंह	1-12-2004
1375	जेसी	538126एम	सुबेदार	काशी नाथ चौधरी	1-1-2005
1376	जेसी	538791पी	सुबेदार	कंदार सिंह	1-10-2004
1377	जेसी	538839एक्स	सुबेदार	ललित बहादुर पाल	1-1-2005
1378	जेसी	538644एम	सुबेदार	माही पाल	1-11-2004
1379	जेसी	538609के	सुबेदार	महीपाल यादव	1-10-2004
1380	जेसी	221029ए	सुबेदार	एन एन रोमा	1-9-2004
1381	जेसी	538636एन	सुबेदार	नरेन्द्र सिंह	1-10-2004

1382	जेसी	538193एक्स	सुबेदार	चन्द सिंह	1-1-2005
1383	जेसी	538579एक्स	सुबेदार	पूरन सिंह	1-9-2004
1384	जेसी	538518ए	सुबेदार	पुष्कर सिंह	1-10-2004
1385	जेसी	538596एक्स	सुबेदार	रघुबीर सिंह	1-10-2004
1386	जेसी	538625एफ	सुबेदार	रघुबीर सिंह	1-10-2004
1387	जेसी	538293एच	सुबेदार	राजेंद्र सिंह काकी	1-10-2004
1388	जेसी	538708एम	सुबेदार	आर यादव	1-1-2005
1389	जेसी	538664ए	सुबेदार	रणजीत सिंह	1-11-2004
1390	जेसी	590002एम	सुबेदार	एस टी जे अनल	1-1-2005
1391	जेसी	538663एक्स	सुबेदार	सरजीत सिंह	1-11-2004
1392	जेसी	538767वाइ	सुबेदार	सत्य प्रकाश	1-10-2004
1393	जेसी	538150एच	सुबेदार	सत्यवीर सिंह	1-10-2004
1394	जेसी	538693पी	सुबेदार	शेर सिंह	1-10-2004
1395	जेसी	538828एल	सुबेदार	त्रिलोक सिंह	1-1-2005
1396	जेसी	204133एक्स	सुबेदार	डब्ल्यू एच एम	1-10-2004
असम रेजीमेन्ट					
1397	जेसी	202055एम	सुबेदार	अर्बिन्दा मालाकर	1-1-2005
1398	जेसी	548132एन	सुबेदार	भक्त बहादुर थापा	1-12-2004
1399	जेसी	548033एल	सुबेदार	भुवन च. बोरुआ	1-10-2004
1400	जेसी	194667एम	सुबेदार	जी सिंघा	1-9-2004
1401	जेसी	204345एच	सुबेदार	कमलेश्वर राय	1-11-2004
1402	जेसी	548241ए	सुबेदार	के कुमार सोनार	1-10-2004
1403	जेसी	224271ए	सुबेदार	कृष्णा कुमार पाठक	1-11-2004
1404	जेसी	203637वाइ	सुबेदार	माधव चंद्रा राय	1-1-2005
1405	जेसी	226899एफ	सुबेदार	एम च. दास	1-10-2004
1406	जेसी	211262ए	सुबेदार	तनु राम दास	1-10-2004
बिहार रेजीमेन्ट					
1407	जेसी	196293ए	सुबेदार	अलबिनस इक्का	1-12-2004
1408	जेसी	184448एक्स	सुबेदार	ए लाल जे	1-10-2004
1409	जेसी	412078एल	सुबेदार	भास्कर चंद्रा प्रधान	1-10-2004
1410	जेसी	558425एम	सुबेदार	चंद्रमा यादव	1-10-2004
1411	जेसी	558640एक्स	सुबेदार	दिलीप कुमार एम	1-10-2004
1412	जेसी	558171ए	सुबेदार	गौतम सिंह	1-1-2005
1413	जेसी	558391के	सुबेदार	जगराम मुंडा	1-10-2004
1414	जेसी	176397ए	सुबेदार	महेश हटी	1-1-2005
1415	जेसी	558289एफ	सुबेदार	मुरारी प्रसाद साह	1-9-2004
1416	जेसी	558460पी	सुबेदार	राजेश सिंह	1-1-2005
1417	जेसी	558347ए	सुबेदार	राम चंद्रा झा	1-10-2004
1418	जेसी	558231के	सुबेदार	राम नारायण सिंह	1-10-2004
1419	जेसी	558393पी	सुबेदार	राम प्रवेश राय	1-10-2004
1420	जेसी	558046डब्ल्यू	सुबेदार	राम सिंह के	1-10-2004
1421	जेसी	558247पी	सुबेदार	संतोष लकरा	1-1-2005
1422	जेसी	558397एल	सुबेदार	एस इक्का	1-11-2004
1423	जेसी	558068पी	सुबेदार	श्याम बिहारी सिंह	1-10-2004
1424	जेसी	558184एक्स	सुबेदार	सुदर्शन राय	1-12-2004
1425	जेसी	558297ए	सुबेदार	थामस ए	1-10-2004
महार रेजीमेन्ट					
1426	जेसी	568295एच	सुबेदार	अजित कुमार मंडल	1-10-2004

1427	जे.सी.	211303वाइ	सुबेदार	ए.बी. रांगप्पा	1-10-2004
1428	जे.सी.	221055एफ	सुबेदार	बी.नामदेव डी.	1-9-2004
1429	जे.सी.	568473ए	सुबेदार	बट्टी दत्त भट्ट	1-1-2005
1430	जे.सी.	568807के	सुबेदार	बलदेव सिंह	1-11-2004
1431	जे.सी.	568458एल	सुबेदार	चंदन सिंह मंडारी	1-10-2004
1432	जे.सी.	568581के	सुबेदार	चंद्रा शेखर	1-10-2004
1433	जे.सी.	568483के	सुबेदार	दल्लु राम	1-11-2004
1434	जे.सी.	216936डब्ल्यू	सुबेदार	देव करन	1-10-2004
1435	जे.सी.	568282एल	सुबेदार	देवेन्द्रा ठाकुर	1-10-2004
1436	जे.सी.	194693एन	सुबेदार	धनी राम	1-10-2004
1437	जे.सी.	568354के	सुबेदार	धर्म पाल सिंह	1-10-2004
1438	जे.सी.	568758एम	सुबेदार	दीवानी चंद	1-1-2005
1439	जे.सी.	212975एक्स	सुबेदार	गायकवाड हनुमन्त रामचंद्र	1-10-2004
1440	जे.सी.	221054वाइ	सुबेदार	गायकवाड कोशिनःथ जी.	1-10-2004
1441	जे.सी.	568657वाइ	सुबेदार	घनश्याम	1-10-2004
1442	जे.सी.	224467एन	सुबेदार	घोरपडे जे. विटल	1-12-2004
1443	जे.सी.	568016एम	सुबेदार	गुरदेव सिंह	1-1-2005
1444	जे.सी.	568126एफ	सुबेदार	हुकुम चंद	1-1-2005
1445	जे.सी.	568100एम	सुबेदार	आई राय	1-12-2004
1446	जे.सी.	568467एम	सुबेदार	जगदीश वहादुर सिंह	1-9-2004
1447	जे.सी.	568475एल	सुबेदार	जगदीश चंद	1-1-2005
1448	जे.सी.	568716ए	सुबेदार	जे. सिंह	1-12-2004
1449	जे.सी.	568731पी	सुबेदार	जयारमण सी.	1-10-2004
1450	जे.सी.	568165ए	सुबेदार	जोगा सिंह	1-12-2004
1451	जे.सी.	568392ए	सुबेदार	के. वसंत शिवा	1-1-2005
1452	जे.सी.	568375ए	सुबेदार	कमलजीत सिंह	1-10-2004
1453	जे.सी.	568247एच	सुबेदार	काम्बले अर्जुन दाली राग	1-12-2004
1454	जे.सी.	568137एन	सुबेदार	कागेश राम	1-10-2004
1455	जे.सी.	568179ए	सुबेदार	के. जे. यशवंत	1-1-2005
1456	जे.सी.	568201ए	सुबेदार	कृष्ण सिंह	1-10-2004
1457	जे.सी.	568391एक्स	सुबेदार	कुंदन लाल	1-10-2004
1458	जे.सी.	568610पी	सुबेदार	महावीर प्रसाद	1-10-2004
1459	जे.सी.	568804डब्ल्यू	सुबेदार	गहेन्द्र नाथ सिंह यादव	1-1-2005
1460	जे.सी.	568259एक्स	सुबेदार	भारुति एस. अहीरे	1-10-2004
1461	जे.सी.	211305के	सुबेदार	प्रद्युमन सिंह	1-10-2004
1462	जे.सी.	568501एफ	सुबेदार	प्रताप सिंह	1-11-2004
1463	जे.सी.	568480डब्ल्यू	सुबेदार	राधे शाम	1-10-2004
1464	जे.सी.	568422एम	सुबेदार	राजेंद्र सिंह	1-9-2004
1465	जे.सी.	568630एफ	सुबेदार	राजिन्दर सिंह	1-1-2005
1466	जे.सी.	568801एच	सुबेदार	राम कृष्ण	1-1-2005
1467	जे.सी.	568448एफ	सुबेदार	रविन्द्रन नायर के. वे. 1-10-2004	
1468	जे.सी.	568072एल	सुबेदार	सभाजीत सिंह	1-12-2004
1469	जे.सी.	568615एम	सुबेदार	सदानंदन पी. के.	1-10-2004
1470	जे.सी.	568542एल	सुबेदार	एस. चौहान	1-10-2004
1471	जे.सी.	568233एच	सुबेदार	रावंत महादेव जे.	1-10-2004
1472	जे.सी.	568140एम	सुबेदार	शिव मोहन सिंह	1-10-2004
1473	जे.सी.	204187वाइ	सुबेदार	श्री गोपाल	1-10-2004
1474	जे.सी.	568466के	सुबेदार	सुरेश सिंह	1-1-2005
1475	जे.सी.	568365डब्ल्यू	सुबेदार	स्वर्ण सिंह	1-10-2004
1476	जे.सी.	568812पी	सुबेदार	तेज भान सिंह	1-12-2004
1477	जे.सी.	568261पी	सुबेदार	उत्तम एम.	1-9-2004

1478	जेसी	568409एच	सुबेदार	विजय कुमार	1-10-2004
1479	जेसी	568204एन	सुबेदार	विजय एस जाधो	1-10-2004
1480	जेसी	224294एफ	सुबेदार	वाई तानाजी तुकाराम	1-10-2004
जम्मू एवं कश्मीर राइफल्स					
1481	जेसी	578556वाइ	सुबेदार	अब्दुल लतीफ	1-1-2005
1482	जेसी	578989डब्ल्यू	सुबेदार	अछर सिंह जसवाल	1-12-2004
1483	जेसी	578610एफ	सुबेदार	अमर नाथ	1-10-2004
1484	जेसी	578161एक्स	सुबेदार	अमर सिंह	1-10-2004
1485	जेसी	578284के	सुबेदार	आनंद बहादुर	1-11-2004
1486	जेसी	548324एल	सुबेदार	अर्जुन सिंह	1-1-2005
1487	जेसी	578181एल	सुबेदार	बलबीर सिंह पठानिया	1-9-2004
1488	जेसी	578785के	सुबेदार	बलदेव सिंह	1-9-2004
1489	जेसी	578954ए	सुबेदार	बलवंत सिंह	1-11-2004
1490	जेसी	578546पी	सुबेदार	बाम बहादुर पुन	1-12-2004
1491	जेसी	578900वाइ	सुबेदार	बसंत लाल	1-12-2004
1492	जेसी	579012डब्ल्यू	सुबेदार	बियंत सिंह राणा	1-9-2004
1493	जेसी	579021एक्स	सुबेदार	भगवान सिंह जसरोतिया	1-10-2004
1494	जेसी	578986एच	सुबेदार	बीर बहादुर मल्ला	1-10-2004
1495	जेसी	578978के	सुबेदार	बिरि सिंह	1-10-2004
1496	जेसी	578445एफ	सुबेदार	बुधी सिंह	1-10-2004
1497	जेसी	578843एच	सुबेदार	चमन लाल	1-10-2004
1498	जेसी	578661पी	सुबेदार	सी सिंह	1-10-2004
1499	जेसी	578127एक्स	सुबेदार	छबि लाल खत्री	1-1-2005
1500	जेसी	578901एफ	सुबेदार	छज्जू राम	1-1-2005
1501	जेसी	579119एल	सुबेदार	छज्जू राम	1-1-2005
1502	जेसी	579027वाइ	सुबेदार	दौलत राम	1-11-2004
1503	जेसी	578872एक्स	सुबेदार	देव राज	1-11-2004
1504	जेसी	578950के	सुबेदार	देव राज	1-9-2004
1505	जेसी	578920एम	सुबेदार	गौतम सिंह	1-11-2004
1506	जेसी	578512एफ	सुबेदार	गुरमेज सिंह	1-10-2004
1507	जेसी	578923ए	सुबेदार	गुरभीत सिंह	1-10-2004
1508	जेसी	578398पी	सुबेदार	ज्ञान बहादुर	1-10-2004
1509	जेसी	579014एफ	सुबेदार	हरदेव सिंह	1-9-2004
1510	जेसी	578956एल	सुबेदार	इंद्र सिंह	1-1-2005
1511	जेसी	578446के	सुबेदार	जगदीश चंद	1-10-2004
1512	जेसी	578713ए	सुबेदार	जनक सिंह	1-1-2005
1513	जेसी	578846डब्ल्यू	सुबेदार	जसबीर सिंह	1-9-2004
1514	जेसी	578677ए	सुबेदार	जीत बहादुर पुन	1-12-2004
1515	जेसी	578784एफ	सुबेदार	जोध सिंह	1-9-2004
1516	जेसी	578527के	सुबेदार	ज्योती प्रकाश	1-11-2004
1517	जेसी	578817एफ	सुबेदार	करन सिंह	1-11-2004
1518	जेसी	579096पी	सुबेदार	करनैल सिंह	1-10-2004
1519	जेसी	579072एल	सुबेदार	करतूरी लाल	1-10-2004
1520	जेसी	578998एक्स	सुबेदार	कृष्ण चंद	1-1-2005
1521	जेसी	579026डब्ल्यू	सुबेदार	कृष्ण लाल	1-12-2004
1522	जेसी	578899पी	सुबेदार	कुलतार सिंह	1-10-2004
1523	जेसी	578681एच	सुबेदार	लाल बहादुर थापा	1-12-2004
1524	जेसी	579073एन	सुबेदार	लेख राज	1-1-2005
1525	जेसी	578316एफ	सुबेदार	लिला बहादुर के सी	1-10-2004
1526	जेसी	578328डब्ल्यू	सुबेदार	एम माल	1-10-2004

1527	जे०सी	578737के	सुबेदार	मेहर सिंह	1-9-2004
1528	जे०सी	578824एक्स	सुबेदार	मेला राम	1-10-2004
1529	जे०सी	578228एल	सुबेदार	मिलाप चंद	1-9-2004
1530	जे०सी	578332वाइ	सुबेदार	मोहन दत्ता एस	1-11-2004
1531	जे०सी	548292एन	सुबेदार	मोहन सिंह	1-11-2004
1532	जे०सी	578870एम	सुबेदार	मोहिनंदर सिंह	1-1-2005
1533	जे०सी	579172डब्ल्यू	सुबेदार	मोहिनंदर सिंह जसवाल	1-1-2005
1534	जे०सी	578827एल	सुबेदार	नार बहादुर पुन	1-12-2004
1535	जे०सी	578764एन	सुबेदार	नरिंद्र कुमार चन्देल	1-1-2005
1536	जे०सी	578759एच	सुबेदार	एन सिंह	1-11-2004
1537	जे०सी	579009डब्ल्यू	सुबेदार	ओम प्रकाश	1-12-2004
1538	जे०सी	579178एक्स	सुबेदार	ओम प्रकाश	1-1-2005
1539	जे०सी	578501पी	सुबेदार	पचम कुमार थापा	1-9-2004
1540	जे०सी	578417पी	सुबेदार	पशोतम सिंह राणा	1-10-2004
1541	जे०सी	528601के	सुबेदार	प्यार सिंह	1-10-2004
1542	जे०सी	579017पी	सुबेदार	प्रेम बहादुर	1-12-2004
1543	जे०सी	192698एन	सुबेदार	प्रेम बहादुर कुंवर	1-1-2005
1544	जे०सी	578980एफ	सुबेदार	प्रीतम सिंह	1-1-2005
1545	जे०सी	578987एल	सुबेदार	पूरन बहादुर	1-12-2004
1546	जे०सी	528817एल	सुबेदार	राज कुमार	1-10-2004
1547	जे०सी	578641एफ	सुबेदार	राज कुमार	1-9-2004
1548	जे०सी	578774एक्स	सुबेदार	राजिन्दर सिंह	1-9-2004
1549	जे०सी	578971ए	सुबेदार	राजिन्दर सिंह	1-10-2004
1550	जे०सी	578897के	सुबेदार	राम बहादुर भंडारी	1-1-2005
1551	जे०सी	578199एफ	सुबेदार	राम प्रकाश	1-11-2004
1552	जे०सी	578682एल	सुबेदार	रमेश कुमार अधिकारी	1-10-2004
1553	जे०सी	578977एफ	सुबेदार	रत्तन लाल	1-1-2005
1554	जे०सी	579155डब्ल्यू	सुबेदार	रोमेश कुमार	1-1-2005
1555	जे०सी	578979एम	सुबेदार	रोशन लाल	1-1-2005
1556	जे०सी	578953एक्स	सुबेदार	एस कुमार	1-11-2004
1557	जे०सी	578880डब्ल्यू	सुबेदार	संदल वेद	1-11-2004
1558	जे०सी	578777एल	सुबेदार	शम्भू दत्त डोगरा	1-12-2004
1559	जे०सी	578633एच	सुबेदार	शिकंदर सिंह	1-10-2004
1560	जे०सी	578821के	सुबेदार	शोभा राव	1-9-2004
1561	जे०सी	578218एफ	सुबेदार	सुखदेव सिंह	1-1-2005
1562	जे०सी	578590वाइ	सुबेदार	सुरेश कुमार	1-11-2004
1563	जे०सी	578450एम	सुबेदार	सुरिन्दर कुमार	1-11-2004
1564	जे०सी	578541डब्ल्यू	सुबेदार	टेक सिंह ठाकुर	1-10-2004
1565	जे०सी	578996एम	सुबेदार	उत्तम सिंह	1-1-2005
1566	जे०सी	578749वाइ	सुबेदार	विरेन्द्र कुमार शर्मा	1-10-2004
1567	जे०सी	578441एल	सुबेदार	याग बहादुर	1-9-2004
1568	जे०सी	578573वाइ	सुबेदार	याम बहादुर भंडारी	1-1-2005

लद्दाख स्कार्ड

1569	जे०सी	588020डब्ल्यू	सुबेदार	ए सिंह जसरोनिया	1-9-2004
1570	जे०सी	588050एन	सुबेदार	शाम एस लाल भाट	1-10-2004

जम्मू एवं कश्मीर लघु पैदल सेना

1571	जे०सी	592340एच	सुबेदार	अब्दुल रहमान	1-11-2004
1572	जे०सी	592247एफ	सुबेदार	अब्दुल सतार	1-10-2004
1573	जे०सी	592061एक्स	सुबेदार	अवतार सिंह	1-12-2004

1574	जेसी	592328एफ	सुबेदार	बलविन्दर सिंह	1-1-2005
1575	जेसी	592647एन	सुबेदार	विशन दास	1-11-2004
1576	जेसी	592570डब्ल्यू	सुबेदार	विशन देव शर्मा	1-11-2004
1577	जेसी	592319ए	सुबेदार	बोध राज	1-9-2004
1578	जेसी	592181डब्ल्यू	सुबेदार	सी चंद	1-9-2004
1579	जेसी	592049डब्ल्यू	सुबेदार	डी सिंह	1-9-2004
1580	जेसी	592314एफ	सुबेदार	दिनेश सिंह थापा	1-9-2004
1581	जेसी	592060पी	सुबेदार	गुरमीत सिंह	1-12-2004
1582	जेसी	592285एक्स	सुबेदार	हक सिंह	1-12-2004
1583	जेसी	592502एच	सुबेदार	कवल कुमार	1-10-2004
1584	जेसी	592305ए	सुबेदार	के सिंह	1-9-2004
1585	जेसी	592348पी	सुबेदार	कुलदीप सिंह	1-10-2004
1586	जेसी	224483एल	सुबेदार	मोहम्मद अय्यूब	1-9-2004
1587	जेसी	592225एच	सुबेदार	मोहम्मद शेफी	1-12-2004
1588	जेसी	592195डब्ल्यू	सुबेदार	मुशी खान	1-1-2005
1589	जेसी	592387एन	सुबेदार	नेत्र सिंह	1-9-2004
1590	जेसी	592105के	सुबेदार	ओंकार सिंह	1-9-2004
1591	जेसी	592385एच	सुबेदार	पूरन सिंह	1-9-2004
1592	जेसी	592562एकरा	सुबेदार	राम पौल	1-11-2004
1593	जेसी	592375वाइ	सुबेदार	आर कुमार	1-11-2004
1594	जेसी	592266एम	सुबेदार	रोशन लाल	1-9-2004
1595	जेसी	592407डब्ल्यू	सुबेदार	राहदेव सिंह पटानिया	1-11-2004
1596	जेसी	592291एल	सुबेदार	सूरम चंद	1-10-2004
1597	जेसी	592161एच	सुबेदार	योग राज	1-10-2004
1 गोरखा राइफल्स					
1598	जेसी	602204एच	सुबेदार	अनूप राणा	1-10-2004
1599	जेसी	602218एच	सुबेदार	बाल बहादुर	1-10-2004
1600	जेसी	602132के	सुबेदार	दीपक बहादुर थापा	1-10-2004
1601	जेसी	602176एफ	सुबेदार	देव कृष्ण थापा	1-9-2004
1602	जेसी	602212एफ	सुबेदार	दुर्गा प्रसाद गुरूंग	1-10-2004
1603	जेसी	602208वाइ	सुबेदार	गन बहादुर गुरूंग	1-12-2004
1604	जेसी	602296ए	सुबेदार	हरका बहादुर पुन	1-12-2004
1605	जेसी	602069ए	सुबेदार	इंद्र सिंह थापा	1-12-2004
1606	जेसी	602314एक्स	सुबेदार	जे बहादुर जोगी कुंवर	1-12-2004
1607	जेसी	602223एन	सुबेदार	जुम बहादुर गुरूंग	1-12-2004
1608	जेसी	602219एल	सुबेदार	खेम बहादुर थापा	1-10-2004
1609	जेसी	602255डब्ल्यू	सुबेदार	लील बहादुर गुरूंग	1-10-2004
1610	जेसी	602254एन	सुबेदार	गान बहादुर राणा	1-12-2004
1611	जेसी	602071एक्स	सुबेदार	मंगल सिंह गुरूंग	1-11-2004
1612	जेसी	612199डब्ल्यू	सुबेदार	राम चद्रा गुरूंग	1-12-2004
1613	जेसी	602134पी	सुबेदार	रुद्रा बहादुर राणा	1-10-2004
1614	जेसी	602196पी	सुबेदार	सुरेश मुखिया	1-1-2005
1615	जेसी	602186एल	सुबेदार	तारा बहादुर अले	1-10-2004
1616	जेसी	602074एल	सुबेदार	उमा महेश धिगीर	1-10-2004
1617	जेसी	602366एन	सुबेदार	उत्तर बहादुर गुरूंग	1-1-2005
3 गोरखा राइफल्स					
1618	जेसी	607072के	सुबेदार	अर्जुन बहादुर थापा	1-1-2005
1619	जेसी	607185एम	सुबेदार	बाल बहादुर चंद	1-10-2004
1620	जेसी	607270पी	सुबेदार	बाल बहादुर पुन	1-12-2004

1621	जेसी	607214डब्ल्यू	सुबेदार	बाल बहादुर थापा	1-1-2005
1622	जेसी	607170के	सुबेदार	बेद बहादुर थापा	1-1-2005
1623	जेसी	607211एच	सुबेदार	बिजय तमंग	1-11-2004
1624	जेसी	607149एफ	सुबेदार	बीर बहादुर गुरूंग	1-11-2004
1625	जेसी	607198के	सुबेदार	बॉम बहादुर गुरूंग	1-10-2004
1626	जेसी	607145एल	सुबेदार	चंद्रा बहादुर थापा	1-10-2004
1627	जेसी	607123एम	सुबेदार	चंद्रा जीत पुन	1-10-2004
1628	जेसी	607233एफ	सुबेदार	चेत बहादुर गुरूंग	1-10-2004
1629	जेसी	607231डब्ल्यू	सुबेदार	चित्रा बहादुर थापा	1-10-2004
1630	जेसी	607133डब्ल्यू	सुबेदार	दामर सिंह थापा	1-10-2004
1631	जेसी	607318एक्स	सुबेदार	डी बहादुर थापा	1-12-2004
1632	जेसी	607254एक्स	सुबेदार	देव कुमार थापा	1-1-2005
1633	जेसी	607152एफ	सुबेदार	धर्मा राज थापा	1-12-2004
1634	जेसी	607146एन	सुबेदार	दिल बहादुर अधिकारी	1-10-2004
1635	जेसी	607175एच	सुबेदार	दिनेश सिंह बोहरा	1-9-2004
1636	जेसी	607131एल	सुबेदार	दुर्गा बहादुर छत्री	1-10-2004
1637	जेसी	607242एच	सुबेदार	ज्ञान बहादुर पुन	1-11-2004
1638	जेसी	607235एम	सुबेदार	ज्ञान बहादुर थापा	1-10-2004
1639	जेसी	607258एन	सुबेदार	हर्क बहादुर थापा	1-1-2005
1640	जेसी	607173एक्स	सुबेदार	इंदरा बहादुर थापा	1-1-2005
1641	जेसी	607229वाइ	सुबेदार	इश्वर बहादुर अले	1-7-2004
1642	जेसी	607088पी	सुबेदार	जगत बहादुर घले	1-11-2004
1643	जेसी	607284पी	सुबेदार	के बहादुर राणा	1-1-2005
1644	जेसी	607176एल	सुबेदार	करण बहादुर थापा	1-10-2004
1645	जेसी	607147डब्ल्यू	सुबेदार	खिम बहादुर पुन	1-12-2004
1646	जेसी	607240एक्स	सुबेदार	कृष्णा बहादुर गुरूंग	1-11-2004
1647	जेसी	607302एम	सुबेदार	कुल प्रसाद प्रधान	1-1-2005
1648	जेसी	607203के	सुबेदार	लाल बहादुर अले	1-10-2004
1649	जेसी	607181डब्ल्यू	सुबेदार	मान बहादुर थापा	1-1-2005
1650	जेसी	607288एल	सुबेदार	मेख बहादुर गुरूंग	1-1-2005
1651	जेसी	607200डब्ल्यू	सुबेदार	नारायण सिंह छत्री	1-10-2004
1652	जेसी	607180एन	सुबेदार	ओम बहादुर गुरूंग	1-10-2004
1653	जेसी	607141एफ	सुबेदार	प्रसाद गुरूंग	1-10-2004
1654	जेसी	607223एक्स	सुबेदार	प्रेम बहादुर पुन	1-1-2005
1655	जेसी	607209एल	सुबेदार	पी राणा	1-10-2004
1656	जेसी	607197एफ	सुबेदार	पूर्णा बहादुर गुरूंग	1-10-2004
1657	जेसी	607241ए	सुबेदार	राम बहादुर थापा	1-11-2004
1658	जेसी	607177एन	सुबेदार	राम प्रसाद अले	1-1-2005
1659	जेसी	607121एफ	सुबेदार	टाक बहादुर गुरूंग	1-9-2004
1660	जेसी	607140एम	सुबेदार	ताल बहादुर गुरूंग	1-11-2004
1661	जेसी	607252एम	सुबेदार	टेक बहादुर राणा	1-11-2004
1662	जेसी	607179वाइ	सुबेदार	दुल बहादुर पुन	1-9-2004
1663	जेसी	607184के	सुबेदार	याम बहादुर गुरूंग	1-1-2005

4 गोरखा राइफल्स

1664	जेसी	612192एम	सुबेदार	बाबू लाल	1-10-2004
1665	जेसी	612102ए	सुबेदार	भरत बहादुर गुरूंग	1-11-2004
1666	जेसी	612133ए	सुबेदार	भूपाल गुरूंग	1-9-2004
1667	जेसी	612229एच	सुबेदार	धन बहादुर पुन	1-11-2004
1668	जेसी	612241के	सुबेदार	ज्ञान बहादुर थापा	1-10-2004
1669	जेसी	612304एफ	सुबेदार	ज्ञान बहादुर थापा	1-1-2005

1670	जेसी	612191के	सुबेदार	हरी बहादुर छत्री	1-10-2004
1671	जेसी	612271एफ	सुबेदार	हिम बहादुर पुन	1-10-2004
1672	जेसी	208236एन	सुबेदार	केश बहादुर गुरुंग	1-1-2005
1673	जेसी	612041एन	सुबेदार	कृष्णा राज राय	1-10-2004
1674	जेसी	612267वाइ	सुबेदार	लाल बहादुर थापा	1-10-2004
1675	जेसी	612270वाइ	सुबेदार	ललित प्रसाद गुरुंग	1-12-2004
1676	जेसी	612120एच	सुबेदार	मोती राज श्रेष्ठ	1-10-2004
1677	जेसी	612193पी	सुबेदार	प्रदीप कुमार गुरुंग	1-9-2004
1678	जेसी	612268एफ	सुबेदार	पी बहादुर गुरुंग	1-11-2004
1679	जेसी	205369वाइ	सुबेदार	पूरन राज राणा	1-10-2004
1680	जेसी	612269के	सुबेदार	रेशम लाल गुरुंग	1-12-2004
1681	जेसी	612169वाइ	सुबेदार	साजन कुमार बी	1-9-2004
1682	जेसी	612212पी	सुबेदार	शेर बहादुर थापा	1-1-2005
1683	जेसी	612248एन	सुबेदार	शिवा बहादुर गुरुंग	1-10-2004
1684	जेसी	612170एन	सुबेदार	टेक बहादुर गुरुंग	1-12-2004
5 गोरखा राइफलस					
1685	जेसी	617233पी	सुबेदार	अशोक कुमार थापा	1-1-2005
1688	जेसी	617262एक्स	सुबेदार	बॉम बहादुर गुरुंग	1-10-2004
1687	जेसी	617417एन	सुबेदार	बुधी बहादुर गुरुंग	1-1-2005
1688	जेसी	617254एल	सुबेदार	बी बहादुर एफ	1-12-2004
1689	जेसी	617402एल	सुबेदार	छुना बहादुर थापा	1-12-2004
1690	जेसी	617227एफ	सुबेदार	दलीप सिंह थापा	1-12-2004
1691	जेसी	617332एक्स	सुबेदार	धन बहादुर प्रधान	1-10-2004
1692	जेसी	617435डब्ल्यू	सुबेदार	धन कुमार गुरुंग	1-10-2004
1693	जेसी	617221ए	सुबेदार	गंगा बहादुर पुन	1-1-2005
1694	जेसी	617334एच	सुबेदार	गोविंद बहादुर थापा	1-11-2004
1695	जेसी	617199ए	सुबेदार	हरी बहादुर गुरुंग	1-1-2005
1696	जेसी	617317एच	सुबेदार	हिम बहादुर थापा	1-12-2004
1697	जेसी	617259के	सुबेदार	होम बहादुर सरु मगर	1-12-2004
1698	जेसी	617384एन	सुबेदार	जस बहादुर गुरुंग	1-12-2004
1699	जेसी	617084एम	सुबेदार	केशव बहादुर थापा	1-9-2004
1700	जेसी	617187एल	सुबेदार	खेम बहादुर गुरुंग	1-10-2004
1701	जेसी	617319एन	सुबेदार	कृष्णा बहादुर गुरुंग	1-9-2004
1702	जेसी	617326के	सुबेदार	कृष्णा बहादुर पुन	1-12-2004
1703	जेसी	617264पी	सुबेदार	कुल बहादुर मगर	1-9-2004
1704	जेसी	617249ए	सुबेदार	मान बहादुर थापा	1-10-2004
1705	जेसी	617265के	सुबेदार	एम बहादुर गुरुंग	1-10-2004
1706	जेसी	617401एच	सुबेदार	मिन बहादुर गुरुंग	1-1-2005
1707	जेसी	617303एच	सुबेदार	नैना सिंह थापा	1-10-2004
1708	जेसी	617322एन	सुबेदार	नेत्रा बहादुर थापा	1-12-2004
1709	जेसी	617114वाइ	सुबेदार	नीमा शिरिंग तमंग	1-10-2004
1710	जेसी	617049के	सुबेदार	ओम प्रसाद थापा	1-12-2004
1711	जेसी	617354डब्ल्यू	सुबेदार	प्रसाद पुन	1-12-2004
1712	जेसी	617291वाइ	सुबेदार	राजेंद्र सिंह थापा	1-12-2004
1713	जेसी	617136एक्स	सुबेदार	रण बहादुर गुरुंग	1-11-2004
1714	जेसी	617186एच	सुबेदार	आर बहादुर गुरुंग	1-9-2004
1715	जेसी	617205एच	सुबेदार	शाहा बहादुर अले	1-12-2004
1716	जेसी	617113डब्ल्यू	सुबेदार	शंकर सिंह थापा	1-12-2004
1717	जेसी	617300पी	सुबेदार	शेर बहादुर पुन	1-11-2004
1718	जेसी	617325एफ	सुबेदार	सूर्या प्रसाद बुराथुकी	1-11-2004

1719	जेसी	617172एच	सुबेदार	तन्का बहादुर गुरुंग	1-12-2004
1720	जेसी	617415एच	सुबेदार	तारा प्रसाद श्रेष्ठ	1-12-2004
1721	जेसी	617173एल	सुबेदार	तेज बहादुर गुरुंग	1-12-2004
1722	जेसी	617338वाइ	सुबेदार	टी बहादुर पुन	1-12-2004
8 गोरखा राइफल्स					
1723	जेसी	617301एक्स	सुबेदार	भीम बहादुर राणा	1-10-2004
1724	जेसी	617086एक्स	सुबेदार	वीर बहादुर गुरुंग	1-10-2004
1725	जेसी	623238के	सुबेदार	बी पुन	1-12-2004
1726	जेसी	623173एफ	सुबेदार	सी सिंग गुरुंग	1-11-2004
1727	जेसी	623148एच	सुबेदार	देव बहादुर गुरुंग	1-12-2004
1728	जेसी	617217एक्स	सुबेदार	डिग विजय माल	1-10-2004
1729	जेसी	623090डब्ल्यू	सुबेदार	गंगा बहादुर गुरुंग	1-12-2004
1730	जेसी	617363एक्स	सुबेदार	ज्ञान बहादुर पुन	1-1-2005
1731	जेसी	623142एफ	सुबेदार	हरका बहादुर गुरुंग	1-1-2005
1732	जेसी	623185डब्ल्यू	सुबेदार	जगत बहादुर गुरुंग	1-9-2004
1733	जेसी	623282एन	सुबेदार	जगत बहादुर राणा	1-12-2004
1734	जेसी	623286के	सुबेदार	कल्यान सिंह वोहरा	1-1-2005
1735	जेसी	617309के	सुबेदार	केहर सिंह गुरुंग	1-11-2004
1736	जेसी	617308एफ	सुबेदार	खड बहादुर रोका	1-10-2004
1737	जेसी	617181के	सुबेदार	कृष्णा बहादुर पुन	1-11-2004
1738	जेसी	617327एम	सुबेदार	कृष्णा बहादुर थापा	1-12-2004
1739	जेसी	623221डब्ल्यू	सुबेदार	कृष्णा बहादुर थापा	1-10-2004
1740	जेसी	623196एच	सुबेदार	ललित बहादुर मगर	1-9-2004
1741	जेसी	617320एच	सुबेदार	नार बहादुर पुन मगर	1-11-2004
1742	जेसी	623212पी	सुबेदार	प्रदीप राणा	1-12-2004
1743	जेसी	623187एफ	सुबेदार	पूरन बहादुर गुरुंग	1-12-2004
1744	जेसी	204202एच	सुबेदार	पूर्णा बहादुर थापा	1-12-2004
1745	जेसी	623105एन	सुबेदार	शांता बहादुर राणा	1-10-2004
1746	जेसी	617321एल	सुबेदार	सुक बहादुर गुरुंग	1-12-2004
1747	जेसी	623165एच	सुबेदार	तन्का बहादुर राणा	1-11-2004
1748	जेसी	623205वाइ	सुबेदार	टेक बहादुर थापा	1-10-2004
1749	जेसी	623106डब्ल्यू	सुबेदार	थमन सिंह राणा	1-11-2004
1750	जेसी	623198एन	सुबेदार	टी रास पुन	1-12-2004
1751	जेसी	623131पी	सुबेदार	तिल प्रसाद अधिकारी	1-12-2004
1752	जेसी	617396एच	सुबेदार	टी नाथ थापा	1-10-2004
9 गोरखा राइफल्स					
1753	जेसी	629361वाइ	सुबेदार	अमर बहादुर छत्री	1-10-2004
1754	जेसी	629347एम	सुबेदार	अमर बहादुर ठाकुरी	1-10-2004
1755	जेसी	629223एक्स	सुबेदार	बाल बहादुर छत्री	1-12-2004
1756	जेसी	629444के	सुबेदार	भीम बहादुर छत्री	1-10-2004
1757	जेसी	629342एन	सुबेदार	भीम बी छत्री	1-10-2004
1758	जेसी	629296के	सुबेदार	वीर बहादुर काकी	1-11-2004
1759	जेसी	629369एल	सुबेदार	बुधी बहादुर पी छत्री	1-12-2004
1760	जेसी	629258एन	सुबेदार	दान बहादुर	1-10-2004
1761	जेसी	629234के	सुबेदार	गम बहादुर खत्री	1-12-2004
1762	जेसी	629368एच	सुबेदार	गणेश बहादुर खण्डका	1-11-2004
1763	जेसी	629395एम	सुबेदार	होम बहादुर छत्री	1-11-2004
1764	जेसी	629267पी	सुबेदार	जंग बहादुर छत्री	1-11-2004
1765	जेसी	629376एम	सुबेदार	इलक बी खत्री	1-11-2004

1766	जेसी	629238ए	सुबेदार	खेम बहादुर मल्ला	1-9-2004
1767	जेसी	629143ए	सुबेदार	के बहादुर ठाकुरी	1-11-2004
1768	जेसी	629162एल	सुबेदार	कृष्णा बहादुर काकी	1-10-2004
1769	जेसी	629341एल	सुबेदार	मिन बहादुर खत्री	1-10-2004
1770	जेसी	629266एम	सुबेदार	नानी काजी के	1-11-2004
1771	जेसी	629219पी	सुबेदार	नार बहादुर छत्री	1-10-2004
1772	जेसी	629161एच	सुबेदार	ओम बहादुर ठाकुरी	1-10-2004
1773	जेसी	629288एल	सुबेदार	प्रेम बहादुर खत्री	1-12-2004
1774	जेसी	629348पी	सुबेदार	सालिगराम खण्डका	1-11-2004
1775	जेसी	629375वाइ	सुबेदार	तेज बहादुर के सी	1-11-2004
1776	जेसी	629360डब्ल्यू	सुबेदार	टेक बहादुर छत्री	1-10-2004
1777	जेसी	629370ए	सुबेदार	यदुनाथ पान्डे छत्री	1-10-2004
1778	जेसी	629298पी	सुबेदार	याम बहादुर केसी	1-10-2004
11 गोरखा राइफल					
1779	जेसी	205735एक्स	सुबेदार	अजित कुमार सुब्बा	1-10-2004
1780	जेसी	634109के	सुबेदार	बाली मान राय	1-12-2004
1781	जेसी	225866के	सुबेदार	भीम सिंह राणा	1-12-2004
1782	जेसी	634117एच	सुबेदार	बीर बहादुर राय	1-12-2004
1783	जेसी	634044एफ	सुबेदार	बीर कुमार लिम्बु	1-12-2004
1784	जेसी	634020एक्स	सुबेदार	बुध्दा कुमार राय	1-9-2004
1785	जेसी	213020डब्ल्यू	सुबेदार	धन बहादुर गुरुंग	1-10-2004
1786	जेसी	634127एम	सुबेदार	जीवन कुमार राय	1-1-2005
1787	जेसी	205746के	सुबेदार	केश बीर राय	1-10-2004
1788	जेसी	634171डब्ल्यू	सुबेदार	खड बहादुर अले	1-10-2004
1789	जेसी	634154डब्ल्यू	सुबेदार	किशोर सिंह राय	1-10-2004
1790	जेसी	205743डब्ल्यू	सुबेदार	कुमार तमग	1-9-2004
1791	जेसी	634276ए	सुबेदार	पी राम राय	1-1-2005
1792	जेसी	213023के	सुबेदार	प्रदीप कुमार लिम्बु	1-1-2005
1793	जेसी	634293ए	सुबेदार	पूर्णा कुमार लिम्बु	1-10-2004
1794	जेसी	634172वाइ	सुबेदार	संत बीर लिम्बु	1-11-2004
1795	जेसी	634278एल	सुबेदार	टोक बहादुर राय	1-1-2005
सेना सेवा कोर : दक्षिण द्व					
1796	जेसी	661086एक्स	सुबेदार	ए कुमार देबा सरमा	1-11-2004
1797	जेसी	660953के	सुबेदार	ए कुमार	1-9-2004
1798	जेसी	661009एच	सुबेदार	आशा राम	1-11-2004
1799	जेसी	661122एक्स	सुबेदार	आज सिंह	1-11-2004
1800	जेसी	660956एक्स	सुबेदार	बी राम	1-10-2004
1801	जेसी	660907पी	सुबेदार	बी सिंह	1-9-2004
1802	जेसी	640276डब्ल्यू	सुबेदार	बशीर अहमद	1-9-2004
1803	जेसी	214697एन	सुबेदार	बेद राम	1-11-2004
1804	जेसी	660947डब्ल्यू	सुबेदार	बी देवनाथ	1-11-2004
1805	जेसी	640193एल	सुबेदार	भगत राम	1-9-2004
1806	जेसी	661075एल	सुबेदार	विक्रम सिंह	1-9-2004
1807	जेसी	661203एक्स	सुबेदार	बीरबल सिंह	1-11-2004
1808	जेसी	214699वाइ	सुबेदार	बृज मोहन सिंह	1-12-2004
1809	जेसी	641333वाइ	सुबेदार	सी लाल गुप्ता	1-11-2004
1810	जेसी	213590एम	सुबेदार	दिनेश कुमार	1-11-2004
1811	जेसी	213522वाइ	सुबेदार	दुलाल साहा	1-11-2004
1812	जेसी	213595एल	सुबेदार	जी कुमार नाथ	1-1-2005

1813	जेसी	640523वाइ	सुबेदार	गोपालन आर	1-12-2004
1814	जेसी	209021एफ	सुबेदार	गुरचरण सिंह सिद्धू	1-11-2004
1815	जेसी	213644एच	सुबेदार	गुरमीत सिंह	1-10-2004
1816	जेसी	208994एल	सुबेदार	हरनाम सिंह	1-1-2005
1817	जेसी	661092एल	सुबेदार	जे प्रसाद पाठक	1-11-2004
1818	जेसी	207194ए	सुबेदार	जरनैल सिंह	1-9-2004
1819	जेसी	202587एम	सुबेदार	जया प्रकाश रथ	1-12-2004
1820	जेसी	640926वाइ	सुबेदार	कालिका प्रसाद सिंह	1-9-2004
1821	जेसी	213557पी	सुबेदार	केशवन वी	1-1-2005
1822	जेसी	660995डब्ल्यू	सुबेदार	कृष्णानंद शर्मा	1-1-2005
1823	जेसी	208921वाइ	सुबेदार	कुरुविला डेनिअल	1-12-2004
1824	जेसी	660986पी	सुबेदार	मंगला राम बी	1-12-2004
1825	जेसी	661771एच	सुबेदार	मेहर सिंह सैनी	1-1-2005
1826	जेसी	661288वाइ	सुबेदार	मेहरवान सिंह	1-10-2004
1827	जेसी	641443एन	सुबेदार	मोरे गोपीनाथ	1-10-2004
1828	जेसी	641332डब्ल्यू	सुबेदार	नन्द कुमार राम	1-1-2005
1829	जेसी	640118एफ	सुबेदार	नरेश प्रसाद जायसवाल	1-12-2004
1830	जेसी	208925पी	सुबेदार	पवार सोपान जी	1-12-2004
1831	जेसी	661003एफ	सुबेदार	प्रेम चंद्रा	1-9-2004
1832	जेसी	661006पी	सुबेदार	रबीन्द्र नाथ सिंह	1-11-2004
1833	जेसी	661413एक्स	सुबेदार	राज कुमार शर्मा	1-9-2004
1834	जेसी	661175डब्ल्यू	सुबेदार	राज नन्दन सिंह	1-11-2004
1835	जेसी	202581एल	सुबेदार	राजेंद्र सिंह	1-10-2004
1836	जेसी	660881एल	सुबेदार	रजनी कांत प्रसाद सिंह	1-9-2004
1837	जेसी	640652वाइ	सुबेदार	राम अवतार	1-1-2005
1838	जेसी	661421डब्ल्यू	सुबेदार	राग आई सिंह	1-12-2004
1839	जेसी	202572के	सुबेदार	रमा मूर्ति जी	1-12-2004
1840	जेसी	661423एफ	सुबेदार	रमेश चंद्रा हरिजन	1-11-2004
1841	जेसी	661305एन	सुबेदार	रामेश्वर प्रसाद	1-10-2004
1842	जेसी	640325एन	सुबेदार	रमवीर सिंह चौहान	1-11-2004
1843	जेसी	661062एन	सुबेदार	रत्तन लाल	1-11-2004
1844	जेसी	640042एम	सुबेदार	एस रमा कृष्णन	1-10-2004
1845	जेसी	641641वाइ	सुबेदार	सरिधरन पिल्लै के	1-12-2004
1846	जेसी	213551एन	सुबेदार	शाम शेर सिंह	1-9-2004
1847	जेसी	200324पी	सुबेदार	शंकर दयाल मिश्रा	1-11-2004
1848	जेसी	213516एल	सुबेदार	शिवालिङ्गप्पा एम एस	1-10-2004
1849	जेसी	640631एच	सुबेदार	सुनील कुमार कुडू	1-12-2004
1850	जेसी	661159वाइ	सुबेदार	सुरेद्र सिंह	1-11-2004
1851	जेसी	660929एन	सुबेदार	एस सिंह	1-9-2004
1852	जेसी	208950एन	सुबेदार	टी कुमार बाला	1-9-2004
1853	जेसी	640017एन	सुबेदार	उत्तम चंद	1-12-2004
1854	जेसी	660948वाइ	सुबेदार	विजय कुमार	1-10-2004

सेना सेवा कोर : जंतु परिवहन दल

1855	जेसी	680349ए	रिसालदार	मोहम्मद आर अली बी	1-11-2004
1856	जेसी	680344एफ	रिसालदार	राग पाल	1-11-2004
1857	जेसी	680348एक्स	रिसालदार	राम सिंह	1-10-2004

सेना चिकित्सा कोर

1858	जेसी	691496एच	सुबेदार	अब्बास अली अहमद	1-12-2004
1859	जेसी	690988पी	सुबेदार	ए कुमार शाही	1-9-2004

1860	जेसी	691720के	सुबेदार	बाबू राजन के टी	1-12-2004
1861	जेसी	691611एक्स	सुबेदार	भगत सिंह दलाल	1-9-2004
1862	जेसी	691943एफ	सुबेदार	भुवानेश्वर शर्मा	1-12-2004
1863	जेसी	691934ए	सुबेदार	बिजय शंकर सिंह	1-1-2005
1864	जेसी	691426के	सुबेदार	बिश्वनाथ कुमार	1-9-2004
1865	जेसी	691780वाइ	सुबेदार	डी ससमाल	1-12-2004
1866	जेसी	692270के	सुबेदार	जय चंद	1-9-2004
1867	जेसी	691936एल	सुबेदार	जोशी विजयकुमार नारायण	1-9-2004
1868	जेसी	214867एम	सुबेदार	के पी	1-11-2004
1869	जेसी	692304एम	सुबेदार	केशो प्रसाद	1-12-2004
1870	जेसी	691428पी	सुबेदार	एम जी जोसेफ स्टीफन	1-12-2004
1871	जेसी	692096एच	सुबेदार	मोहन चंद्रा	1-10-2004
1872	जेसी	691557पी	सुबेदार	मोहनन एस	1-12-2004
1873	जेसी	219940के	सुबेदार	मृगंका भूषन देब	1-1-2005
1874	जेसी	214863डब्ल्यू	सुबेदार	एम लाल	1-11-2004
1875	जेसी	214864वाइ	सुबेदार	प्रदीप कुमार	1-12-2004
1876	जेसी	690152एक्स	सुबेदार	पी सरकार	1-11-2004
1877	जेसी	692306एक्स	सुबेदार	राधा नाथ जैना	1-1-2005
1878	जेसी	219936एफ	सुबेदार	रघबीर सिंह बाजवा	1-10-2004
1879	जेसी	690404वाइ	सुबेदार	राजवीर सिंह	1-9-2004
1880	जेसी	692303के	सुबेदार	रामेन्द्र नाथ संतरा	1-11-2004
1881	जेसी	691459पी	सुबेदार	रंगा लाल राउत	1-12-2004
1882	जेसी	691783एम	सुबेदार	समीर कुमार मुशी	1-9-2004
1883	जेसी	693121एच	सुबेदार	सतपाल सिंह	1-10-2004
1884	जेसी	391048डब्ल्यू	सुबेदार	शोभ नाथ राम	1-12-2004
1885	जेसी	690884एन	सुबेदार	सुनील कर्माकर	1-9-2004
सेना आर्डनेंस कोर					
1886	जेसी	723494एन	सुबेदार	अजय शर्मा	1-1-2005
1887	जेसी	724912के	सुबेदार	अमरजीत सिंह	1-9-2004
1888	जेसी	723090एल	सुबेदार	अर्जुन सिंह	1-9-2004
1889	जेसी	722330एल	सुबेदार	बचन सिंह	1-12-2004
1890	जेसी	723281ए	सुबेदार	बालाक इ पी	1-11-2004
1891	जेसी	722597ए	सुबेदार	बलवंत सिंह	1-1-2005
1892	जेसी	724072पी	सुबेदार	बी चंद्रा मंडल	1-11-2004
1893	जेसी	723460ए	सुबेदार	बिक्रम सिंह	19.08.2004
1894	जेसी	722532एम	सुबेदार	ब्रज किशोर दोबे	1-9-2004
1895	जेसी	723580वाइ	सुबेदार	सी पत्रर	1-12-2004
1896	जेसी	221618डब्ल्यू	सुबेदार	चंद्रा भान सिंह	1-1-2005
1897	जेसी	723451वाइ	सुबेदार	दर्शन सिंह	1-10-2004
1898	जेसी	722162एक्स	सुबेदार	डी मनोहर	1-9-2004
1899	जेसी	723184एच	सुबेदार	दविन्द्र पाल सिंह	1-10-2004
1900	जेसी	723556एच	सुबेदार	देव लाल	1-12-2004
1901	जेसी	723445एल	सुबेदार	देवी दास	1-9-2004
1902	जेसी	723181पी	सुबेदार	धन सिंह जी	1-9-2004
1903	जेसी	722215एल	सुबेदार	धर्म सिंह	1-10-2004
1904	जेसी	722575एफ	सुबेदार	डी चरन एम	1-1-2005
1905	जेसी	724483एन	सुबेदार	जी सी कृष्णा	1-12-2004
1906	जेसी	722255एम	सुबेदार	ज्ञान प्रकाश डी	1-9-2004
1907	जेसी	722266वाइ	सुबेदार	एच दाश	1-1-2005
1908	जेसी	723185एल	सुबेदार	हरी दत्त	1-10-2004

1909	जेसी	723205एन	सुबेदार	हरीश कुमार प्रधान	1-1-2005
1910	जेसी	723581एफ	सुबेदार	एच कोटवाल	1-1-2005
1911	जेसी	722976डब्ल्यू	सुबेदार	जे हासन खान	1-12-2004
1912	जेसी	722627एम	सुबेदार	जॉन सी थागरा	1-9-2004
1913	जेसी	722633ए	सुबेदार	जॉनी मोहम्मद	1-12-2004
1914	जेसी	723247ए	सुबेदार	जोरोफ पी	1-11-2004
1915	जेसी	723404एफ	सुबेदार	कमल सिंह डंगी	1-9-2004
1916	जेसी	723082एम	सुबेदार	के अन्सारी	1-10-2004
1917	जेसी	722912एल	सुबेदार	करन सिंह	1-11-2004
1918	जेसी	722874ए	सुबेदार	खगेन्द्र नाथ सेठिया	1-10-2004
1919	जेसी	723345ए	सुबेदार	के चंद्रा मिश्रा	1-11-2004
1920	जेसी	723155एन	सुबेदार	खुशी रम्य जी	1-10-2004
1921	जेसी	723397डब्ल्यू	सुबेदार	कोले राजाराम शेट्ट	1-1-2005
1922	जेसी	723327एक्स	सुबेदार	कृष्ण जीतन	1-11-2004
1923	जेसी	723071ए	सुबेदार	एल सिंह	1-11-2004
1924	जेसी	723113एफ	सुबेदार	महेन्द्र पाल सिंह	1-12-2004
1925	जेसी	723217एच	सुबेदार	मानिक साहा	1-10-2004
1926	जेसी	722841पी	सुबेदार	गारुति नरसिंह राव	1-1-2005
1927	जेसी	723290एफ	सुबेदार	मोहनन दी	1-12-2004
1928	जेसी	723180एम	सुबेदार	मोहिन्दर सिंह	1-9-2004
1929	जेसी	722262एच	सुबेदार	मुस्ताक अली खान	1-12-2004
1930	जेसी	722620एच	सुबेदार	नन्द किशोर सिंह	1-12-2004
1931	जेसी	723214पी	सुबेदार	निरंजन कुमार चंद	1-11-2004
1932	जेसी	722933एफ	सुबेदार	पी नाथर	1-9-2004
1933	जेसी	722402के	सुबेदार	पोकर सिंह	1-10-2004
1934	जेसी	723346एच	सुबेदार	पी कुमार पी	1-12-2004
1935	जेसी	722694एक्स	सुबेदार	प्रीतम सिंह	1-9-2004
1936	जेसी	722598एच	सुबेदार	पी च. बोरसह	1-1-2005
1937	जेसी	722849एफ	सुबेदार	राजन नायर टी एन	1-11-2004
1938	जेसी	722367एम	सुबेदार	राजे सिंह	1-1-2005
1939	जेसी	722258ए	सुबेदार	राम निवास शर्मा	1-11-2004
1940	जेसी	723739वाइ	सुबेदार	आर कुमार सिंह पलिया	1-9-2004
1941	जेसी	725285पी	सुबेदार	रवि बहादुर	1-11-2004
1942	जेसी	722907ए	सुबेदार	ससिधरन वी	1-1-2005
1943	जेसी	724050डब्ल्यू	सुबेदार	शम्भू दत्त	1-11-2004
1944	जेसी	723590एच	सुबेदार	शम्भू प्रसाद डी	1-11-2004
1945	जेसी	723493एल	सुबेदार	शंकर रमा काम्बले	1-11-2004
1946	जेसी	723211एफ	सुबेदार	सिदेश सिंह	1-12-2004
1947	जेसी	723293पी	सुबेदार	सिमांचल आर	1-12-2004
1948	जेसी	723342एम	सुबेदार	सोमन पी पी	1-1-2005
1949	जेसी	723700एम	सुबेदार	एस शेखर डे	1-9-2004
1950	जेसी	723284एन	सुबेदार	एस दारा	1-10-2004
1951	जेसी	723339एम	सुबेदार	टी राजेंद्र कृष्ण राव	1-9-2004
1952	जेसी	723980एल	सुबेदार	उमा चरन पात्र	1-11-2004
1953	जेसी	723367वाइ	सुबेदार	वी नागप्पा	1-12-2004
1954	जेसी	723490एक्स	सुबेदार	विद्याधर दुवे	1-10-2004
1955	जेसी	723351एम	सुबेदार	वी बी	1-10-2004
1956	जेसी	722989एन	सुबेदार	युगेश्वर मनपत राव	1-9-2004

कोर आफ वैद्युत एवं यांत्रिक इंजीनियर्स

1957 जेसी 751125एम सुबेदार अजित कुमार 1-9-2004

1958	जेसी	748852वाइ	सुबेदार	अजित सिंह	1-10-2004
1959	जेसी	753069एक्स	सुबेदार	अक्षया कुमार बेहेरा	1-11-2004
1960	जेसी	751578एक्स	सुबेदार	अलानाथ डे	1-10-2004
1961	जेसी	751449एक्स	सुबेदार	अलियर	1-1-2005
1962	जेसी	749811एफ	सुबेदार	आलोक कुमार पहाड	1-1-2005
1963	जेसी	751462एफ	सुबेदार	अमल कुमार बोस	1-9-2004
1964	जेसी	749992एक्स	सुबेदार	अमर सिंह सैंगर	1-1-2005
1965	जेसी	747705के	सुबेदार	अम्बर नाथ सिंह	1-1-2005
1966	जेसी	752598एक्स	सुबेदार	आनंद सिंह गुसाई	1-11-2004
1967	जेसी	751568एन	सुबेदार	अपुकुट्टन नायर के	1-10-2004
1968	जेसी	221993एफ	सुबेदार	अशोक कुमार सिंह	1-9-2004
1969	जेसी	754688एम	सुबेदार	अयोध्या नाथ चौबे	1-12-2004
1970	जेसी	750721एम	सुबेदार	बालासाहेब बि जी	1-10-2004
1971	जेसी	751853एम	सुबेदार	बी विथल जी	1-10-2004
1972	जेसी	221760ए	सुबेदार	बलवंत प्रसाद यादव	1-10-2004
1973	जेसी	747501एक्स	सुबेदार	बलवंत सिंह	1-9-2004
1974	जेसी	748407ए	सुबेदार	बलवंत सिंह	1-9-2004
1975	जेसी	221804एम	सुबेदार	बंसीधर राय	1-10-2004
1976	जेसी	751149डब्ल्यू	सुबेदार	बी रहमान	1-1-2005
1977	जेसी	749559एन	सुबेदार	बागाबन च. कलिता	1-9-2004
1978	जेसी	750248एम	सुबेदार	भगत भगवान	1-12-2004
1979	जेसी	750318ए	सुबेदार	भगवान दास	1-1-2005
1980	जेसी	748417के	सुबेदार	विजय कुमार सिंह	1-9-2004
1981	जेसी	224022एफ	सुबेदार	बी पील	1-12-2004
1982	जेसी	747543के	सुबेदार	बी सेन भारद्वाज	1-12-2004
1983	जेसी	747520एच	सुबेदार	बिध्या सी सिंह	1-9-2004
1984	जेसी	752786वाइ	सुबेदार	बिरि सिंह	1-12-2004
1985	जेसी	752144के	सुबेदार	ब्रज मोहन सिंह	1-1-2005
1986	जेसी	752360एक्स	सुबेदार	बृजेन्द्र पाल सिंह	1-10-2004
1987	जेसी	751435एक्स	सुबेदार	चरनजीत सिंह	1-12-2004
1988	जेसी	751421एक्स	सुबेदार	चौहान शशिकांत	1-10-2004
1989	जेसी	749985एफ	सुबेदार	चव्हाण सुरेश शंकर राव	1-11-2004
1990	जेसी	747753के	सुबेदार	चव्हाण विश जे	1-9-2004
1991	जेसी	751343एल	सुबेदार	दर्शन कुमार	1-11-2004
1992	जेसी	751719एफ	सुबेदार	देवेन्द्रन के	1-10-2004
1993	जेसी	747882के	सुबेदार	देवी सिंह राठौर	1-10-2004
1994	जेसी	748888एक्स	सुबेदार	देवीदास तुलसीराम ढडे	1-9-2004
1995	जेसी	750158एल	सुबेदार	धनाशेखरन	1-12-2004
1996	जेसी	749151पी	सुबेदार	धर्म सिंह मीना	1-9-2004
1997	जेसी	751852के	सुबेदार	दिनेश चंद्रा शर्मा	1-10-2004
1998	जेसी	747017एल	सुबेदार	दुर्गा दास	1-10-2004
1999	जेसी	751393डब्ल्यू	सुबेदार	गायकवाड सुरेश भगवत	1-11-2004
2000	जेसी	752727एम	सुबेदार	गजेन्द्र सिंह	1-10-2004
2001	जेसी	750279एम	सुबेदार	गंगाधरन के पी	1-10-2004
2002	जेसी	749815एक्स	सुबेदार	गौरी शंकर चाउरासिआ	1-10-2004
2003	जेसी	749392ए	सुबेदार	ज्ञान सिंह दयाल	1-10-2004
2004	जेसी	748931एन	सुबेदार	गोमती प्रसाद दुबे	1-10-2004
2005	जेसी	749152एक्स	सुबेदार	गोपी चरन	1-9-2004
2006	जेसी	748579पी	सुबेदार	जी दास	1-1-2005
2007	जेसी	222528एफ	सुबेदार	हरदेव सिंह	1-9-2004
2008	जेसी	747840एक्स	सुबेदार	हरीश चंद्रा लोहनी	1-10-2004

2009	जेसी	222288पी	सुबेदार	एच सिंह हरदेव सिंह	1-12-2004
2010	जेसी	749770एच	सुबेदार	जाधव अशोक सीताराम	1-1-2005
2011	जेसी	748109के	सुबेदार	जाधव भीमराव गनपत	1-9-2004
2012	जेसी	749148पी	सुबेदार	जगदीश चंद	1-9-2004
2013	जेसी	751208एक्स	सुबेदार	जगदीश सिंह	1-1-2005
2014	जेसी	747021एन	सुबेदार	जयराम महतौ	1-11-2004
2015	जेसी	752361ए	सुबेदार	जलेश्वर पाठक	1-10-2004
2016	जेसी	752333एन	सुबेदार	जनार्दन झा	1-1-2005
2017	जेसी	224021वाइ	सुबेदार	जे सिंह चौधरी	1-12-2004
2018	जेसी	222219वाइ	सुबेदार	जोगी चंद्रा एस	1-10-2004
2019	जेसी	750247के	सुबेदार	जोज टी के	1-10-2004
2020	जेसी	751881वाइ	सुबेदार	जॉ एम एम	1-1-2005
2021	जेसी	748502एम	सुबेदार	के एस राव	1-10-2004
2022	जेसी	748253वाइ	सुबेदार	कलाल गोरख डी	1-1-2005
2023	जेसी	749112डब्ल्यू	सुबेदार	कमल सिंह रावत	1-10-2004
2024	जेसी	747541वाइ	सुबेदार	के घोष	1-10-2004
2025	जेसी	750202के	सुबेदार	कन्हू चरन नायक	1-10-2004
2026	जेसी	749317एल	सुबेदार	करुणाकरन पिल्लै एन	1-10-2004
2027	जेसी	751164एल	सुबेदार	काशी राम	1-1-2005
2028	जेसी	751420पी	सुबेदार	केशाराम बोरा	1-1-2005
2029	जेसी	751930डब्ल्यू	सुबेदार	कृष्ण सिंह थापा	1-9-2004
2030	जेसी	749086ए	सुबेदार	कृष्णा चंद्रा नायक	1-9-2004
2031	जेसी	751494के	सुबेदार	क्षीतिश चंद्रा रौय	1-9-2004
2032	जेसी	747147एन	सुबेदार	के सिंह	1-10-2004
2033	जेसी	749869वाइ	सुबेदार	एम वी रमन मूर्ति	1-10-2004
2034	जेसी	747129एल	सुबेदार	मदन गोपाल सिंह	1-12-2004
2035	जेसी	748222वाइ	सुबेदार	मदन लाल	1-10-2004
2036	जेसी	751205के	सुबेदार	मदन लाल अटवाल	1-9-2004
2037	जेसी	751124के	सुबेदार	मदन पाल सिंह	1-9-2004
2038	जेसी	752362एच	सुबेदार	मधुसुदानन नायर एस	1-10-2004
2039	जेसी	750525एम	सुबेदार	मानवार सिंह	1-12-2004
2040	जेसी	749314एक्स	सुबेदार	मोहम्मद ए इस्लाम	1-10-2004
2041	जेसी	747618डब्ल्यू	सुबेदार	एम पू दीन	1-10-2004
2042	जेसी	751791एक्स	सुबेदार	मोहन लाल	1-12-2004
2043	जेसी	747725एक्स	सुबेदार	मोहाना कुमार के बी	1-10-2004
2044	जेसी	747720वाइ	सुबेदार	मोहनन पिल्लै ए के	1-9-2004
2045	जेसी	750073पी	सुबेदार	एन अली ए	1-10-2004
2046	जेसी	750074एक्स	सुबेदार	नानू ओपी	1-10-2004
2047	जेसी	747839एच	सुबेदार	एन च	1-10-2004
2048	जेसी	750252पी	सुबेदार	नरेन्द्र शर्मा	1-12-2004
2049	जेसी	749719एच	सुबेदार	पी दास	1-1-2005
2050	जेसी	750259वाइ	सुबेदार	परसू राम	1-12-2004
2051	जेसी	754568वाइ	सुबेदार	प्रवीन कुमार	1-11-2004
2052	जेसी	747953ए	सुबेदार	पाटिल आर धनराज	1-9-2004
2053	जेसी	749331एक्स	सुबेदार	प्रमोद कुमार	1-10-2004
2054	जेसी	750018वाइ	सुबेदार	प्रेम सिंह रावत	1-11-2004
2055	जेसी	748439एच	सुबेदार	प्रीतम प्रसाद सिंह	1-1-2005
2056	जेसी	749466वाइ	सुबेदार	पूरन चंद्रा सावल	1-9-2004
2057	जेसी	753019एम	सुबेदार	आर कुमार	1-1-2005
2058	जेसी	751437एच	सुबेदार	राजेंद्र सिंह	1-12-2004
2059	जेसी	751627पी	सुबेदार	राजेंद्र नाथ पाठक	1-12-2004

2060	जेसी	748452एम	सुबेदार	राजेंद्र सिंह	1-12-2004
2061	जेसी	748498पी	सुबेदार	राजपाल सिंह	1-10-2004
2062	जेसी	753463एच	सुबेदार	राजवीर सिंह यादव	1-10-2004
2063	जेसी	751335एम	सुबेदार	राम बचन चौहान	1-9-2004
2064	जेसी	751430वाइ	सुबेदार	राम बालक राय	1-10-2004
2065	जेसी	751428एफ	सुबेदार	राम किशोर	1-11-2004
2066	जेसी	748743एम	सुबेदार	राम कुमार	1-9-2004
2067	जेसी	747638के	सुबेदार	राम निवास यादव	1-1-2005
2068	जेसी	750759डब्ल्यू	सुबेदार	राम प्रकाश गुप्ता	1-10-2004
2069	जेसी	749879एच	सुबेदार	राम प्रसाद सिंह	1-11-2004
2070	जेसी	750277एफ	सुबेदार	राम सागर मिश्रा	1-11-2004
2071	जेसी	749966डब्ल्यू	सुबेदार	आर राम	1-12-2004
2072	जेसी	749959ए	सुबेदार	रामेन्द्र कुमार पाल	1-12-2004
2073	जेसी	751742पी	सुबेदार	रामेश्वर प्रसाद सिंह	1-1-2005
2074	जेसी	747993एफ	सुबेदार	आर राय	1-1-2005
2075	जेसी	751127एक्स	सुबेदार	रणधीर सिंह	1-10-2004
2076	जेसी	222270वाइ	सुबेदार	रनवीर सिंह पूनिया	1-11-2004
2077	जेसी	749853एफ	सुबेदार	रनवीर सिंह सनगर्वी	1-10-2004
2078	जेसी	749312एम	सुबेदार	रत्तन सिंह	1-9-2004
2079	जेसी	753012एच	सुबेदार	एस डी हुसैन	1-12-2004
2080	जेसी	748416एफ	सुबेदार	एस जे फिलिप	1-9-2004
2081	जेसी	748119एन	सुबेदार	शशि एम	1-1-2005
2082	जेसी	750180एच	सुबेदार	ससिधरन नायर जी	1-10-2004
2083	जेसी	749894एक्स	सुबेदार	सतपाल सिंह विष्ट	1-11-2004
2084	जेसी	221829वाइ	सुबेदार	शहाबुद्दीन अन्सारी	1-9-2004
2085	जेसी	752744एम	सुबेदार	शोक मौलाअली शरीफ	1-9-2004
2086	जेसी	750968एन	सुबेदार	शम्भू शरण कुंवर राकेश	1-10-2004
2087	जेसी	752743के	सुबेदार	शंकर दयाल तिवारी	1-10-2004
2088	जेसी	749807वाइ	सुबेदार	एस ए	1-10-2004
2089	जेसी	751339एच	सुबेदार	एस कुमार सागर	1-10-2004
2090	जेसी	751439एन	सुबेदार	शिंदे बाबन मारुति	1-12-2004
2091	जेसी	752365डब्ल्यू	सुबेदार	एस सतीश बालकृष्ण	1-12-2004
2092	जेसी	748496के	सुबेदार	शिव राम	1-10-2004
2093	जेसी	754604वाइ	सुबेदार	शिवराज कुमार भारद्वाज	1-9-2004
2094	जेसी	749803एच	सुबेदार	एस राम	1-11-2004
2095	जेसी	750959एम	सुबेदार	एस बिसोई	1-10-2004
2096	जेसी	748886एम	सुबेदार	एस राम नाथ	1-5-2004
2097	जेसी	751342एच	सुबेदार	सोम नाथ	1-11-2004
2098	जेसी	753071पी	सुबेदार	सुबाष चंद्रा सिंह	1-11-2004
2099	जेसी	747658एक्स	सुबेदार	सुबाष जे	1-10-2004
2100	जेसी	747614ए	सुबेदार	सुधाकरण एस	1-10-2004
2101	जेसी	748113एम	सुबेदार	सुशील मिश्रा	1-12-2004
2102	जेसी	747641के	सुबेदार	तपेश प्रसाद सिंह	1-9-2004
2103	जेसी	750088एक्स	सुबेदार	टी हनमंत एस	1-10-2004
2104	जेसी	751635एन	सुबेदार	थामस सेलवा पी	1-10-2004
2105	जेसी	754928के	सुबेदार	उमाकांत पान्डे	1-1-2005
2106	जेसी	749127वाइ	सुबेदार	वी काली दोस	1-11-2004
2107	जेसी	748990ए	सुबेदार	वेनुगोपाल के एस	1-10-2004
2108	जेसी	748160के	सुबेदार	विजय कुमार करण	1-1-2005
2109	जेसी	751448पी	सुबेदार	विजय कुमार शर्मा	1-1-2005
2110	जेसी	749871डब्ल्यू	सुबेदार	विजयन नायर वी	1-10-2004

2111	जेसी	748934एफ	सुबेदार	यश करन सिंह यादव	1-10-2004
सेना शिक्षा कोर					
2112	जेसी	217880एफ	सुबेदार	अनन्त कुमार चौधरी	1-9-2004
2113	जेसी	802538एफ	सुबेदार	अशोक के	1-1-2005
2114	जेसी	223747पी	सुबेदार	देविन्द्र पाल सिंह	1-10-2004
2115	जेसी	213361एफ	सुबेदार	डी दशरथ	1-1-2005
2116	जेसी	802104एफ	सुबेदार	धर्मपाल सिंह	1-11-2004
2117	जेसी	212045डब्ल्यू	सुबेदार	दिलीप सिंह बैस	1-11-2004
2118	जेसी	223055ए	सुबेदार	होशियार सिंह बोरा	1-12-2004
2119	जेसी	219017एम	सुबेदार	इंद्र प्रकाश सिंह	1-11-2004
2120	जेसी	223760वाइ	सुबेदार	मोहम्मद रशीद फकरुद्दीन	1-1-2005
2121	जेसी	211948एफ	सुबेदार	आर प्रसाद त्रिपाठी	1-1-2005
2122	जेसी	213372एन	सुबेदार	राम कृष्णा ओझा	1-1-2005
2123	जेसी	802100एल	सुबेदार	राम पाल सिंह राजपूत	1-9-2004
2124	जेसी	802106एम	सुबेदार	सतीश कुमार शर्मा	1-1-2005
2125	जेसी	217881के	सुबेदार	श्रवण सिंह धतवालिया	1-9-2004
2126	जेसी	211941एक्स	सुबेदार	सोमनाथन पी टी	1-10-2004
2127	जेसी	213354एल	सुबेदार	सुरेश चंद्रा भार्गव	1-1-2005
2128	जेसी	214297एफ	सुबेदार	एस अधिकारी	1-11-2004
रिमाउंट एवं वेटेरिनरी कोर					
2129	जेसी	797046डब्ल्यू	रिसालदार	बच्चू सिंह	1-9-2004
2130	जेसी	797173एल	रिसालदार	गायकवाड राम दास नामदेव	1-11-2004
2131	जेसी	797102के	रिसालदार	रमन के	1-10-2004
2132	जेसी	797121पी	रिसालदार	वी मनी	1-11-2004
जम् आसूचना कोर					
2133	जेसी	204676के	सुबेदार	अर्जुन कुमार जे	1-1-2005
2134	जेसी	206308एन	सुबेदार	बीर सिंह	1-9-2004
2135	जेसी	810269पी	सुबेदार	परमजीत सिंह	1-12-2004
2136	जेसी	810371एक्स	सुबेदार	त्रिलोक सिंह नेगी	1-10-2004
कोर आफ सेना पुलिस					
2137	जेसी	818201एच	सुबेदार	अमर सिंह	1-1-2005
2138	जेसी	818198एन	सुबेदार	अशोक कुमार	1-1-2005
2139	जेसी	818172वाइ	सुबेदार	अशोक कुमार सिंह	1-1-2005
2140	जेसी	818184एन	सुबेदार	आतम प्रकाश	1-1-2005
2141	जेसी	818401वाइ	सुबेदार	आज सिंह	1-1-2005
2142	जेसी	818183एल	सुबेदार	बालाक के पी	1-1-2005
2143	जेसी	818268एफ	सुबेदार	बिस्वेस्वर सिन्हा राय	1-12-2004
2144	जेसी	818196एच	सुबेदार	चंद्रा शेखर तिवारी	1-1-2005
2145	जेसी	818178ए	सुबेदार	धर्मबीर डोगरा	1-1-2005
2146	जेसी	818252डब्ल्यू	सुबेदार	गनेश प्रसाद सिंह	1-1-2005
2147	जेसी	818032एम	सुबेदार	गिरजा नन्दन राय	1-9-2004
2148	जेसी	818189एम	सुबेदार	हरी सिंह	1-1-2005
2149	जेसी	818177एक्स	सुबेदार	जय प्रकाश	1-1-2005
2150	जेसी	818031के	सुबेदार	कल्यान सिंह सोलंकी	1-9-2004
2151	जेसी	818244एक्स	सुबेदार	कौशल किशोर पान्डे	1-1-2005
2152	जेसी	818216एल	सुबेदार	केदार शर्मा	1-1-2005
2153	जेसी	818182एच	सुबेदार	के राम	1-1-2005

2154	जेसी	818410ए	सुबेदार	खजान चंद	1-10-2004
2155	जेसी	818128पी	सुबेदार	क्रपाल सिंह	1-9-2004
2156	जेसी	818448के	सुबेदार	लाल सिंह	1-10-2004
2157	जेसी	818137डब्ल्यू	सुबेदार	मदन मोहन दत्तता	1-9-2004
2158	जेसी	818248एन	सुबेदार	मल्हा राम	1-1-2005
2159	जेसी	818122एन	सुबेदार	मनोहर सिंह	1-9-2004
2160	जेसी	818194एक्स	सुबेदार	मुंशी लाल	1-10-2004
2161	जेसी	818285एफ	सुबेदार	नारायण साहू	1-9-2004
2162	जेसी	818553ए	सुबेदार	नरेन्द्र कुमार	1-1-2005
2163	जेसी	818121एल	सुबेदार	ओ पाल सिंह सिरौही	1-9-2004
2164	जेसी	818179एच	सुबेदार	ओमकार सिंह	1-1-2005
2165	जेसी	818188के	सुबेदार	चन्द सिंह	1-1-2005
2166	जेसी	818034एक्स	सुबेदार	पाटिल टी जी	1-9-2004
2167	जेसी	818197एल	सुबेदार	राजेंद्र प्रसाद यादव	1-1-2005
2168	जेसी	818190एफ	सुबेदार	राम किशन	1-1-2005
2169	जेसी	818240एफ	सुबेदार	राम लाल महतो	1-1-2005
2170	जेसी	818120एच	सुबेदार	राम सागर सिंह	1-9-2004
2171	जेसी	818380एन	सुबेदार	रमा शंकर राम	1-1-2005
2172	जेसी	818146एक्स	सुबेदार	आर शिवाजी	1-9-2004
2173	जेसी	818217एन	सुबेदार	आर महाकुद	1-1-2005
2174	जेसी	818501के	सुबेदार	सादत मगन लाल टी	1-9-2004
2175	जेसी	818175एम	सुबेदार	शंकर लाल	1-1-2005
2176	जेसी	818155वाइ	सुबेदार	शशि भूषण प्रसाद	1-10-2004
2177	जेसी	818313एच	सुबेदार	शिवप्पा एच	1-10-2004
2178	जेसी	818239एम	सुबेदार	शिवप्पा एम	1-1-2005
2179	जेसी	818169वाइ	सुबेदार	सुमेर सिंह	1-1-2005
2180	जेसी	818235डब्ल्यू	सुबेदार	सुरेंद्र बहादुर सिंह	1-1-2005
2181	जेसी	818416एफ	सुबेदार	सुरेंद्र सिंह	1-1-2005
2182	जेसी	818171डब्ल्यू	सुबेदार	सुरेश चंद्रा साहा	1-1-2005
2183	जेसी	818166एल	सुबेदार	त्रिलोचन सिंह दयाल	1-12-2004
2184	जेसी	818165एच	सुबेदार	त्रिलोक सिंह	1-9-2004
2185	जेसी	818270वाइ	सुबेदार	विजय प्रताप सिंह	1-1-2005
2186	जेसी	818148एच	सुबेदार	विजय सिंह यादव	1-9-2004
2187	जेसी	818208एम	सुबेदार	विस्वनाथन के के	1-1-2005
सेना शारिरिक प्रशिक्षण कोर					
2188	जेसी	826021पी	सुबेदार	सी राम	1-9-2004
2189	जेसी	826042एल	सुबेदार	धौंडिबा यशवंत एफ	1-11-2004
2190	जेसी	186814पी	सुबेदार	जगत सिंह	1-11-2004
2191	जेसी	826060एन	सुबेदार	ओम प्रकाश थापा	1-11-2004
2192	जेसी	826039एल	सुबेदार	प्रताप सिंह	1-9-2004
रक्षा सुरक्षा कोर					
2193	जेसी	840211एम	सुबेदार	बशी राम	1-1-2005
2194	जेसी	840750एच	सुबेदार	बिशन दास	1-10-2004
2195	जेसी	840110वाइ	सुबेदार	बृज लाल	1-1-2005
2196	जेसी	840102ए	सुबेदार	चरन सिंह	1-10-2004
2197	जेसी	840478एफ	सुबेदार	सी गुरुंग	1-12-2004
2198	जेसी	192026एफ	सुबेदार	दया शंकर पान्डे	1-10-2004
2199	जेसी	840581एम	सुबेदार	गुमान सिंह	1-11-2004
2200	जेसी	186981एच	सुबेदार	आई राज	1-11-2004

2201	जेसी	178162एम	सुबेदार	जगत राम	1-10-2004
2202	जेसी	840760एम	सुबेदार	जीत लाल	1-9-2004
2203	जेसी	840763ए	सुबेदार	लाल सिंह	1-10-2004
2204	जेसी	840578एम	सुबेदार	पी सिंह	1-1-2005
2205	जेसी	840704एन	सुबेदार	राम प्रताप सिंह	1-1-2005
2206	जेसी	840587एन	सुबेदार	राम प्रसाद	1-11-2004
2207	जेसी	840559एफ	सुबेदार	सहदेवन सी	1-12-2004

अवैतनिक रिसालदार

रेजिमेन्ट आफ तोपखाना

1	जेसी	263517के	नायब सुबेदार	बाबू राम	1-10-2004
2	जेसी	264404एन	नायब सुबेदार	बसदेव राय	1-12-2004
3	जेसी	263682पी	नायब सुबेदार	बावा सिंह	1-10-2004
4	जेसी	264414एक्स	नायब सुबेदार	भगत सिंह	1-10-2004
5	जेसी	263138एन	नायब सुबेदार	भरत मारुति घोरपडे	1-1-2005
6	जेसी	264003वाइ	नायब सुबेदार	बिन्दर सिंह	1-11-2004
7	जेसी	262411एल	नायब सुबेदार	बोध प्रकाश	1-10-2004
8	जेसी	264607एक्स	नायब सुबेदार	चको पी टी	1-1-2005
9	जेसी	264462एक्स	नायब सुबेदार	सी सिंघा	1-11-2004
10	जेसी	263351एन	नायब सुबेदार	देबासिस जाना	1-11-2004
11	जेसी	265972एल	नायब सुबेदार	दीपक कुमार	1-11-2004
12	जेसी	262878डब्ल्यू	नायब सुबेदार	देवकी नन्दन	1-9-2004
13	जेसी	263169एन	नायब सुबेदार	दिवाकर सूर्यकांत पांडुरंग	1-10-2004
14	जेसी	262104एन	नायब सुबेदार	गुरदेव सिंह	1-9-2004
15	जेसी	258796डब्ल्यू	नायब सुबेदार	हरी कुमार के	1-11-2004
16	जेसी	263998एफ	नायब सुबेदार	हरी ओम	1-1-2005
17	जेसी	265667वाइ	नायब सुबेदार	हरी सिंह राणा	1-12-2004
18	जेसी	263623एच	नायब सुबेदार	हेमैद्र राय	1-1-2005
19	जेसी	263639एन	नायब सुबेदार	एच अली एस	1-10-2004
20	जेसी	255062के	नायब सुबेदार	जगदीश सिंह	1-9-2004
21	जेसी	264744डब्ल्यू	नायब सुबेदार	जहान सिंह	1-1-2005
22	जेसी	264184पी	नायब सुबेदार	के जी	1-10-2004
23	जेसी	263772डब्ल्यू	नायब सुबेदार	केशर सिंह शोखावत	1-10-2004
24	जेसी	264784एक्स	नायब सुबेदार	कृष्णा चंद रावत	1-12-2004
25	जेसी	263917डब्ल्यू	नायब सुबेदार	कृष्णा कांत सिंह	1-12-2004
26	जेसी	262876एल	नायब सुबेदार	एम एस राम	1-10-2004
27	जेसी	262785एफ	नायब सुबेदार	महादेव एस गायकवाड	1-10-2004
28	जेसी	264940डब्ल्यू	नायब सुबेदार	मेजर सिंह	1-1-2005
29	जेसी	262337पी	नायब सुबेदार	माने अशोक निवरुति	1-10-2004
30	जेसी	265713एच	नायब सुबेदार	मणिकम एल	1-10-2004
31	जेसी	263301एच	नायब सुबेदार	मंसा राम एस	1-12-2004
32	जेसी	264604के	नायब सुबेदार	मोहम्मद ए के एस	1-1-2005
33	जेसी	265196डब्ल्यू	नायब सुबेदार	मोहन सिंह	1-11-2004
34	जेसी	263632के	नायब सुबेदार	मोहिन्दर सिंह	1-11-2004
35	जेसी	263872एफ	नायब सुबेदार	एन पंडा	1-12-2004
36	जेसी	264638एक्स	नायब सुबेदार	नारायण सिंह	1-12-2004
37	जेसी	263126वाइ	नायब सुबेदार	ओमविर सिंह	1-1-2005
38	जेसी	264924वाइ	नायब सुबेदार	प्रकाश सिंह	1-9-2004
39	जेसी	265877वाइ	नायब सुबेदार	प्रहलाद सिंह पाल	1-10-2004
40	जेसी	265439डब्ल्यू	नायब सुबेदार	राधे श्याम	1-12-2004
41	जेसी	264625ए	नायब सुबेदार	रघुनाथ बेहेरा	1-10-2004
42	जेसी	264050डब्ल्यू	नायब सुबेदार	राजेंद्र	1-11-2004

43	जेसी	263470के	नायब सुबेदार	राम एल	1-10-2004
44	जेसी	263067एक्स	नायब सुबेदार	राम प्रताप	1-10-2004
45	जेसी	262848वाइ	नायब सुबेदार	आर विश्वकर्मा	1-1-2005
46	जेसी	265754एम	नायब सुबेदार	रामेसन वी	1-1-2005
47	जेसी	265541वाइ	नायब सुबेदार	रवीन्द्र सिंह	1-11-2004
48	जेसी	263930ए	नायब सुबेदार	साजन सिंह	1-12-2004
49	जेसी	263748ए	नायब सुबेदार	एस तुकाराम बाबूराव	1-10-2004
50	जेसी	263403वाइ	नायब सुबेदार	सरूप सिंह	1-9-2004
51	जेसी	263841एफ	नायब सुबेदार	श्रवण सिंह	1-11-2004
52	जेसी	264253ए	नायब सुबेदार	सत्य नारायण मिश्रा	1-9-2004
53	जेसी	266134एच	नायब सुबेदार	एस सिंह	1-10-2004
54	जेसी	262622एन	नायब सुबेदार	सीता राम	1-9-2004
55	जेसी	263147पी	नायब सुबेदार	सुमेर सिंह	1-1-2005
56	जेसी	262790एम	नायब सुबेदार	सुनील सिंह	1-10-2004
57	जेसी	264611ए	नायब सुबेदार	सुरेंद्र नाथ सिंह	1-1-2005
58	जेसी	263574एल	नायब सुबेदार	सुरेंद्र पान्डे	1-1-2005
59	जेसी	264426एम	नायब सुबेदार	सुरेश सिंह	1-11-2004
60	जेसी	264410एफ	नायब सुबेदार	सुरिन्दर सिंह	1-12-2004
61	जेसी	264910वाइ	नायब सुबेदार	थान सिंह	1-10-2004
62	जेसी	264790एल	नायब सुबेदार	टी वाई बासप्पा	1-12-2004
63	जेसी	264738एच	नायब सुबेदार	वीरपाल सिंह	1-12-2004
64	जेसी	260239डब्ल्यू	नायब सुबेदार	वाइ डी सिंघा	1-9-2004
कोर आफ वायु रक्षा तोपखाना					
65	जेसी	298305एक्स	नायब सुबेदार	बचन सिंह	1-10-2004
66	जेसी	298664एल	नायब सुबेदार	देशमुख दलीप राव	1-10-2004
67	जेसी	298653वाइ	नायब सुबेदार	जीवन कुमार जीना	1-11-2004
68	जेसी	298332एफ	नायब सुबेदार	राम सिंह	1-1-2005
69	जेसी	298527एम	नायब सुबेदार	ठाकुर बी	1-11-2004
70	जेसी	298301एफ	नायब सुबेदार	उमेश शर्मा	1-9-2004
मद्रास इंजीनियर ग्रुप					
71	जेसी	307215ए	नायब सुबेदार	गांधी पी	1-11-2004
72	जेसी	307576वाइ	नायब सुबेदार	आइ राजगोपाल	1-1-2005
73	जेसी	307696एक्स	नायब सुबेदार	एल जयसीलन	1-1-2005
74	जेसी	307127के	नायब सुबेदार	मुरुगेसन एल	1-12-2004
75	जेसी	307408ए	नायब सुबेदार	रवीन्द्रन नायर वी	1-9-2004
76	जेसी	307200एक्स	नायब सुबेदार	एस बालन	1-1-2005
77	जेसी	307191एफ	नायब सुबेदार	वासुदेवन एम	1-11-2004
बंगाल इंजीनियर ग्रुप					
78	जेसी	326626एन	नायब सुबेदार	मुनि शंकर सिंह	1-10-2004
79	जेसी	328651एल	नायब सुबेदार	सुखपाल सिंह	1-12-2004
बंबई इंजीनियर ग्रुप					
80	जेसी	349308डब्ल्यू	नायब सुबेदार	इस्लामुद्दीन खान	1-1-2005
कोर आफ सिगनल्स					
81	जेसी	373745पी	नायब सुबेदार	ए सिंह	1-10-2004
82	जेसी	374242डब्ल्यू	नायब सुबेदार	बीर बहादुर सिंह	1-9-2004
83	जेसी	373612वाइ	नायब सुबेदार	देवेन्द्रा सिंह चौहान	1-1-2005
84	जेसी	373146पी	नायब सुबेदार	ध्यान पाल सिंह	1-12-2004
85	जेसी	373599ए	नायब सुबेदार	गजाधर प्रसाद	1-11-2004
86	जेसी	371565एन	नायब सुबेदार	गजानन हरिभाउ कुलकर्णी	1-9-2004
87	जेसी	373677एम	नायब सुबेदार	जानकी रमन आर	1-11-2004

88	जेसी	373603एक्स	नायब सुबेदार	जावेद अली	1-11-2004
89	जेसी	375253पी	नायब सुबेदार	कमलेश कुमार सिंह	1-12-2004
90	जेसी	372920एम	नायब सुबेदार	कृष्ण कुमार शर्मा	1-11-2004
91	जेसी	374358एम	नायब सुबेदार	मूल चंद राम	1-10-2004
92	जेसी	373945एल	नायब सुबेदार	ओम प्रकाश	1-1-2005
93	जेसी	374555पी	नायब सुबेदार	राम रतन	1-10-2004
94	जेसी	375328एफ	नायब सुबेदार	रामेश्वर सिंह	1-12-2004
95	जेसी	375070वाइ	नायब सुबेदार	एस रंगा एन	1-11-2004
96	जेसी	373455एक्स	नायब सुबेदार	सुरेंद्र सिंह	1-10-2004
97	जेसी	373739एफ	नायब सुबेदार	सुरिन्दर कुमार ठाकुर	1-10-2004
98	जेसी	378221एम	नायब सुबेदार	वासुदेवन पिल्लै के जे	1-1-2005
99	जेसी	373744एम	नायब सुबेदार	वी सिंह	1-10-2004
100	जेसी	373572एच	नायब सुबेदार	विक्टर कंधोत	1-10-2004
गार्डस					
101	जेसी	402982के	नायब सुबेदार	बाबू लाल यादव	1-11-2004
102	जेसी	403064के	नायब सुबेदार	बी सिंह	1-12-2004
103	जेसी	403425एक्स	नायब सुबेदार	एन सिंह	1-11-2004
मैकेनाइज्ड पैदल सेना रेजीमेन्ट					
104	जेसी	419435एल	नायब सुबेदार	हरिन्द्र राय	1-10-2004
105	जेसी	419360वाइ	नायब सुबेदार	कृष्ण लाल	1-11-2004
ग्रेनेडियर्स					
106	जेसी	449301एफ	नायब सुबेदार	पर्शोतम चंद	1-1-2005
107	जेसी	449307एच	नायब सुबेदार	पूरन चंद	1-10-2004
राजपूत राइफल्स					
108	जेसी	469002के	नायब सुबेदार	जिले सिंह	1-10-2004
राजपूत रेजीमेन्ट					
109	जेसी	478885ए	नायब सुबेदार	दल चंद	1-12-2004
110	जेसी	479046पी	नायब सुबेदार	जीत बहादुर सिंह	1-12-2004
111	जेसी	478825एल	नायब सुबेदार	ओमबीर सिंह	1-9-2004
112	जेसी	479254के	नायब सुबेदार	राम सिंह	1-1-2005
जाट रेजीमेन्ट					
113	जेसी	488907एफ	नायब सुबेदार	ए सिंह	1-1-2005
डोगरा रेजीमेन्ट					
114	जेसी	518871एल	नायब सुबेदार	राजिन्दर सिंह	1-11-2004

गढ़वाल राइफल

115 जेसी 528744के नायब सुबेदार मदन प्रसाद 1-9-2004

कुमाँउ रेजीमेन्ट

116 जेसी 539105एच नायब सुबेदार हीरा सिंह भंडारी 1-9-2004

महार रेजीमेन्ट

117 जेसी 569302ए नायब सुबेदार अमल कुमार विश्वास 1-1-2005
118 जेसी 569163एफ नायब सुबेदार दौलत सिंह 1-11-2004

जम्मू एवं कश्मीर राइफल

119 जेसी 579386एम नायब सुबेदार रमेश चंद 1-1-2005

1 गोरखा राइफल

120 जेसी 602236एल नायब सुबेदार धन बहादुर थापा 1-1-2005

11 गोरखा राइफल

121 जेसी 634354एम नायब सुबेदार अनिल सुब्बा 1-11-2004
122 जेसी 634479के नायब सुबेदार अशोक कुमार 1-9-2004
123 जेसी 634503पी नायब सुबेदार अटल बहादुर राय 1-10-2004
124 जेसी 634393एल नायब सुबेदार बहादुर सुब्बा 1-10-2004
125 जेसी 634524एल नायब सुबेदार धन सिंह लिम्बु 1-10-2004
126 जेसी 634498पी नायब सुबेदार दिल्ली सेर राय 1-10-2004
127 जेसी 634506एच नायब सुबेदार गनेश बहादुर लिम्बु 1-10-2004
128 जेसी 634501के नायब सुबेदार गंगा बहादुर राय 1-9-2004
129 जेसी 634464एफ नायब सुबेदार जमन सिंह राय 1-10-2004
130 जेसी 634465के नायब सुबेदार प्रेम बहादुर राय 1-10-2004
131 जेसी 634523एच नायब सुबेदार पी लाल लिम्बु 1-1-2005
132 जेसी 634371एम नायब सुबेदार सेर बहादुर लिम्बु 1-10-2004
133 जेसी 634395डब्ल्यू नायब सुबेदार सिंह बहादुर लिम्बु 1-10-2004
134 जेसी 634409एल नायब सुबेदार तेज बहादुर थापा 1-10-2004

सेना सेवा कोर (दक्षिण)

135 जेसी 662505डब्ल्यू नायब सुबेदार अनिल कुमार जी 1-1-2005
136 जेसी 662386एल नायब सुबेदार अशोक कुमार सिंह 1-12-2004
137 जेसी 662304एक्स नायब सुबेदार अवधेश सी 1-1-2005
138 जेसी 662331एफ नायब सुबेदार बलदेव राज 1-1-2005
139 जेसी 662325एन नायब सुबेदार भगवत प्रसाद 1-1-2005
140 जेसी 662320पी नायब सुबेदार बिजय सिंह 1-1-2005
141 जेसी 662447एक्स नायब सुबेदार चंदन सिंह 1-10-2004
142 जेसी 662199एम नायब सुबेदार सी विजया कुमार 1-10-2004
143 जेसी 642111डब्ल्यू नायब सुबेदार दिनेश चंद्रा मिश्रा 1-11-2004
144 जेसी 662417ए नायब सुबेदार जी नागाराजन 1-10-2004
145 जेसी 662198के नायब सुबेदार गोपी के आर 1-10-2004

146	जेसी	640955एन	नायब सुबेदार	जय राम राम	1-9-2004
147	जेसी	662281एफ	नायब सुबेदार	ख्याली राम	1-1-2005
148	जेसी	642025एल	नायब सुबेदार	एल शिरीष चन्द्र	1-1-2005
149	जेसी	662387एन	नायब सुबेदार	महेंद्र सिंह	1-1-2005
150	जेसी	662264एफ	नायब सुबेदार	मुख देव झा	1-10-2004
151	जेसी	662644ए	नायब सुबेदार	परमात्मा प्रसाद	1-12-2004
152	जेसी	662239एच	नायब सुबेदार	राज सिंह	1-12-2004
153	जेसी	662122के	नायब सुबेदार	राम चंद्र	1-12-2004
154	जेसी	641128एक्स	नायब सुबेदार	राम देव ठाकुर	1-12-2004
155	जेसी	662252एम	नायब सुबेदार	राम किशन	1-12-2004
156	जेसी	642800एक्स	नायब सुबेदार	राम मुरली सिंह	1-1-2005
157	जेसी	662314एफ	नायब सुबेदार	रामबीर सिंह	1-1-2005
158	जेसी	641886पी	नायब सुबेदार	रेयी एन	1-1-2005
159	जेसी	642067एक्स	नायब सुबेदार	एस ए	1-1-2005
160	जेसी	642435एफ	नायब सुबेदार	एस संबाथ	1-11-2004
161	जेसी	662349एक्स	नायब सुबेदार	एस सिंह	1-1-2005
162	जेसी	662513पी	नायब सुबेदार	श्री नियास प्रसाद	1-10-2004
163	जेसी	662212एल	नायब सुबेदार	सुरजीत सिंह	1-10-2004
164	जेसी	641885एम	नायब सुबेदार	टी सुधाकरण	1-9-2004
165	जेसी	642680के	नायब सुबेदार	थामस इ एम	1-1-2005
166	जेसी	642803एल	नायब सुबेदार	वेनुगोपालन के पी	1-10-2004

सेना सेवा कोर (जंतु परियहन)

167	जेसी	680633डब्ल्यू	नायब रिसालदार	तेज बहादुर चेतरी	1-9-2004
-----	------	---------------	---------------	------------------	----------

सेना चिकित्सा कोर

168	जेसी	694392एम	नायब सुबेदार	घान शाम सिंह	1-1-2005
169	जेसी	693612वाइ	नायब सुबेदार	खोट यशवन्त महादेव	1-9-2004
170	जेसी	693553एक्स	नायब सुबेदार	के बी किशन राव	1-9-2004
171	जेसी	694127डब्ल्यू	नायब सुबेदार	कृष्ण कुमार	1-1-2005
172	जेसी	693228एक्स	नायब सुबेदार	मनिन्द्र कुमार सरकार	1-10-2004
173	जेसी	693996वाइ	नायब सुबेदार	पी सीता आर	1-11-2004
174	जेसी	693552पी	नायब सुबेदार	प्रकाश नाना आर	1-9-2004
175	जेसी	693901एन	नायब सुबेदार	एस टी रेड्डी	1-12-2004
176	जेसी	693821डब्ल्यू	नायब सुबेदार	सुखजीत सिंह एम	1-11-2004
177	जेसी	693999एम	नायब सुबेदार	स्वप्न कुमार मोन्दल	1-12-2004

सेना आर्डनेस कोर

178	जेसी	725416पी	नायब सुबेदार	हरबंस लाल	1-10-2004
179	जेसी	726023एल	नायब सुबेदार	लचीत जी	1-9-2004
180	जेसी	725013पी	नायब सुबेदार	शोक आर एन रशीद	1-9-2004
181	जेसी	726029एम	नायब सुबेदार	सुरेश कुमार	1-11-2004

कोर आफ वैद्युत एवं यांत्रिक इंजीनियर्स

182	जेसी	753496एन	नायब सुबेदार	अतुल चंद्रा मंडल	1-11-2004
183	जेसी	756709एफ	नायब सुबेदार	भगवान दास	1-10-2004
184	जेसी	757575एक्स	नायब सुबेदार	चाबी लाल नेवर	1-12-2004

185	जेसी	756940के	नायब सुबेदार	दामोदर नायडू	1-8-2004
186	जेसी	751078ए	नायब सुबेदार	दया शंकर मिश्रा	1-12-2004
187	जेसी	754577ए	नायब सुबेदार	गीतम भट्टाचाजी	1-1-2005
188	जेसी	756344के	नायब सुबेदार	जगदीश सिंह	1-7-2004
189	जेसी	754054एफ	नायब सुबेदार	जय नारायण	1-8-2004
190	जेसी	757472एफ	नायब सुबेदार	केशोत्रा बासी साहू	1-10-2004
191	जेसी	757572एम	नायब सुबेदार	एन चंद्रा बी	1-12-2004
192	जेसी	753928एक्स	नायब सुबेदार	पटेल हीरा भाई एस भाई	1-1-2005
193	जेसी	752948वाइ	नायब सुबेदार	आर विजय कुमार एच	1-12-2004
194	जेसी	750245वाइ	नायब सुबेदार	ससिधरन के	1-10-2004
195	जेसी	756712एफ	नायब सुबेदार	शाम सिंह	1-11-2004
196	जेसी	758978एन	नायब सुबेदार	सुरेश	1-8-2004
197	जेसी	757471वाइ	नायब सुबेदार	सुरेश बाबू	1-10-2004
198	जेसी	757268एच	नायब सुबेदार	टी ओरीन	1-12-2004
199	जेसी	756893एक्स	नायब सुबेदार	विश्वानाथन टी एम	1-10-2004

रिमाउंट एवं वेटेरिनरी कोर

200	जेसी	797204ए	नायब रिवालदार	जया कुमार बी	1-10-2004
201	जेसी	797218पी	नायब रिवालदार	यु राय	1-1-2005

कोर आफ सेना पुलिस

202	जेसी	818673वाइ	नायब सुबेदार	ए मणिकंदन	1-11-2004
203	जेसी	818679ए	नायब सुबेदार	कमलनाथन एस	1-1-2005
204	जेसी	818759एक्स	नायब सुबेदार	लाल सिंह बलवान	1-12-2004

पायोनियर कोर

205	जेसी	829231ए	नायब सुबेदार	अबधेश सिंह	1-10-2004
206	जेसी	829223एफ	नायब सुबेदार	दीवान चंद	1-10-2004
207	जेसी	829251एन	नायब सुबेदार	नार सिंह मीना	1-9-2004
208	जेसी	829222वाइ	नायब सुबेदार	निर्मल सिंह	1-10-2004
209	जेसी	829256एम	नायब सुबेदार	राम नरेश सिंह	1-10-2004
210	जेसी	829232एच	नायब सुबेदार	विजय सिंह	1-9-2004

रक्षा सुरक्षा कोर

211	जेसी	841110एल	नायब सुबेदार	अब्दुल जी खान	1-12-2004
212	जेसी	841062डब्ल्यू	नायब सुबेदार	अजित कुमार ब्रमा	1-9-2004
213	जेसी	841585पी	नायब सुबेदार	अमरजीत सिंह	1-10-2004
214	जेसी	841080वाइ	नायब सुबेदार	बिहारी लाल	1-11-2004
215	जेसी	840953एन	नायब सुबेदार	देवी सिंह	1-11-2004
216	जेसी	840809एक्स	नायब सुबेदार	धीरज सिंह	1-12-2004
217	जेसी	841397एन	नायब सुबेदार	दुलो राम	1-9-2004
218	जेसी	841078एफ	नायब सुबेदार	जार्ज पीवी	1-10-2004
219	जेसी	841002एफ	नायब सुबेदार	गोकुल चंद	1-12-2004
220	जेसी	841315ए	नायब सुबेदार	हरी सिंह	1-11-2004
221	जेसी	840836एफ	नायब सुबेदार	हजारी लाल	1-11-2004
222	जेसी	840886एम	नायब सुबेदार	हेमंत सिंह नेगी	1-11-2004
223	जेसी	840827ए	नायब सुबेदार	के पी राघवन	1-10-2004

224	जेसी	841053पी	नायब सुबेदार	लेख राम	1-11-2004
225	जेसी	840996एफ	नायब सुबेदार	ओम प्रकाश	1-11-2004
226	जेसी	841134पी	नायब सुबेदार	राम स्वरूप	1-11-2004
227	जेसी	841126डब्ल्यू	नायब सुबेदार	आर सिल्वाराज	1-1-2005
228	जेसी	840947वाइ	नायब सुबेदार	एस विश्वास	1-9-2004
229	जेसी	841581वाइ	नायब सुबेदार	शीश पाल सिंह	1-1-2005

कायोत्तिर मंजूरी निम्नलिखित भूतपूर्व जे सी ओज को उनके अवकाश ग्रहण करने पर अवैतनिक कप्तान और अवैतनिक सुबेदार मेजर के पद उनके नामो के सामने लिखी हुई तारीख से दिये जाते है।

अवैतनिक कप्तान

डोगरा रेजिमेंट

1	जेसी 164072ए	भूतपूर्व सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	बलबन्त सिंह	1-4-2001
---	--------------	---------------------------------------	-------------	----------

अवैतनिक सुबेदार मेजर

वैद्युत एवं यांत्रिक इंजीनियर्स कोर

2	जेसी 182303एन	भूतपूर्व सुबेदार	राम रिछपाल	2-12-1997
---	---------------	------------------	------------	-----------

[सं० बी/43432/आरडी-05/एजी/सीडब्ल्यू-2]

मोहिन्दर सिंह, लै. जनरल, एडजुटेंट जनरल

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th January, 2005

No. 02(E) dated 26 January, 2005.—The President is pleased to grant honorary ranks to the undermentioned JCOs on the eve of Republic Day 2005 on retirement under Para 179 of Regulations for the Army 1987, with effect from the dates shown against their names :—

TO BE HONORARY CAPTAINS

ARMoured CORPS

1	JC 219085A	RIS MAJ & HONY LT	DIGAMBAR SINGH CHAUDHRY	1/12/2004
2	JC 236228L	RIS MAJ & HONY LT	G NARSING DASS	1/12/2004
3	JC 235566W	RIS MAJ & HONY LT	HANS RAJ	1/12/2004
4	JC 235659L	RIS MAJ & HONY LT	LILA RAM MEENA	1/12/2004
5	JC 236422A	RIS & HONY LT	BACHHINDRA KUMAR GARNAIK	1/10/2004
6	JC 237045F	RIS & HONY LT	CHANDER SINGH	1/10/2004

7	JC 236557F	RIS & HONY LT	DASARATHI BEURA	1/10/2004
8	JC 237722N	RIS & HONY LT	DWARKA PRASAD	1/10/2004
9	JC 236278W	RIS & HONY LT	GIRIDHARI LAL	1/11/2004
10	JC 235903A	RIS & HONY LT	HAMZA M	1/10/2004
11	JC 235845F	RIS & HONY LT	INDAL SINGH	1/9/2004
12	JC 237565M	RIS & HONY LT	JAGTAR SINGH	1/10/2004
13	JC 211455A	RIS & HONY LT	KARAN SINGH	1/9/2004
14	JC 237721L	RIS & HONY LT	KARTAR SINGH	1/11/2004
15	JC 237485P	RIS & HONY LT	MAN SINGH	1/9/2004
16	JC 237981W	RIS & HONY LT	MUKANDA RAM	1/1/2005
17	JC 238538P	RIS & HONY LT	OM SINGH	1/11/2004
18	JC 237953K	RIS & HONY LT	RAM PAL SINGH	1/10/2004
19	JC 236885P	RIS & HONY LT	RAMJI SINGH	1/9/2004
20	JC 237055L	RIS & HONY LT	SAMPANGI RAMAN S	1/10/2004
21	JC 223478N	RIS & HONY LT	SHAMSHER SINGH	1/11/2004
22	JC 236370P	RIS & HONY LT	SHANKER LAL	1/11/2004
23	JC 238585M	RIS & HONY LT	SWARAN SINGH	1/11/2004

REGIMENT OF ARTILLERY

24	JC 200489N	SUB MAJ & HONY LT	AMAR SINGH	1/10/2004
25	JC 256437K	SUB MAJ & HONY LT	AMARENDRA SARMA	1/10/2004
26	JC 195114H	SUB MAJ & HONY LT	BAHADUR SINGH	1/1/2005
27	JC 223296A	SUB MAJ & HONY LT	DILBAG SINGH	1/10/2004
28	JC 218655Y	SUB MAJ & HONY LT	KULDIP SINGH	1/9/2004
29	JC 200391A	SUB MAJ & HONY LT	PAYARE LAL YADAV	1/11/2004
30	JC 202404L	SUB MAJ & HONY LT	RAJENDER SINGH	1/12/2004
31	JC 172704P	SUB MAJ & HONY LT	RAJU PM	1/10/2004
32	JC 195086F	SUB MAJ & HONY LT	TEHAL SINGH	1/9/2004
33	JC 181990H	SUB MAJ & HONY LT	TILAK RAJ	1/9/2004
34	JC 209371N	SUB & HONY LT	ANANT RAM CHOUHAN	1/12/2004

35	JC 257605K	SUB & HONY LT	BALJINDER SINGH GIRN	1/10/2004
36	JC 226762P	SUB & HONY LT	BASANT RAJ	1/11/2004
37	JC 261381M	SUB & HONY LT	BATTAN CHAND	1/10/2004
38	JC 260870L	SUB & HONY LT	CHAIN SINGH	1/10/2004
39	JC 259843P	SUB & HONY LT	CHANCHAL SINGH SANDHU	1/1/2005
40	JC 259578K	SUB & HONY LT	DALIP SINGH	1/9/2004
41	JC 256065K	SUB & HONY LT	DASHRATH LAL YADAV	1/11/2004
42	JC 258020H	SUB & HONY LT	DATA RAM YADAV	1/10/2004
43	JC 259347N	SUB & HONY LT	DAULAT SINGH BHATI	1/12/2004
44	JC 260780K	SUB & HONY LT	DHARAMRAJ	1/12/2004
45	JC 262845L	SUB & HONY LT	DURAI RAJU	1/1/2005
46	JC 259128M	SUB & HONY LT	GURCHARAN SINGH	1/12/2004
47	JC 201250X	SUB & HONY LT	GURMEL SINGH	1/9/2004
48	JC 255203N	SUB & HONY LT	HARI KUMARA KURUP K	1/10/2004
49	JC 261818P	SUB & HONY LT	HIND KUMAR	1/9/2004
50	JC 261093A	SUB & HONY LT	JAGDISH CHANDER	1/11/2004
51	JC 260816X	SUB & HONY LT	JAGMAL SINGH	1/1/2005
52	JC 255838M	SUB & HONY LT	JAI SINGH	1/9/2004
53	JC 262010W	SUB & HONY LT	JEYARAJ N	1/1/2005
54	JC 257143H	SUB & HONY LT	K RADHAKRISHNAN	1/11/2004
55	JC 261155P	SUB & HONY LT	KEWAL SINGH GURUNG	1/10/2004
56	JC 255135L	SUB & HONY LT	KRISHAN LAL	1/9/2004
57	JC 260223L	SUB & HONY LT	LOCHAN SINGH YADAV	1/1/2005
58	JC 223707N	SUB & HONY LT	M S SATYA MOORTHY	1/1/2005
59	JC 260488P	SUB & HONY LT	MADAN LAL	1/10/2004
60	JC 226072L	SUB & HONY LT	MADAN SINGH	1/1/2005
61	JC 259345H	SUB & HONY LT	MEHAR SINGH	1/1/2005
62	JC 178916W	SUB & HONY LT	MOHINDER SINGH	1/10/2004
63	JC 214428F	SUB & HONY LT	OM PARKASH LATHER	1/11/2004
64	JC 226576Y	SUB & HONY LT	PAWAR NANDRAM TULSHIRAM	1/11/2004

65	JC 225372A	SUB & HONY LT	PIAR CHAND	1/9/2004
66	JC 261744L	SUB & HONY LT	R KRISHNAMOORTHY	1/10/2004
67	JC 258819M	SUB & HONY LT	RAJ SINGH MALIK	31-08-2004
68	JC 256867N	SUB & HONY LT	RAJENDER SINGH	1/12/2004
69	JC 257091X	SUB & HONY LT	RAJPAL SINGH	1/9/2004
70	JC 257074X	SUB & HONY LT	RANBIR SINGH	1/1/2005
71	JC 256007A	SUB & HONY LT	SADANANDA KALITA	1/11/2004
72	JC 255656Y	SUB & HONY LT	SITA RAM	1/1/2005
73	JC 256665M	SUB & HONY LT	SURESH KUMAR	1/11/2004
74	JC 257204P	SUB & HONY LT	TARA DATT	1/1/2005
75	JC 259236W	SUB & HONY LT	THAMAN BAHADUR PUN	1/10/2004
76	JC 223109W	SUB & HONY LT	UDAI SINGH	1/9/2004
77	JC 224737X	SUB & HONY LT	UMMED SINGH BHATI	1/9/2004
78	JC 255845H	SUB & HONY LT	VIJAY KUMAR	1/1/2005
79	JC 257337L	SUB & HONY LT	VJAY SINGH	1/9/2004

CORPS OF AIR DEFENCE ARTILLERY

80	JC 174151H	SUB MAJ & HONY LT	BALAKRISHNAN VARAYIL	1/10/2004
81	JC 175300X	SUB MAJ & HONY LT	BANS GOPAL SHARMA	1/12/2004
82	JC 153213K	SUB MAJ & HONY LT	I ROSE HEUBERT	1/12/2004
83	JC 169923L	SUB MAJ & HONY LT	PADAM SINGH	1/1/2005
84	JC 190740H	SUB MAJ & HONY LT	PITAMBER THAPA	1/10/2004
85	JC 179215M	SUB MAJ & HONY LT	R ESAKKI	1/12/2004
86	JC 172101Y	SUB MAJ & HONY LT	RAMPUKAR SHARMA	1/11/2004
87	JC 172119P	SUB MAJ & HONY LT	SURINDER KUMAR	1/11/2004
88	JC 165628L	SUB MAJ & HONY LT	TEK BAHADUR THAPA	1/9/2004
89	JC 296172N	SUB & HONY LT	CHAMAN LAL VERMA	1/1/2005
90	JC 186484F	SUB & HONY LT	DES RAJ	1/10/2004
91	JC 296957X	SUB & HONY LT	DIWAN SINGH	1/1/2005
92	JC 211889A	SUB & HONY LT	GIRISH CHANDRA	1/10/2004

93	JC 296171L	SUB & HONY LT	KULDEEP KUMAR	1/11/2004
94	JC 296508H	SUB & HONY LT	NITYA NAND YADAV	1/1/2005
95	JC 296695M	SUB & HONY LT	RAJ SINGH	1/10/2004

MADRAS ENGINEER GROUP

96	JC 174455A	SUB MAJ & HONY LT	A YADAGIRI	1/9/2004
97	JC 177266F	SUB MAJ & HONY LT	CHENNAPPAN CHENNAPPAN	1/9/2004
98	JC 305137P	SUB MAJ & HONY LT	DEVADASAN O K	1/12/2004
99	JC 219359A	SUB MAJ & HONY LT	KODANDA RAMA	1/10/2004
100	JC 220888Y	SUB MAJ & HONY LT	KOSHY VARGHESE	1/9/2004
101	JC 177295W	SUB MAJ & HONY LT	MATHAI KUTTY C	1/9/2004
102	JC 177379K	SUB MAJ & HONY LT	MOHANADASS K	1/11/2004
103	JC 179979L	SUB MAJ & HONY LT	MUNUSAMY ANBALAGAN	1/12/2004
104	JC 179959X	SUB MAJ & HONY LT	NATESAN MOHAN	1/12/2004
105	JC 177320K	SUB MAJ & HONY LT	THIRUVENGADAM	1/12/2004
106	JC 177268M	SUB & HONY LT	A DAKSHINA MURTHY	1/12/2004
107	JC 215768W	SUB & HONY LT	D SAVARINATHEN	1/12/2004
108	JC 306098N	SUB & HONY LT	K DRIDHAR	1/12/2004
109	JC 305478A	SUB & HONY LT	K SIVARAMAKRISHNAMURTHY	1/11/2004
110	JC 305029L	SUB & HONY LT	L REJENDRAN	1/9/2004
111	JC 215701X	SUB & HONY LT	LOGANATHAN M	1/1/2005
112	JC 305057X	SUB & HONY LT	PAREPALLI BHASKARA RAO	1/10/2004
113	JC 306099W	SUB & HONY LT	PRABHAKARAN M G	1/12/2004
114	JC 305521W	SUB & HONY LT	RAJENDRAN M	1/12/2004
115	JC 305680N	SUB & HONY LT	S MOHANDOSS	1/12/2004
116	JC 215765H	SUB & HONY LT	SAMAN K	1/12/2004
117	JC 438273A	SUB & HONY LT	SEKAR G,SM	1/10/2004
118	JC 197098P	SUB & HONY LT	SURESHAN K P	1/9/2004
119	JC 197021M	SUB & HONY LT	TILAK SINGH NARWARIA	1/12/2004

BENGAL ENGINEER GROUP

120	JC 210603N	SUB MAJ & HONY LT	BALAK RAM SHARMA	1/1/2005
121	JC 182488A	SUB MAJ & HONY LT	BANS NARAIN ROY	1/1/2005
122	JC 202917A	SUB MAJ & HONY LT	HER MOHINDER RAM	1/9/2004
123	JC 174872M	SUB MAJ & HONY LT	JAWAHAR PRASAD	1/11/2004
124	JC 177105Y	SUB MAJ & HONY LT	NIRMAL SINGH	1/11/2004
125	JC 210564A	SUB MAJ & HONY LT	RAMESH CHANDER SHARMA	1/12/2004
126	JC 182445L	SUB MAJ & HONY LT	SHISH RAM	1/11/2004
127	JC 326528N	SUB & HONY LT	AJAIPAL SINGH CHAUHAN	1/10/2004
128	JC 325236Y	SUB & HONY LT	ANAND BALLABH JOSHI	1/10/2004
129	JC 325219Y	SUB & HONY LT	DALIP SINGH	1/10/2004
130	JC 326599P	SUB & HONY LT	DHAN SINGH	1/10/2004
131	JC 325424A	SUB & HONY LT	DHARAM SINGH NEGI	1/10/2004
132	JC 325394N	SUB & HONY LT	DIN BANDHU RAM	1/9/2004
133	JC 325779L	SUB & HONY LT	FOZA SINGH	1/1/2005
134	JC 325247L	SUB & HONY LT	GUPTESHWAR NATH SINGH	1/11/2004
135	JC 219513N	SUB & HONY LT	HARI SINGH	1/9/2004
136	JC 326073H	SUB & HONY LT	HARISH SINGH	1/10/2004
137	JC 325226P	SUB & HONY LT	HARVIR SINGH	1/10/2004
138	JC 325403K	SUB & HONY LT	HIMAT SINGH	1/10/2004
139	JC 325114P	SUB & HONY LT	JAGAT SINGH	1/9/2004
140	JC 325420K	SUB & HONY LT	JAGDISH SINGH	1/11/2004
141	JC 326255W	SUB & HONY LT	JAGTAR SINGH	1/10/2004
142	JC 325396Y	SUB & HONY LT	KARAN JIT SINGH	1/9/2004
143	JC 325147A	SUB & HONY LT	KIRPAL SINGH	1/11/2004
144	JC 325419P	SUB & HONY LT	LALIT MOHAN	1/11/2004
145	JC 325091Y	SUB & HONY LT	MAHABIR SINGH	1/9/2004

146	JC 325432Y	SUB & HONY LT	MAHABIR SINGH	1/11/2004
147	JC 326568P	SUB & HONY LT	MAHIPAL SINGH	1/9/2004
148	JC 326486M	SUB & HONY LT	MOHAN CHANDRA	1/10/2004
149	JC 326105A	SUB & HONY LT	NARENDRA SINGH	1/11/2004
150	JC 325231A	SUB & HONY LT	RAJAN V	1/10/2004
151	JC 325405P	SUB & HONY LT	RAM DATT SINGH	1/10/2004
152	JC 325409L	SUB & HONY LT	RAM NATH SHARMA	1/10/2004
153	JC 325249W	SUB & HONY LT	SANDHYA LAL	1/11/2004
154	JC 325118L	SUB & HONY LT	SARYU PRASAD SINGH	1/10/2004
155	JC 325459W	SUB & HONY LT	SHAKTI SINGH	1/10/2004
156	JC 326126W	SUB & HONY LT	SHIVA NAND SINGH	1/10/2004
157	JC 325162P	SUB & HONY LT	SURENDRA SINGH RAWAT	1/9/2004
158	JC 325239M	SUB & HONY LT	UDAI BHAN SINGH	1/10/2004
159	JC 142711W	SUB & HONY LT	UMESH NAITHANI	1/11/2004

BOMBAY ENGINEER GROUP

160	JC 203062P	SUB MAJ & HONY LT	AJIT LAKRA	1/11/2004
161	JC 191635Y	SUB MAJ & HONY LT	CHANDGI RAM	1/1/2005
162	JC 186335N	SUB MAJ & HONY LT	DILBAG SINGH	1/9/2004
163	JC 191629L	SUB MAJ & HONY LT	MAST RAM	1/1/2005
164	JC 203095A	SUB MAJ & HONY LT	PARSHOTAM CHAND SHARMA	1/1/2005
165	JC 203125M	SUB MAJ & HONY LT	SARUP SINGH	1/12/2004
166	JC 199993Y	SUB MAJ & HONY LT	SURINDER SINGH	1/10/2004
167	JC 347944L	SUB & HONY LT	DARSHAN SINGH	1/9/2004
168	JC 203098N	SUB & HONY LT	DILIP KUMAR	1/1/2005
169	JC 347916Y	SUB & HONY LT	DUDHALE SRIKANT BALU	1/9/2004
170	JC 347162P	SUB & HONY LT	KARAM SINGH	1/9/2004
171	JC 347189M	SUB & HONY LT	NIYAZ AHMED	1/9/2004
172	JC 347846L	SUB & HONY LT	RAM NANDAN THAKUR	1/9/2004

CORPS OF SIGNALS

173	JC 214278W	SUB MAJ & HONY LT	BAMA PADA SAHA	1/10/2004
-----	------------	----------------------	----------------	-----------

174	JC	188061M	SUB MAJ & HONY LT	BHOGESWAR BORDALAI	1/11/2004
175	JC	221479X	SUB MAJ & HONY LT	BIRMANI SINGHA	1/10/2004
176	JC	188047A	SUB MAJ & HONY LT	BISHAMBHAR DASS	1/9/2004
177	JC	223817H	SUB MAJ & HONY LT	GAJE SINGH TAMAK	1/10/2004
178	JC	207353M	SUB MAJ & HONY LT	GHANSAWANT RAMACHANDRA	1/1/2005
179	JC	175758F	SUB MAJ & HONY LT	JAGDISH CHAND	1/12/2004
180	JC	223455M	SUB MAJ & HONY LT	KISHAN CHAND	1/10/2004
181	JC	367031L	SUB MAJ & HONY LT	MAGAN BIHARI PANDEY	1/10/2004
182	JC	367026A	SUB MAJ & HONY LT	MARKANDI PRASAD	1/11/2004
183	JC	215332L	SUB MAJ & HONY LT	MEGHA RAM SUMAN	1/1/2005
184	JC	221476K	SUB MAJ & HONY LT	MOHAN LAL	1/12/2004
185	JC	368911N	SUB MAJ & HONY LT	NAND KISHORE	1/12/2004
186	JC	175751X	SUB MAJ & HONY LT	PARDIP KUMAR LAL	1/10/2004
187	JC	182158F	SUB MAJ & HONY LT	PARKASH CHAND	1/9/2004
188	JC	172839W	SUB MAJ & HONY LT	PRALHAD SHANKAR CHOPDE	1/9/2004
189	JC	367054M	SUB MAJ & HONY LT	RAM AYODHYA SINGH	1/12/2004
190	JC	367029N	SUB MAJ & HONY LT	RAM KUMAR KUSHWAHA	1/12/2004
191	JC	221481P	SUB MAJ & HONY LT	RAMESH CHAND	1/12/2004
192	JC	78056Y	SUB MAJ & HONY LT	RUP KRISHNA SHUKLA	1/9/2004
193	JC	367040M	SUB MAJ & HONY LT	SITA RAM	1/12/2004
194	JC	367041P	SUB MAJ & HONY LT	SURENDRA PRASAD DUBEY	1/1/2005
195	JC	180932M	SUB MAJ & HONY LT	SURINDER PAL	1/12/2004
196	JC	163323M	SUB MAJ & HONY LT	TARSEM LAL	1/11/2004
197	JC	367370L	SUB MAJ & HONY LT	YAGYANARAYAN VERMA	1/1/2005
198	JC	371723X	SUB & HONY LT	BAL RAJ	1/12/2004
199	JC	367362M	SUB & HONY LT	BALACHANDRAN J	1/10/2004
200	JC	371073P	SUB & HONY LT	BIDHU BHUSON NATH	1/1/2005
201	JC	369844A	SUB & HONY LT	C JAYAKRISHNA	1/12/2004
202	JC	371056P	SUB & HONY LT	DEO NATH SINGH	1/11/2004
203	JC	370131F	SUB & HONY LT	HARE RAM THAKUR	1/1/2005

204	JC	371101W	SUB & HONY LT	HARI NAM	1/12/2004
205	JC	371701Y	SUB & HONY LT	HARJHAR RAM	1/10/2004
206	JC	372336P	SUB & HONY LT	HARJSH CHANDRA	1/10/2004
207	JC	371336H	SUB & HONY LT	JAGDISH LAL	1/10/2004
208	JC	371427M	SUB & HONY LT	JIWAN SINGH	1/9/2004
209	JC	368339L	SUB & HONY LT	KALLU SINGH	1/10/2004
210	JC	371327F	SUB & HONY LT	KAPIL DEO BHAGAT	1/9/2004
211	JC	188068W	SUB & HONY LT	KSHITISH CHANDRA SINGH	1/12/2004
212	JC	370823W	SUB & HONY LT	MANI B C	1/12/2004
213	JC	370636X	SUB & HONY LT	MANI RAM	1/1/2005
214	JC	370626N	SUB & HONY LT	MOHAN PRASAD	1/1/2005
215	JC	368003L	SUB & HONY LT	RAJENDRA RAM	1/11/2004
216	JC	371401X	SUB & HONY LT	RAM SAGAR YADAV	1/10/2004
217	JC	371547L	SUB & HONY LT	ROHTAS SINGH	1/9/2004

THE BRIGADE OF GUARDS

218	JC	157789Y	SUB MAJ & HONY LT	RAGHAVAN NAIR RAJAN, SM	1/12/2004
219	JC	208295A	SUB MAJ & HONY LT	TEGH SINGH CHOUHAN	1/11/2004
220	JC	402195H	SUB & HONY LT	ANGRAHIT SINGH YADAV	1/1/2005
221	JC	402768F	SUB & HONY LT	DULAL CH DAW	1/10/2004
222	JC	402673F	SUB & HONY LT	GANESH DUTT	1/10/2004
223	JC	402676P	SUB & HONY LT	GURI SINGH	1/10/2004
224	JC	402556W	SUB & HONY LT	JAYANTA KUMAR RAY	1/10/2004
225	JC	402345N	SUB & HONY LT	MEKH BAHADUR SINGH	1/9/2004
226	JC	402491N	SUB & HONY LT	MISHRI LAL	1/9/2004
227	JC	402767Y	SUB & HONY LT	PURAN CHANDRA	1/10/2004
228	JC	402349K	SUB & HONY LT	RAMNIWAS	1/9/2004
229	JC	402675M	SUB & HONY LT	RAVINDER NATH THAKUR	1/10/2004

THE PARACHUTE REGIMENT

230	JC	194508P	SUB MAJ & HONY LT	RATI RAM	1/9/2004
-----	----	---------	----------------------	----------	----------

231	JC 412090M	SUB & HONY LT	ASHOK RAMU MORE	1/10/2004
232	JC 412233F	SUB & HONY LT	IQBAL SINGH	1/10/2004
233	JC 222618H	SUB & HONY LT	JAGRUP SINGH	1/10/2004
234	JC 412095L	SUB & HONY LT	KARAN SINGH YADAV	1/10/2004
235	JC 412253P	SUB & HONY LT	NP AIYAPPA	1/9/2004
236	JC 412255A	SUB & HONY LT	PIARA SINGH	1/1/2005
237	JC 412235M	SUB & HONY LT	PURAN SINGH	1/10/2004
238	JC 412075X	SUB & HONY LT	RUDRA K R RAI	1/12/2004
239	JC 412333M	SUB & HONY LT	SATISH KUMAR THAPA	1/11/2004

THE MECHANISED INFANTRY REGIMENT

240	JC 204604A	SUB MAJ & HONY LT	BARGE DATTATRAY SHIVAJI	1/11/2004
241	JC 200866Y	SUB MAJ & HONY LT	GAGAN SINGH	1/10/2004
242	JC 200837K	SUB MAJ & HONY LT	GOPI CHAND	1/10/2004
243	JC 194231F	SUB MAJ & HONY LT	HARI DATT RAY	1/11/2004
244	JC 168730Y	SUB MAJ & HONY LT	JAGDISH CHAND	1/10/2004
245	JC 189721L	SUB MAJ & HONY LT	RAM SINGH	1/9/2004
246	JC 204608W	SUB MAJ & HONY LT	SOM RAJ	1/1/2005
247	JC 418189Y	SUB & HONY LT	BUA SINGH	1/9/2004
248	JC 181407H	SUB & HONY LT	NARENDRA SINGH	1/9/2004
249	JC 216390F	SUB & HONY LT	RAMBIR SINGH CHAUHAN	1/9/2004
250	JC 418627W	SUB & HONY LT	YUDHVIR SINGH, SM	1/10/2004

THE PUNJAB REGIMENT

251	JC 428127M	SUB MAJ & HONY LT	DARBARA SINGH	1/1/2005
252	JC 192522H	SUB MAJ & HONY LT	JASPAL SINGH	1/11/2004
253	JC 174911A	SUB MAJ & HONY LT	SATNAM SINGH	1/10/2004
254	JC 428717L	SUB & HONY LT	AVTAR SINGH RANA	1/10/2004
255	JC 428260P	SUB & HONY LT	BALDEV SINGH	1/10/2004
256	JC 428436P	SUB & HONY LT	CHAMEL SINGH JAMWAL	1/10/2004
257	JC 428612F	SUB & HONY LT	GANDA SINGH	1/11/2004

258	JC 428622L	SUB & HONY LT	GHARU RAM	1/10/2004
259	JC 428225M	SUB & HONY LT	JHILMAL SINGH	1/9/2004
260	JC 212831P	SUB & HONY LT	MANJIT SINGH	1/10/2004
261	JC 428356X	SUB & HONY LT	NARINDER SINGH	1/9/2004
262	JC 428141Y	SUB & HONY LT	NIRMAL SINGH	1/9/2004
263	JC 428222Y	SUB & HONY LT	PYARA LAL	1/10/2004
264	JC 428407A	SUB & HONY LT	RAJINDER SINGH KATOCH	1/10/2004
265	JC 428420K	SUB & HONY LT	RAM DASS	1/9/2004
266	JC 428263H	SUB & HONY LT	RAM LAL	1/9/2004
267	JC 428354M	SUB & HONY LT	RAMESH CHAND	1/10/2004
268	JC 428199W	SUB & HONY LT	RANJIT SINGH	1/1/2005
269	JC 428443L	SUB & HONY LT	RESHAM SINGH	1/12/2004
270	JC 428656Y	SUB & HONY LT	SARDARI LAL	1/10/2004
271	JC 428639Y	SUB & HONY LT	SUBASH CHAND CHAMBIAL	1/11/2004
272	JC 428376L	SUB & HONY LT	SUKHDEV SINGH	1/11/2004
273	JC 428309A	SUB & HONY LT	SUKHVIR SINGH	1/9/2004
274	JC 428637N	SUB & HONY LT	TIRLOK CHAND RANA	1/10/2004
275	JC 428438A	SUB & HONY LT	VIJAY KUMAR	1/9/2004

THE MADRAS REGIMENT

276	JC 160867W	SUB MAJ & HONY LT	BABU PUTHIYA PURAYIL	1/12/2004
277	JC 148304K	SUB MAJ & HONY LT	M PETER	1/9/2004
278	JC 156870Y	SUB MAJ & HONY LT	P GANESAN	1/9/2004
279	JC 156857P	SUB MAJ & HONY LT	SREEDHARAN	1/10/2004
280	JC 438181N	SUB & HONY LT	A SENGOLA	1/9/2004
281	JC 216486K	SUB & HONY LT	HALLIYAL SHIVAPPA KANTEPPA	1/10/2004
282	JC 201814P	SUB & HONY LT	M VELLAI	1/12/2004
283	JC 212496W	SUB & HONY LT	S RAJAMOORTHY	1/10/2004
284	JC 181751N	SUB & HONY LT	THULASEEDHARAN PILLAI A	1/9/2004

THE GRENADIERS

285	JC 448010P	SUB MAJ & HONY LT	BHANWAR SINGH	1/9/2004
-----	------------	----------------------	---------------	----------

286	JC	167423P	SUB MAJ & HONY LT	LAXMAN GANGARAM DABEKAR	1/3/2004
287	JC	205478L	SUB MAJ & HONY LT	MANGAL SINGH	1/12/2004
288	JC	210966X	SUB MAJ & HONY LT	NARPAL SINGH	1/1/2005
289	JC	155066L	SUB MAJ & HONY LT	SADIK MOHAMMED BHATIA	1/9/2004
290	JC	448555M	SUB & HONY LT	BAJRANG SINGH	1/10/2004
291	JC	448482L	SUB & HONY LT	BHOOR SINGH	1/1/2005
292	JC	448349H	SUB & HONY LT	DHAN PATI	1/10/2004
293	JC	448570F	SUB & HONY LT	DILBAG SINGH KOUNDLE	1/10/2004
294	JC	448397H	SUB & HONY LT	HASAM ALI	1/1/2005
295	JC	448385N	SUB & HONY LT	HUSSAIN KHAN	1/10/2004
296	JC	448745Y	SUB & HONY LT	ISHWAR SINGH SHEKHAWAT	1/10/2004
297	JC	448984N	SUB & HONY LT	JAI SINGH	1/11/2004
298	JC	448537K	SUB & HONY LT	KIRAN PAL SINGH	1/10/2004
299	JC	448481H	SUB & HONY LT	KRISHAN SINGH	1/9/2004
300	JC	448135M	SUB & HONY LT	KUSHAL SINGH	1/10/2004
301	JC	448525P	SUB & HONY LT	MADAN SINGH	1/1/2005
302	JC	448276F	SUB & HONY LT	MHETRA BALASAHEB	1/12/2004
303	JC	448866A	SUB & HONY LT	NAFE SINGH	1/11/2004
304	JC	449008K	SUB & HONY LT	NARINDER JEET	1/11/2004
305	JC	448643H	SUB & HONY LT	OM PARKASH	1/10/2004
306	JC	448395X	SUB & HONY LT	PARAS NATH SINGH	1/12/2004
307	JC	448541M	SUB & HONY LT	RAJANDER SINGH DESWAL	1/11/2004
308	JC	448709N	SUB & HONY LT	RAMPAL SINGH YADAV	1/12/2004
309	JC	448704P	SUB & HONY LT	UMA RAM DERU	1/10/2004
310	JC	448428X	SUB & HONY LT	UMRAO ALI KHAN	1/10/2004
311	JC	448547N	SUB & HONY LT	VIJAI KUMAR	1/11/2004
312	JC	448891Y	SUB & HONY LT	YADAV SINGH	1/11/2004

THE MARATHA LIGHT INFANTRY

313	JC	167422M	SUB MAJ & HONY LT	HINGMIRE RAMLING	1/11/2004
314	JC	151248F	SUB MAJ & HONY LT	JADHAV SAMBHAJI SHIVAJI	1/10/2004

315	JC 458206W	SUB MAJ & HONY LT	KAMBLEKAR BABASAHEB GOVIND	1/11/2004
316	JC 156881L	SUB MAJ & HONY LT	PATIL RAMCHANDRA PANDURANG	1/12/2004
317	JC 171851L	SUB MAJ & HONY LT	SALUNKHE KRISHNA BHAI	1/12/2004
318	JC 155100A	SUB MAJ & HONY LT	THOMBRE DNYANOBA RAMRAO	1/10/2004
319	JC 458636A	SUB & HONY LT	BILOUR AHMAD KHAN	1/11/2004
320	JC 212542A	SUB & HONY LT	JATINDAR RAMCHANDRA BHOGADE	1/10/2004
321	JC 458184H	SUB & HONY LT	R L KRISHNA	1/1/2005

THE RAJPUTANA RIFLES

322	JC 151689X	SUB MAJ & HONY LT	NARAYAN SINGH DEORA	1/10/2004
323	JC 468676P	SUB & HONY LT	ABHE SINGH	1/12/2004
324	JC 468451M	SUB & HONY LT	AMI LAL KULHRIYA	1/11/2004
325	JC 468337P	SUB & HONY LT	BAHADUR SINGH, SM	1/10/2004
326	JC 468399P	SUB & HONY LT	DEVI SINGH	1/12/2004
327	JC 468856X	SUB & HONY LT	JABAR SINGH	1/1/2005
328	JC 468773M	SUB & HONY LT	JAWAN SINGH	1/12/2004
329	JC 468122W	SUB & HONY LT	KRISHAN SINGH	1/12/2004
330	JC 468673F	SUB & HONY LT	OM DEV	1/1/2005
331	JC 468275A	SUB & HONY LT	RAJENDAR SINGH	1/12/2004
332	JC 468324X	SUB & HONY LT	RAJENDER SINGH MAHLA	1/9/2004
333	JC 468439L	SUB & HONY LT	RAM NIWAS	1/11/2004
334	JC 468179L	SUB & HONY LT	RAMESHWAR DAYAL	1/12/2004
335	JC 468890X	SUB & HONY LT	ROHITASHW RAGHAWA	1/12/2004
336	JC 216808Y	SUB & HONY LT	SATBIR SINGH	1/12/2004
337	JC 218461W	SUB & HONY LT	SAWAI SINGH TANWAR	1/9/2004
338	JC 218456L	SUB & HONY LT	SHARWAN SINGH	1/12/2004
339	JC 468579X	SUB & HONY LT	SUKHBIR SINGH	1/9/2004

THE RAJPUT REGIMENT

340	JC 205116K	SUB MAJ & HONY LT	BALBIR SINGH	1/12/2004
341	JC 208066P	SUB MAJ & HONY LT	BRAHMA PRAKASH DUBEY	1/1/2005

342	JC 478474F	SUB & HONY LT	ARJUN SINGH	1/1/2005
343	JC 203675P	SUB & HONY LT	BALBIR SINGH CHAUHAN	1/10/2004
344	JC 220936N	SUB & HONY LT	BHAGWAN SINGH	1/11/2004
345	JC 478808L	SUB & HONY LT	BIRPAL SINGH	1/9/2004
346	JC 478251K	SUB & HONY LT	BRUJ PAL	1/9/2004
347	JC 478022Y	SUB & HONY LT	DALIP SINGH	1/11/2004
348	JC 478341L	SUB & HONY LT	DEVI CHAND	1/11/2004
349	JC 478255A	SUB & HONY LT	FATEH SINGH	1/9/2004
350	JC 478002L	SUB & HONY LT	GAINDA SINGH	1/9/2004
351	JC 478430K	SUB & HONY LT	GIRAND SINGH	1/10/2004
352	JC 478515A	SUB & HONY LT	GIRDHARI LAL	1/10/2004
353	JC 478288L	SUB & HONY LT	HANUMAN SINGH	1/10/2004
354	JC 478754P	SUB & HONY LT	HARI SINGH	1/10/2004
355	JC 478153K	SUB & HONY LT	JAIBIR SINGH	1/9/2004
356	JC 478261N	SUB & HONY LT	KURA RAM	1/1/2005
357	JC 478177N	SUB & HONY LT	KUSHAL PAL SINGH	1/10/2004
358	JC 217990W	SUB & HONY LT	MADAN LAL	1/10/2004
359	JC 478342N	SUB & HONY LT	MAN SINGH	1/10/2004
360	JC 478396P	SUB & HONY LT	MARDAN SINGH	1/12/2004
361	JC 478720F	SUB & HONY LT	NATHU SINGH	1/9/2004
362	JC 478337H	SUB & HONY LT	RAJ PAL	1/10/2004
363	JC 478335X	SUB & HONY LT	RAJENDRA SINGH	1/9/2004
364	JC 211037L	SUB & HONY LT	RAM SINGH	1/10/2004
365	JC 478848M	SUB & HONY LT	RAVINDRA NATH SINGH	1/10/2004
366	JC 478477P	SUB & HONY LT	ROOP CHAND	1/9/2004
367	JC 478486W	SUB & HONY LT	SAMAY SINGH	1/10/2004
368	JC 478458K	SUB & HONY LT	SARDA RAM	1/10/2004
369	JC 478663L	SUB & HONY LT	SHISHUPAL SINGH	1/10/2004
370	JC 478422L	SUB & HONY LT	SURESH SINGH	1/10/2004

371	JC 218472H	SUB & HONY LT	TILOK SINGH	1/9/2004
372	JC 478207A	SUB & HONY LT	VIJENDRA SINGH	1/9/2004

THE JAT REGIMENT

373	JC 181833W	SUB MAJ & HONY LT	BHAGWAN SINGH	1/12/2004
374	JC 201037X	SUB MAJ & HONY LT	HARDAYAL SINGH JAT	1/10/2004
375	JC 179353N	SUB MAJ & HONY LT	MANGI LAL CHOUDHARY	1/9/2004
376	JC 204075Y	SUB MAJ & HONY LT	OM PARKASH	1/12/2004
377	JC 179352L	SUB MAJ & HONY LT	RANDHIR SINGH	1/1/2005
378	JC 488689N	SUB & HONY LT	BALWAN SINGH	1/12/2004
379	JC 488410K	SUB & HONY LT	JAIBIR SINGH	1/10/2004
380	JC 488790N	SUB & HONY LT	MAN MOHAN SINGH	1/12/2004
381	JC 488474P	SUB & HONY LT	SANTOSH PAL	1/12/2004
382	JC 488472K	SUB & HONY LT	YASHPAL	1/10/2004

THE SIKH REGIMENT

383	JC 171735H	SUB MAJ & HONY LT	BHAJAN SINGH	1/12/2004
384	JC 171737N	SUB MAJ & HONY LT	GURNAN SINGH	1/1/2005
385	JC 498126F	SUB & HONY LT	BAGICHA SINGH	1/12/2004
386	JC 498239K	SUB & HONY LT	BALDEV SINGH	1/10/2004
387	JC 498192K	SUB & HONY LT	BALVINDER SINGH	1/10/2004
388	JC 498152H	SUB & HONY LT	BALWINDER SINGH	1/10/2004
389	JC 498053A	SUB & HONY LT	CHARAN SINGH	1/9/2004
390	JC 498076F	SUB & HONY LT	DARSHAN SINGH	1/1/2005
391	JC 498307M	SUB & HONY LT	GURMEJ SINGH	1/11/2004
392	JC 498331H	SUB & HONY LT	HARDEV SINGH	1/1/2005
393	JC 498582M	SUB & HONY LT	HARDEV SINGH	1/9/2004
394	JC 498059F	SUB & HONY LT	JASWINDER SINGH	1/12/2004
395	JC 498518P	SUB & HONY LT	KULDIP SINGH	1/10/2004
396	JC 498180P	SUB & HONY LT	LAKHWINDER SINGH	1/1/2005
397	JC 498189K	SUB & HONY LT	MANGAL SINGH	1/12/2004

398	JC 498379W	SUB & HONY LT	PRITAM SINGH	1/10/2004
399	JC 498351W	SUB & HONY LT	SARDARA SINGH	1/10/2004
400	JC 498011N	SUB & HONY LT	SARDUL SINGH	1/10/2004
401	JC 498175K	SUB & HONY LT	SATNAM SINGH	1/9/2004
402	JC 498120A	SUB & HONY LT	SEWA SINGH	1/11/2004

THE SIKH LIGHT INFANTRY

403	JC 196504X	SUB MAJ & HONY LT	JIT SINGH	1/11/2004
404	JC 222715A	SUB MAJ & HONY LT	MANJEET SINGH	1/9/2004
405	JC 218290P	SUB MAJ & HONY LT	MUKHTIAR SINGH	1/1/2005
406	JC 211131P	SUB & HONY LT	AVTAR SINGH	1/1/2005
407	JC 221004N	SUB & HONY LT	GURDERSHANJIT SINGH	1/10/2004
408	JC 508091M	SUB & HONY LT	GURDEV SINGH	1/12/2004
409	JC 218285K	SUB & HONY LT	GURNAM SINGH	1/10/2004
410	JC 205975P	SUB & HONY LT	HARDIAL SINGH	1/10/2004
411	JC 508066N	SUB & HONY LT	LAL SINGH	1/12/2004
412	JC 508139P	SUB & HONY LT	MOHINDER SINGH	1/12/2004
413	JC 193789K	SUB & HONY LT	SOHAN SINGH	1/1/2005
414	JC 117712N	SUB & HONY LT	SURJIT SINGH	1/10/2004
415	JC 508160X	SUB & HONY LT	SURJIT SINGH	1/1/2005
416	JC 218494F	SUB & HONY LT	TERSEM SINGH	1/10/2004

THE DOGRA REGIMENT

417	JC 518143L	SUB MAJ & HONY LT	GURCHARAN SINGH	1/1/2005
418	JC 95769A	SUB MAJ & HONY LT	KHIMA NAND BAHUGUNA	1/10/2004
419	JC 518534W	SUB & HONY LT	ANANT RAM	1/9/2004
420	JC 518615W	SUB & HONY LT	BABU RAM	1/9/2004
421	JC 519049N	SUB & HONY LT	BHOLA NATH SHARMA, SM	1/12/2004
422	JC 518894M	SUB & HONY LT	CHANDER MANI	1/9/2004

423	JC	518819H	SUB & HONY LT	DESH RAJ CHANGRU	1/9/2004
424	JC	518897A	SUB & HONY LT	JOGINDER SINGH	1/10/2004
425	JC	519033H	SUB & HONY LT	KARAN SINGH	1/9/2004
426	JC	518528H	SUB & HONY LT	KULDEEP SINGH	1/10/2004
427	JC	518414X	SUB & HONY LT	NARENDER SINGH	1/10/2004
428	JC	518677W	SUB & HONY LT	NETAR PAL	1/1/2005
429	JC	518547N	SUB & HONY LT	PRAKASH CHAND AZAD	1/10/2004
430	JC	518756L	SUB & HONY LT	PREM PARKASH	1/12/2004
431	JC	519215W	SUB & HONY LT	SARJIT SINGH MANHAS	1/1/2005
432	JC	518731Y	SUB & HONY LT	SHIV RAM THAKUR	1/12/2004
433	JC	519174X	SUB & HONY LT	SOM DATT, SM	1/9/2004
434	JC	519119F	SUB & HONY LT	SURAM SINGH	1/9/2004

THE GARHWAL RIFLES

435	JC	185541L	SUB MAJ & HONY LT	SARAT CHANDRA SINGH GUSAIN	1/1/2005
436	JC	166097L	SUB MAJ & HONY LT	SHYAM SINGH	1/10/2004
437	JC	528729P	SUB & HONY LT	AJAY SINGH	1/10/2004
438	JC	528812M	SUB & HONY LT	BAG SINGH	1/11/2004
439	JC	528487X	SUB & HONY LT	BALAP SINGH	1/12/2004
440	JC	528531W	SUB & HONY LT	BALBIR SINGH	1/10/2004
441	JC	488399W	SUB & HONY LT	BIKRAM SINGH	1/11/2004
442	JC	528320N	SUB & HONY LT	CHANDRA MOHAN	1/10/2004
443	JC	528702X	SUB & HONY LT	CHATTAR SINGH	1/9/2004
444	JC	528837Y	SUB & HONY LT	GEETA SINGH	1/10/2004
445	JC	528528W	SUB & HONY LT	LAXMAN SINGH	1/9/2004
446	JC	528513N	SUB & HONY LT	LAXMAN SINGH NEGI	1/9/2004
447	JC	528635X	SUB & HONY LT	MAN SINGH	1/11/2004
448	JC	528816H	SUB & HONY LT	MANBAR SINGH RAWAT	1/12/2004

449	JC	528690N	SUB & HONY LT	NANDAN SINGH	1/9/2004
450	JC	528773Y	SUB & HONY LT	NAR SINGH	1/9/2004
451	JC	528676F	SUB & HONY LT	PRAKASH CHANDRA	1/12/2004
452	JC	528759M	SUB & HONY LT	PRAKASH CHANDRA	1/1/2005
453	JC	528080F	SUB & HONY LT	PREM SINGH	1/10/2004
454	JC	528737N	SUB & HONY LT	PREM SINGH	1/9/2004
455	JC	528821N	SUB & HONY LT	PRITHVI RAJ SINGH	1/11/2004
456	JC	528560L	SUB & HONY LT	RAJENDER SINGH	1/10/2004
457	JC	528222N	SUB & HONY LT	RANJIT SINGH	1/11/2004
458	JC	528458H	SUB & HONY LT	VIJAY KUMAR	1/12/2004

THE KUMAON REGIMENT

459	JC	219740N	SUB MAJ & HONY LT	BRAHMA NAND YADAV	1/9/2004
460	JC	183053K	SUB MAJ & HONY LT	MADAN MOHAN SINGH	1/9/2004
461	JC	178058Y	SUB MAJ & HONY LT	MOHAN SINGH	1/12/2004
462	JC	201108N	SUB MAJ & HONY LT	NARENDRA SINGH	1/11/2004
463	JC	219743F	SUB MAJ & HONY LT	PYERE LAL SINGH	1/12/2004
464	JC	193005X	SUB MAJ & HONY LT	RAJ BAHADUR SINGH	1/11/2004
465	JC	538161P	SUB & HONY LT	DIWAN SINGH	1/9/2004
466	JC	538753Y	SUB & HONY LT	DIWANI CHAND	1/9/2004
467	JC	538484X	SUB & HONY LT	DUNGAR SINGH	1/1/2005
468	JC	538469H	SUB & HONY LT	DURGA SINGH	1/9/2004
469	JC	538648H	SUB & HONY LT	GAJENDER SINGH	1/11/2004
470	JC	538888A	SUB & HONY LT	GOVIND SINGH	1/10/2004
471	JC	538630N	SUB & HONY LT	HAKIM SINGH	1/11/2004
472	JC	538748N	SUB & HONY LT	JOGA SINGH	1/10/2004
473	JC	538454A	SUB & HONY LT	KOK SINGH	1/10/2004
474	JC	538328N	SUB & HONY LT	KRISHAN SINGH	1/1/2005

475	JC	538796N	SUB & HONY LT	MAHABIR SINGH	1/9/2004
476	JC	590065P	SUB & HONY LT	MAHADEV BHAT	1/12/2004
477	JC	538178H	SUB & HONY LT	PARTAP SINGH	1/11/2004
478	JC	538591Y	SUB & HONY LT	PURAN SINGH	1/12/2004
479	JC	538272M	SUB & HONY LT	RAJENDRA SINGH RATHOR	1/10/2004
480	JC	538155F	SUB & HONY LT	RATTAN SINGH	1/9/2004
481	JC	590004X	SUB & HONY LT	S K LOMAR	1/10/2004
482	JC	538475W	SUB & HONY LT	SHYAM SINGH	1/11/2004
483	JC	538939H	SUB & HONY LT	YASWANT SINGH	1/12/2004

THE ASSAM REGIMENT

484	JC	178638N	SUB MAJ & HONY LT	ADANI MAO	1/12/2004
485	JC	175397N	SUB MAJ & HONY LT	ANANTA BORAH	1/9/2004
486	JC	166742P	SUB MAJ & HONY LT	DILIP BORGOHAIN	1/9/2004
487	JC	172788N	SUB MAJ & HONY LT	RAM BAHADUR GURUNG	1/9/2004
488	JC	177799K	SUB MAJ & HONY LT	ROMESH ANAL	1/1/2005
489	JC	548129N	SUB & HONY LT	LAKHESWAR GOGOI	1/10/2004
490	JC	548175H	SUB & HONY LT	NABIN CHANDRA DEKA	1/10/2004
491	JC	224568F	SUB & HONY LT	RATNESWAR BORAH	1/12/2004

THE BIHAR REGIMENT

492	JC	218349K	SUB MAJ & HONY LT	BHRIGU NATH SINGH	1/11/2004
493	JC	216639H	SUB MAJ & HONY LT	BISHUN SINGH YADAV	1/11/2004
494	JC	558191N	SUB MAJ & HONY LT	VIDYADHAR RAI	1/10/2004
495	JC	558560A	SUB & HONY LT	AIBAN MUNDA	1/10/2004
496	JC	558333A	SUB & HONY LT	BANDIRAM SINGH PURTY	1/10/2004
497	JC	558663Y	SUB & HONY LT	CRISTOPHER LAKRA	1/10/2004
498	JC	558483W	SUB & HONY LT	JAMES LAKRA	1/11/2004
499	JC	199348K	SUB & HONY LT	MAN SINGH PURTI	1/10/2004

500	JC 558196M	SUB & HONY LT	MANSIDH BHENGRA	1/11/2004
501	JC 558670P	SUB & HONY LT	PARMESHWAR RAM	1/10/2004
502	JC 168914X	SUB & HONY LT	SAMUEL TUDU	1/9/2004
503	JC 558576L	SUB & HONY LT	SARJU SINGH YADAV	1/10/2004
504	JC 558011A	SUB & HONY LT	SRIRAM SAMAD	1/11/2004
<u>THE MAHAR REGIMENT</u>				
505	JC 173938L	SUB MAJ & HONY LT	ARUN LAXMAN PANTAWNE	1/12/2004
506	JC 185850N	SUB MAJ & HONY LT	BALBIR SINGH	1/10/2004
507	JC 184002H	SUB MAJ & HONY LT	GOVIND RAM	1/10/2004
508	JC 168586P	SUB MAJ & HONY LT	KHIM SINGH	1/11/2004
509	JC 168589H	SUB MAJ & HONY LT	LOKPAL SINGH	1/10/2004
510	JC 220784X	SUB & HONY LT	AGYA DATT	1/10/2004
511	JC 568216H	SUB & HONY LT	BIR SINGH	1/1/2005
512	JC 203831N	SUB & HONY LT	DARYODHAN SINGH CHANDEL	1/9/2004
513	JC 568790F	SUB & HONY LT	DAYA RAM	1/10/2004
514	JC 568453M	SUB & HONY LT	GIRDHARI LAL	1/10/2004
515	JC 211302W	SUB & HONY LT	GOPINATH MISHRA	1/1/2005
516	JC 568595K	SUB & HONY LT	JAGTAR SINGH	1/11/2004
517	JC 219778X	SUB & HONY LT	JANAK RAJ	1/1/2005
518	JC 568307M	SUB & HONY LT	KALA SINGH	1/10/2004
519	JC 568532F	SUB & HONY LT	KALASUA SILVANAS SURJI BHAI	1/9/2004
520	JC 568465F	SUB & HONY LT	KARAM CHAND	1/11/2004
521	JC 224462P	SUB & HONY LT	LAKSHMI NARAYAN PANDA	1/10/2004
522	JC 568011N	SUB & HONY LT	NATHURAM SHARMA	1/10/2004
523	JC 568636H	SUB & HONY LT	RAJ KUMAR	1/10/2004
524	JC 568830X	SUB & HONY LT	RAM SWAROOP	1/1/2005
525	JC 568296L	SUB & HONY LT	RANVIR SINGH	1/9/2004

526	JC	568281H	SUB & HONY LT	ROSHAN LAL YADAV	1/9/2004
527	JC	568358A	SUB & HONY LT	SUKHDEV SINGH	1/10/2004
528	JC	568266N	SUB & HONY LT	THOMAS KUTTY M D	1/11/2004

THE JAMMU AND KASHMIR RIFLES

529	JC	211329N	SUB MAJ & HONY LT	ABDUL GANI	1/1/2005
530	JC	213008P	SUB MAJ & HONY LT	KALI DASS	1/9/2004
531	JC	219788F	SUB MAJ & HONY LT	MAN CHAND CHAUHAN	1/11/2004
532	JC	578743X	SUB & HONY LT	BUDHI CHAND SOORAJ	1/9/2004
533	JC	579050M	SUB & HONY LT	DEWARKA NATH	1/1/2005
534	JC	578538W	SUB & HONY LT	GURCHARAN SINGH	1/10/2004
535	JC	578709X	SUB & HONY LT	HARBANS LAL	1/1/2005
536	JC	579020P	SUB & HONY LT	INDER SINGH	1/10/2004
537	JC	579056N	SUB & HONY LT	ISHWAR SINGH	1/10/2004
538	JC	578143P	SUB & HONY LT	JAGDEV SINGH SIDHU	1/12/2004
539	JC	578820F	SUB & HONY LT	KRISHAN SINGH	1/9/2004
540	JC	578939L	SUB & HONY LT	MALKIAT SINGH SAHNI	1/1/2005
541	JC	578249F	SUB & HONY LT	RAJINDER KUMAR SHARMA	1/10/2004
542	JC	578773P	SUB & HONY LT	RAM DASS	1/9/2004
543	JC	579159M	SUB & HONY LT	SODHI RAM	1/1/2005
544	JC	579040H	SUB & HONY LT	SUKHDEV SINGH	1/10/2004
545	JC	578572W	SUB & HONY LT	SURESH KUMAR	1/9/2004
546	JC	578708P	SUB & HONY LT	SWARN SINGH	1/10/2004
547	JC	578520A	SUB & HONY LT	TANK BAHADUR KHAND, SM	1/1/2005
548	JC	579002M	SUB & HONY LT	TARSEM SINGH	1/1/2005

THE LADAKH SCOUTS

549	JC	175141L	SUB MAJ & HONY LT	CHHERING ANGCHOK, SM	1/10/2004
550	JC	175133M	SUB MAJ & HONY LT	CHHERING DORJI	1/10/2004

551	JC 175145F	SUB MAJ & HONY LT	CHHERING MUTUP	1/11/2004
552	JC 588077L	SUB & HONY LT	MURUP DORJE	1/12/2004

THE JAMMU AND KASHMIR LIGHT INFANTRY

553	JC 592010K	SUB MAJ & HONY LT	BABU SINGH	1/1/2005
554	JC 592167K	SUB MAJ & HONY LT	HUTMAN GURUNG	1/12/2004
555	JC 169283M	SUB MAJ & HONY LT	RESAL SINGH	1/1/2005
556	JC 205721X	SUB MAJ & HONY LT	SUJAN SINGH KOTWAL	1/11/2004
557	JC 592137M	SUB & HONY LT	A B GANI BHAT	1/12/2004
558	JC 592252M	SUB & HONY LT	AMAR SINGH	1/10/2004
559	JC 592358Y	SUB & HONY LT	BAHADER SINGH	1/1/2005
560	JC 592251K	SUB & HONY LT	BANSI LAL RAINA	1/9/2004
561	JC 592207A	SUB & HONY LT	BIKHAM SINGH	1/10/2004
562	JC 592344Y	SUB & HONY LT	BUNTI RAM	1/11/2004
563	JC 592214W	SUB & HONY LT	GHAR SINGH	1/9/2004
564	JC 592704K	SUB & HONY LT	JAGDESH SINGH	1/9/2004
565	JC 592506Y	SUB & HONY LT	JAGDISH SINGH	1/11/2004
566	JC 592302M	SUB & HONY LT	JOGINDER SINGH	1/10/2004
567	JC 592501A	SUB & HONY LT	KHADAM HUSSAIN	1/9/2004
568	JC 592299X	SUB & HONY LT	LAL SINGH	1/10/2004
569	JC 592263Y	SUB & HONY LT	MOHAN LAL SHARMA	1/10/2004
570	JC 592198H	SUB & HONY LT	MOHD BASHIR	1/12/2004
571	JC 592224A	SUB & HONY LT	MOHD RASHID	1/10/2004
572	JC 592238A	SUB & HONY LT	MOHD YAQOOB	1/11/2004
573	JC 592377K	SUB & HONY LT	RASHPAUL SHARMA	1/11/2004
574	JC 592091P	SUB & HONY LT	RATTAN LAL DOGRA	1/9/2004

1 GORKHA RIFLES

575	JC 602006X	SUB MAJ & HONY LT	GAM BAHADUR RANA	1/9/2004
-----	------------	----------------------	------------------	----------

576	JC 185271F	SUB MAJ & HONY LT	HEM BAHADUR GURUNG	1/10/2004
577	JC 602339K	SUB & HONY LT	CHANDRA BAHADUR PUR	1/1/2005
578	JC 602189Y	SUB & HONY LT	DEB BAHADUR THAPA	1/9/2004
579	JC 602156N	SUB & HONY LT	KRISHNA BAHADUR GURUNG	1/1/2005
580	JC 602183X	SUB & HONY LT	LIL BAHADUR PUN	1/10/2004
581	JC 602226F	SUB & HONY LT	MAN BAHADUR THAPA	1/12/2004
582	JC 602150M	SUB & HONY LT	RAN BAHADUR GURUNG	1/12/2004
583	JC 602100F	SUB & HONY LT	SUDHIR KUMAR THAPA	1/11/2004

3 GORKHA RIFLES

584	JC 188584L	SUB MAJ & HONY LT	HARISH CHANDRA CHHETRI	31-08-2004
585	JC 607098Y	SUB & HONY LT	ARUN KUMAR GURUNG	1/9/2004
586	JC 607250F	SUB & HONY LT	BAL BAHADUR PUN	1/1/2005
587	JC 607195W	SUB & HONY LT	GANESH BAHADUR GURUNG	1/10/2004
588	JC 607202F	SUB & HONY LT	KAMAL BAHADUR THAPA	1/10/2004
589	JC 607102W	SUB & HONY LT	LACE BAHADUR THAPA	1/10/2004
590	JC 607119K	SUB & HONY LT	NAR BAHADUR PUN	1/10/2004
591	JC 607199M	SUB & HONY LT	SUKH BAHADUR THAPA	1/10/2004

4 GORKHA RIFLES

592	JC 169288L	SUB MAJ & HONY LT	NARAIN SINGH GURUNG	1/12/2004
593	JC 612108F	SUB & HONY LT	DAL BAHADUR GURUNG	1/12/2004
594	JC 612289X	SUB & HONY LT	GUM BAHADUR THAPA, VRC	1/10/2004
595	JC 211388A	SUB & HONY LT	PRITAM CHAND	1/10/2004
596	JC 612224K	SUB & HONY LT	SANTA TSHERING LEPCHA	1/10/2004

5 GORKHA RIFLES

597	JC 204209M	SUB MAJ & HONY LT	YAM BAHADUR THAPA	1/9/2004
598	JC 617220X	SUB & HONY LT	BHAKTA BAHADUR THAPA	1/12/2004
599	JC 220349H	SUB & HONY LT	MUKTA BAHADUR GURUNG	1/11/2004

600	JC 617219H	SUB & HONY LT	RABINDRA LAMA GURUNG	1/12/2004
601	JC 617225W	SUB & HONY LT	RAJ KUMAR GURUNG	1/1/2005
602	JC 617062N	SUB & HONY LT	SURYA BAHADUR SHRESTHA	1/11/2004
603	JC 617260Y	SUB & HONY LT	UREN KUMAR GURUNG	1/12/2004
8 GORKHA RIFLES				
604	JC 180819X	SUB MAJ & HONY LT	SUK BAHADUR GURUNG	1/10/2004
605	JC 623133A	SUB & HONY LT	OM BAHADUR PUN	1/10/2004
606	JC 623171W	SUB & HONY LT	PREM BAHADUR GHALE, SM	1/10/2004
607	JC 623257P	SUB & HONY LT	SHIV RAJ KUMAR MALL	1/12/2004
9 GORKHA RIFLES				
608	JC 629019Y	SUB MAJ & HONY LT	KUSHAL SINGH BOHRA	1/9/2004
609	JC 629371H	SUB & HONY LT	KAMAL BIKRAM THAPA	1/11/2004
610	JC 629189H	SUB & HONY LT	KHMAN BAHADUR SAHI	1/11/2004
611	JC 629396P	SUB & HONY LT	KRISHNA BAHADUR MALLA	1/1/2005
11 GORKHA RIFLES				
612	JC 162341H	SUB MAJ & HONY LT	PADAM BAHADUR PRADHAN	1/10/2004
613	JC 179479N	SUB & HONY LT	KISHOR KUMAR LIMBU	1/10/2004
614	JC 634128P	SUB & HONY LT	KUMAR SINGH LIMBU	1/1/2005
615	JC 205749X	SUB & HONY LT	RAM BAHADUR RAI	1/10/2004
616	JC 634034X	SUB & HONY LT	SAGAR RAI	1/10/2004
617	JC 205744Y	SUB & HONY LT	SHYAM KUMAR RAI	1/9/2004
ARMY SERVICE CORPS(SOUTH)				
618	JC 660391X	SUB MAJ & HONY LT	ARAB SINGH	1/9/2004
619	JC 209908F	SUB MAJ & HONY LT	BIKRAM SINGH	1/10/2004
620	JC 640202F	SUB MAJ & HONY LT	DILBAG SINGH	1/11/2004
621	JC 661280M	SUB MAJ & HONY LT	MOHAN RAM	1/11/2004
622	JC 640059A	SUB MAJ & HONY LT	MOHITE DILIP SHANKAR	1/9/2004

623	JC	214695H	SUB MAJ & HONY LT	NITYALAL GHOSH	1/9/2004
624	JC	660402Y	SUB MAJ & HONY LT	PREM SINGH	1/11/2004
625	JC	209003Y	SUB MAJ & HONY LT	RULDA RAM	1/1/2005
626	JC	208979W	SUB MAJ & HONY LT	SUCHA SINGH	1/10/2004
627	JC	660417F	SUB MAJ & HONY LT	SURENDER SINGH	1/1/2005
628	JC	221587F	SUB MAJ & HONY LT	YOGENDRA SAH	1/1/2005
629	JC	661050Y	SUB & HONY LT	AWADH KISHORE SINGH	1/11/2004
630	JC	208962H	SUB & HONY LT	BHAGWATI SINGH YADAV	1/9/2004
631	JC	661659W	SUB & HONY LT	BHESHNARAYAN MEHTO	1/9/2004
632	JC	213520N	SUB & HONY LT	DIBAKAR BERA	1/10/2004
633	JC	660975H	SUB & HONY LT	HARIHAR PRASAD	1/12/2004
634	JC	661656H	SUB & HONY LT	HIRA LAL MAHTO	1/11/2004
635	JC	660916W	SUB & HONY LT	JIWAN CHANDER JOSHI	1/9/2004
636	JC	660919K	SUB & HONY LT	KIDAR NATH	1/10/2004
637	JC	661115F	SUB & HONY LT	LAKHMI CHAND	1/11/2004
638	JC	641020A	SUB & HONY LT	LAKSHMANAN T	1/11/2004
639	JC	660958H	SUB & HONY LT	MADAN LAL	1/9/2004
640	JC	660939X	SUB & HONY LT	MANIRIKA RAM	1/11/2004
641	JC	661339F	SUB & HONY LT	MOHAN SINGH	1/11/2004
642	JC	660914L	SUB & HONY LT	OM PARKASH	1/11/2004
643	JC	214703W	SUB & HONY LT	OMANA KUTTAN N	1/12/2004
644	JC	661316A	SUB & HONY LT	RAJ BILOCHAN SINGH	1/11/2004
645	JC	661424K	SUB & HONY LT	RAJINDER PAUL	1/11/2004
646	JC	661013L	SUB & HONY LT	RAMPAL	1/9/2004
647	JC	214701L	SUB & HONY LT	SANSAR CHAND VERMA	1/12/2004
648	JC	213675H	SUB & HONY LT	SARYU PRASAD	1/1/2005
649	JC	202561X	SUB & HONY LT	SHIRISH VITHAL KADAM	1/10/2004

650	JC 661119X	SUB & HONY LT	VIJAY KUMAR	1/11/2004
651	JC 193304W	SUB & HONY LT	YOGENDRA SINGH	1/11/2004

ARMY MEDICAL CORPS

652	JC 690778P	SUB MAJ & HONY LT	BANSI LAL	1/1/2005
653	JC 691391Y	SUB MAJ & HONY LT	BHAGAWANT MANE	1/1/2005
654	JC 690787W	SUB MAJ & HONY LT	BIJAY KUMAR	1/1/2005
655	JC 691398H	SUB MAJ & HONY LT	GAIKWAD GANPAT	1/1/2005
656	JC 690782X	SUB MAJ & HONY LT	HABIBUR RAHAMAN	1/11/2004
657	JC 690260F	SUB MAJ & HONY LT	HERNOLD EDWIN LANCELET	1/9/2004
658	JC 690203A	SUB MAJ & HONY LT	KUNWERJI SINGH	1/1/2005
659	JC 690209F	SUB MAJ & HONY LT	LAL BABOO SHARMA	1/12/2004
660	JC 691379X	SUB MAJ & HONY LT	MAHAVIR SINGH	1/11/2004
661	JC 212155L	SUB MAJ & HONY LT	MD AKHTAR HUSSAIN	1/1/2005
662	JC 161541M	SUB MAJ & HONY LT	PATIL KRISHNA SHANKAR	1/1/2005
663	JC 690185H	SUB MAJ & HONY LT	PRASADA CHANDRAN NAIR M	1/12/2004
664	JC 690780M	SUB MAJ & HONY LT	RAJ NARAYAN YADAV	1/12/2004
665	JC 690663F	SUB MAJ & HONY LT	RAJU P O	1/9/2004
666	JC 690978L	SUB MAJ & HONY LT	RAMCHANDRA NAMDEO INDALKAR	1/1/2005
667	JC 182827P	SUB MAJ & HONY LT	ROHITASHA VA BHAKER	1/9/2004
668	JC 690784H	SUB MAJ & HONY LT	ROHTASH SINGH	1/12/2004
669	JC 182834L	SUB MAJ & HONY LT	SHAMSHER SINGH RANA	1/11/2004
670	JC 690664K	SUB MAJ & HONY LT	SIVASAHKARAN MANGALATHU VADAKKETHIL	1/12/2004
671	JC 691396X	SUB MAJ & HONY LT	SUKH DEV SINGH	1/11/2004
672	JC 691382X	SUB MAJ & HONY LT	SYEDALI HUSAIN RIZUI	1/10/2004
673	JC 691683F	SUB & HONY LT	KASHMIR SINGH RANA	1/1/2005
674	JC 691460K	SUB & HONY LT	SURESH CHAND	1/11/2004

ARMY ORDNANCE CORPS

675	JC	204652A	SUB MAJ & HONY LT	ANIL KUMAR SAHA	1/11/2004
676	JC	213235P	SUB MAJ & HONY LT	ANOKH SINGH	1/9/2004
677	JC	221651N	SUB MAJ & HONY LT	GURNEK SINGH BASUNIA	1/11/2004
678	JC	202472Y	SUB MAJ & HONY LT	J N SINGH	1/10/2004
679	JC	212255W	SUB MAJ & HONY LT	JAGDISH CHANDER	1/1/2005
680	JC	217485N	SUB MAJ & HONY LT	JAGDISH CHAUDHARY	1/11/2004
681	JC	92354A	SUB MAJ & HONY LT	JAGDISH PRASAD PANDEY	1/1/2005
682	JC	213120F	SUB MAJ & HONY LT	MOHAN KUMAR M G	1/10/2004
683	JC	217477P	SUB MAJ & HONY LT	NAFE SINGH SELWAL	1/10/2004
684	JC	212407M	SUB MAJ & HONY LT	SANT KUMAR SINGH	1/10/2004
685	JC	223127Y	SUB & HONY LT	ANIL KUMAR SAXENA	1/10/2004
686	JC	723208F	SUB & HONY LT	DALVI ASHOK RAMCHANDRA	1/1/2005
687	JC	722722Y	SUB & HONY LT	DEVENDER NATH SUDAN	1/9/2004
688	JC	722953P	SUB & HONY LT	HEMA RAM POONIA	1/9/2004
689	JC	723332H	SUB & HONY LT	HIRDYA NARAYAN SINGH YADAV	1/10/2004
690	JC	722555N	SUB & HONY LT	JACOB SAM	1/1/2005
691	JC	723291K	SUB & HONY LT	JAGDISH SINGH LATWAL	1/12/2004
692	JC	722216N	SUB & HONY LT	JAYAPAL KESTI	1/11/2004
693	JC	221646H	SUB & HONY LT	K KUMAR C TAIWADE	1/11/2004
694	JC	722510N	SUB & HONY LT	MANOHAR LAL SHARMA	1/9/2004
695	JC	722726P	SUB & HONY LT	RAJENDRAN S	1/11/2004
696	JC	722651H	SUB & HONY LT	RAM KRISHAN	1/9/2004
697	JC	723333L	SUB & HONY LT	RAM SAHODAR YADAV	1/10/2004
698	JC	722955A	SUB & HONY LT	ROMESH CHANDER	1/9/2004
699	JC	724710H	SUB & HONY LT	SIRAJUL HAQUE	1/11/2004
700	JC	723979W	SUB & HONY LT	THOMAS K S	1/11/2004

CORPS OF ELECTRICAL AND MECHANICAL ENGINEERS

701	JC 189289P	SUB MAJ & HONY LT	AKBAL HUSSAIN ANSARI	1/1/2005
702	JC 215089Y	SUB MAJ & HONY LT	BALAGOPALAN K R	1/11/2004
703	JC 181485A	SUB MAJ & HONY LT	BHAGWAN SINGH KARKI	1/10/2004
704	JC 222430N	SUB MAJ & HONY LT	BHAGWAN SINGH RANA	1/11/2004
705	JC 224663N	SUB MAJ & HONY LT	BIKRAM SINGH	1/9/2004
706	JC 182315H	SUB MAJ & HONY LT	CHANDRASEKARAN C	1/12/2004
707	JC 176158L	SUB MAJ & HONY LT	DALBIR SINGH PARMAR	1/12/2004
708	JC 184175A	SUB MAJ & HONY LT	DARBARI LAL	1/12/2004
709	JC 747554W	SUB MAJ & HONY LT	DAYA NAND RAI	1/1/2005
710	JC 217206X	SUB MAJ & HONY LT	DHRNI DHAR	1/9/2004
711	JC 189103A	SUB MAJ & HONY LT	GANGA SINGH MEHTA	1/11/2004
712	JC 748809X	SUB MAJ & HONY LT	GURUDAYAL SHARMA	1/10/2004
713	JC 747095H	SUB MAJ & HONY LT	HARI PRAKASH SHARMA	1/1/2005
714	JC 214099W	SUB MAJ & HONY LT	HOSHIAR SINGH	1/11/2004
715	JC 181596X	SUB MAJ & HONY LT	JAGIR SINGH	1/11/2004
716	JC 235323L	SUB MAJ & HONY LT	KASHMIR SINGH	1/10/2004
717	JC 218912L	SUB MAJ & HONY LT	KISHAN RAM	1/9/2004
718	JC 747235K	SUB MAJ & HONY LT	KOMARA SIVA RAO	1/12/2004
719	JC 181462Y	SUB MAJ & HONY LT	KRISHAN LAL	1/1/2005
720	JC 752359H	SUB MAJ & HONY LT	KRISHAN LAL	1/10/2004
721	JC 202203M	SUB MAJ & HONY LT	LILADHAR UPADHYA	1/11/2004
722	JC 750987Y	SUB MAJ & HONY LT	MOHD AKHTAR HUSSAIN	1/1/2005
723	JC 215086L	SUB MAJ & HONY LT	NANU KHAN	1/11/2004
724	JC 182314A	SUB MAJ & HONY LT	RAM SINGH	1/11/2004
725	JC 753008A	SUB MAJ & HONY LT	SATISH CHANDER	1/11/2004
726	JC 182408X	SUB MAJ & HONY LT	SHYAM SINGH TYAGI	1/11/2004

727	JC	182395L	SUB MAJ & HONY LT	SUCHA SINGH	1/12/2004
728	JC	189381N	SUB MAJ & HONY LT	SURESH CHANDRA SHARMA	1/11/2004
729	JC	181592F	SUB MAJ & HONY LT	SURYA NARAYAN YADAV	1/9/2004
730	JC	751431F	SUB & HONY LT	BACHA RAM	1/11/2004
731	JC	748808P	SUB & HONY LT	BRIJ LAL	1/9/2004
732	JC	751207P	SUB & HONY LT	CHAMAN LAL MALWAL	1/12/2004
733	JC	748726M	SUB & HONY LT	CHANDRA KUMAR K R	1/10/2004
734	JC	748270Y	SUB & HONY LT	CHANDRA RAI	1/1/2005
735	JC	751433M	SUB & HONY LT	CHHABINATH SINGH	1/11/2004
736	JC	747502A	SUB & HONY LT	DARSHAN SINGH	1/10/2004
737	JC	750243N	SUB & HONY LT	DAYA SHANKAR THAKUR	1/9/2004
738	JC	754482A	SUB & HONY LT	DAYANAND GAUTAM	1/10/2004
739	JC	751496P	SUB & HONY LT	DHARAMARAJ R	1/1/2005
740	JC	750014H	SUB & HONY LT	DOGUPARTHY MUSALEWARA RAO	1/9/2004
741	JC	751062P	SUB & HONY LT	GHAN SHYAM SINGH PARMAR	1/12/2004
742	JC	749415L	SUB & HONY LT	GIRI GOSAVI DATTATRARY KRISHNA	1/9/2004
743	JC	748361H	SUB & HONY LT	HAWA SINGH	1/12/2004
744	JC	751941H	SUB & HONY LT	HIRALAL PAL	1/1/2005
745	JC	751928Y	SUB & HONY LT	JAIPAL SINGH	1/9/2004
746	JC	754605F	SUB & HONY LT	KARANI DAN	1/1/2005
747	JC	747184F	SUB & HONY LT	KARTAR SINGH	16-08-2004
748	JC	750016N	SUB & HONY LT	PUKH RAJ VISHNOI	1/10/2004
749	JC	750023K	SUB & HONY LT	RAM CHANDER	1/1/2005
750	JC	751336P	SUB & HONY LT	RAM NARESH PRASAD	1/9/2004
751	JC	751628X	SUB & HONY LT	RAM NIWAS	1/1/2005
752	JC	751447M	SUB & HONY LT	RAM SIYA MISHRA	1/12/2004
753	JC	747808H	SUB & HONY LT	REGHU P R	1/10/2004

754	JC 747080A	SUB & HONY LT	RISHIDEO SINGH	1/1/2005
755	JC 751126P	SUB & HONY LT	SATRUGHAN SINGH	1/10/2004
756	JC 169988Y	SUB & HONY LT	SOHAN SINGH	1/1/2005
757	JC 748442H	SUB & HONY LT	SUGHAR SINGH	1/10/2004
758	JC 753248X	SUB & HONY LT	SURENDRA SINGH	1/12/2004
759	JC 750072M	SUB & HONY LT	VIJAYAN PILLAI K	1/10/2004
760	JC 749416N	SUB & HONY LT	WAMAN VITHOBA BORKAR	1/11/2004

ARMY EDUCATION CORPS

761	JC 195200N	SUB MAJ & HONY LT	ANUP NARAIN SINGH	1/9/2004
762	JC 206090M	SUB MAJ & HONY LT	ARJUN SINGH NEGI	1/12/2004
763	JC 195182W	SUB MAJ & HONY LT	BALBIR SINGH	1/9/2004
764	JC 195229W	SUB MAJ & HONY LT	SHALIGRAM PANDEY	1/12/2004
765	JC 223003K	SUB & HONY LT	ASHOK KUMAR BISWAS	1/1/2005
766	JC 216228K	SUB & HONY LT	BAIKUNTHA BISWAL	1/9/2004
767	JC 797138H	SUB & HONY LT	KARUNA KANTA MANDAL	1/10/2004
768	JC 225476F	SUB & HONY LT	KASHI NATH BANDYOPADHYAY	1/10/2004
769	JC 217166F	SUB & HONY LT	MADHUSOODHANAN K	1/11/2004
770	JC 212044N	SUB & HONY LT	MAHANAND JHA	1/9/2004
771	JC 802101N	SUB & HONY LT	NARENDRA SINGH	1/11/2004

REMOUNT AND VETERINARY CORPS

772	JC 797124H	RIS & HONY LT	LEMBAJI	1/10/2004
-----	------------	------------------	---------	-----------

THE INTELLIGENCE CORPS

773	JC 195520H	SUB MAJ & HONY LT	BALWANT SINGH KANDARI	1/12/2004
774	JC 186620M	SUB MAJ & HONY LT	HAZOOOR SINGH CHEEMA	1/11/2004
775	JC 195882K	SUB MAJ & HONY LT	KAMAL CHAND	1/12/2004
776	JC 183261Y	SUB MAJ & HONY LT	OM PRAKASH YADAV	1/10/2004
777	JC 195514P	SUB MAJ & HONY LT	PREM SINGH	1/12/2004

778	JC	195883M	SUB MAJ & HONY LT	RAJINDER SINGH	1/1/2005
779	JC	197795P	SUB & HONY LT	MADAN SINGH SHEKHAWAT	1/12/2004
780	JC	206309W	SUB & HONY LT	PARSHOTAM CHAND	1/12/2004

CORPS OF MILITARY POLICE

781	JC	818125F	SUB & HONY LT	NIZAMUDDIN HAIDER	1/9/2004
782	JC	818237F	SUB & HONY LT	RAM BELAS BHUJ	1/1/2005
783	JC	818030F	SUB & HONY LT	SHIV LAL	1/9/2004
784	JC	818147A	SUB & HONY LT	SURENDRA TRIPATHY	1/9/2004

ARMY PHYSICAL TRAINING CORPS

785	JC	174216L	SUB MAJ & HONY LT	BHANGI MARUTI NINGAPA	1/9/2004
-----	----	---------	----------------------	-----------------------	----------

DEFENCE SECURITY CORPS

786	JC	192025Y	SUB & HONY LT	BIKRAMJIT YADAV	1/1/2005
787	JC	202181Y	SUB & HONY LT	GIRDHARI LAL	1/1/2005
788	JC	840169Y	SUB & HONY LT	SAT PAL	1/12/2004

TERRITORIAL ARMY

789	TJ	3119P	SUB & HONY LT	A KRISHNA MOORTHY	30/9/2004
790	TJ	3039X	SUB & HONY LT	C BALAN	30/11/2004
791	TJ	3351A	SUB & HONY LT	C GOPALAKRISHNAN	30/11/2004
792	TJ	3211N	SUB & HONY LT	C RAMAN	30/11/2004
793	TJ	3181F	SUB & HONY LT	CHUNA RAM HUDDA	31/8/2004
794	TJ	2614	SUB & HONY LT	MOHINDER KUMAR	31/8/2004
795	TJ	2611N	SUB & HONY LT	PRAKASH	31/8/2004
796	TJ	3626H	SUB & HONY LT	RAJESHWAR BHAGAT	30/11/2004
797	TJ	3636M	SUB & HONY LT	RAMANAIAH	31/8/2004
798	TJ	3511X	SUB & HONY LT	SADASHIV BANDU CHAVAN	31/10/2004

TO BE HONORARY LIEUTENANTS**ARMoured CORPS**

1	JC 235802M	RIS MAJ	GIRWAR SINGH SHEKHAWAT	
2	JC 235628L	RIS MAJ	HARI SINGH	1/11/2004
3	JC 160800X	RIS MAJ	KONDALA RAO YELISETTI	1/10/2004
4	JC 211448K	RIS MAJ	PRITAM SINGH ATTRI	1/12/2004
5	JC 236677A	RIS MAJ	RAJINDER SINGH	1/11/2004
6	JC 219106L	RIS MAJ	RAVINDRA AMRUTRAO CHOUDHARI	1/12/2004
				1/11/2004

REGIMENT OF ARTILLERY

7	JC 223602K	SUB MAJ	ISHWER SINGH	1/9/2004
8	JC 180413K	SUB MAJ	JITENDRA SINGH	1/10/2004
9	JC 176995X	SUB MAJ	KULDIP SINGH MANHAS	1/11/2004
10	JC 184577X	SUB MAJ	MAHAN SINGH	1/10/2004
11	JC 200452M	SUB MAJ	OM PRAKASH	1/10/2004
12	JC 184036W	SUB MAJ	RAJINDER SINGH	1/11/2004
13	JC 195278Y	SUB MAJ	RAVINDER KUMAR	1/11/2004
14	JC 190685X	SUB MAJ	SHRIPAUL	1/11/2004
15	JC 257756H	SUB MAJ	SOLOMON RAJU MADAY	1/11/2004
16	JC 211857X	SUB MAJ	VIJAYAN K	1/1/2005
17	JC 193505P	SUB MAJ	VIRENDRA SINGH	1/1/2005
				1/10/2004

CORPS OF AIR DEFENCE ARTILLERY

18	JC 195287A	SUB MAJ	GANGA DATT YADAV	1/10/2004
----	------------	---------	------------------	-----------

MADRAS ENGINEER GROUP

19	JC 305770P	SUB MAJ	A SELVARAJU	1/12/2004
20	JC 219498K	SUB MAJ	C RAGUNATHAN	1/10/2004
21	JC 219365N	SUB MAJ	F MARK	1/9/2004
22	JC 179983N	SUB MAJ	GOVINDASAMY PURUSHOTHAMAN	1/1/2005
23	JC 219364L	SUB MAJ	MUNISWAMI R.	1/9/2004
24	JC 219496Y	SUB MAJ	PAVITHRAN P V	1/11/2004
25	JC 219505P	SUB MAJ	SIDHARTHAN T	1/12/2004
26	JC 219444H	SUB MAJ	SOMARAJAN NAIR J	1/10/2004
27	JC 219392X	SUB MAJ	VENUGOPALAN P	1/9/2004
28	JC 219396N	SUB MAJ	VINODHA KUMARAN T	1/10/2004

BENGAL ENGINEER GROUP

29	JC 207595P	SUB MAJ	AMARJIT SINGH	1/10/2004
30	JC 210463M	SUB MAJ	ASHOK KUMAR CHATTERJEE	1/9/2004
31	JC 210460Y	SUB MAJ	BISWAMOHAN SAMAL	1/9/2004
32	JC 186241W	SUB MAJ	DAHLE SANJAY NARAYAN	1/11/2004
33	JC 325339X	SUB MAJ	GAINA SINGH	1/9/2004
34	JC 207598H	SUB MAJ	GIRISH CHANDRA	1/10/2004
35	JC 210474Y	SUB MAJ	GOPAL SINGH	1/10/2004
36	JC 210573F	SUB MAJ	GOVIND SINGH	1/12/2004
37	JC 210525F	SUB MAJ	HAREN CH MAHILARY	1/10/2004
38	JC 325350W	SUB MAJ	HARJINDER SINGH	1/11/2004
39	JC 210468L	SUB MAJ	HARPAL SINGH	1/10/2004
40	JC 186243F	SUB MAJ	ISHWAR SINGH	1/11/2004
41	JC 210793L	SUB MAJ	JAGDISH SINGH KOMAL	1/1/2005

42	JC	210469N	SUB MAJ	JAI PARKASH SHARMA	1/9/2004
43	JC	210570N	SUB MAJ	JATINDRA NATH SHARMA	1/11/2004
44	JC	224823H	SUB MAJ	JITHENDRA KUMAR P	1/9/2004
45	JC	169518N	SUB MAJ	K L DAYANITHI	1/9/2004
46	JC	182516F	SUB MAJ	KARAMJIT SINGH	1/9/2004
47	JC	210560K	SUB MAJ	KIRAN SANKAR MUKHERJEE	1/10/2004
48	JC	177101H	SUB MAJ	MADAN KISHORE SINGH	1/11/2004
49	JC	203006W	SUB MAJ	MOTHUKURI RANGA SWAMI	1/11/2004
50	JC	210476K	SUB MAJ	N PREM KUMAR	1/11/2004
51	JC	210550A	SUB MAJ	NOMAL CHANDRA CHETIA	1/9/2004
52	JC	210549L	SUB MAJ	OM PARKASH	1/11/2004
53	JC	202939Y	SUB MAJ	OM SINGH	1/11/2004
54	JC	210565H	SUB MAJ	PANI RAM ARYA	1/11/2004
55	JC	207580M	SUB MAJ	PRAHLAD BHAGAT	1/9/2004
56	JC	210407N	SUB MAJ	PRAKASH CHANDRA BUGHANI	1/11/2004
57	JC	210605Y	SUB MAJ	RAGHVENDRA PRATAP MISHRA	1/12/2004
58	JC	210572Y	SUB MAJ	RAMENDRA KUMAR CHAKRABORTY	1/12/2004
59	JC	210554W	SUB MAJ	ROMESH CHANDER	1/11/2004
60	JC	210461F	SUB MAJ	ROMESH DATT	1/9/2004
61	JC	210473W	SUB MAJ	SARADINDU BIKASH	1/9/2004
62	JC	182483F	SUB MAJ	SHIVRAJ SINGH	1/12/2004
63	JC	174828H	SUB MAJ	SHYAM SINGH	1/11/2004
64	JC	207880N	SUB MAJ	SUNIT RANJANDEB	1/9/2004
65	JC	210785M	SUB MAJ	SURESH CHANDRA GUPTA	1/1/2005
66	JC	215992H	SUB MAJ	TEK SINGH	1/11/2004
67	JC	169509M	SUB MAJ	VENKATESAN K J	1/9/2004

BOMBAY ENGINEER GROUP

68	JC	203086Y	SUB MAJ	BALJIT SINGH	1/9/2004
69	JC	191624M	SUB MAJ	GURDEV SINGH	1/1/2005
70	JC	203090F	SUB MAJ	JAGJIT SINGH GHARU	1/9/2004
71	JC	203117N	SUB MAJ	JOHRI SINGH	1/10/2004
72	JC	203092M	SUB MAJ	MOHINDER SINGH	1/1/2005
73	JC	197262M	SUB MAJ	PHAD PADMAKAR BHIMRAO	1/12/2004
74	JC	203119Y	SUB MAJ	PUNI LAL	1/11/2004
75	JC	203115H	SUB MAJ	SOLANKI PARSOTAM KANJI	1/11/2004
76	JC	203116L	SUB MAJ	SUKHMANDER SINGH	1/12/2004
77	JC	191663L	SUB MAJ	THUKARAM LAXMAN NIKAM	1/9/2004

CORPS OF SIGNALS

78	JC	173617N	SUB MAJ	ANOP SINGH SHEKHAWAT	1/1/2005
79	JC	221431K	SUB MAJ	ARJUNAN KUGAN	1/1/2005
80	JC	172846M	SUB MAJ	BALDEV RAM	1/10/2004
81	JC	188329Y	SUB MAJ	BIJAI BAHADUR PAL	1/1/2005
82	JC	220552Y	SUB MAJ	CHACKO M V	1/12/2004
83	JC	220567F	SUB MAJ	HARI MOHAN TRIPATHI	1/1/2005
84	JC	180947P	SUB MAJ	HARMOHAN BARO	1/10/2004
85	JC	188067N	SUB MAJ	JOGINDER SINGH	1/1/2005
86	JC	157042A	SUB MAJ	LAKSHMANA DOSS MADIQ J	1/10/2004
87	JC	214270K	SUB MAJ	RAM PRASAD MISRA	1/10/2004

THE BRIGADE OF GUARDS

88	JC	196800H	SUB MAJ	BHAGWAN SINGH	1/1/2005
89	JC	181726P	SUB MAJ	BIKRAM SINGH	1/10/2004

90	JC 177898M	SUB MAJ	SHINDER PAL SINGH	1/9/2004
91	JC 177900Y	SUB MAJ	SHISH PAL SINGH	1/10/2004
<u>THE MECHANISED INFANTRY REGIMENT</u>				
92	JC 196785Y	SUB MAJ	DINESH CHANDER DHASMANA	1/1/2005
93	JC 211595M	SUB MAJ	SHER SINGH	1/9/2004
94	JC 177499H	SUB MAJ	SURESH SINGH	1/11/2004
95	JC 195475F	SUB MAJ	SURJIT SINGH	1/12/2004
<u>THE PUNJAB REGIMENT</u>				
96	JC 428193P	SUB MAJ	GIAN CHAND	1/10/2004
97	JC 428077M	SUB MAJ	HARDYAL SINGH	1/9/2004
98	JC 174956A	SUB MAJ	SURJIT SINGH	1/12/2004
<u>THE MADRAS REGIMENT</u>				
99	JC 181764L	SUB MAJ	JAGAN MOHANA RAO SUNKARA	1/1/2005
100	JC 167161K	SUB MAJ	M M POONACHA	1/1/2005
<u>THE GRENADIERS</u>				
101	JC 208304W	SUB MAJ	DEVENDRA SINGH	1/11/2004
<u>THE MARATHA LIGHT INFANTRY</u>				
102	JC 458233A	SUB MAJ	KARANJAWANE UTTAM MARUTI	1/1/2005
103	JC 182960X	SUB MAJ	MUKHTIAR SINGH	1/10/2004
<u>THE RAJPUTANA RIFLES</u>				
104	JC 468192P	SUB MAJ	BHAGWAN SINGH	1/9/2004
105	JC 183415A	SUB MAJ	DAYA RAM JAT	1/11/2004
106	JC 179332X	SUB MAJ	EJAZ AHMAD KHAN	1/12/2004
107	JC 196209P	SUB MAJ	SHISHU PAL SINGH MUHAL	1/10/2004
<u>THE RAJPUT REGIMENT</u>				
108	JC 205111L	SUB MAJ	ANOP SINGH	1/1/2005
109	JC 178257M	SUB MAJ	HAURAM SINGH	1/10/2004
110	JC 169163N	SUB MAJ	MOHINDER SINGH	1/1/2005
111	JC 193719L	SUB MAJ	MOTI RAM	1/10/2004
112	JC 183435N	SUB MAJ	NAVRANG LAL	1/12/2004
113	JC 184990N	SUB MAJ	PRITAM SINGH GHORAROP	1/12/2004
114	JC 192930N	SUB MAJ	SURENDER SINGH	1/11/2004
<u>THE JAT REGIMENT</u>				
115	JC 181835F	SUB MAJ	AZAD SINGH	1/11/2004
<u>THE SIKH LIGHT INFANTRY</u>				
116	JC 203725P	SUB MAJ	LAKHWINDER SINGH	1/11/2004
117	JC 194613L	SUB MAJ	TIRATH SINGH	1/11/2004
<u>THE GARHWAL RIFLES</u>				
118	JC 205213F	SUB MAJ	BHAJAN SINGH RAWAT	1/10/2004
119	JC 176329M	SUB MAJ	SATENDRA SINGH NEGI	1/1/2005
<u>THE KUMAON REGIMENT</u>				
120	JC 193006A	SUB MAJ	AN SINGH	1/10/2004
121	JC 172596W	SUB MAJ	TIKA RAM PANDEY	1/1/2005

122	JC 183054M	SUB MAJ	TRILOK SINGH	1/10/2004
<u>THE ASSAM REGIMENT</u>				
123	JC 178636H	SUB MAJ	DALKHOHEN	1/11/2004
124	JC 178958H	SUB MAJ	KS CHINGRI	1/1/2005
<u>THE BIHAR REGIMENT</u>				
125	JC 558163F	SUB MAJ	JANG SINGH	1/12/2004
126	JC 558238N	SUB MAJ	NAGENDRA NATH SAHA	1/10/2004
127	JC 194684M	SUB MAJ	SOHRAI LAL YADAV	1/10/2004
<u>THE MAHAR REGIMENT</u>				
128	JC 168594N	SUB MAJ	CHANDU RAM	1/10/2004
129	JC 178312X	SUB MAJ	KEDAR SINGH	1/11/2004
130	JC 185851W	SUB MAJ	NARESH CHANDRA	1/12/2004
131	JC 176403H	SUB MAJ	SARWAN SINGH	1/10/2004
<u>THE JAMMU AND KASHMIR RIFLES</u>				
132	JC 578193A	SUB MAJ	GIRDHARI LAL NARWAL	1/1/2005
133	JC 196911A	SUB MAJ	KASHMIR CHAND	1/9/2004
134	JC 205720P	SUB MAJ	RANJIT SINGH RANA	1/11/2004
135	JC 188559M	SUB MAJ	RASHID MOHD	1/12/2004
<u>1 GORKHA RIFLES</u>				
136	JC 196626F	SUB MAJ	GOVIND BAHADUR GURUNG	1/10/2004
<u>3 GORKHA RIFLES</u>				
137	JC 205377X	SUB MAJ	MADAN SINGH	1/11/2004
<u>4 GORKHA RIFLES</u>				
138	JC 184495P	SUB MAJ	DILLI RAJ PUN	1/12/2004
<u>5 GORKHA RIFLES</u>				
139	JC 224593A	SUB MAJ	BISHNU PRASAD PUN	1/1/2005
140	JC 205797X	SUB MAJ	RAM BAHADUR ALE MAGER	1/10/2004
<u>8 GORKHA RIFLES</u>				
141	JC 178333N	SUB MAJ	PREM BAHADUR GURUNG	1/10/2004
<u>11 GORKHA RIFLES</u>				
142	JC 175483Y	SUB MAJ	RAN BAHADUR RAI	1/10/2004
<u>ARMY SERVICE CORPS(SOUTH)</u>				
143	JC 214676X	SUB MAJ	ANAND RAM	1/1/2005
144	JC 213635F	SUB MAJ	DAL CHAND	1/11/2004
145	JC 208951W	SUB MAJ	HARDIAL SINGH SANDHU	1/9/2004
146	JC 640172P	SUB MAJ	JAGADISH CHANDER	1/10/2004
147	JC 213580H	SUB MAJ	KRISHNAN KUTTY NARI P N	1/10/2004
148	JC 208987P	SUB MAJ	MANDIP SINGH	1/12/2004
149	JC 640184K	SUB MAJ	MUNESHWAR SINGH	1/11/2004
150	JC 640169P	SUB MAJ	MUNI VENKATA	1/10/2004
151	JC 208996W	SUB MAJ	RADHA MOHAN RAI	1/12/2004
152	JC 208990P	SUB MAJ	SIBRATAN DAS	1/9/2004
153	JC 640166F	SUB MAJ	SUDHAKARAN POONTHOTTATHIL	1/9/2004

154	JC 213432X	SUB MAJ	SUJAN SINGH	
155	JC 640021W	SUB MAJ	VIJAYANATHAN NAIR K	1/12/2004
ARMY MEDICAL CORPS				
156	JC 690074L	SUB MAJ	AMAR SINGH CHUNDAWAT	
157	JC 690770H	SUB MAJ	BHAGWAN SINGH RAWAT	1/11/2004
158	JC 690386F	SUB MAJ	BIBHUTI BUSHAN RAY	1/1/2005
159	JC 691566W	SUB MAJ	GURDEV SINGH	1/12/2004
160	JC 691481A	SUB MAJ	INDRA JIT SINGH	1/11/2004
161	JC 690560H	SUB MAJ	KASHMIRI LAL	1/12/2004
162	JC 691394M	SUB MAJ	MARI SETTY PUNDAREEKAT SHUDU	1/11/2004
163	JC 690525A	SUB MAJ	PATKARI KISHAN	1/11/2004
164	JC 690064F	SUB MAJ	PRITHVI SINGH YADAV	1/9/2004
165	JC 690382L	SUB MAJ	RANVIR SINGH	1/10/2004
166	JC 690184A	SUB MAJ	SATYAVEER SINGH	1/1/2005
167	JC 691047N	SUB MAJ	SURENDRA NATH TIWARI	1/10/2004
168	JC 690332A	SUB MAJ	SURENDRA PRASAD SINGH	1/11/2004
169	JC 690134P	SUB MAJ	SURJIT RAM	1/9/2004
170	JC 690062W	SUB MAJ	SWAPAN KUMAR DEBNATH	1/11/2004
171	JC 691074X	SUB MAJ	TEK BAHADUR KHADKA	1/1/2005
172	JC 691000H	SUB MAJ	UMA SHANKAR RAY	1/9/2004
ARMY ORDNANCE CORPS				
173	JC 213309Y	SUB MAJ	DIBAKAR BISOI	
174	JC 217474F	SUB MAJ	KUNWAR SINGH	1/9/2004
175	JC 212235H	SUB MAJ	MAHESH SINGH	1/9/2004
176	JC 221605Y	SUB MAJ	RAM BILAS RAM	1/9/2004
177	JC 722114X	SUB MAJ	SHARDUL CHANDER	1/9/2004
178	JC 213142A	SUB MAJ	SUKHDEV SINGH	1/12/2004
CORPS OF ELECTRICAL AND MECHANICAL ENGINEERS				
179	JC 182324K	SUB MAJ	BADURE VITHOBA GURABAL	
180	JC 182319Y	SUB MAJ	BIRDHILAL SUMAN	1/11/2004
181	JC 181125K	SUB MAJ	DALIP KUMAR CHATTOPADHYAY	1/11/2004
182	JC 182328A	SUB MAJ	DAYARAM SINGH KUSHWAHA	1/11/2004
183	JC 202186X	SUB MAJ	HAR NARIAN DASS	1/1/2005
184	JC 182321W	SUB MAJ	MATA DEEN	1/11/2004
185	JC 749015Y	SUB MAJ	PAVITHRA KUMAR MOHAN C	1/10/2004
186	JC 181635L	SUB MAJ	PRADEEP KUMAR SHARMA	1/9/2004
187	JC 181570H	SUB MAJ	PREM SINGH SHAH	1/10/2004
188	JC 181116H	SUB MAJ	RAM KRUT RAM	1/12/2004
189	JC 182403Y	SUB MAJ	RAMA SHANKAR SINGH	1/10/2004
190	JC 176153M	SUB MAJ	RATTAN SINGH	1/11/2004
191	JC 181620H	SUB MAJ	RAVEENDRAN K V	1/10/2004
192	JC 218775X	SUB MAJ	SURENDRA NATH PANDEY	1/10/2004
193	JC 176157H	SUB MAJ	SWARN SINGH	1/12/2004
THE INTELLIGENCE CORPS				
194	JC 183260W	SUB MAJ	BHANWAR SINGH RATHORE	
195	JC 195516A	SUB MAJ	PRITHU RAJ GURUNG	1/11/2004
196	JC 191208H	SUB MAJ	RAMESH SINGH	1/11/2004
197	JC 195509K	SUB MAJ	SHETKAR SURYAKANT	1/11/2004
CORPS OF MILITARY POLICE				
198	JC 214536L	SUB MAJ	KHUDI RAM BISWAS	
199	JC 197632F	SUB MAJ	PEMA RAM	1/1/2005
200	JC 197643N	SUB MAJ	PREM CHAND SINGH	1/11/2004
201	JC 192008Y	SUB MAJ	VIJAY KUMAR SHARMA	1/12/2004
				1/11/2004

ARMY PHYSICAL TRAINING CORPS

202	JC	174222Y	SUB MAJ	VIJAY KUMAR VASHISHAT	1/12/2004
-----	----	---------	---------	-----------------------	-----------

THE PIONEER CORPS

203	JC	192392L	SUB MAJ	BHOSALE SURYAKANT BHIMRAO	1/9/2004
204	JC	188774X	SUB MAJ	HARI SHANKAR	1/1/2005

DEFENCE SECURITY CORPS

205	JC	160006A	SUB MAJ	A PETER	1/9/2004
206	JC	138463N	SUB MAJ	HEM SINGH	1/12/2004
207	JC	168977A	SUB MAJ	SHIB KUMAR	1/12/2004

TO BE HONORARY RISALDAR/SUBEDAR MAJOR**ARMOURED CORPS**

1	JC	236465P	RIS	ADITYA KUMAR MOHAPATRA	1/1/2005
2	JC	237240Y	RIS	AJIT SINGH	1/1/2005
3	JC	236500M	RIS	AMAR PAL SINGH	1/9/2004
4	JC	238999Y	RIS	AMI LAL BHASKAR	1/12/2004
5	JC	238943M	RIS	ANAND SINGH	1/9/2004
6	JC	236907H	RIS	ARJUN SINGH	1/11/2004
7	JC	238527H	RIS	ASHOK KUMAR	1/10/2004
8	JC	238283A	RIS	ASHOK KUMAR SHARMA	1/12/2004
9	JC	238474P	RIS	AWADASH SINGH	1/10/2004
10	JC	238444X	RIS	BABU LAL	1/9/2004
11	JC	237737W	RIS	BAHADUR SINGH	1/1/2005
12	JC	238882A	RIS	BAHADUR SINGH	1/11/2004
13	JC	236995K	RIS	BALBIR SINGH	1/11/2004
14	JC	237972P	RIS	BALBIR SINGH	1/11/2004
15	JC	236812H	RIS	BALDEV SINGH	1/10/2004
16	JC	237129P	RIS	BALDEV SINGH	1/12/2004
17	JC	238958P	RIS	BALDEV SINGH	1/10/2004
18	JC	236575K	RIS	BALJIT SINGH	1/11/2004
19	JC	237489L	RIS	BALKAR SINGH	1/10/2004
20	JC	237038L	RIS	BAI RAJ SINGH	1/12/2004
21	JC	236716N	RIS	BAI WINDER SINGH	1/10/2004
22	JC	237472X	RIS	BALWINDER SINGH	1/9/2004
23	JC	237746X	RIS	BESRIA LAL	1/1/2005
24	JC	237654L	RIS	BHIM SINGH	1/9/2004
25	JC	237696X	RIS	BHULLA SINGH	1/1/2005
26	JC	236300W	RIS	BHUNESHWAR	1/10/2004
27	JC	237772Y	RIS	BHURA RAM CHAUDHARY	1/1/2005
28	JC	237655N	RIS	BIDHI CHAND KATOCH	1/12/2004
29	JC	237462N	RIS	BIHARI SINGH	1/10/2004
30	JC	238653P	RIS	BRAHAM PARKASH	1/9/2004
31	JC	236942L	RIS	BRIJ NARAYAN RAM	1/9/2004
32	JC	236927W	RIS	C S NAIR T N	1/12/2004
33	JC	237243M	RIS	CHAIN SINGH	1/12/2004
34	JC	238161W	RIS	CHANDER BHAN	1/1/2005
35	JC	235820P	RIS	CHANDER BHAN LAMBA	1/11/2004
36	JC	237856M	RIS	CHANDGI RAM	1/9/2004
37	JC	238386Y	RIS	CHIMAN LAL YADAVA	1/10/2004
38	JC	238679K	RIS	CHOON SINGH	1/11/2004
39	JC	239066W	RIS	DALBIR SINGH	1/1/2005
40	JC	237213P	RIS	DALJIT SINGH	1/11/2004

41	JC	237433Y	RIS	DAMBER KUMAR BHUJEL	1/9/2004
42	JC	236935P	RIS	DARSHAN SINGH	1/10/2004
43	JC	238227F	RIS	DAYA NAND	1/9/2004
44	JC	236791X	RIS	DEO MUNI PRASAD	1/12/2004
45	JC	237878L	RIS	DES RAJ SAMIYAL	1/10/2004
46	JC	237656W	RIS	DESH RAJ	1/11/2004
47	JC	238151M	RIS	DEV NARAIN SINGH	1/1/2005
48	JC	238385W	RIS	DHANTTAR SINGH	1/12/2004
49	JC	237119L	RIS	DHARAM PAUL	1/12/2004
50	JC	236924H	RIS	DHARAM SINGH	1/12/2004
51	JC	238727Y	RIS	DILBAG SINGH LOHIA	1/12/2004
52	JC	237138W	RIS	DINESH KUMAR SINGH	1/10/2004
53	JC	237916W	RIS	DIWAKAR PRASAD SINGH	1/9/2004
54	JC	237447Y	RIS	GARJARAM SHARMA	1/9/2004
55	JC	235670K	RIS	GEE VARGHESE K	1/9/2004
56	JC	237662K	RIS	GHANSHAYAM SINGH THAKUR	1/9/2004
57	JC	237705N	RIS	GIRDHARI SINGH BHATI	1/11/2004
58	JC	237422M	RIS	GULZAR SINGH	1/1/2005
59	JC	238622P	RIS	GURMAIL SINGH	1/10/2004
60	JC	237030Y	RIS	GURWANT SINGH	1/12/2004
61	JC	237663M	RIS	HARBANS SINGH	1/9/2004
62	JC	238282X	RIS	HARBHAJAN SINGH	1/12/2004
63	JC	238318L	RIS	HARBHAJAN SINGH	1/11/2004
64	JC	237958H	RIS	HARBIR SINGH	1/9/2004
65	JC	235757L	RIS	HARI CHARAN SANTRA	1/9/2004
66	JC	237423P	RIS	HARJINDER SINGH	1/9/2004
67	JC	236366M	RIS	HARUN ALI KHAN	1/1/2005
68	JC	237666A	RIS	HAWA SINGH	1/9/2004
69	JC	237143F	RIS	HEM RAJ	1/10/2004
70	JC	238230F	RIS	HEM SINGH SIYAK	1/10/2004
71	JC	239065N	RIS	INDER PAL SINGH	1/11/2004
72	JC	237788K	RIS	INDRA SINGH	1/9/2004
73	JC	237777X	RIS	INDRAJ SINGH	1/10/2004
74	JC	237175K	RIS	JAGDISH CHAND	1/10/2004
75	JC	237272F	RIS	JAGDISH SINGH	1/9/2004
76	JC	238871N	RIS	JAGMOHAN SINGH	1/1/2005
77	JC	238019M	RIS	JASBINDER SINGH JASWAL	1/9/2004
78	JC	236643M	RIS	JASHWANT LAL KEWAT	1/10/2004
79	JC	236702N	RIS	JASWANT SINGH	1/11/2004
80	JC	236571N	RIS	JASWINDER SINGH	1/10/2004
81	JC	237783L	RIS	JAWAHAR LAL	1/1/2005
82	JC	236859N	RIS	JHARMAL SINGH	1/10/2004
83	JC	236041Y	RIS	JOGINDER SINGH KANDOLA	1/9/2004
84	JC	237617X	RIS	JOY K J	1/10/2004
85	JC	237403F	RIS	KAMAL SINGH	1/9/2004
86	JC	238713Y	RIS	KAMAL SINGH	1/10/2004
87	JC	238164K	RIS	KAMALJEET SINGH	1/9/2004
88	JC	238128Y	RIS	KARAMVIR SINGH	1/10/2004
89	JC	237743K	RIS	KIRANPAL SINGH	1/1/2005
90	JC	238829P	RIS	KRISHAN KUMAR	1/1/2005
91	JC	204554A	RIS	KRISHAN LAL	1/9/2004
92	JC	237071H	RIS	KRISHNA NAND SRIVASAVA	1/1/2005
93	JC	236029X	RIS	KRISHNAN T	1/11/2004
94	JC	237039N	RIS	KULDIP SINGH	1/1/2005
95	JC	237984K	RIS	L S RANDHAWA	1/12/2004
96	JC	235988F	RIS	LALAN SINGH	1/10/2004
97	JC	238106A	RIS	M DEVANDRAN	1/10/2004
98	JC	237735L	RIS	MAHABIR SINGH	1/11/2004
99	JC	238180F	RIS	MAHABIR SINGH	1/1/2005

100	JC	237572H	RIS	MAHAVIR SINGH NUGYAL	1/10/2004
101	JC	236990L	RIS	MAHENDRA SINGH	1/10/2004
102	JC	237501F	RIS	MAN SINGH RATHORE	1/10/2004
103	JC	237902W	RIS	MANOGARAN R	1/10/2004
104	JC	238750M	RIS	MARCHHU RAM	1/12/2004
105	JC	238012H	RIS	MD NOOR HAQUE SEIKH	1/9/2004
106	JC	238539X	RIS	MOHAR SINGH	1/11/2004
107	JC	238554M	RIS	MOHD ILIYAS	1/12/2004
108	JC	238140A	RIS	MOHD KASIM	1/10/2004
109	JC	237309X	RIS	MOHINDER SINGH	1/11/2004
110	JC	238525X	RIS	MOHINDER SINGH	1/9/2004
111	JC	237199N	RIS	MOHINDER SINGH CHAUHAN	1/10/2004
112	JC	238688L	RIS	NAFE SINGH	1/10/2004
113	JC	237219W	RIS	NAND LAL	1/12/2004
114	JC	238661N	RIS	NANDLAL RAM	1/11/2004
115	JC	238109N	RIS	NARESH KUMAR	1/9/2004
116	JC	238182M	RIS	NARESH KUMAR	1/11/2004
117	JC	237935F	RIS	NARINDER KUMAR	1/12/2004
118	JC	236310A	RIS	NARINDER SINGH	1/10/2004
119	JC	237894H	RIS	NATTHI SINGH TOMER	1/10/2004
120	JC	238660L	RIS	NEHRU LAL	1/11/2004
121	JC	238933H	RIS	NIRANJAN KUMAR GAIN	1/9/2004
122	JC	236719F	RIS	OM PRAKASH	1/11/2004
123	JC	236899P	RIS	OM PRAKASH	1/10/2004
124	JC	237114M	RIS	OMKAR SINGH BHADOURIA	1/9/2004
125	JC	236376W	RIS	PAIP SINGH	1/9/2004
126	JC	237971M	RIS	PARMINDER SINGH	1/1/2005
127	JC	238746K	RIS	PAWAN KUMAR TIWARY	1/9/2004
128	JC	238123A	RIS	PITAM SINGH	1/11/2004
129	JC	236779W	RIS	PRABHU RAM MANGAWA	1/10/2004
130	JC	236344N	RIS	PREM PRAKASH	1/1/2005
131	JC	237018X	RIS	PREM SINGH RATHORE	1/10/2004
132	JC	237901N	RIS	PRITAM SINGH	1/1/2005
133	JC	237986P	RIS	PRITIPAL SINGH	1/12/2004
134	JC	237960A	RIS	PURAN MAL	1/11/2004
135	JC	236333F	RIS	PYARE LAL VERMA	1/9/2004
136	JC	236501P	RIS	RADHAKRISHNAN NAIR C	1/9/2004
137	JC	236334K	RIS	RAGHUBIR SINGH	1/10/2004
138	JC	238238N	RIS	RAJ KUMAR SINGH	1/11/2004
139	JC	237316N	RIS	RAJ PAL	1/9/2004
140	JC	238466W	RIS	RAJBIR SINGH CHAHAR	1/9/2004
141	JC	237461L	RIS	RAJENDER SINGH SHEKHAWAT	1/9/2004
142	JC	237260M	RIS	RAJENDRA SINGH	1/11/2004
143	JC	237493N	RIS	RAJENDRAN K S	1/10/2004
144	JC	238149P	RIS	RAJPAL TEK BHADUR	1/10/2004
145	JC	237556L	RIS	RAM AWATAR	1/1/2005
146	JC	237640L	RIS	RAM BALI PRASAD SINGH	1/10/2004
147	JC	238374K	RIS	RAM CHARAN SINGH	1/9/2004
148	JC	236288A	RIS	RAM CHARITRA SINGH	1/9/2004
149	JC	236311H	RIS	RAM DARASH YADAVA	1/11/2004
150	JC	237320W	RIS	RAM GOPAL SINGH	1/12/2004
151	JC	238319N	RIS	RAM KARAN	1/9/2004
152	JC	238295P	RIS	RAM KISHAN	1/11/2004
153	JC	237259X	RIS	RAM PHAL	1/10/2004
154	JC	237987X	RIS	RAMACHANDRAN NAIR V K	1/9/2004
155	JC	236948M	RIS	RAMBACHAN YADAV	1/11/2004
156	JC	238776F	RIS	RAMDEO BHAKAR	1/12/2004
157	JC	236844L	RIS	RAMESH CHAND BHADIAR	1/10/2004

158	JC	238659W	RIS	RAMESH CHAND YADAVA	1/11/2004
159	JC	237787F	RIS	RAMESH CHANDER	1/10/2004
160	JC	238571M	RIS	RAMESH CHANDER	1/1/2005
161	JC	237691Y	RIS	RAMESH CHANDRA	1/11/2004
162	JC	237621A	RIS	RANJIT SINGH	1/1/2005
163	JC	237283N	RIS	RANVIR SINGH	1/9/2004
164	JC	237664P	RIS	RATAN LAL	1/11/2004
165	JC	238168A	RIS	RATAN SINGH	1/12/2004
166	JC	238039A	RIS	RAUT RAMAN KISAN	1/10/2004
167	JC	237570X	RIS	RAVIKARAN SINGH PANWAR	1/10/2004
168	JC	237816L	RIS	RETHI KUMAR B	1/11/2004
169	JC	237897W	RIS	ROHTASH SINGH DALAL	1/10/2004
170	JC	238475X	RIS	ROMESH CHAND	1/1/2005
171	JC	237488H	RIS	ROOP LAL	1/9/2004
172	JC	238049K	RIS	RULDA SINGH	1/11/2004
173	JC	237899F	RIS	S MUTHU	1/12/2004
174	JC	238228K	RIS	SAHAB RAM	1/10/2004
175	JC	236258H	RIS	SAHADEVAN T	1/9/2004
176	JC	237795A	RIS	SAMUNDER SINGH	1/9/2004
177	JC	235959M	RIS	SANT SINGH	1/9/2004
178	JC	237443H	RIS	SANTHOSH KUMAR	1/1/2005
179	JC	238449W	RIS	SANTOSH KUMAR	1/10/2004
180	JC	236720W	RIS	SAR BACHAN SINGH	1/11/2004
181	JC	237019A	RIS	SARWAR SINGH	1/9/2004
182	JC	237821W	RIS	SAT BIR SINGH	1/12/2004
183	JC	236845N	RIS	SATINDER CHAND	1/11/2004
184	JC	237650P	RIS	SATISH CHANDER	1/11/2004
185	JC	237473A	RIS	SATVIR SINGH MALIK	1/10/2004
186	JC	237675F	RIS	SATYAPAL SINGH	1/9/2004
187	JC	236463K	RIS	SAVY VEERANNA	1/10/2004
188	JC	237468P	RIS	SHAM LAL	1/11/2004
189	JC	238114Y	RIS	SHAMBHU NATH SINGH	1/9/2004
190	JC	238555P	RIS	SHANKAR SINGH	1/12/2004
191	JC	236900Y	RIS	SHER SINGH NASSAR	1/1/2005
192	JC	236270K	RIS	SHIROMANI SINGH	1/9/2004
193	JC	237917Y	RIS	SHIV SHANKER	1/9/2004
194	JC	238691L	RIS	SHRI PANCH SINGH YADAV	1/11/2004
195	JC	238165M	RIS	SHRI RAM YADAV	1/1/2005
196	JC	237771W	RIS	SHYAM SINGH	1/10/2004
197	JC	237589W	RIS	SOMVIR SINGH TAXAK	1/12/2004
198	JC	238150K	RIS	SUBE SINGH	1/11/2004
199	JC	237636H	RIS	SUJENDRA SINGH	1/10/2004
200	JC	237537A	RIS	SUKHDEV SINGH	1/11/2004
201	JC	238446H	RIS	SUKHVIR SINGH SUHAG	1/10/2004
202	JC	237426H	RIS	SUKHWINDER SINGH	1/9/2004
203	JC	236895Y	RIS	SUMER SINGH	1/11/2004
204	JC	237954M	RIS	SUMER SINGH	1/10/2004
205	JC	237280A	RIS	SUNDER LAL	1/1/2005
206	JC	237035X	RIS	SUNIT SINGH	1/10/2004
207	JC	237454P	RIS	SURENDRA PAL	1/10/2004
208	JC	237639W	RIS	SURENDRA PRATAP SINGH	1/11/2004
209	JC	237992H	RIS	SURENDRAN PILLAI R	1/10/2004
210	JC	238944P	RIS	SURESH CHAND	1/10/2004
211	JC	235819A	RIS	SURESH SINGH	1/11/2004

212	JC	238665K	RIS	SURESH SINGH BHADAURIA	1/10/2004
213	JC	237181X	RIS	SURINDER KUMAR	1/1/2005
214	JC	237513W	RIS	SURINDER SINGH	1/11/2004
215	JC	236062P	RIS	TAPASH CHOWDHURY	1/9/2004
216	JC	237723W	RIS	TARA CHAND	1/11/2004
217	JC	238481L	RIS	TARAL NATHABHAI BHURA BHAI	1/9/2004
218	JC	237396W	RIS	TARLOCHAN SINGH	1/1/2005
219	JC	237658F	RIS	TARSEM LAL	1/12/2004
220	JC	238344M	RIS	TILAK RAJ	1/12/2004
221	JC	238364A	RIS	TULAN BURA GOHAIN	1/9/2004
222	JC	237250H	RIS	TULSI DASS RAINA	1/11/2004
223	JC	236734W	RIS	UDA PRATAP SINGH	1/1/2005
224	JC	237236W	RIS	VARUGHESE T G	1/12/2004
225	JC	237782H	RIS	VIJAI KUMAR	1/10/2004
226	JC	237233H	RIS	VIJAYAKUMARAN M	1/12/2004
227	JC	236989W	RIS	VIKRAM SINGH	1/9/2004
228	JC	238392M	RIS	VISHVAMBHER DAYAL	1/10/2004

REGIMENT OF ARTILLERY

229	JC	255073W	SUB	AJIT KUDCHIKAR	1/10/2004
230	JC	214921P	SUB	AJIT KUMAR SRAL	1/11/2004
231	JC	255621H	SUB	AMILAL YADAV	1/12/2004
232	JC	255039W	SUB	AMRIK SINGH	1/9/2004
233	JC	258204F	SUB	ANIL C H SARMA	1/9/2004
234	JC	214976Y	SUB	ANNA SAMUDRAM VENKATESWARLU	1/12/2004
235	JC	259880H	SUB	ARBIND SHUKLA	1/1/2005
236	JC	262045M	SUB	ARJUN SINGH	1/10/2004
237	JC	255309A	SUB	AVTAR SINGH	1/11/2004
238	JC	211897Y	SUB	BACHAN SINGH	1/10/2004
239	JC	195702W	SUB	BALBIR SINGH	1/9/2004
240	JC	255063M	SUB	BALBIR SINGH	1/9/2004
241	JC	259171N	SUB	BALBIR SINGH	1/10/2004
242	JC	259861X	SUB	BALVIR SINGH	1/10/2004
243	JC	225377Y	SUB	BALWINDER SINGH	1/1/2005
244	JC	182015F	SUB	BED PRAKASH SINGH	1/10/2004
245	JC	261109A	SUB	BHAG SINGH	1/1/2005
246	JC	258812H	SUB	CHANDERPAL SINGH CHAUHAN	1/9/2004
247	JC	257344F	SUB	DARSHAN SINGH	1/10/2004
248	JC	257801K	SUB	DARSHAN SINGH	1/10/2004
249	JC	260584K	SUB	DARSHAN SINGH	1/10/2004
250	JC	258763L	SUB	DEB BAHADUR PUN	1/10/2004
251	JC	256304N	SUB	DES RAM	1/9/2004
252	JC	255747H	SUB	DESH RAJ	1/10/2004
253	JC	260022M	SUB	DEV DUTTA YADAVA	1/12/2004
254	JC	261159L	SUB	DEV RAJ	1/12/2004
255	JC	213379X	SUB	DEVI DAYAL	1/10/2004
256	JC	261114L	SUB	DEVI SINGH RATHORE	1/1/2005
257	JC	257905L	SUB	DHARAMVIR	1/9/2004
258	JC	225275H	SUB	DINESH SHARMA	1/1/2005
259	JC	255042W	SUB	GAWAS UTTAM LAXMAN	1/10/2004
260	JC	259248L	SUB	GIAN CHAND	1/9/2004
261	JC	223305W	SUB	GOVIND SINGH	1/9/2004
262	JC	256183X	SUB	GURDIP SINGH	1/9/2004
263	JC	256916L	SUB	GURMAIL SINGH	1/12/2004
					1/1/2005

264	JC	257718M	SUB	GURNAM SINGH	1/9/2004
265	JC	257826W	SUB	HANUMANTHU KRISHNA MURTHY	1/10/2004
266	JC	255067H	SUB	HARI CHARAN	1/9/2004
267	JC	259030Y	SUB	ISHWAR DASS	1/10/2004
268	JC	257026X	SUB	JAI SINGH	1/1/2005
269	JC	256244K	SUB	JASRAM	1/1/2005
270	JC	258512F	SUB	JASWANT SINGH	1/12/2004
271	JC	262226X	SUB	K VADIVELU	1/10/2004
272	JC	260874F	SUB	KADAM DALIP SAHEHRAO	1/11/2004
273	JC	260030L	SUB	KAMAL DEV	1/12/2004
274	JC	255617A	SUB	KEHAR SINGH	1/12/2004
275	JC	260825Y	SUB	KRISHAN DASS	1/9/2004
276	JC	255943H	SUB	KRISHAN SINGH	1/1/2005
277	JC	260245K	SUB	KRISHNAN UNNI T R	1/10/2004
278	JC	262290P	SUB	KULDEEP SINGH	1/10/2004
279	JC	226532F	SUB	KUMAVAT MADHUKAR GOVINDA	1/1/2005
280	JC	256030N	SUB	LAL BUX PANDEY	1/11/2004
281	JC	225201N	SUB	LALLU PRASAD SHAH	1/12/2004
282	JC	259394L	SUB	LEKH RAJ	1/1/2005
283	JC	226284W	SUB	MADHAVARAO SUSUMANA	1/10/2004
284	JC	2588440H	SUB	MADHUSUDAN SINHA	1/10/2004
285	JC	199065H	SUB	MAHA SINGH YADAV	1/10/2004
286	JC	257664W	SUB	MAHABIR SINGH SEHLONGIA	1/12/2004
287	JC	257844Y	SUB	MAHADEV HUKKERI	1/1/2005
288	JC	257920A	SUB	MAJOR SINGH	1/10/2004
289	JC	255184N	SUB	MAN SINGH	1/1/2005
290	JC	258589K	SUB	MOHAI PAL SINGH	1/12/2004
291	JC	257700W	SUB	MOHAN SINGH	1/1/2005
292	JC	255315N	SUB	MOHINDER SINGH	1/11/2004
293	JC	258787P	SUB	MOHINDER SINGH	1/11/2004
294	JC	258282Y	SUB	MORE VILAS KRISHNARAO	1/10/2004
295	JC	226021X	SUB	MUKHTAR SINGH	1/11/2004
296	JC	255021A	SUB	MUKUL KUMAR GHOSH	1/1/2005
297	JC	257852X	SUB	N CHANDRA MOHAN	1/10/2004
298	JC	257543P	SUB	NANDA LAL THAPA	1/10/2004
299	JC	257110X	SUB	NANDIGAMA PRASAD	1/10/2004
300	JC	226821W	SUB	NARENDRA NATH TIWARI	1/11/2004
301	JC	257732Y	SUB	NARINJAN SINGH	1/10/2004
302	JC	255489N	SUB	NAVIN CHANDRA	1/1/2005
303	JC	261683Y	SUB	NETER SINGH VERMA	1/1/2005
304	JC	255488L	SUB	NIRANJAN SINGH YADAV	1/1/2005
305	JC	256552K	SUB	OM PARKASH SONKAL	1/9/2004
306	JC	260578W	SUB	PARAMJIT SINGH	1/11/2004
307	JC	255368M	SUB	PARSHAN SINGH	1/9/2004
308	JC	257177W	SUB	PARWANT SINGH JAMWAL	1/9/2004
309	JC	226705N	SUB	PATIL BABU BANDU	1/12/2004
310	JC	256010A	SUB	PATIL DNYANESHWAR VITHAL	1/10/2004
311	JC	226819Y	SUB	PIAR CHAND	1/1/2005
312	JC	255669W	SUB	PRITHVI SINGH	1/12/2004
313	JC	261646L	SUB	PURSHOTTAM SINGH	1/10/2004
314	JC	259132P	SUB	R THANGARAJU	1/1/2005
315	JC	226817N	SUB	RACHHPAL SINGH	1/9/2004
316	JC	256292K	SUB	RAJ SINGH	1/1/2005
317	JC	214902K	SUB	RAJENDRA KUMAR YADAV	1/10/2004

318	JC	260423F	SUB	RAJENDRA PRASAD YADAVA	1/11/2004
319	JC	260192W	SUB	RAM LACHAN	1/10/2004
320	JC	257847M	SUB	RAM NIWAS YADAV	1/10/2004
321	JC	225690K	SUB	RAMAPPA MAIGUR	1/12/2004
322	JC	200364W	SUB	RAMESH CHANDER	1/1/2005
323	JC	257836A	SUB	RAMESH SINGH	1/12/2004
324	JC	260751P	SUB	RANI DAN SINGH RATHORE	1/1/2005
325	JC	200196H	SUB	RANVIR SINGH	1/11/2004
326	JC	257114N	SUB	RANVIR SINGH	1/12/2004
327	JC	256251A	SUB	RAVENDRAN NAIR R	1/10/2004
328	JC	256965N	SUB	REMANTA BRAHMA	1/9/2004
329	JC	259300H	SUB	ROSHAN LAL	1/10/2004
330	JC	260569P	SUB	SADANANDAN P	1/1/2005
331	JC	260104P	SUB	SAGAR M C	1/10/2004
332	JC	259408A	SUB	SAHADEVAN T K	1/12/2004
333	JC	198735M	SUB	SAJJAN SINGH	1/1/2005
334	JC	256720X	SUB	SAMSHER SINGH	1/9/2004
335	JC	255533M	SUB	SARUP SINGH	1/9/2004
336	JC	225495M	SUB	SAWANT TUKARAM DADA	1/10/2004
337	JC	257593A	SUB	SAWARANJIT SINGH	1/11/2004
338	JC	257125A	SUB	SHAIK KHADER YALI	1/1/2005
339	JC	262185Y	SUB	SHAIK SATTAR	1/12/2004
340	JC	261978P	SUB	SHIV CHARN SINGH	1/1/2005
341	JC	258291A	SUB	SHRI RAM	1/10/2004
342	JC	258963F	SUB	SHRI RAMAN DUBEY	1/1/2005
343	JC	256319W	SUB	SUBASH CHANDER	1/9/2004
344	JC	261708A	SUB	SUDARSANA KUMAR S G	1/12/2004
345	JC	257347P	SUB	SUKHWINDER SINGH	1/11/2004
346	JC	215382W	SUB	SURINDER SINGH MADADH	1/11/2004
347	JC	255414W	SUB	SURJIT SINGH	1/12/2004
348	JC	256914A	SUB	TARA CHAND	1/12/2004
349	JC	259073N	SUB	TERSEM LAL SAINI	1/10/2004
350	JC	256463L	SUB	TILAK RAM	1/1/2005
351	JC	259446W	SUB	V RAMAKRISHNAN	1/11/2004
352	JC	261369L	SUB	V S V SANTIAGE	1/1/2005
353	JC	257710A	SUB	VIJAY BAHADUR SINGH	1/10/2004
354	JC	260986F	SUB	VIJAY KUMAR	1/12/2004
355	JC	225429K	SUB	VIJENDER KUMAR YADAV	1/10/2004
356	JC	221218K	SUB	YASHWANT SINGH YADAV	1/10/2004

CORPS OF AIR DEFENCE ARTILLERY

357	JC	296228P	SUB	A GLADWYN GOKILA DOSS	1/10/2004
358	JC	296370Y	SUB	CHEEL SINGH RAJPUT	1/9/2004
359	JC	200350W	SUB	DHARAMBIR YADAV	1/10/2004
360	JC	296516F	SUB	DIN DAYAL PANDEY	1/9/2004
361	JC	226328H	SUB	HARI SHARAN SINGH	1/11/2004
362	JC	297308Y	SUB	HOSHIAR SINGH	1/10/2004
363	JC	296837Y	SUB	KAILASH CHAND	1/11/2004
364	JC	297205A	SUB	KUNDAN LAL	1/12/2004
365	JC	296432N	SUB	MEHAR SINGH HERA	1/1/2005
366	JC	296295A	SUB	NAMBURI BANGARU RAO	1/12/2004
367	JC	186651M	SUB	OMVIR SINGH	1/10/2004
368	JC	296947N	SUB	PIARE LAL	1/9/2004
369	JC	255722W	SUB	PIRAM BHAGT SHARMA	1/9/2004

370	JC	296325M	SUB	PRITAM SINGH	1/10/2004
371	JC	224607P	SUB	RAJ KUMAR	1/11/2004
372	JC	296319Y	SUB	RAJENDER SINGH	1/10/2004
373	JC	296525H	SUB	RAJENDER SINGH	1/10/2004
374	JC	296924M	SUB	RAM BAHADUR	1/10/2004
375	JC	297769H	SUB	RAM KISHAN	1/10/2004
376	JC	226695P	SUB	RAMESH CHANDRA	1/10/2004
377	JC	297039X	SUB	RATTAN SINGH	1/9/2004
378	JC	296894A	SUB	SHIVBIR SINGH JADAN	1/9/2004
379	JC	226691Y	SUB	SUBASH CHANDER	1/1/2005
380	JC	215350N	SUB	SUKHDEV SINGH	1/9/2004

MADRAS ENGINEER GROUP

381	JC	305575X	SUB	A ESUVANDA NIDHI	1/11/2004
382	JC	219379N	SUB	A RAMU	1/9/2004
383	JC	207496M	SUB	ASOKAN G	1/11/2004
384	JC	219330X	SUB	BALAN K V	1/9/2004
385	JC	305120F	SUB	GOPAKUMAR K G	1/1/2005
386	JC	306144X	SUB	J LAXMAIAH	1/9/2004
387	JC	305924W	SUB	K JAGANNATHAN	1/9/2004
388	JC	305426K	SUB	K SADAIYAPPAN	1/12/2004
389	JC	305979A	SUB	KURIAKOSE P T	1/9/2004
390	JC	219334N	SUB	MANI M	1/12/2004
391	JC	305232F	SUB	MANNE RAMAKRISHNA	1/12/2004
392	JC	305992K	SUB	MUKUNDAN NAIR V	1/1/2005
393	JC	305760L	SUB	N CHANDRA SEGARAN	1/11/2004
394	JC	305759W	SUB	N MUNIYANDI	1/10/2004
395	JC	306608K	SUB	NAGARAJA D	1/10/2004
396	JC	177321M	SUB	P BILAVENDRAN JOHN	1/12/2004
397	JC	306100A	SUB	P RETHINAM	1/1/2005
398	JC	197022P	SUB	R ANANDAN	1/12/2004
399	JC	210332F	SUB	R SWAMINATHAN	1/9/2004
400	JC	219422K	SUB	RAJAN G L	1/12/2004
401	JC	305519Y	SUB	RAJENDRA REDDY	1/12/2004
402	JC	215708F	SUB	S ARUMUGAM	1/12/2004
403	JC	305060X	SUB	SASIDHARAN K K	1/9/2004
404	JC	305993M	SUB	SASIDHARAN PILLAI	1/1/2005
405	JC	305974F	SUB	SHAJAN G	1/9/2004
406	JC	305941W	SUB	SUNNY PV	1/10/2004
407	JC	181758X	SUB	THOMAS P S	1/12/2004
408	JC	219375X	SUB	THOMAS T T	1/1/2005
409	JC	306465P	SUB	THULASI M	1/9/2004
410	JC	438513M	SUB	V T MATHEW	1/9/2004
411	JC	305954N	SUB	VINAYAGAM G	1/12/2004

BENGAL ENGINEER GROUP

412	JC	326403W	SUB	ABDULALI MUSALIARAKATH	1/1/2005
413	JC	325248N	SUB	AJAI KUMAR SINGH	1/11/2004
414	JC	326655H	SUB	AMAL CHANDRA DAS	1/10/2004
415	JC	179856Y	SUB	AMAR SINGH NEGI	1/10/2004
416	JC	325416F	SUB	AMBA DUTT	1/10/2004
417	JC	325131P	SUB	ASHOK KUMAR PRADHAN	1/9/2004
418	JC	325216L	SUB	AVTAR SINGH	1/9/2004
419	JC	325240F	SUB	BAHADUR RAM	1/10/2004

420	JC	325456H	SUB	BAIJ NATH SINGH	1/9/2004
421	JC	224905L	SUB	BALBIR SINGH BHATTI	1/10/2004
422	JC	325212P	SUB	BALVINDER SINGH	1/9/2004
423	JC	326076W	SUB	BALWINDER SINGH	1/11/2004
424	JC	325775P	SUB	BASANT BALLABH LOHANI	1/11/2004
425	JC	326363A	SUB	BASANT KUMAR SWAIN	1/12/2004
426	JC	326855Y	SUB	BHAGWAN SINGH RANA	1/1/2005
427	JC	210371A	SUB	BHUPAL SINGH	1/1/2005
428	JC	325444N	SUB	BHUPENDRA CHAND	1/11/2004
429	JC	325223F	SUB	BHUPINDER SINGH	1/11/2004
430	JC	202978X	SUB	BIDESH BANDHU MITRA	1/10/2004
431	JC	325213X	SUB	BINDESHWARI SINGH	1/1/2005
432	JC	326843K	SUB	BIRENDER NATH DUTTA	1/1/2005
433	JC	325258X	SUB	BIRENDER SINGH	1/11/2004
434	JC	326598M	SUB	BIRENDER SINGH	1/10/2004
435	JC	207583A	SUB	BIRENDRA SINGH SAJWAN	1/12/2004
436	JC	326376X	SUB	BRAHM DAS	1/12/2004
437	JC	325709M	SUB	BRAJ BIHARI SINGH	1/10/2004
438	JC	325573N	SUB	DALBIR SINGH	1/1/2005
439	JC	326181M	SUB	DAUD KHAN	1/10/2004
440	JC	325433F	SUB	DAYA NAND SAROHIYA	1/11/2004
441	JC	325246H	SUB	DEVENDER SINGH	1/10/2004
442	JC	210607K	SUB	DEVENDRA KUMAR SHARMA	1/1/2005
443	JC	255707F	SUB	DEVENDRA PRASAD SINGH	1/10/2004
444	JC	325256M	SUB	DEWKI NANDAN PANDEY	1/11/2004
445	JC	325211M	SUB	DHIRAJ MOHAN	1/9/2004
446	JC	325774M	SUB	DIDESH CHANDRA JUYAL	1/9/2004
447	JC	326643N	SUB	DILRAJ SINGH	1/1/2005
448	JC	327091X	SUB	DINESH PAL SINGH	1/10/2004
449	JC	325467P	SUB	GAMA SINGH	1/1/2005
450	JC	325470P	SUB	GIRISH CHANDRA	1/1/2005
451	JC	325412L	SUB	GITA RAM	1/10/2004
452	JC	325410A	SUB	GOPAL SINGH	1/10/2004
453	JC	326685A	SUB	GOVIND SINGH	1/10/2004
454	JC	327457K	SUB	GURDEV SINGH	1/9/2004
455	JC	325861A	SUB	GURNAM SINGH	1/9/2004
456	JC	210446M	SUB	HARENDRA SINGH	1/10/2004
457	JC	325245A	SUB	HARJINDER SINGH	1/10/2004
458	JC	326789F	SUB	HAYAT SINGH	1/11/2004
459	JC	326689W	SUB	HOSHIYAR SINGH	1/12/2004
460	JC	325163X	SUB	JAGAT SINGH	1/9/2004
461	JC	325209P	SUB	JAGDISH CHANDRA	1/9/2004
462	JC	326653X	SUB	JAGDISH SINGH YADAV	1/9/2004
463	JC	325451K	SUB	JARNAIL SINGH	1/9/2004
464	JC	326274F	SUB	JASPAL SINGH	1/9/2004
465	JC	325227X	SUB	JIWAN SINGH	1/9/2004
466	JC	325437X	SUB	JIWAN SINGH	1/11/2004
467	JC	326687L	SUB	JUHAR SINGH SOHAL	1/10/2004
468	JC	326104X	SUB	KARAM CHAND	1/10/2004
469	JC	210675X	SUB	KARNAIL SINGH	1/9/2004
470	JC	325217N	SUB	KASHMIR SINGH	1/9/2004
471	JC	325244X	SUB	KASHMIR SINGH	1/10/2004
472	JC	326844M	SUB	KESHAV PRASAD	1/10/2004
473	JC	179860F	SUB	KRISHNA CHANDRA SINGH	1/1/2005

474	JC	325859H	SUB	KULBANT SINGH	1/10/2004
475	JC	326587A	SUB	LAKHWINDER SINGH	1/10/2004
476	JC	325443L	SUB	MADAN SINGH BIST	1/12/2004
477	JC	325117H	SUB	MAHIPAL SINGH PANWAR	1/9/2004
478	JC	326793K	SUB	MAKSUD ALI	1/12/2004
479	JC	325464F	SUB	MAN SINGH	1/1/2005
480	JC	326682M	SUB	MEHANDER SINGH SETHI	1/10/2004
481	JC	325116A	SUB	MUNESH SINGH	1/10/2004
482	JC	325238K	SUB	NAND KISHORE KUMAR	1/10/2004
483	JC	325440X	SUB	NANDAN SINGH	1/12/2004
484	JC	325576F	SUB	NARESH KUMAR	1/1/2005
485	JC	326722H	SUB	NIRANJAN SINGH CHAIL	1/1/2005
486	JC	326237N	SUB	NIRMAL SINGH	1/9/2004
487	JC	325229H	SUB	NITYA NAND	1/10/2004
488	JC	325411H	SUB	OM PRAKASH	1/10/2004
489	JC	325224K	SUB	OM PRAKASH SINGH AROLA	1/10/2004
490	JC	326236L	SUB	PABLE VISHNU BALU	1/9/2004
491	JC	325166L	SUB	PADAM RAM	1/9/2004
492	JC	207597A	SUB	PANCHAM RAM	1/12/2004
493	JC	191602N	SUB	PATIL RAMESH DAMU	1/9/2004
494	JC	325214A	SUB	PIARA SINGH CHAHAL	1/9/2004
495	JC	325399M	SUB	PRAHALAD	1/10/2004
496	JC	326137H	SUB	PRAKASH SINGH	1/12/2004
497	JC	325257P	SUB	PRATAP SINGH	1/11/2004
498	JC	326794M	SUB	PRATAP SINGH DHAMI	1/9/2004
499	JC	202979A	SUB	PURAN SINGH KANYAL	1/9/2004
500	JC	325158M	SUB	RAGHBIR SINGH BHAU	1/9/2004
501	JC	325785Y	SUB	RAGHUBAR SINGH	1/1/2005
502	JC	325160K	SUB	RAGHUBIR SINGH	1/9/2004
503	JC	325165H	SUB	RAJ KISHORE SINGH	1/9/2004
504	JC	325427N	SUB	RAJA RAM SINGH	1/11/2004
505	JC	325463Y	SUB	RAM PRAVESH SINGH	1/12/2004
506	JC	325460L	SUB	RAMAKANTA BISWAL	1/11/2004
507	JC	210622Y	SUB	RAMENDRA NATH KIRTANIYA	1/1/2005
508	JC	325426L	SUB	RAMESH CHAND JOSHI	1/10/2004
509	JC	325436P	SUB	RANJIT SINGH	1/10/2004
510	JC	326721A	SUB	RANJIT SINGH	1/1/2005
511	JC	325784W	SUB	ROOP NATH	1/1/2005
512	JC	325421M	SUB	ROOP SINGH	1/11/2004
513	JC	326098P	SUB	RUP SINGH	1/1/2005
514	JC	326384W	SUB	SAMEY SINGH SIROHIYA	1/1/2005
515	JC	325712M	SUB	SARJEET SINGH	1/12/2004
516	JC	325242M	SUB	SHEO NAYAK SINGH	1/10/2004
517	JC	326636X	SUB	SHIV DARSHAN SINGH	1/9/2004
518	JC	325208M	SUB	SHIV DATT BHATT	1/9/2004
519	JC	210763N	SUB	SHIV KUMAR TRIVEDI	1/10/2004
520	JC	325167N	SUB	SHRI KRISHAN	1/9/2004
521	JC	209440Y	SUB	SHRI KUMAR DATTA	1/9/2004
522	JC	210405H	SUB	SIRAJUDDIN ANSARI	1/9/2004
523	JC	325423X	SUB	SUDAMA SINGH	1/10/2004
524	JC	325404M	SUB	SUDARSHAN SINGH NEGI	1/9/2004
525	JC	326692W	SUB	SUKHDEV SINGH	1/12/2004
526	JC	326709Y	SUB	SURENDER PAL SINGH RATHORE	1/9/2004
527	JC	325418M	SUB	SURINDER SINGH	1/11/2004

528	JC	326854W	SUB	TARLOCHAN SINGH	1/9/2004
529	JC	326783A	SUB	THAKUR SINGH	1/12/2004
530	JC	197216X	SUB	VEDPAL SINGH	1/10/2004
531	JC	326695K	SUB	VIJAY PRAKASH SINGH	1/1/2005
532	JC	325202L	SUB	VIRENDRA SINGH	1/10/2004
533	JC	325446Y	SUB	YASHPAL SINGH	1/12/2004
534	JC	325237F	SUB	YOGENDRA PRASAD SINGH	1/10/2004
<u>BOMBAY ENGINEER GROUP</u>					
535	JC	347459W	SUB	ALLANUR	1/11/2004
536	JC	347662M	SUB	AMRITRAO VISHWANATH PATIL	1/9/2004
537	JC	347984M	SUB	AVTAR SINGH	1/12/2004
538	JC	347673Y	SUB	BABAN CHAWAN	1/11/2004
539	JC	348105A	SUB	BAHOODDIN KHAN	1/12/2004
540	JC	348359X	SUB	BHANDARE BALASAHAB VITHOBA	1/10/2004
541	JC	347756K	SUB	CHANDRAKANT DADARAO DESHMUKH	1/10/2004
542	JC	347880L	SUB	CHAUDHARI LAXMAN JANARDHAN	1/11/2004
543	JC	347728X	SUB	GAIN SINGH	1/9/2004
544	JC	348068X	SUB	GURDIP SINGH	1/1/2005
545	JC	347771Y	SUB	GURSEWAK SINGH	1/12/2004
546	JC	347416F	SUB	HANUMANT BHAU THORAT	1/1/2005
547	JC	347807M	SUB	HARBANS SINGH	1/10/2004
548	JC	347323M	SUB	HARCHAND SINGH	1/11/2004
549	JC	347297W	SUB	HARDIP SINGH CHAHAL	1/12/2004
550	JC	348244K	SUB	HARI SINGH	1/1/2005
551	JC	203113X	SUB	KAILASH CHANDRA	1/1/2005
552	JC	199996M	SUB	KHODAVE MARUTI LAXMAN	1/10/2004
553	JC	347828H	SUB	NARINDER SINGH	1/11/2004
554	JC	347699N	SUB	NAVINDER SINGH	1/10/2004
555	JC	216106A	SUB	NIRMAL SINGH	1/9/2004
556	JC	347247L	SUB	NIRMAL SINGH	1/11/2004
557	JC	347625Y	SUB	NOOR MUHAMMAD	1/11/2004
558	JC	348236L	SUB	PAWAR ASHOK CHINDHA	1/9/2004
559	JC	348248A	SUB	PREM SINGH	1/9/2004
560	JC	347203N	SUB	SAYYAD MOHAMMAD GULAB	1/11/2004
561	JC	347397F	SUB	SURINDER SINGH	1/9/2004
<u>CORPS OF SIGNALS</u>					
562	JC	368968H	SUB	A JAGADEESAN	1/1/2005
563	JC	367073X	SUB	AKSHAYA KUMAR SINGH	1/12/2004
564	JC	371279M	SUB	AMARENDRA SINGH	1/11/2004
565	JC	368104Y	SUB	ANAND KUMAR JAISWAL	1/12/2004
566	JC	368114H	SUB	ARUN KUMAR GOSWAMI	1/1/2005
567	JC	369677P	SUB	ASHOK KUMAR THAKUR	1/1/2005
568	JC	367691H	SUB	ASHOK KUMAR TIWARI	1/11/2004
569	JC	370122A	SUB	ASHWANI KUMAR	1/12/2004
570	JC	368337A	SUB	B K BHATTACHARJEE	1/11/2004
571	JC	221445K	SUB	BACHCHU SINGH	1/9/2004
572	JC	370454K	SUB	BALBIR SINGH RAJPUT	1/11/2004
573	JC	369663P	SUB	BALVIR SINGH	1/9/2004
574	JC	368001A	SUB	BANAMALI SETH	1/10/2004
575	JC	371077L	SUB	BASAVIAH BATTU	1/1/2005
576	JC	368827N	SUB	BHAJAN SINGH	1/1/2005
577	JC	368460Y	SUB	BHANDARI GOVIND WAMAN	1/12/2004

578	JC	370459H	SUB	BHASKARAN T	1/1/2005
579	JC	206880F	SUB	BHOOP SINGH	1/10/2004
580	JC	206882M	SUB	BHRIGU NATH YADAVA	1/11/2004
581	JC	368122F	SUB	BHUPAL DUTT	1/11/2004
582	JC	223425P	SUB	CHANDRIKA PRASAD YADAV	1/11/2004
583	JC	370618P	SUB	CHHABI LAL RANA	1/9/2004
584	JC	370118X	SUB	DALIP SINGH DEV SINGH	1/9/2004
585	JC	371705P	SUB	DURAG SINGH	1/10/2004
586	JC	371390W	SUB	FUNDI LAL	1/9/2004
587	JC	367727W	SUB	G K MUKHOPADHYAY	1/12/2004
588	JC	369525N	SUB	HARISH RAM	1/9/2004
589	JC	188326L	SUB	HARUN AL RASHID	1/1/2005
590	JC	370123H	SUB	HOM SINGH	1/12/2004
591	JC	369530Y	SUB	JAGMAL SINGH	1/1/2005
592	JC	200676M	SUB	JAI PRAKASH	1/12/2004
593	JC	369973A	SUB	JAI SINGH	1/11/2004
594	JC	367542P	SUB	JAKSHYA CHANDRA BEHERA	1/11/2004
595	JC	367067K	SUB	JANAK RAJ	1/12/2004
596	JC	367014L	SUB	JANARDAN RAM	1/10/2004
597	JC	371549W	SUB	JOGESH CHANDRA ACHAR	1/10/2004
598	JC	220651F	SUB	JONATHAN XALXO	1/12/2004
599	JC	371722P	SUB	K MANI	1/11/2004
600	JC	368154K	SUB	K SETHU MATHAVA RAMAN	1/11/2004
601	JC	220466N	SUB	KAMAL KRISHNA DAS	1/9/2004
602	JC	367070K	SUB	KAMALJEET SINGH	1/9/2004
603	JC	370119A	SUB	KAUTARAPU S R PRASAD	1/10/2004
604	JC	369242M	SUB	KESHARI PRASAD	1/9/2004
605	JC	371240A	SUB	KHEM KARAN	1/9/2004
606	JC	368531P	SUB	KHOT BALWANT GANGA RAM	1/10/2004
607	JC	370315A	SUB	LAKHBIR SINGH	1/11/2004
608	JC	206896M	SUB	LAXMAN SINGH	1/9/2004
609	JC	370619X	SUB	M SIVAGNANA PANDI	1/9/2004
610	JC	371556M	SUB	MADANA MOHAN BEHERA	1/1/2005
611	JC	371022F	SUB	MAHAJAN	1/1/2005
612	JC	371114N	SUB	MAHENDRA PRASAD	1/1/2005
613	JC	369343A	SUB	MANGE RAM	1/9/2004
614	JC	188202W	SUB	MANJIT SINGH	1/12/2004
615	JC	369974H	SUB	MARGOUB HASSAN	1/11/2004
616	JC	371400P	SUB	NARENDRA KUMAR MISHRA	1/11/2004
617	JC	369429Y	SUB	NEK SINGH RANA	1/12/2004
618	JC	369474L	SUB	NIRWAIL SINGH GILL	1/10/2004
619	JC	369116A	SUB	NRUPATI SEKHAR MISHRA	1/1/2005
620	JC	221448X	SUB	OM PRAKASH SINGH	1/11/2004
621	JC	368098W	SUB	PARTAP SINGH	1/9/2004
622	JC	370822N	SUB	PITAMBAR SINGH	1/9/2004
623	JC	368606F	SUB	PRAFULLA CHANDRA DHAL	1/12/2004
624	JC	218936P	SUB	PRAHLAD MISHRA	1/11/2004
625	JC	370433N	SUB	PRAKASH CHANDER	1/10/2004
626	JC	369346N	SUB	PRASAD K	1/10/2004
627	JC	370622X	SUB	PREM BHADUR GURUNG	1/10/2004
628	JC	368166Y	SUB	PREM BIR SINGH	1/12/2004
629	JC	370472M	SUB	PREM KUMAR YADAV	1/1/2005
630	JC	368310H	SUB	PURAN SINGH	1/1/2005
631	JC	370361P	SUB	PUSHKAR SINGH	1/11/2004

632	JC	371274N	SUB	R MONOHARAN PILLAI	1/9/2004
633	JC	371408F	SUB	RABINDRA NATH BAG	1/10/2004
634	JC	369342X	SUB	RADHAKRISHNA KURUP V R	1/9/2004
635	JC	370411P	SUB	RAI SINGH DHANKHAR	1/1/2005
636	JC	368752F	SUB	RAJAJINDER PARSHAD SHARMA	1/9/2004
637	JC	218927N	SUB	RAJARAMAN A	1/11/2004
638	JC	371275W	SUB	RAM BABU SAW	1/9/2004
639	JC	370316H	SUB	RAM PUKAR SINGH	1/12/2004
640	JC	371702F	SUB	RAM RATTAN	1/10/2004
641	JC	371283P	SUB	RAMESH KUMAR SINGH	1/12/2004
642	JC	371785X	SUB	RAMESH RAJ	1/10/2004
643	JC	368701N	SUB	RAMESH SINGH	1/9/2004
644	JC	371221P	SUB	RANJIT SINGH	1/1/2005
645	JC	206898X	SUB	RAS BIHARI SINGH	1/10/2004
646	JC	370879H	SUB	RATAN LAL	1/1/2005
647	JC	368458F	SUB	RAVEENDRAN PILLAI P K	1/9/2004
648	JC	370825F	SUB	RAVINDRA NATH TIWARI	1/12/2004
649	JC	368515X	SUB	RONENDRA BORBORA	1/10/2004
650	JC	369093K	SUB	S GANESAN	1/10/2004
651	JC	370467F	SUB	SASIDHARAN NAIR A K	1/9/2004
652	JC	368077A	SUB	SATBIR SINGH	1/11/2004
653	JC	367008X	SUB	SATISH CHAND JAISWAL	1/12/2004
654	JC	367250M	SUB	SATYAVIR MALIK	1/12/2004
655	JC	206867X	SUB	SATYENDRA NATH SATHPATHI	1/11/2004
656	JC	367891Y	SUB	SHIVAJI RUSTUM WAYAL	1/9/2004
657	JC	368185K	SUB	SHRI CHAND	1/12/2004
658	JC	371428P	SUB	SHRIRAM MISHRA	1/1/2005
659	JC	369459W	SUB	SIBARAM SAHOO	1/1/2005
660	JC	368700L	SUB	SOHAN SINGH	1/9/2004
661	JC	369503P	SUB	SONDAGE SHRIHARI BHIMAJI	1/11/2004
662	JC	372337X	SUB	SREEKUMARAN NAIR T K	1/10/2004
663	JC	371021Y	SUB	SUBODH CHANDRA BORA	1/12/2004
664	JC	371328K	SUB	SUJIT GANGULY	1/9/2004
665	JC	370477L	SUB	SUKUMARAN NAIR	1/12/2004
666	JC	370455M	SUB	SUNDER LAL KANUJIA	1/1/2005
667	JC	370485K	SUB	SURENDRA PD SINGH	1/10/2004
668	JC	367788N	SUB	SURESH CHANDRA BHATIA	1/10/2004
669	JC	223795P	SUB	SURESH KUMAR BHATTI	1/9/2004
670	JC	370624H	SUB	SURINDER SINGH	1/11/2004
671	JC	369166L	SUB	SURJEET SINGH	1/9/2004
672	JC	368891L	SUB	TARA CHAND	1/9/2004
673	JC	370314X	SUB	TARSEM CHAND	1/10/2004
674	JC	371078N	SUB	TEJ SINGH	1/1/2005
675	JC	371794Y	SUB	UDAI SINGH K	1/1/2005
676	JC	369081P	SUB	UMESH CHANDRA RAI	1/1/2005
677	JC	204440P	SUB	WAGHMARE BHASKAR GULAB	1/1/2005
678	JC	371634Y	SUB	YASH PAUL SINGH	1/10/2004
THE BRIGADE OF GUARDS					
679	JC	402354P	SUB	AJIT SINGH	1/9/2004
680	JC	402424H	SUB	AMIRTHA RAJAN JA	1/10/2004
681	JC	402420M	SUB	ANIL KUMAR THAKUR	1/12/2004
682	JC	402080P	SUB	BHAWANI DIN	1/9/2004
683	JC	402558F	SUB	BHUWAN CHANDRA	1/1/2005

684	JC	402152N	SUB	DARYA SINGH	1/1/2005
685	JC	402404P	SUB	GANGA RAM MISHRA	1/9/2004
686	JC	402391H	SUB	GURMIT SINGH	1/10/2004
687	JC	402711M	SUB	HANS RAJ	1/10/2004
688	JC	402443N	SUB	HARIDYA NAND PANDEY	1/10/2004
689	JC	402060F	SUB	JAGAN NATH	1/1/2005
690	JC	217945K	SUB	JAI SINGH YADAV	1/9/2004
691	JC	224172X	SUB	KARNAIL SINGH	1/9/2004
692	JC	402421P	SUB	KC CHACKO	1/10/2004
693	JC	402006N	SUB	MOHAN PRASAD PANDEY	1/9/2004
694	JC	402550P	SUB	MOINUL HAQUE CHOUDHURY	1/9/2004
695	JC	402495K	SUB	NEPAL SINGH	1/11/2004
696	JC	402666L	SUB	ONKAR SINGH	1/9/2004
697	JC	402234W	SUB	PATIL PANDURAN RAMCHANDRA	1/10/2004
698	JC	402361L	SUB	PAVAN KUMAR	1/9/2004
699	JC	402018H	SUB	PREM RAM	1/10/2004
700	JC	402024W	SUB	PURUSHOTHAMAN P	1/10/2004
701	JC	402484X	SUB	RAGHUBIR SINGH	1/9/2004
702	JC	402182L	SUB	RAJ MANI	1/9/2004
703	JC	402388H	SUB	RAJ NATH SINGH	1/1/2005
704	JC	402423A	SUB	RAJAN K G	1/10/2004
705	JC	402571L	SUB	RAJENDER SINGH	1/10/2004
706	JC	402592F	SUB	RAM CHAND	1/10/2004
707	JC	402081X	SUB	RAM SAHAY CHHONKAR	1/11/2004
708	JC	402450K	SUB	RISHI NARAYAN	1/10/2004
709	JC	402536H	SUB	ROSHAN LAL	1/9/2004
710	JC	402059M	SUB	S KRISHNA RAMANUJAM	1/1/2005
711	JC	216700F	SUB	SHENDAGE VASANT DATTATARAY	1/9/2004
712	JC	402671W	SUB	SITA RAM YADAV	1/10/2004
713	JC	402471A	SUB	SUDERSHAN SINGH	1/11/2004
714	JC	402492W	SUB	VJAY PAL SINGH	1/10/2004
715	JC	402557Y	SUB	VIKRAM SINGH	1/10/2004
716	JC	402137Y	SUB	VIRSA SINGH	1/9/2004
717	JC	402193X	SUB	WAGAJ VIKRAM KUNDLIK	1/10/2004

THE PARACHUTE REGIMENT

718	JC	412174A	SUB	BALWINDER SINGH	1/1/2005
719	JC	412188A	SUB	BANKE BAHADUR SINGH	1/10/2004
720	JC	412281F	SUB	BHASKER SINGH RAWAT	1/11/2004
721	JC	412039M	SUB	BRAHAM DATT YADAV	1/10/2004
722	JC	412434A	SUB	CHITRA BAHADUR THAPA	1/1/2005
723	JC	412273H	SUB	GANGA SINGH	1/10/2004
724	JC	412332K	SUB	HARI PRASAD	1/11/2004
725	JC	412037F	SUB	HARI SINGH	1/10/2004
726	JC	412187X	SUB	HA WA SINGH	1/10/2004
727	JC	412234K	SUB	JAGPAL SINGH	1/12/2004
728	JC	412163N	SUB	JAGTAR SINGH	1/10/2004
729	JC	412267P	SUB	KALI RAM THAPLIYAL	1/11/2004
730	JC	192853K	SUB	KRISHNA BAHADUR THAPA	1/10/2004
731	JC	412261N	SUB	KRISHNA PRADHAN	1/10/2004
732	JC	412222P	SUB	MAHABIR PRASAD	1/10/2004
733	JC	412149F	SUB	MAHI PAL	1/9/2004
734	JC	412077H	SUB	MEHAR BAN SINGH	1/10/2004
735	JC	412063H	SUB	PRAKASAN P P	1/10/2004

736	JC	412376F	SUB	RAM NIWAS	
737	JC	412231W	SUB	SHIV RAM GUJAR	1/10/2004
738	JC	185699N	SUB	SHYAM SINGH NEGI	1/10/2004
739	JC	412025M	SUB	SURAT SINGH	1/1/2005
740	JC	412232Y	SUB	SURESH KUMAR SAINI	1/10/2004

THE MECHANISED INFANTRY REGIMENT

741	JC	418449Y	SUB	AGYAPAL SINGH	1/10/2004
742	JC	418445H	SUB	AMAR SINGH	1/1/2005
743	JC	418470F	SUB	ANANDA DATTU CHAUGLE	1/10/2004
744	JC	418322W	SUB	BABRUVAN RAMCHANDRA PATIL	1/9/2004
745	JC	177498A	SUB	BALBIR SINGH	1/9/2004
746	JC	418168H	SUB	BALWANT SINGH	1/10/2004
747	JC	204605H	SUB	BEDGE REWASAHI	1/10/2004
748	JC	225977F	SUB	BHAGWAN SINGH	1/12/2004
749	JC	418643N	SUB	BHARAT SINGH	1/11/2004
750	JC	216399W	SUB	BHART BHUSHAN	1/10/2004
751	JC	418665M	SUB	BHOOR SINGH BHATI	1/1/2005
752	JC	418455M	SUB	CHAMAN LAL	1/11/2004
753	JC	418465W	SUB	CHANDER MOHAN	1/1/2005
754	JC	206677L	SUB	CHINTAMANI SHARMA	1/11/2004
755	JC	219257K	SUB	CHITRAMAN PUN	1/12/2004
756	JC	225653W	SUB	DANNU PANI KANWAR	1/1/2005
757	JC	418356K	SUB	DATA RAM	1/10/2004
758	JC	418411P	SUB	DAYAL SINGH BISHT	1/9/2004
759	JC	418203A	SUB	DEB SINGH	1/9/2004
760	JC	224403H	SUB	DEVENDAR SINGH	1/11/2004
761	JC	418840W	SUB	DEVENDRA KUMAR	1/9/2004
762	JC	206675A	SUB	DHARAM PAL GHAWANA	1/10/2004
763	JC	418262M	SUB	DHARAM PAL SINGH	1/10/2004
764	JC	418459H	SUB	DOLAT RAM	1/12/2004
765	JC	418450N	SUB	GURBACHAN SINGH	1/12/2004
766	JC	418534F	SUB	GURDEV SINGH	1/9/2004
767	JC	211614M	SUB	GURMIT SINGH	1/1/2005
768	JC	418317L	SUB	HARI PHAL PHOTAT	1/10/2004
769	JC	418351L	SUB	HEM SINGH	1/10/2004
770	JC	418884N	SUB	HIMMAT SINGH	1/9/2004
771	JC	206612X	SUB	HUM BAHADUR RANA	1/11/2004
772	JC	418544L	SUB	INDER SINGH THAKUR	1/10/2004
773	JC	418158Y	SUB	INGAVALE SURYAKANT TUKARAM	1/9/2004
774	JC	418261K	SUB	JAGAN NATH	1/10/2004
775	JC	201545N	SUB	JAI PAL SINGH RANA	1/10/2004
776	JC	418746M	SUB	JAIPAL SINGH	1/9/2004
777	JC	418600Y	SUB	JAMAN SINGH	1/9/2004
778	JC	418370W	SUB	JOGINDER SINGH	1/9/2004
779	JC	418620M	SUB	JOGINDER SINGH	1/9/2004
780	JC	183649K	SUB	JOSEPH CT	1/12/2004
781	JC	211622L	SUB	KALYAN SINGH	1/10/2004
782	JC	418081F	SUB	KAPTAN SINGH SIKARWAR	1/10/2004
783	JC	418163K	SUB	KARMBIR SINGH	1/10/2004
784	JC	211591W	SUB	KESHAR DEO DHAKA	1/9/2004
785	JC	418751X	SUB	KHEER SINGH RAJPUROHIT	1/1/2005
786	JC	418301A	SUB	KHIMA NAND	1/10/2004
787	JC	418190N	SUB	KRIPAL SINGH	1/9/2004

788	JC	418572X	SUB	LAL CHAND BHARDWAJ	1/10/2004
789	JC	418428H	SUB	MAHABIR SINGH TANWAR	1/9/2004
790	JC	418720X	SUB	MEHAR SINGH VERMA	1/10/2004
791	JC	418571P	SUB	MOHINDER SINGH	1/1/2005
792	JC	418883L	SUB	MOHINDER SINGH	1/1/2005
793	JC	418645Y	SUB	MOTI SINGH	1/1/2005
794	JC	418515W	SUB	NARAIN SINGH GURUNG	1/11/2004
795	JC	223526H	SUB	NARINDER KUMAR KAUSHAL	1/11/2004
796	JC	201548F	SUB	NATHU SINGH	1/12/2004
797	JC	418604P	SUB	OMVIR SINGH	1/10/2004
798	JC	418985F	SUB	PARAS NATH SHUKAL	1/10/2004
799	JC	418257F	SUB	PARAS RAM	1/10/2004
800	JC	225976Y	SUB	PARKASH SINGH PANWAR	1/9/2004
801	JC	418532W	SUB	PARMA NAND	1/9/2004
802	JC	418543H	SUB	PARTAP CHAND RANGRA	1/9/2004
803	JC	418304N	SUB	PARTAP SINGH	1/10/2004
804	JC	208347L	SUB	PREM PAL SINGH TOMAR	1/10/2004
805	JC	418122A	SUB	PREM SINGH SAINI	1/11/2004
806	JC	211633X	SUB	RACHHPAL SINGH SALARIA	1/10/2004
807	JC	418602K	SUB	RAJ PAL	1/10/2004
808	JC	418371Y	SUB	RAJINDER SINGH SEAN	1/10/2004
809	JC	418358P	SUB	RAM CHANDRA SINGH	1/10/2004
810	JC	418973M	SUB	RAM KRISHAN	1/10/2004
811	JC	418060L	SUB	RANJEET SINGH PARWAL	1/10/2004
812	JC	201570M	SUB	RESHAM SINGH	1/10/2004
813	JC	195447P	SUB	REWAT SINGH	1/12/2004
814	JC	201541X	SUB	SATNAM SINGH	1/1/2005
815	JC	418917N	SUB	SHYAM CHAND THAKUR	1/10/2004
816	JC	418617M	SUB	SOBAT SINGH	1/11/2004
817	JC	418253L	SUB	SURAJ MAL DESWAL	1/10/2004
818	JC	211590N	SUB	VAMANAN N	1/10/2004
819	JC	418567M	SUB	WASUDEO MAHADEO DHULE	1/1/2005

THE PUNJAB REGIMENT

820	JC	428669W	SUB	BALBIR SINGH	1/1/2005
821	JC	428764H	SUB	BALBIR SINGH	1/12/2004
822	JC	428881N	SUB	BALDEV RAJ	1/1/2005
823	JC	428277H	SUB	BALWANT SINGH	1/9/2004
824	JC	428393L	SUB	BALWANT SINGH	1/9/2004
825	JC	428893H	SUB	BODH RAJ	1/10/2004
826	JC	428923P	SUB	BRAHAM DASS DHIMAN	1/1/2005
827	JC	428386P	SUB	CHANCHAL SINGH	1/10/2004
828	JC	428898F	SUB	DALER SINGH	1/10/2004
829	JC	428418M	SUB	DARSHAN SINGH	1/10/2004
830	JC	428659M	SUB	DEEP CHAND	1/1/2005
831	JC	428867F	SUB	DHARAM PAUL	1/9/2004
832	JC	428765L	SUB	GIRDHARI LAL	1/9/2004
833	JC	428448K	SUB	GURCHARAN SINGH	1/9/2004
834	JC	428515K	SUB	GURNAM SINGH	1/10/2004
835	JC	428876H	SUB	HARBHAJAN SINGH	1/1/2005
836	JC	428235W	SUB	HARMINDER SINGH	1/9/2004
837	JC	428293A	SUB	HEM RAJ JASWAL	1/10/2004
838	JC	428204W	SUB	JAGRAJ SINGH	1/10/2004
839	JC	428501K	SUB	JAI SINGH	1/9/2004

840	JC	428056W	SUB	JASMER SINGH	
841	JC	428842P	SUB	KAMALJIT	1/1/2005
842	JC	428627K	SUB	KARAM SINGH	1/9/2004
843	JC	428430N	SUB	KARAN SINGH	1/9/2004
844	JC	210930Y	SUB	KARNAIL SINGH	1/9/2004
845	JC	428474L	SUB	KASMIR SINGH	1/11/2004
846	JC	428423X	SUB	KULWANT SINGH	1/10/2004
847	JC	428608Y	SUB	MANOHAR LAL	1/10/2004
848	JC	428647X	SUB	MOHAN SINGH	1/10/2004
849	JC	428851W	SUB	MOHINDER LAL	1/9/2004
850	JC	428591W	SUB	OMPARKASH	1/12/2004
851	JC	428562F	SUB	PAL SINGH	1/9/2004
852	JC	428319K	SUB	PARKASH CHAND	1/10/2004
853	JC	428726M	SUB	PRITAM SINGH	1/9/2004
854	JC	428870F	SUB	RAJ MAL	1/12/2004
855	JC	428642Y	SUB	RAJ MAL	1/10/2004
856	JC	428662M	SUB	RAMESH CHAND	1/9/2004
857	JC	428677W	SUB	RAMESH KUMAR	1/10/2004
858	JC	428693M	SUB	RAMESH LAL	1/12/2004
859	JC	428697H	SUB	RAMESH SINGH	1/10/2004
860	JC	428860X	SUB	RANDHIR SINGH	1/9/2004
861	JC	428897Y	SUB	RANJIT SINGH	1/12/2004
862	JC	428516M	SUB	RANJIT SINGH	1/10/2004
863	JC	428509W	SUB	ROMESH KUMAR	1/11/2004
864	JC	428486A	SUB	SADASIVAN P	1/1/2005
865	JC	428597X	SUB	SAMAI SINGH	1/11/2004
866	JC	428527Y	SUB	SANTOKH SINGH	1/9/2004
867	JC	184279F	SUB	SATPAL SINGH	1/11/2004
868	JC	428810M	SUB	SHAM SINGH CHINANA	1/10/2004
869	JC	428785Y	SUB	SHANGA RAM	1/10/2004
870	JC	428521X	SUB	SHANKAR SINGH	1/12/2004
871	JC	428545F	SUB	SUCHA SINGH	1/1/2005
872	JC	428789P	SUB	SURESH KUMAR	1/10/2004
873	JC	428415Y	SUB	SURINDER SINGH	1/9/2004
874	JC	428431W	SUB	SWINDER SINGH	1/11/2004
875	JC	428388A	SUB	TARA CHAND	1/9/2004
876	JC	428583X	SUB	TARLOK SINGH	1/10/2004
				TARSEM SINGH	1/12/2004
THE MADRAS REGIMENT					
877	JC	438539F	SUB	ANNAMALAI M	1/9/2004
878	JC	200998M	SUB	BABU K S	1/11/2004
879	JC	188363Y	SUB	CHALLA VENKATA REDDY	1/10/2004
880	JC	438639M	SUB	CHINA SOMESWARA RAO DANDA	1/9/2004
881	JC	438117W	SUB	D DANIEL JEBARAJ	1/9/2004
882	JC	438332F	SUB	D KUPPAN	1/10/2004
883	JC	438696N	SUB	DEV DAS K	1/1/2005
884	JC	438062X	SUB	E C UMMAR	1/11/2004
885	JC	226173Y	SUB	JAWAHAR P G	1/11/2004
886	JC	218189P	SUB	K CHINNARAJU	1/10/2004
887	JC	438162H	SUB	K MEYYAPPAN	1/9/2004
888	JC	438104Y	SUB	KAVERIAPPA A N	1/10/2004
889	JC	208042L	SUB	M NAGALINGAM	1/9/2004
890	JC	193659F	SUB	MADHUSOODHANAN PILLAI P B	1/12/2004
891	JC	216483W	SUB	MANNOJI RAO R	1/10/2004

892	JC	210949X	SUB	MR SASIDHARAN NAIR	1/1/2005
893	JC	438074M	SUB	N M BASAPPA	1/9/2004
894	JC	438027P	SUB	N RAMALINGAM	1/10/2004
895	JC	438571W	SUB	N RAMASWAMY	1/9/2004
896	JC	438028X	SUB	P APPALA NAIDU	1/10/2004
897	JC	438365H	SUB	P SREEVILASAN	1/11/2004
898	JC	438670Y	SUB	PANNEER SELVAM P	1/9/2004
899	JC	438238X	SUB	PM GANESAN	1/10/2004
900	JC	438276N	SUB	R ALAGIRISWAMY	1/10/2004
901	JC	438018N	SUB	R GOPINATHAN	1/10/2004
902	JC	438296F	SUB	R KANNALYAN	1/10/2004
903	JC	438481P	SUB	RAJAN CHANGAROTH	1/12/2004
904	JC	218425L	SUB	RAMAKRISHNAN	1/11/2004
905	JC	438412Y	SUB	SAM P J	1/12/2004
906	JC	438386H	SUB	SANKARANARAYANAN M	1/9/2004
907	JC	219659F	SUB	SELVAM RANGARAJ	1/1/2005
908	JC	438021N	SUB	SHAIK KASIMVALI	1/10/2004
909	JC	168518F	SUB	SHARANAPPA NANDAPPA JANAI	1/12/2004
910	JC	438320M	SUB	SHIVALINGAPPA KUBASAD	1/10/2004
911	JC	438322X	SUB	SOWRIRAJ A	1/10/2004
912	JC	438029A	SUB	SURESH BABU P	1/12/2004
913	JC	438106K	SUB	T JESU	1/12/2004
914	JC	438280W	SUB	UTHAMAN T	1/11/2004
<u>THE GRENADIERS</u>					
915	JC	220905N	SUB	ARVIND SINGH	1/12/2004
916	JC	448501L	SUB	BAHADUR SINGH	1/10/2004
917	JC	448567F	SUB	BANNI RAM	1/10/2004
918	JC	448035F	SUB	BHANU PRATAP SINGH, SM	1/9/2004
919	JC	448971W	SUB	BIKRAM SINGH	1/12/2004
920	JC	448552Y	SUB	BRAJ MOHAN UPRETI	1/10/2004
921	JC	448766P	SUB	DEO PRAKASH	1/10/2004
922	JC	448319L	SUB	IRSHAD MOHAMMOD, SM	1/12/2004
923	JC	448626H	SUB	JADHAV VILAS DHONDIRAM	1/1/2005
924	JC	448553F	SUB	JAI NARAIN	1/10/2004
925	JC	448205A	SUB	JETHU SINGH BHATI	1/10/2004
926	JC	448845K	SUB	JOGENDER SINGH	1/10/2004
927	JC	448960K	SUB	JOGINDER SINGH	1/1/2005
928	JC	448706A	SUB	KAMAL SINGH	1/10/2004
929	JC	448311Y	SUB	KANWAR SINGH CHAUDHARY	1/10/2004
930	JC	448523K	SUB	KESAR KHAN	1/10/2004
931	JC	448569M	SUB	KULDIP SINGH	1/12/2004
932	JC	448269L	SUB	MAHABIR SINGH BHADORIA	1/10/2004
933	JC	448670M	SUB	MAHENDER SINGH	1/10/2004
934	JC	448603F	SUB	MANGEJ SINGH	1/11/2004
935	JC	448937W	SUB	MANPHOOL SINGH	1/11/2004
936	JC	448371N	SUB	OM PRAKASH	1/9/2004
937	JC	448544A	SUB	PADAM SINGH BISHT	1/1/2005
938	JC	448533N	SUB	PHOOL KUMAR	1/10/2004
939	JC	448821A	SUB	POORAN SINGH SHEKHAWAT	1/1/2005
940	JC	448983L	SUB	RAJ SINGH BOORA	1/12/2004
941	JC	448323N	SUB	RAJENDRA PRASAD SINGH	1/10/2004
942	JC	448582W	SUB	RAM BABU	1/1/2005
943	JC	448928P	SUB	RAM KUMAR	1/10/2004

944	JC	448650Y	SUB	RAM NIWAS MEENA	
945	JC	448833P	SUB	RAMESH CHANDER	1/10/2004
946	JC	224209N	SUB	RANDHIR SINGH	1/10/2004
947	JC	448841N	SUB	RUGHA RAM JAT	1/12/2004
948	JC	448324W	SUB	SATYAWAN SINGH	1/9/2004
949	JC	448199X	SUB	SHIV RAM SINGH	1/11/2004
950	JC	448739L	SUB	SHRI RAM	1/10/2004
951	JC	448386W	SUB	SURENDRA SINGH	1/10/2004
952	JC	448460M	SUB	UMMED ALI	1/11/2004
953	JC	448875F	SUB	VIDHYADHAR	1/10/2004

THE MARATHA LIGHT INFANTRY

954	JC	205523M	SUB	APPASO DHONDIBA SAVANT	1/10/2004
955	JC	178238F	SUB	ASARAM MHASAJI KAYANDE	1/10/2004
956	JC	201830M	SUB	BALASAHEB TUKARAM MANE	1/1/2005
957	JC	458147P	SUB	BAMUCHE PARASHARAM RUKMANA	1/9/2004
958	JC	205520Y	SUB	GHODKE HANMANT SADASHIV	1/10/2004
959	JC	218227A	SUB	JADHAV DHULAPA KERABA	1/9/2004
960	JC	212541X	SUB	JADHAV SADASHIV DATTU	1/10/2004
961	JC	458361X	SUB	JOSHI UMAKANT MADHUSUDAN	1/9/2004
962	JC	205507P	SUB	KARALE VITHAL VYANKU	1/10/2004
963	JC	220916A	SUB	KASHINATH LAKKOND	1/11/2004
964	JC	458067X	SUB	KUMBHAR SUBHASH RAMA	1/10/2004
965	JC	458220H	SUB	KUTWAL KUNDLIK	1/10/2004
966	JC	184960W	SUB	N BHASKAR NAIK	1/12/2004
967	JC	196424A	SUB	NALAWDE HARICHANDRA MAHADEO	1/11/2004
968	JC	458185L	SUB	NEMANE TRIMBAK RAMBHAU	1/12/2004
969	JC	458030W	SUB	PATAN TAJUDDIN	1/1/2005
970	JC	212557H	SUB	PATIL SURYAKANT BALARAMAN	1/9/2004
971	JC	192374H	SUB	SALUNKHE DADASAHEB VITTHAL	1/10/2004
972	JC	458111W	SUB	SAWANT ANANDA DEDA	1/1/2005
973	JC	458040A	SUB	SHINDE VITHAL SADASHIV	1/10/2004
974	JC	458162K	SUB	SHRIRAM PANDHAINATH KAMLASKAR	1/9/2004
975	JC	458100K	SUB	SONAWANE TUKARAM ZIPRU	1/10/2004
976	JC	205519K	SUB	SURYAWANSHI GANPATI	1/10/2004

THE RAJPUTANA RIFLES

977	JC	468489W	SUB	AUTAR SINGH	1/10/2004
978	JC	468699W	SUB	BAL BIR SINGH	1/9/2004
979	JC	468816W	SUB	BALBIR SINGH RAJPUT	1/12/2004
980	JC	468346W	SUB	BARHAM PAL SINGH	1/11/2004
981	JC	468406A	SUB	BHANWAR SINGH CHUNDAWAT	1/1/2005
982	JC	468011Y	SUB	BHIK SINGH BIDAWAT	1/11/2004
983	JC	468413W	SUB	BHIM SINGH	1/10/2004
984	JC	468575F	SUB	BHOOP SINGH	1/9/2004
985	JC	468187K	SUB	BRIJENDRA SINGH	1/1/2005
986	JC	468744X	SUB	CHHIGNA RAM	1/10/2004
987	JC	468262H	SUB	DEOKARAN SINGH	1/12/2004
988	JC	468684N	SUB	DHARAM PAL SINGH	1/12/2004
989	JC	468828L	SUB	GIRDHARI LAL	1/12/2004
990	JC	468566A	SUB	HANUMAN SINGH	1/12/2004
991	JC	468799F	SUB	HARISH KUMAR	1/9/2004
992	JC	468708M	SUB	JAI PRAKASH	1/12/2004
993	JC	211025W	SUB	JAN MOHAMMAD	1/12/2004

994	JC	468384M	SUB	JHABAR SINGH JHALA	1/10/2004
995	JC	468478K	SUB	KALYAN SINGH	1/1/2005
996	JC	468719Y	SUB	KANWAR SINGH CHAUHAN	1/12/2004
997	JC	468609K	SUB	KARAN SINGH	1/12/2004
998	JC	468923X	SUB	KARAN SINGH	1/12/2004
999	JC	468468A	SUB	KARNI SINGH	1/10/2004
1000	JC	468332W	SUB	KASHI RAM	1/12/2004
1001	JC	468849F	SUB	LAXMAN SINGH	1/10/2004
1002	JC	468325A	SUB	MADAN SINGH	1/1/2005
1003	JC	192396F	SUB	MADU RAM	1/11/2004
1004	JC	468479M	SUB	MAHENDER SINGH	1/12/2004
1005	JC	468532M	SUB	MALAM SINGH	1/12/2004
1006	JC	468701H	SUB	NANAND RAM NEHRA	1/10/2004
1007	JC	468429F	SUB	NAW RATTAN SINGH	1/12/2004
1008	JC	468254K	SUB	OM PARKASH	1/1/2005
1009	JC	468855P	SUB	OM PARKASH	1/12/2004
1010	JC	468189P	SUB	PRAKASH CHANDRA MAHLA	1/10/2004
1011	JC	468497P	SUB	PRATAP SINGH	1/12/2004
1012	JC	518821A	SUB	RAJ KAPUR	1/1/2005
1013	JC	468512Y	SUB	RAJINDER SINGH	1/12/2004
1014	JC	468241M	SUB	RAM KISHAN	1/10/2004
1015	JC	468857A	SUB	RAM PHAL SINGH	1/10/2004
1016	JC	468723F	SUB	RAM SINGH	1/9/2004
1017	JC	468854M	SUB	RAMAWTAR SINGH TANWAR	1/12/2004
1018	JC	468792X	SUB	RATI RAM	1/10/2004
1019	JC	468826A	SUB	SANTA SINGH	1/12/2004
1020	JC	224401X	SUB	SARJEET SINGH	1/9/2004
1021	JC	468400Y	SUB	SARJEET SINGH	1/10/2004
1022	JC	224397A	SUB	SATBIR SINH MOHAR SINH	1/9/2004
1023	JC	468482M	SUB	SATYABIR SINGH	1/12/2004
1024	JC	468037N	SUB	SAYAR SINGH	1/12/2004
1025	JC	468276H	SUB	SHEKH MOHAMAD NADIR ANSARI	1/12/2004
1026	JC	468736Y	SUB	SHIV DAN SINGH	1/12/2004
1027	JC	468412N	SUB	SHRI PAL	1/11/2004
1028	JC	220723A	SUB	SHRI RAM SINGH	1/11/2004
1029	JC	468223K	SUB	TEJ SINGH SHEKHAWAT	1/9/2004
1030	JC	468520X	SUB	ZILE SINGH	1/10/2004

THE RAJPUT REGIMENT

1031	JC	478442Y	SUB	AMAR SINGH CHAUHAN	1/10/2004
1032	JC	478008M	SUB	AWADH BIHARI	1/11/2004
1033	JC	478937L	SUB	AWADHESH PANDEY	1/10/2004
1034	JC	478715W	SUB	BABU LAL GUJAR	1/1/2005
1035	JC	478628H	SUB	BABU LAL GURJAR	1/12/2004
1036	JC	478262W	SUB	BAD SAHA	1/10/2004
1037	JC	478785P	SUB	BHAWAN SINGH	1/12/2004
1038	JC	204058Y	SUB	BHURE SINGH	1/9/2004
1039	JC	201020K	SUB	CHANDER BHAN	1/11/2004
1040	JC	478348P	SUB	CHHATR PAL SINGH	1/1/2005
1041	JC	478113H	SUB	CHHETTER PAL SINGH	1/10/2004
1042	JC	184986M	SUB	DAMODAR SARKAR	31-08-2004
1043	JC	478130H	SUB	DEVENDRA SINGH	1/9/2004
1044	JC	478093A	SUB	DHARAMVIR	1/9/2004
1045	JC	478417A	SUB	GAJRAJ SINGH	1/9/2004

1046	JC	478491F	SUB	GOKUL CHAND	1/1/2005
1047	JC	226187Y	SUB	GULAM RASUL	1/9/2004
1048	JC	478595H	SUB	ILEM SINGH CHHOKER	1/11/2004
1049	JC	478603W	SUB	JAGDISH SINGH	1/1/2005
1050	JC	478111X	SUB	JAGIR SINGH	1/1/2005
1051	JC	478260L	SUB	JAI BHANU SINGH	1/10/2004
1052	JC	478182Y	SUB	JAI NARAIN	1/12/2004
1053	JC	194587P	SUB	KAILASH NATH SINGH	1/9/2004
1054	JC	478473Y	SUB	KALU LALL GUJAR	1/12/2004
1055	JC	478345F	SUB	KAMESHWAR SINGH	1/10/2004
1056	JC	478462M	SUB	KANWAR SINGH	1/1/2005
1057	JC	478625P	SUB	KAPIL DEO SINGH	1/1/2005
1058	JC	478235M	SUB	KESHAR SINGH POKHARIYA	1/12/2004
1059	JC	478490Y	SUB	KUNWAR SINGH	1/10/2004
1060	JC	478258N	SUB	MAHABIR	1/9/2004
1061	JC	478354H	SUB	MAHAVIR SINGH	1/9/2004
1062	JC	478292N	SUB	MAHENDRA PRATAP SINGH	1/10/2004
1063	JC	478383X	SUB	MALIKHAN SINGH	1/10/2004
1064	JC	478731N	SUB	MUNSHI RAM GURJAR	1/12/2004
1065	JC	478211H	SUB	NANAK SINGH RAGHAV	1/11/2004
1066	JC	478213N	SUB	NAND LAL PANDEY	1/11/2004
1067	JC	478485N	SUB	NATHU RAM	1/9/2004
1068	JC	478476M	SUB	OM PARKASH	1/1/2005
1069	JC	478501A	SUB	PANCHAM SINGH	1/11/2004
1070	JC	478116W	SUB	PRATAP SINGH	1/10/2004
1071	JC	478503L	SUB	PREM PAL SINGH	1/1/2005
1072	JC	478596L	SUB	PURAN SINGH	1/10/2004
1073	JC	478492K	SUB	RAGHUNANDAN SINGH VARMA	1/12/2004
1074	JC	478379P	SUB	RAJ BAHADUR	1/11/2004
1075	JC	478310L	SUB	RAJ BHAN SINGH	1/1/2005
1076	JC	478179Y	SUB	RAJ SINGH	1/10/2004
1077	JC	478557M	SUB	RAJENDRA SINGH	1/11/2004
1078	JC	478088P	SUB	RAJPAL SINGH	1/12/2004
1079	JC	478365P	SUB	RAM KUMAR	1/9/2004
1080	JC	478154M	SUB	RAMJI SINGH	1/1/2005
1081	JC	478800Y	SUB	RUP SINGH	1/10/2004
1082	JC	192927N	SUB	SANT RAM	1/1/2005
1083	JC	216826F	SUB	SATISH KUMAR CHAUHAN	1/1/2005
1084	JC	478703F	SUB	SATYENDRA SINGH CHAUHAN	1/10/2004
1085	JC	478191A	SUB	SHANKAR SINGH	1/10/2004
1086	JC	478665W	SUB	SHER SINGH	1/10/2004
1087	JC	478307L	SUB	SHRI LAL GURJAR	1/1/2005
1088	JC	478139X	SUB	SINGH RAJ	1/9/2004
1089	JC	478542K	SUB	SUGREEV SINGH	1/10/2004
1090	JC	478371H	SUB	SUMANT SINGH	1/1/2005
1091	JC	478216F	SUB	SURENDER SINGH	1/1/2005
1092	JC	478246Y	SUB	SURENDER SINGH	1/11/2004
1093	JC	478412F	SUB	SURESH SINGH	1/1/2005
1094	JC	478165Y	SUB	VALISTER SINGH	1/10/2004
1095	JC	478210A	SUB	VINOD KUMAR DIXIT	1/10/2004
1096	JC	478482A	SUB	YATENDRA SINGH	1/12/2004

THE JAT REGIMENT

1097	JC	488789Y	SUB	DIWAN SINGH	1/10/2004
1098	JC	488180F	SUB	HARKAMAL SINGH DHAMI	1/10/2004
1099	JC	488622P	SUB	KRIPAL SINGH	1/1/2005
1100	JC	488652M	SUB	KULDIP SINGH LAMBA	1/9/2004
1101	JC	488788W	SUB	NIRMAL KUMAR	1/10/2004
1102	JC	488621M	SUB	PARTAP SINGH	1/10/2004
1103	JC	488883H	SUB	RAM KARAN	1/12/2004
1104	JC	488046W	SUB	RAMPHAL KALHER	1/10/2004
1105	JC	488290W	SUB	SAMBHU DAYAL	1/10/2004
1106	JC	488469K	SUB	SATNARAIN SINGH MALIK	1/10/2004
1107	JC	488505K	SUB	SOHAN SINGH	1/10/2004
1108	JC	488752X	SUB	SOHANVIR	1/10/2004
1109	JC	488280M	SUB	TARA CHAND JAT	1/12/2004

THE SIKH REGIMENT

1110	JC	219709F	SUB	AVTAR SINGH	1/12/2004
1111	JC	498367F	SUB	AVTAR SINGH	1/12/2004
1112	JC	498463W	SUB	BALWINDER SINGH	1/12/2004
1113	JC	508378K	SUB	BALWINDER SINGH	1/1/2005
1114	JC	498235N	SUB	BUDH SINGH	1/12/2004
1115	JC	498121H	SUB	DALJIT SINGH	1/9/2004
1116	JC	498096P	SUB	DHANNA SINGH	1/10/2004
1117	JC	498277A	SUB	GURMUKH SINGH	1/10/2004
1118	JC	220749P	SUB	GURPAL SINGH	1/12/2004
1119	JC	216853L	SUB	GURPARTAP SINGH	1/12/2004
1120	JC	498354K	SUB	JAG MOHAN	1/12/2004
1121	JC	498215A	SUB	JARNAIL SINGH	1/10/2004
1122	JC	498233H	SUB	JASWINDER SINGH	1/10/2004
1123	JC	498139Y	SUB	JUGRAJ SINGH	1/10/2004
1124	JC	498132P	SUB	KULWINDER SINGH	1/10/2004
1125	JC	508187P	SUB	MEHANGA SINGH	1/1/2005
1126	JC	498038L	SUB	PARDUMAN SINGH	1/9/2004
1127	JC	498428N	SUB	RAM SINGH	1/1/2005
1128	JC	224541K	SUB	RAWAL SINGH	1/10/2004
1129	JC	498083X	SUB	ROOP SINGH	1/1/2005
1130	JC	220210L	SUB	SANKTHA PRASAD SINGH	1/11/2004
1131	JC	498080K	SUB	SATBIR SINGH	1/10/2004
1132	JC	224227W	SUB	SEWAK SINGH	1/10/2004
1133	JC	498474H	SUB	SUKHDEC SINGH	1/12/2004
1134	JC	498461L	SUB	SUKHDEV SINGH	1/12/2004
1135	JC	498165A	SUB	SWARAN SINGH	1/10/2004
1136	JC	205935N	SUB	SWINDER SINGH	1/10/2004

THE SIKH LIGHT INFANTRY

1137	JC	218287P	SUB	ANTAR SINGH	1/1/2005
1138	JC	508317M	SUB	BALDEV SINGH	1/9/2004
1139	JC	508126X	SUB	BALKAR SINGH	1/1/2005
1140	JC	498323K	SUB	CHHAJU RAM	1/10/2004
1141	JC	508012M	SUB	DALBIR SINGH	1/11/2004
1142	JC	498236W	SUB	DALIP SINGH	1/10/2004
1143	JC	478239H	SUB	GURDEV SINGH	1/10/2004
1144	JC	498225K	SUB	HARBAJAN SINGH	1/9/2004

1145	JC	508201W	SUB	HARJINDER SINGH	1/1/2005
1146	JC	225829W	SUB	JAGJIT SINGH	1/1/2005
1147	JC	508247Y	SUB	JAGTAR SINGH	1/10/2004
1148	JC	508052N	SUB	JASBIR SINGH	1/1/2005
1149	JC	508030P	SUB	JASPAL SINGH	1/12/2004
1150	JC	219721H	SUB	JASVIR SINGH	1/1/2005
1151	JC	498462N	SUB	JASWANT SINGH	1/12/2004
1152	JC	498517M	SUB	JODH SINGH	1/10/2004
1153	JC	508121Y	SUB	KASHMIR SINGH	1/12/2004
1154	JC	181863N	SUB	KRIPAL SINGH	1/9/2004
1155	JC	224531A	SUB	KRIPAL SINGH	1/10/2004
1156	JC	208115M	SUB	LAMBER SINGH	1/1/2005
1157	JC	192976W	SUB	MANDHIR SINGH	1/1/2005
1158	JC	222691F	SUB	MANJIT SINGH	1/9/2004
1159	JC	508044P	SUB	NACHHATTAR SINGH	1/1/2005
1160	JC	508034L	SUB	RAM KRISHAN SINGH	1/10/2004
1161	JC	508379M	SUB	SAMITTAR SINGH	1/1/2005
1162	JC	221000X	SUB	SANTOKH SINGH	1/9/2004
1163	JC	508096L	SUB	SATNAM SINGH	1/12/2004
1164	JC	222702H	SUB	SOM RAJ	1/1/2005
1165	JC	508477M	SUB	SONI SINGH	1/11/2004
1166	JC	508083N	SUB	SURJIT SINGH	1/12/2004
1167	JC	498188F	SUB	TARLOK SINGH	1/10/2004
1168	JC	508612P	SUB	TARSEM SINGH	1/1/2005

THE DOGRA REGIMENT

1169	JC	518578N	SUB	AMAR SINGH VIMAL	1/9/2004
1170	JC	519205M	SUB	ANIL KUMAR	1/11/2004
1171	JC	518916A	SUB	ARJAN SINGH	1/9/2004
1172	JC	519055F	SUB	ASHOK KUMAR	1/10/2004
1173	JC	518990F	SUB	AVTAR SINGH	1/10/2004
1174	JC	518382A	SUB	BAKHSHI RAM	1/9/2004
1175	JC	518908F	SUB	BALDEV RAJ	1/9/2004
1176	JC	518685P	SUB	BALWANT SINGH GULERIA	1/10/2004
1177	JC	518508P	SUB	BANSI LAL	1/1/2005
1178	JC	518313K	SUB	BHAGWAN DASS	1/9/2004
1179	JC	518795K	SUB	BHEEMA RAM	1/12/2004
1180	JC	518975M	SUB	BIAS DEV	1/10/2004
1181	JC	519024F	SUB	BODH RAJ SHARMA	1/1/2005
1182	JC	518738H	SUB	BRIKAM DASS	1/1/2005
1183	JC	519109X	SUB	BUA DITTA	1/12/2004
1184	JC	518669X	SUB	BUA DITTA SHARMA	1/12/2004
1185	JC	518791N	SUB	CHHANGU RAM	1/10/2004
1186	JC	518999W	SUB	DAMODAR DASS KATWAL	1/9/2004
1187	JC	518595N	SUB	DAN SINGH	1/10/2004
1188	JC	518512X	SUB	DARSHAN LAL	1/10/2004
1189	JC	518667M	SUB	DES RAJ JASWAL	1/12/2004
1190	JC	518817X	SUB	DEVENDER SINGH	1/10/2004
1191	JC	519050H	SUB	DEVI SINGH CHHAPROTA	1/1/2005
1192	JC	519214N	SUB	DEVPAL SINGH	1/12/2004
1193	JC	518636M	SUB	DHARAM CHAND	1/12/2004
1194	JC	518668P	SUB	DHOGRU RAM CHOUDHARY	1/12/2004
1195	JC	518711L	SUB	DINA NATH	1/9/2004
1196	JC	518658L	SUB	DUNI CHAND	1/10/2004

1197	JC	548424W	SUB	FAQUIR CHAND	1/1/2005
1198	JC	519066N	SUB	GIAN CHAND	1/9/2004
1199	JC	519113A	SUB	GIAN SINGH	1/1/2005
1200	JC	518035F	SUB	HARI CHAND	1/10/2004
1201	JC	518717M	SUB	HARNAM CHAND	1/12/2004
1202	JC	518874Y	SUB	HARNAM SINGH	1/11/2004
1203	JC	518851X	SUB	HET RAM	1/10/2004
1204	JC	519005W	SUB	ISHWAR DAS	1/12/2004
1205	JC	221016H	SUB	ISHWAR SINGH	1/12/2004
1206	JC	518003Y	SUB	JAGDISH CHAND	1/11/2004
1207	JC	519081H	SUB	JAI POUL	1/9/2004
1208	JC	518798X	SUB	JAMIT SINGH MANHAS	1/9/2004
1209	JC	518808W	SUB	JASWANT SINGH	1/10/2004
1210	JC	518772H	SUB	JIOTI PARKASH	1/9/2004
1211	JC	519037Y	SUB	JOGINDER SINGH	1/12/2004
1212	JC	518833P	SUB	JOGINDER SINGH RANA	1/10/2004
1213	JC	488518F	SUB	KAMAL KUMAR	1/10/2004
1214	JC	518844F	SUB	KARM SINGH	1/9/2004
1215	JC	498621A	SUB	KARNAIL SINGH	1/12/2004
1216	JC	519027P	SUB	KARTAR SINGH RANGRA	1/1/2005
1217	JC	518937W	SUB	KASHMIR SINGH	1/9/2004
1218	JC	518922N	SUB	KEHAR SINGH	1/11/2004
1219	JC	518926K	SUB	KULDIP RAJ	1/10/2004
1220	JC	518896X	SUB	LAL CHAND	1/9/2004
1221	JC	518761W	SUB	MADAN LAL	1/1/2005
1222	JC	518981A	SUB	MADAN LAL	1/12/2004
1223	JC	519083N	SUB	MANOHAR LAL	1/1/2005
1224	JC	518514H	SUB	MAST RAM	1/11/2004
1225	JC	518949L	SUB	MOHINDER SINGH	1/11/2004
1226	JC	519002H	SUB	MOOL SINGH	1/1/2005
1227	JC	498380L	SUB	MOTI RAM	1/12/2004
1228	JC	518579W	SUB	MULKH RAJ	1/11/2004
1229	JC	518666K	SUB	NARESH KUMAR	1/12/2004
1230	JC	519183Y	SUB	NEK RAM	1/10/2004
1231	JC	518511P	SUB	OM PARKASH SHARMA, SM	1/12/2004
1232	JC	919175A	SUB	P RAM CHAND	1/10/2004
1233	JC	518749P	SUB	PARAS RAM	1/11/2004
1234	JC	519016H	SUB	PARMANAND MALHOTRA	1/10/2004
1235	JC	518487K	SUB	PARSHOTAM LAL	1/10/2004
1236	JC	519175A	SUB	PARSINDA RAM COUNDL	1/10/2004
1237	JC	518422W	SUB	PIAR SINGH	1/10/2004
1238	JC	518649K	SUB	PREM CHAND	1/10/2004
1239	JC	519054Y	SUB	PREM CHAND	1/9/2004
1240	JC	478706P	SUB	PURAN SINGH	1/1/2005
1241	JC	518650Y	SUB	RAGHU NATH SHARMA	1/10/2004
1242	JC	519141M	SUB	RAJ SINGH	1/12/2004
1243	JC	518624X	SUB	RAJINDER KUMAR	1/10/2004
1244	JC	518652K	SUB	RAJINDER SINGH	1/10/2004
1245	JC	478640K	SUB	RAM KRISHAN	1/10/2004
1246	JC	518687A	SUB	RAM NATH	1/10/2004
1247	JC	519104Y	SUB	RAMANAND RAJWAL	1/9/2004
1248	JC	519019W	SUB	RAMESH CHAND	1/1/2005
1249	JC	519030P	SUB	RAMESH CHAND	1/1/2005
1250	JC	518710H	SUB	RAMESH CHAND RANA	1/10/2004

1251	JC	518491M	SUB	RAMESH CHAND SHARMA	1/1/2005
1252	JC	518310W	SUB	RAMESH SINGH GULERIA	1/1/2005
1253	JC	518903H	SUB	RAMJI DASS	1/9/2004
1254	JC	519045X	SUB	RANJHA RAM	1/9/2004
1255	JC	518972Y	SUB	RANJIT SINGH	1/12/2004
1256	JC	518693N	SUB	RASHPAUL SINGH	1/12/2004
1257	JC	519166Y	SUB	RATTAN CHAND VERMA	1/10/2004
1258	JC	519022W	SUB	RATTAN LAL	1/11/2004
1259	JC	518505F	SUB	ROOP RAM THAKUR	1/10/2004
1260	JC	519195N	SUB	RUP SINGH	1/10/2004
1261	JC	518411K	SUB	SANTOKH RAJ	1/1/2005
1262	JC	518782M	SUB	SARVJIT SINGH	1/9/2004
1263	JC	518688H	SUB	SAWAN SINGH VERMA	1/9/2004
1264	JC	518582W	SUB	SHAMSHER SINGH	1/9/2004
1265	JC	519015A	SUB	SHASHI SHARMA	1/11/2004
1266	JC	518973F	SUB	SUBHASH CHAND	1/12/2004
1267	JC	518513A	SUB	SURESH KUMAR	1/1/2005
1268	JC	518755H	SUB	SURESH KUMAR	1/9/2004
1269	JC	518872N	SUB	SURESH KUMAR	1/11/2004
1270	JC	518986Y	SUB	SURINDER KUMAR	1/9/2004
1271	JC	498572H	SUB	SURJEET SINGH	1/11/2004
1272	JC	519038F	SUB	TARA CHAND	1/1/2005
1273	JC	519067W	SUB	TARLOK CHAND	1/9/2004
1274	JC	519003L	SUB	THORU RAM DOGRA	1/1/2005
1275	JC	519036W	SUB	TILAK CHAND	1/9/2004
1276	JC	518583Y	SUB	VED PARKASH	1/1/2005
1277	JC	518995A	SUB	ZULFI RAM	1/10/2004

THE GARHWAL RIFLES

1278	JC	528912X	SUB	ANSUIYA SINGH	1/11/2004
1279	JC	468359N	SUB	AVTAR SINGH	1/9/2004
1280	JC	528863A	SUB	AWTAR SINGH	1/11/2004
1281	JC	528457A	SUB	BADAR SINGH	1/11/2004
1282	JC	528541A	SUB	BALWANT SINGH RAWAT	1/12/2004
1283	JC	528694K	SUB	BESAKH SINGH	1/12/2004
1284	JC	528321W	SUB	BHAGAT SINGH	1/11/2004
1285	JC	528224Y	SUB	BHAIRAW DUTT	1/10/2004
1286	JC	528415N	SUB	BHUPENDRA SINGH	1/9/2004
1287	JC	528586A	SUB	BIJAY SINGH	1/10/2004
1288	JC	528842K	SUB	BIJENDRA SINGH	1/10/2004
1289	JC	528553P	SUB	BIRBAL SINGH	1/12/2004
1290	JC	468724K	SUB	BIRENDRA SINGH	1/11/2004
1291	JC	528496Y	SUB	BIRENDRA SINGH	1/12/2004
1292	JC	528844P	SUB	BIRENDRA SINGH BISHT	1/12/2004
1293	JC	528665P	SUB	BISHAN SINGH	1/9/2004
1294	JC	528449F	SUB	BRAJMOHAN SINGH	1/9/2004
1295	JC	528649X	SUB	BRIJ MOHAN	1/9/2004
1296	JC	528565K	SUB	BRIJPAL SINGH	1/9/2004
1297	JC	528392X	SUB	CHAIT SINGH	1/10/2004
1298	JC	528851L	SUB	CHANDAN SINGH	1/10/2004
1299	JC	528877A	SUB	CHANDAN SINGH	1/12/2004
1300	JC	528692Y	SUB	DEVENDRA PRASAD	1/12/2004
1301	JC	528443A	SUB	DEVENDRA SINGH	1/10/2004
1302	JC	528673N	SUB	DHAN SINGH	1/10/2004

1303	JC	528626W	SUB	DHIRAJ SINGH	1/10/2004
1304	JC	528786W	SUB	DINESH CHANDRA	1/10/2004
1305	JC	528638L	SUB	DINESH SINGH GUSAIN	1/12/2004
1306	JC	528473X	SUB	GAJPAL SINGH	1/9/2004
1307	JC	528615K	SUB	GOVIND SINGH	1/10/2004
1308	JC	528787Y	SUB	HARENDRA SINGH NEGI	1/12/2004
1309	JC	528805W	SUB	HAYAT SINGH	1/10/2004
1310	JC	528512L	SUB	HIRA SINGH	1/1/2005
1311	JC	528440M	SUB	JAGAT SINGH	1/10/2004
1312	JC	528798L	SUB	JAGAT SINGH	1/10/2004
1313	JC	158216F	SUB	JAGDISH SINGH	1/9/2004
1314	JC	528660W	SUB	JAI SINGH	1/10/2004
1315	JC	528639N	SUB	JANARDHAN PRASAD	1/9/2004
1316	JC	548458K	SUB	JASBIR SINGH RAWAT	1/9/2004
1317	JC	528424P	SUB	JASPAL SINGH KANDARI	1/9/2004
1318	JC	528442X	SUB	JOGINDER SINGH	1/10/2004
1319	JC	528793M	SUB	KEDAR SINGH	1/10/2004
1320	JC	528853W	SUB	KHUSHAL SINGH	1/12/2004
1321	JC	528796A	SUB	KISHAN SINGH	1/11/2004
1322	JC	528403Y	SUB	KULDIP KUMAR	1/9/2004
1323	JC	528379N	SUB	LAL SINGH	1/11/2004
1324	JC	528161F	SUB	MAHENDRA SINGH	1/10/2004
1325	JC	528771N	SUB	MAHIPAT SINGH	1/11/2004
1326	JC	528246X	SUB	MAKAN SINGH CHAUHAN	1/9/2004
1327	JC	528324K	SUB	MAST SINGH	1/9/2004
1328	JC	528386K	SUB	MEHARWAN SINGH NEGI	1/12/2004
1329	JC	529017Y	SUB	MOHAN SINGH NEGI	1/12/2004
1330	JC	528590H	SUB	MUKUND SINGH	1/1/2005
1331	JC	528312P	SUB	NARENDRA PRASAD	1/9/2004
1332	JC	528785N	SUB	NATHI SINGH	1/10/2004
1333	JC	528481W	SUB	OM PRAKASH	1/12/2004
1334	JC	528456X	SUB	PAN SINGH	1/11/2004
1335	JC	528727K	SUB	PITAMBAR DUTT	1/10/2004
1336	JC	528724P	SUB	PRATAP SINGH	1/12/2004
1337	JC	528391P	SUB	PREM SINGH	1/9/2004
1338	JC	528656N	SUB	PREM SINGH	1/9/2004
1339	JC	528576W	SUB	PUSKAR SINGH	1/10/2004
1340	JC	528887K	SUB	RAGHUBIR SINGH	1/11/2004
1341	JC	528691W	SUB	RAGHUBIR SINGH RAWAT	1/12/2004
1342	JC	528733X	SUB	RAJE SINGH	1/9/2004
1343	JC	528835N	SUB	RAMESH CHANDRA PRASAD	1/1/2005
1344	JC	528717A	SUB	RAMESH CHANDRA SINGH	1/9/2004
1345	JC	528338K	SUB	SATEH SINGH	1/11/2004
1346	JC	528333L	SUB	SATENDRA SINGH	1/9/2004
1347	JC	528162K	SUB	SATYAPAL SINGH RANA	1/1/2005
1348	JC	528545W	SUB	SHRICHAND SINGH RANA	1/12/2004
1349	JC	528336Y	SUB	SUKHDEV SINGH	1/1/2005
1350	JC	528468M	SUB	SURENDRA SINGH	1/10/2004
1351	JC	528570P	SUB	SURVIR SINGH	1/10/2004
1352	JC	528505P	SUB	TUPER SINGH	1/12/2004
1353	JC	220230Y	SUB	UMA NAND JUYAL	1/1/2005
1354	JC	528573H	SUB	UMA SHANKAR	1/1/2005
1355	JC	528886F	SUB	VIJAY PRAKASH	1/9/2004
1356	JC	528780P	SUB	VIKRAM SINGH	1/9/2004

1357	JC	528801A	SUB	YADUBIR SINGH ASWAL	1/9/2004
1358	JC	528030W	SUB	YASHPAL SINGH	1/1/2005
<u>THE KUMAON REGIMENT</u>					
1359	JC	538148L	SUB	AMAR SINGH	1/1/2005
1360	JC	538367M	SUB	ANAND BALLABH PATHAK	1/10/2004
1361	JC	538676P	SUB	ANAND SINGH	1/10/2004
1362	JC	538511W	SUB	BHAIRAB SINGH	1/10/2004
1363	JC	590091W	SUB	BHUPAL SINGH	1/12/2004
1364	JC	538392L	SUB	BUDH RAM	1/1/2005
1365	JC	538824P	SUB	CHANDER SINGH	1/10/2004
1366	JC	538398M	SUB	CHANDRA SINGH	1/10/2004
1367	JC	538393N	SUB	DALIP SINGH	1/1/2005
1368	JC	538531K	SUB	GAJ RAJ SINGH	1/1/2005
1369	JC	538650A	SUB	GANESH SINGH	1/10/2004
1370	JC	538305M	SUB	GIRWAR SINGH	1/10/2004
1371	JC	538856X	SUB	HARASH BAHADUR CHAND	1/10/2004
1372	JC	190788W	SUB	HARISH CHANDRA PANDEY	1/1/2005
1373	JC	538457N	SUB	JAGDISH CHANDER	1/11/2004
1374	JC	538645P	SUB	JIWAN SINGH	1/12/2004
1375	JC	538126M	SUB	KASHI NATH CHAUDHARY	1/1/2005
1376	JC	538791P	SUB	KEDAR SINGH	1/10/2004
1377	JC	538839X	SUB	LALIT BAHADUR PAL	1/1/2005
1378	JC	538644M	SUB	MAHI PAL	1/11/2004
1379	JC	538609K	SUB	MAHIPAL YADAV	1/10/2004
1380	JC	221029A	SUB	N NITOSHE SEMA	1/9/2004
1381	JC	538636N	SUB	NARENDRA SINGH	1/10/2004
1382	JC	538193X	SUB	PAN SINGH	1/1/2005
1383	JC	538579X	SUB	PURAN SINGH	1/9/2004
1384	JC	538518A	SUB	PUSHKAR SINGH	1/10/2004
1385	JC	538596X	SUB	RAGHUBIR SINGH	1/10/2004
1386	JC	538625F	SUB	RAGHUBIR SINGH	1/10/2004
1387	JC	538293H	SUB	RAJENDRA SINGH KARKI	1/10/2004
1388	JC	538708M	SUB	RAMANAND YADAV	1/1/2005
1389	JC	538664A	SUB	RANJEET SINGH	1/11/2004
1390	JC	590002M	SUB	S T JEMMI ANAL	1/1/2005
1391	JC	538663X	SUB	SARJEET SINGH	1/11/2004
1392	JC	538767Y	SUB	SATYA PARKASH	1/10/2004
1393	JC	538150H	SUB	SATYAVIR SINGH	1/10/2004
1394	JC	538693P	SUB	SHER SINGH	1/10/2004
1395	JC	538828L	SUB	TRILOK SINGH	1/1/2005
1396	JC	204133X	SUB	W HEMASING MONSHANG	1/10/2004
<u>THE ASSAM REGIMENT</u>					
1397	JC	202055M	SUB	ARBINDA MALAKAR	1/1/2005
1398	JC	548132N	SUB	BHAKTA BAHADUR THAPA	1/12/2004
1399	JC	548033L	SUB	BHUBON CH BORUAH	1/10/2004
1400	JC	194667M	SUB	GUNADHAR SINGHA	1/9/2004
1401	JC	204345H	SUB	KAMALESWAR RAY	1/11/2004
1402	JC	548241A	SUB	KONOK KUMAR SONAR	1/10/2004
1403	JC	224271A	SUB	KRISHNA KUMAR PATHAK	1/11/2004
1404	JC	203637Y	SUB	MADHAB CHANDRA RAY	1/1/2005
1405	JC	226899F	SUB	MAJEN CH DAS	1/10/2004
1406	JC	211262A	SUB	TANU RAM DAS	1/10/2004

THE BIHAR REGIMENT

1407	JC	196293A	SUB	ALBINUS EKKA	1/12/2004
1408	JC	184448X	SUB	ANTU LAL JONKO	1/10/2004
1409	JC	412078L	SUB	BHASKAR CHANDRA PRADHAN	1/10/2004
1410	JC	558425M	SUB	CHANDRAMA YADAV	1/10/2004
1411	JC	558640X	SUB	DILIP KUMAR MARNDI	1/10/2004
1412	JC	558171A	SUB	GAUTAM SINGH	1/1/2005
1413	JC	558391K	SUB	JAGRAM MUNDA	1/10/2004
1414	JC	176397A	SUB	MAHESWAR HATI	1/1/2005
1415	JC	558289F	SUB	MURARI PRASAD SAH	1/9/2004
1416	JC	558460P	SUB	RAJESHWAR SINGH	1/1/2005
1417	JC	558347A	SUB	RAM CHANDRA JHA	1/10/2004
1418	JC	558231K	SUB	RAM NARAYAN SINGH	1/10/2004
1419	JC	558393P	SUB	RAM PARVESH RAY	1/10/2004
1420	JC	558046W	SUB	RAM SINGH KUNTIA	1/10/2004
1421	JC	558247P	SUB	SANTOSH LAKRA	1/1/2005
1422	JC	558397L	SUB	SHILANAND EKKA	1/11/2004
1423	JC	558068P	SUB	SHYAM BIHARI SINGH	1/10/2004
1424	JC	558184X	SUB	SUDARSHAN RAY	1/12/2004
1425	JC	558297A	SUB	THOMAS AIND	1/10/2004

THE MAHAR REGIMENT

1426	JC	568295H	SUB	AJIT KUMAR MANDAL	1/10/2004
1427	JC	211303Y	SUB	ASWALE B SANGAPPA	1/10/2004
1428	JC	221055F	SUB	BABASO NAMDEO DHANSARE	1/9/2004
1429	JC	568473A	SUB	BADRI DATT BHATT	1/1/2005
1430	JC	568807K	SUB	BALDEV SINGH	1/11/2004
1431	JC	568458L	SUB	CHANDAN SINGH BHANDARI	1/10/2004
1432	JC	568581K	SUB	CHANDRA SHEKHAR	1/10/2004
1433	JC	568483K	SUB	DALU RAM	1/11/2004
1434	JC	216936W	SUB	DEV KARAN	1/10/2004
1435	JC	568282L	SUB	DEVENDRA THAKUR	1/10/2004
1436	JC	194693N	SUB	DHANI RAM	1/10/2004
1437	JC	568354K	SUB	DHARAM PAL SINGH	1/10/2004
1438	JC	568758M	SUB	DIWANI CHAND	1/1/2005
1439	JC	212975X	SUB	GAIKWAD HANAMANT RAMCHANDRA	1/10/2004
1440	JC	221054Y	SUB	GAYAKWAD KASHINATH GAYANOBA	1/10/2004
1441	JC	568657Y	SUB	GHANSHYAM	1/10/2004
1442	JC	224467N	SUB	GHORPADE J VITTHAL	1/12/2004
1443	JC	568016M	SUB	GURDEV SINGH	1/1/2005
1444	JC	568126F	SUB	HUKUM CHAND	1/1/2005
1445	JC	568100M	SUB	INDRADEO RAY	1/12/2004
1446	JC	568467M	SUB	JAGDISH BAHADUR SINGH	1/9/2004
1447	JC	568475L	SUB	JAGDISH CHAND	1/1/2005
1448	JC	568716A	SUB	JASWINDER SINGH	1/12/2004
1449	JC	568731P	SUB	JAYARAMAN C	1/10/2004
1450	JC	568165A	SUB	JOGA SINGH	1/12/2004
1451	JC	568392A	SUB	KADAVADAKAR VASANT SHIVA	1/1/2005
1452	JC	568375A	SUB	KAMALJIT SINGH	1/10/2004
1453	JC	568247H	SUB	KAMBLE ARJUN BALIRAM	1/12/2004
1454	JC	568137N	SUB	KAMESHWAR RAM	1/10/2004
1455	JC	568179A	SUB	KARPE J YASHWANT	1/1/2005
1456	JC	568201A	SUB	KRISHAN SINGH	1/10/2004

1457	JC	568391X	SUB	KUNDAN LAL	1/10/2004
1458	JC	568616P	SUB	MAHAVIR PRASAD	1/10/2004
1459	JC	568804W	SUB	MAHENDRA NATH SINGH YADAV	1/1/2005
1460	JC	568259X	SUB	MARUTI SAKARAM AHIRE	1/10/2004
1461	JC	211305K	SUB	PRADUMAN SINGH	1/10/2004
1462	JC	568501F	SUB	PRATAP SINGH	1/11/2004
1463	JC	568480W	SUB	RADHE SHAM	1/10/2004
1464	JC	568422M	SUB	RAJENDRA SINGH	1/9/2004
1465	JC	568630F	SUB	RAJINDER SINGH	1/1/2005
1466	JC	568801H	SUB	RAM KRISHAN	1/1/2005
1467	JC	568448F	SUB	RAVINDRAN NAIR KV	1/10/2004
1468	JC	568072L	SUB	SABHAJIT SINGH	1/12/2004
1469	JC	568615M	SUB	SADANANDAN P K	1/10/2004
1470	JC	568542L	SUB	SATYAWAN CHAUHAN	1/10/2004
1471	JC	568233H	SUB	SAWANT MAHADEV JOTI	1/10/2004
1472	JC	568140N	SUB	SHIV MOHAN SINGH	1/10/2004
1473	JC	204187Y	SUB	SHREE GOPAL	1/10/2004
1474	JC	568466K	SUB	SURESH SINGH	1/1/2005
1475	JC	568365W	SUB	SWARN SINGH	1/10/2004
1476	JC	568812P	SUB	TEJ BHAN SINGH	1/12/2004
1477	JC	568261P	SUB	UTTAM MAGRE	1/9/2004
1478	JC	568409H	SUB	VIJAY KUMAR	1/10/2004
1479	JC	568204N	SUB	VIJAY SONAJI JADHAO	1/10/2004
1480	JC	224294F	SUB	YEWALE TANAJI TUKARAM	1/10/2004

THE JAMMU AND KASHMIR RIFLES

1481	JC	578556Y	SUB	ABDUL LATIF	1/1/2005
1482	JC	578989W	SUB	ACHHAR SINGH JASWAL	1/12/2004
1483	JC	578610F	SUB	AMAR NATH	1/10/2004
1484	JC	578161X	SUB	AMAR SINGH	1/10/2004
1485	JC	578284K	SUB	ANAND BHADUR	1/11/2004
1486	JC	548324L	SUB	ARJUN SINGH	1/1/2005
1487	JC	578181L	SUB	BALBIR SINGH PATHANIA	1/9/2004
1488	JC	578785K	SUB	BALDEV SINGH	1/9/2004
1489	JC	578954A	SUB	BALWANT SINGH	1/11/2004
1490	JC	578546P	SUB	BAM BHADUR PUN	1/12/2004
1491	JC	578900Y	SUB	BASANT LAL	1/12/2004
1492	JC	579012W	SUB	BEANT SINGH RANA	1/9/2004
1493	JC	579021X	SUB	BHAGWAN SINGH JASROTIA	1/10/2004
1494	JC	578986H	SUB	BIR BHADUR MALLA	1/10/2004
1495	JC	578978K	SUB	BIRI SINGH	1/10/2004
1496	JC	578445F	SUB	BUDHI SINGH	1/10/2004
1497	JC	578843H	SUB	CHAMAN LAL	1/10/2004
1498	JC	578661P	SUB	CHATTER SINGH	1/10/2004
1499	JC	578127X	SUB	CHHABI LAL KHATTRI	1/1/2005
1500	JC	578901F	SUB	CHHAJU RAM	1/1/2005
1501	JC	579119L	SUB	CHHAJU RAM	1/1/2005
1502	JC	579027Y	SUB	DAULAT RAM	1/11/2004
1503	JC	578872X	SUB	DEV RAJ	1/11/2004
1504	JC	578950K	SUB	DEV RAJ	1/9/2004
1505	JC	578920M	SUB	GOTAM SINGH	1/11/2004
1506	JC	578512F	SUB	GURMEJ SINGH	1/10/2004
1507	JC	578923A	SUB	GURMIT SINGH	1/10/2004
1508	JC	578398P	SUB	GYAN BHADUR	1/10/2004

1509	JC	579014F	SUB	HARDEV SINGH	1/9/2004
1510	JC	578956L	SUB	INDER SINGH	1/1/2005
1511	JC	578446K	SUB	JAGDISH CHAND	1/10/2004
1512	JC	578713A	SUB	JANAK SINGH	1/1/2005
1513	JC	578846W	SUB	JASBIR SINGH	1/9/2004
1514	JC	578677A	SUB	JIT BAHADUR PUN	1/12/2004
1515	JC	578784F	SUB	JODH SINGH	1/9/2004
1516	JC	578527K	SUB	JYOTI PARKASH	1/11/2004
1517	JC	578817F	SUB	KARAN SINGH	1/11/2004
1518	JC	579096P	SUB	KARNAIL SINGH	1/10/2004
1519	JC	579072L	SUB	KASTURI LAL	1/10/2004
1520	JC	578998X	SUB	KRISHAN CHAND	1/1/2005
1521	JC	579026W	SUB	KRISHAN LAL	1/12/2004
1522	JC	578899P	SUB	KULTAR SINGH	1/10/2004
1523	JC	578681H	SUB	LAL BAHADUR THAPA	1/12/2004
1524	JC	579073N	SUB	LEKH RAJ	1/1/2005
1525	JC	578316F	SUB	LILA BAHADUR K C	1/10/2004
1526	JC	578328W	SUB	MAKARDHAWAJ MAL	1/10/2004
1527	JC	578737K	SUB	MEHAR SINGH	1/9/2004
1528	JC	578824X	SUB	MELA RAM	1/10/2004
1529	JC	578228L	SUB	MILAP CHAND	1/9/2004
1530	JC	578332Y	SUB	MOHAN DUTTA SUBEDY	1/11/2004
1531	JC	548292N	SUB	MOHAN SINGH	1/11/2004
1532	JC	578870M	SUB	MOHINDER SINGH	1/1/2005
1533	JC	579172W	SUB	MOHINDER SINGH JASWAL	1/1/2005
1534	JC	578827L	SUB	NAR BAHADUR PUN	1/12/2004
1535	JC	578764N	SUB	NARINDER KUMAR CHANDEL	1/1/2005
1536	JC	578759H	SUB	NASHATER SINGH	1/11/2004
1537	JC	579009W	SUB	OM PRAKASH	1/12/2004
1538	JC	579178X	SUB	OM PRAKASH	1/1/2005
1539	JC	578501P	SUB	PANCHAM KUMAR THAPA	1/9/2004
1540	JC	578417P	SUB	PARSHOTAM SINGH RANA	1/10/2004
1541	JC	528601K	SUB	PIAR SINGH	1/10/2004
1542	JC	579017P	SUB	PREM BAHADUR	1/12/2004
1543	JC	192698N	SUB	PREM BAHADUR KUWAR	1/1/2005
1544	JC	578980F	SUB	PRITAM SINGH	1/1/2005
1545	JC	578987L	SUB	PURAN BAHADUR	1/12/2004
1546	JC	528817L	SUB	RAJ KUMAR	1/10/2004
1547	JC	578641F	SUB	RAJ KUMAR	1/9/2004
1548	JC	578774X	SUB	RAJINDER SINGH	1/9/2004
1549	JC	578971A	SUB	RAJINDER SINGH	1/10/2004
1550	JC	578897K	SUB	RAM BAHADUR BHANDARI	1/1/2005
1551	JC	578199F	SUB	RAM PARKASH	1/11/2004
1552	JC	578682L	SUB	RAMESH KUMAR ADHIKARI	1/10/2004
1553	JC	578977F	SUB	RATTAN LAL	1/1/2005
1554	JC	579155W	SUB	ROMESH KUMAR	1/1/2005
1555	JC	578979M	SUB	ROSHAN LAL	1/1/2005
1556	JC	578953X	SUB	SALINDER KUMAR	1/11/2004
1557	JC	578880W	SUB	SANDAL VED	1/11/2004
1558	JC	578777L	SUB	SHAMBHU DATT DOGRA	1/12/2004
1559	JC	578633H	SUB	SIKANDER SINGH	1/10/2004
1560	JC	578821K	SUB	SOBHA RAO	1/9/2004
1561	JC	578218F	SUB	SUKHDEV SINGH	1/1/2005
1562	JC	578590Y	SUB	SURESH KUMAR	1/11/2004

1563	JC	578450M	SUB	SURINDER KUMAR	1/11/2004
1564	JC	578541W	SUB	TEK SINGH THAKUR	1/10/2004
1565	JC	578996M	SUB	UTTAM SINGH	1/1/2005
1566	JC	578749Y	SUB	VIRENDER KUMAR SHARMA	1/10/2004
1567	JC	578441L	SUB	YAM BAHADUR	1/9/2004
1568	JC	578573Y	SUB	YAM BAHADUR BHANDARI	1/1/2005
<u>THE LADAKH SCOUTS</u>					
1569	JC	588020W	SUB	ABAJ SINGH JASROTIA	1/9/2004
1570	JC	588050N	SUB	SHAM SUNDHAR LAL BHAT	1/10/2004
<u>THE JAMMU AND KASHMIR LIGHT INFANTRY</u>					
1571	JC	592340H	SUB	ABDUL REHMAN	1/11/2004
1572	JC	592247F	SUB	ABDUL SATAR	1/10/2004
1573	JC	592061X	SUB	AVTAR SINGH	1/12/2004
1574	JC	592328F	SUB	BALWINDER SINGH	1/1/2005
1575	JC	592647N	SUB	BISHAN DASS	1/11/2004
1576	JC	592570W	SUB	BISHAN DEV SHARMA	1/11/2004
1577	JC	592319A	SUB	BODH RAJ	1/9/2004
1578	JC	592181W	SUB	CHHANKAR CHAND	1/9/2004
1579	JC	592049W	SUB	DHANATER SINGH	1/9/2004
1580	JC	592314F	SUB	DINESH SINGH THAPA	1/9/2004
1581	JC	592060P	SUB	GURMEET SINGH	1/12/2004
1582	JC	592285X	SUB	HAQIQAT SINGH	1/12/2004
1583	JC	592502H	SUB	KANWAL KUMAR	1/10/2004
1584	JC	592305A	SUB	KHAJUR SINGH	1/9/2004
1585	JC	592348P	SUB	KULDIP SINGH	1/10/2004
1586	JC	224483L	SUB	MOHD AYOUB	1/9/2004
1587	JC	592225H	SUB	MOHD SHAFI	1/12/2004
1588	JC	592195W	SUB	MUNSHI KHAN	1/1/2005
1589	JC	592387N	SUB	NETAR SINGH	1/9/2004
1590	JC	592105K	SUB	ONKAR SINGH	1/9/2004
1591	JC	592385H	SUB	PURAN SINGH	1/9/2004
1592	JC	592562X	SUB	RAM PAUL	1/11/2004
1593	JC	592375Y	SUB	RESHI KUMAR	1/11/2004
1594	JC	592266M	SUB	ROSHAN LAL	1/9/2004
1595	JC	592407W	SUB	SEHDEV SINGH PATHANIA	1/11/2004
1596	JC	592291L	SUB	SURAM CHAND	1/10/2004
1597	JC	592161H	SUB	YOG RAJ	1/10/2004
<u>1 GORKHA RIFLES</u>					
1598	JC	602204H	SUB	ANOOP RANA	1/10/2004
1599	JC	602218H	SUB	BAL BAHADUR	1/10/2004
1600	JC	602132K	SUB	DEEPAK BAHADUR THAPA	1/10/2004
1601	JC	602176F	SUB	DEV KRISHAN THAPA	1/9/2004
1602	JC	602212F	SUB	DURGA PRASAD GURUNG	1/10/2004
1603	JC	602208Y	SUB	GUN BAHADUR GURUNG	1/12/2004
1604	JC	602296A	SUB	HARKA BAHADUR PUN	1/12/2004
1605	JC	602069A	SUB	INDER SINGH THAPA	1/12/2004
1606	JC	602314X	SUB	JNAN BAHADUR JOGI KUNWAR	1/12/2004
1607	JC	602223N	SUB	JUM BAHADUR GURUNG	1/12/2004
1608	JC	602219L	SUB	KHEM BAHADUR THAPA	1/10/2004
1609	JC	602255W	SUB	LIL BAHADUR GURUNG	1/10/2004
1610	JC	602254N	SUB	MAN BAHADUR RANA	1/12/2004

1611	JC	602071X	SUB	MANGAL SINGH GURUNG	1/11/2004
1612	JC	612199W	SUB	RAM CHANDRA GURUNG	1/12/2004
1613	JC	602134P	SUB	RUDRA BAHADUR RANA	1/10/2004
1614	JC	602196P	SUB	SURESH MUKHIA	1/1/2005
1615	JC	602186L	SUB	TARA BAHADUR ALE	1/10/2004
1616	JC	602074L	SUB	UMA MAHESH GHIMIRE	1/10/2004
1617	JC	602366N	SUB	UTTAR BAHADUR GURUNG	1/1/2005

3 GORKHA RIFLES

1618	JC	607072K	SUB	ARJUN BAHADUR THAPA	1/1/2005
1619	JC	607185M	SUB	BAL BAHADUR CHAND	1/10/2004
1620	JC	607270P	SUB	BAL BAHADUR PUN	1/12/2004
1621	JC	607214W	SUB	BAL BAHADUR THAPA	1/1/2005
1622	JC	607170K	SUB	BED BAHADUR THAPA	1/1/2005
1623	JC	607211H	SUB	BIJAY TAMANG	1/11/2004
1624	JC	607149F	SUB	BIR BAHADUR GURUNG	1/11/2004
1625	JC	607198K	SUB	BOM BAHADUR GURUNG	1/10/2004
1626	JC	607145L	SUB	CHANDRA BAHADUR THAPA	1/10/2004
1627	JC	607123M	SUB	CHANDRA JIT PUN	1/10/2004
1628	JC	607233F	SUB	CHET BAHADUR GURUNG	1/10/2004
1629	JC	607231W	SUB	CHITRA BAHADUR THAPA	1/10/2004
1630	JC	607133W	SUB	DAMAR SINGH THAPA	1/10/2004
1631	JC	607318X	SUB	DAMMER BAHADUR THAPA	1/12/2004
1632	JC	607254X	SUB	DEV KUMAR THAPA	1/1/2005
1633	JC	607152F	SUB	DHARMA RAJ THAPA	1/12/2004
1634	JC	607146N	SUB	DIL BAHADUR ADHIKARI	1/10/2004
1635	JC	607175H	SUB	DINESH SINGH BOHRA	1/9/2004
1636	JC	607131L	SUB	DURGA BAHADUR CHHETRI	1/10/2004
1637	JC	607242H	SUB	GYAN BAHADUR PUN	1/11/2004
1638	JC	607235M	SUB	GYAN BAHADUR THAPA	1/10/2004
1639	JC	607258N	SUB	HARK BAHADUR THAPA	1/1/2005
1640	JC	607173X	SUB	INDRA BAHADUR THAPA	1/1/2005
1641	JC	607229Y	SUB	ISHWAR BAHADUR ALE	1/7/2004
1642	JC	607088P	SUB	JAGAT BAHADUR GHALE	1/11/2004
1643	JC	607284P	SUB	KARANA BAHADUR RANA	1/1/2005
1644	JC	607176L	SUB	KARNA BAHADUR THAPA	1/10/2004
1645	JC	607147W	SUB	KHIM BAHADUR PUN	1/12/2004
1646	JC	607240X	SUB	KRISHNA BAHADUR GURUNG	1/11/2004
1647	JC	607302M	SUB	KUL PRASAD PRADHAN	1/1/2005
1648	JC	607203K	SUB	LAL BAHADUR ALE	1/10/2004
1649	JC	607181W	SUB	MAN BAHADUR THAPA	1/1/2005
1650	JC	607288L	SUB	MEKH BAHADUR GURUNG	1/1/2005
1651	JC	607200W	SUB	NARAIN SINGH CHHETRI	1/10/2004
1652	JC	607180N	SUB	OM BAHADUR GURUNG	1/10/2004
1653	JC	607141F	SUB	PRASAD GURUNG	1/10/2004
1654	JC	607223X	SUB	PREM BAHADUR PUN	1/1/2005
1655	JC	607209L	SUB	PROHLAD RANA	1/10/2004
1656	JC	607197F	SUB	PURNA BAHADUR GURUNG	1/10/2004
1657	JC	607241A	SUB	RAM BAHADUR THAPA	1/11/2004
1658	JC	607177N	SUB	RAM PRASAD ALE	1/1/2005
1659	JC	607121F	SUB	TAK BAHADUR GURUNG	1/9/2004
1660	JC	607140M	SUB	TAL BAHADUR GURUNG	1/11/2004
1661	JC	607252M	SUB	TEK BAHADUR RANA	1/11/2004
1662	JC	607179Y	SUB	TUL BAHADUR PUN	1/9/2004

1663 JC 607184K		SUB	YAM BAHADUR GURUNG	1/1/2005
4 GORKHA RIFLES				
1664	JC 612192M	SUB	BABU LAL	
1665	JC 612102A	SUB	BHARAT BAHADUR GURUNG	1/10/2004
1666	JC 612133A	SUB	BHUPAL GURUNG	1/11/2004
1667	JC 612229H	SUB	DHAN BAHADUR PUN	1/9/2004
1668	JC 612241K	SUB	GYAN BAHADUR THAPA	1/11/2004
1669	JC 612304F	SUB	GYAN BAHADUR THAPA	1/10/2004
1670	JC 612191K	SUB	HARI BAHADUR CHHETRI	1/1/2005
1671	JC 612271F	SUB	HIM BAHADUR PUN	1/10/2004
1672	JC 208236N	SUB	KESH BAHADUR GURUNG	1/10/2004
1673	JC 612041N	SUB	KRISHNA RAJ RAI	1/1/2005
1674	JC 612267Y	SUB	LAL BAHADUR THAPA	1/10/2004
1675	JC 612270Y	SUB	LALIT PRASAD GURUNG	1/10/2004
1676	JC 612120H	SUB	MOTI RAJ SHRESTHA	1/12/2004
1677	JC 612193P	SUB	PRADEEP KUMAR GURUNG	1/10/2004
1678	JC 612268F	SUB	PRITHIBI BAHADUR GURUNG	1/9/2004
1679	JC 205369Y	SUB	PURAN RAJ RANA	1/11/2004
1680	JC 612269K	SUB	RESHAM LAL GURUNG	1/10/2004
1681	JC 612169Y	SUB	SAJAN KUMAR BHUDEL	1/12/2004
1682	JC 612212P	SUB	SHER BAHADUR THAPA	1/9/2004
1683	JC 612248N	SUB	SHIVA BAHADUR GURUNG	1/1/2005
1684	JC 612170N	SUB	TEK BAHADUR GURUNG	1/10/2004
5 GORKHA RIFLES				
1685	JC 617233P	SUB	ASHOK KUMAR THAPA	1/1/2005
1686	JC 617282X	SUB	BOM BAHADUR GURUNG	1/10/2004
1687	JC 617417N	SUB	BUDHI BAHADUR GURUNG	1/1/2005
1688	JC 617254L	SUB	BUJINDRA BAHADUR FEWALI	1/12/2004
1689	JC 617402L	SUB	CHUNA BAHADUR THAPA	1/12/2004
1690	JC 617227F	SUB	DALIP SINGH THAPA	1/12/2004
1691	JC 617332X	SUB	DHAN BAHADUR PRADHAN	1/12/2004
1692	JC 617435W	SUB	DHAN KUMAR GURUNG	1/10/2004
1693	JC 617221A	SUB	GANGA BAHADUR PUN	1/10/2004
1694	JC 617334H	SUB	GOVIND BAHADUR THAPA	1/1/2005
1695	JC 617199A	SUB	HARI BAHADUR GURUNG	1/11/2004
1696	JC 617317H	SUB	HIM BAHADUR THAPA	1/1/2005
1697	JC 617259K	SUB	HOM BAHADUR SARU MAGAR	1/12/2004
1698	JC 617384N	SUB	JAS BAHADUR GURUNG	1/12/2004
1699	JC 617084M	SUB	KESHAV BAHADUR THAPA	1/12/2004
1700	JC 617187L	SUB	KHEM BAHADUR GURUNG	1/9/2004
1701	JC 617319N	SUB	KRISHNA BAHADUR GURUNG	1/10/2004
1702	JC 617326K	SUB	KRISHNA BAHADUR PUN	1/9/2004
1703	JC 617264P	SUB	KUL BAHADUR MAGAR	1/12/2004
1704	JC 617249A	SUB	MAN BAHADUR THAPA	1/9/2004
1705	JC 617265K	SUB	MEG BAHADUR GURUNG	1/10/2004
1706	JC 617401H	SUB	MIN BAHADUR GURUNG	1/10/2004
1707	JC 617303H	SUB	NAINA SINGH THAPA	1/1/2005
1708	JC 617322N	SUB	NETRA BAHADUR THAPA	1/10/2004
1709	JC 617114Y	SUB	NIMA TSHERING TAMANG	1/12/2004
1710	JC 617049K	SUB	OM PRASAD THAPA	1/10/2004
1711	JC 617354W	SUB	PARSAD PUN	1/12/2004
1712	JC 617291Y	SUB	RAJENDRA SINGH THAPA	1/12/2004

1713	JC	617136X	SUB	RAN BAHADUR GURUNG	1/11/2004
1714	JC	617186H	SUB	RUPENDRA BAHADUR GURUNG	1/9/2004
1715	JC	617205H	SUB	SHAHA BAHADUR ALE	1/12/2004
1716	JC	617113W	SUB	SHANKAR SINGH THAPA	1/12/2004
1717	JC	617300P	SUB	SHER BAHADUR PUN	1/11/2004
1718	JC	617325F	SUB	SURYA PRASAD BURATHOKI	1/11/2004
1719	JC	617172H	SUB	TANKA BAHADUR GURUNG	1/12/2004
1720	JC	617415H	SUB	TARA PRASAD SHRESTHA	1/12/2004
1721	JC	617173L	SUB	TEJ BAHADUR GURUNG	1/12/2004
1722	JC	617338Y	SUB	THAM BAHADUR PUN	1/12/2004

8 GORKHA RIFLES

1723	JC	617301X	SUB	BHIM BAHADUR RANA	1/10/2004
1724	JC	617086X	SUB	BIR BAHADUR GURUNG	1/10/2004
1725	JC	623238K	SUB	BIRTMAN PUN	1/12/2004
1726	JC	623173F	SUB	CHAMPHA SING GURUNG	1/11/2004
1727	JC	623148H	SUB	DEO BAHADUR GURUNG	1/12/2004
1728	JC	617217X	SUB	DIG VIJAY MAL	1/10/2004
1729	JC	623090W	SUB	GANGA BHADUR GURUNG	1/12/2004
1730	JC	617363X	SUB	GYAN BAHADUR PUN	1/1/2005
1731	JC	623142F	SUB	HARKA BAHADUR GURUNG	1/1/2005
1732	JC	623185W	SUB	JAGAT BAHADUR GURUNG	1/9/2004
1733	JC	623282N	SUB	JAGAT BAHADUR RANA	1/12/2004
1734	JC	623286K	SUB	KALYAN SINGH VOHRA	1/1/2005
1735	JC	617309K	SUB	KEHAR SINGH GURUNG	1/11/2004
1736	JC	617308F	SUB	KHARAK BAHADUR ROKA	1/10/2004
1737	JC	617181K	SUB	KRISHNA BAHADUR PUN	1/11/2004
1738	JC	617327M	SUB	KRISHNA BAHADUR THAPA	1/12/2004
1739	JC	623221W	SUB	KRISHNA BAHADUR THAPA	1/10/2004
1740	JC	623196H	SUB	LALIT BAHADUR MAGAR	1/9/2004
1741	JC	617320H	SUB	NAR BAHADUR PUN MAGAR	1/11/2004
1742	JC	623212P	SUB	PRADEEP RANA	1/1/2004
1743	JC	623187F	SUB	PURAN BAHADUR GURUNG	1/12/2004
1744	JC	204202H	SUB	PURNA BAHADUR THAPA	1/12/2004
1745	JC	623105N	SUB	SANTA BAHADUR RANA	1/10/2004
1746	JC	617321L	SUB	SUK BAHADUR GURUNG	1/12/2004
1747	JC	623165H	SUB	TANKA BAHADUR RANA	1/11/2004
1748	JC	623205Y	SUB	TEK BAHADUR THAPA	1/10/2004
1749	JC	623106W	SUB	THAMAN SINGH RANA	1/11/2004
1750	JC	623198N	SUB	TIK RAS PUN	1/12/2004
1751	JC	623131P	SUB	TIL PRASAD ADHIKARI	1/12/2004
1752	JC	617396H	SUB	TOYA NATH THAPA	1/10/2004

9 GORKHA RIFLES

1753	JC	629361Y	SUB	AMAR BAHADUR CHHETRI	1/10/2004
1754	JC	629347M	SUB	AMAR BAHADUR THAKURI	1/10/2004
1755	JC	629223X	SUB	BAL BAHADUR CHHETRI	1/12/2004
1756	JC	629444K	SUB	BHIM BAHADUR CHHETRI	1/10/2004
1757	JC	629342N	SUB	BHIM BAHADUR CHHETRI	1/10/2004
1758	JC	629296K	SUB	BIR BAHADUR KARKI	1/11/2004
1759	JC	629369L	SUB	BUDHI BAHADUR PAUNDYAL CHHETRI	1/12/2004
1760	JC	629258N	SUB	DAN BAHADUR	1/10/2004
1761	JC	629234K	SUB	GAM BAHADUR KHATTRI	1/12/2004
1762	JC	629368H	SUB	GANESH BAHADUR KHANDKA	1/11/2004

1763	JC	629395M	SUB	HOM BAHADUR CHHETRI	1/11/2004
1764	JC	629267P	SUB	JANG BAHADUR CHHETRI	1/11/2004
1765	JC	629376F	SUB	JHALAK BAHADUR KHATTRI	1/11/2004
1766	JC	629238A	SUB	KHEM BAHADUR MALLA	1/9/2004
1767	JC	629143A	SUB	KHOM BAHADUR THAKURI	1/11/2004
1768	JC	629162L	SUB	KRISHNA BAHADUR KARKI	1/10/2004
1769	JC	629341L	SUB	MIN BAHADUR KHATRI	1/10/2004
1770	JC	629266M	SUB	NANI KAJI KUBAR	1/11/2004
1771	JC	629219P	SUB	NAR BAHADUR CHHETRI	1/10/2004
1772	JC	629161H	SUB	OM BAHADUR THAKURI	1/10/2004
1773	JC	629288L	SUB	PREM BAHADUR KHATTRI	1/12/2004
1774	JC	629348P	SUB	SALIGRAM KHANDKA	1/11/2004
1775	JC	629375Y	SUB	TEJ BAHADUR K C	1/11/2004
1776	JC	629360W	SUB	TEK BAHADUR CHHETRI	1/10/2004
1777	JC	629370A	SUB	YADUNATH PANDE CHHETRI	1/10/2004
1778	JC	629298P	SUB	YAM BAHADUR KC	1/10/2004

11 GORKHA RIFLES

1779	JC	205735X	SUB	AJIT KUMAR SUBBA	1/10/2004
1780	JC	634109K	SUB	BALI MAN RAI	1/12/2004
1781	JC	225866K	SUB	BHIM SINGH RANA	1/12/2004
1782	JC	634117H	SUB	BIR BAHADUR RAI	1/12/2004
1783	JC	634044F	SUB	BIR KUMAR LIMBU	1/12/2004
1784	JC	634020X	SUB	BUDHA KUMAR RAI	1/9/2004
1785	JC	213020W	SUB	DHAN BAHADUR GURUNG	1/10/2004
1786	JC	634127M	SUB	JIWAN KUMAR RAI	1/1/2005
1787	JC	205746K	SUB	KESH BIR RAI	1/10/2004
1788	JC	634171W	SUB	KHARAG BAHADUR ALE	1/10/2004
1789	JC	634154W	SUB	KISHOR SINGH RAI	1/10/2004
1790	JC	205743W	SUB	KUMAR TAMANG	1/9/2004
1791	JC	634276A	SUB	PARASU RAM RAI	1/1/2005
1792	JC	213023K	SUB	PRADEEP KUMAR LIMBU	1/1/2005
1793	JC	634293A	SUB	PURNA KUMAR LIMBU	1/10/2004
1794	JC	634172Y	SUB	SANT BIR LIMBU	1/11/2004
1795	JC	634278L	SUB	TOK BAHADUR RAI	1/1/2005

ARMY SERVICE CORPS(SOUTH)

1796	JC	661086X	SUB	AKSHOY KUMAR DEBA SARMAH	1/11/2004
1797	JC	660953K	SUB	ARYENDRA KUMAR	1/9/2004
1798	JC	661009H	SUB	ASHA RAM	1/11/2004
1799	JC	661122X	SUB	AZAD SINGH	1/11/2004
1800	JC	660956X	SUB	BAKILO RAM	1/10/2004
1801	JC	660907P	SUB	BALESHWAR SINGH	1/9/2004
1802	JC	640276W	SUB	BASHIR AHAMAD	1/9/2004
1803	JC	214697N	SUB	BED RAM	1/11/2004
1804	JC	660947W	SUB	BHABATOSH DEBNATH	1/11/2004
1805	JC	640193L	SUB	BHAGAT RAM	1/9/2004
1806	JC	661075L	SUB	BIKRAM SINGH	1/9/2004
1807	JC	661203X	SUB	BIRBAL SINGH	1/11/2004
1808	JC	214699Y	SUB	BRIJ MOHAN SINGH	1/12/2004
1809	JC	641333Y	SUB	CHUNKAWAN LAL GUPTA	1/11/2004
1810	JC	213590M	SUB	DINESH KUMAR	1/11/2004
1811	JC	213522Y	SUB	DULAL SAHA	1/11/2004
1812	JC	213595L	SUB	GAURANGA KUMAR NATH	1/1/2005

1813	JC	640523Y	SUB	GOPALAN R	1/12/2004
1814	JC	209021F	SUB	GURCHARAN SINGH SIDHU	1/11/2004
1815	JC	213644H	SUB	GURMIT SINGH	1/10/2004
1816	JC	208994L	SUB	HARNAM SINGH	1/1/2005
1817	JC	661092L	SUB	JANARDHANA PRASAD PATHAK	1/11/2004
1818	JC	207194A	SUB	JARNAIL SINGH	1/9/2004
1819	JC	202587M	SUB	JAYA PRAKASH RATH	1/12/2004
1820	JC	640926Y	SUB	KALIKA PRASAD SINGH	1/9/2004
1821	JC	213557P	SUB	KESAVAN V	1/1/2005
1822	JC	660995W	SUB	KRISHNANAND SHARMA	1/1/2005
1823	JC	208921Y	SUB	KURUVILA DANIEL	1/12/2004
1824	JC	660986P	SUB	MANGLA RAM BISHNOE	1/12/2004
1825	JC	661771H	SUB	MEHAR SINGH SAINI	1/1/2005
1826	JC	661288Y	SUB	MEHARWAN SINGH	1/10/2004
1827	JC	641443N	SUB	MORE GOPINATH	1/10/2004
1828	JC	641332W	SUB	NAND KUMAR RAM	1/1/2005
1829	JC	640118F	SUB	NARESH PRASAD JAISWAL	1/12/2004
1830	JC	208925P	SUB	PAWAR SOPAN GUNDA	1/12/2004
1831	JC	661003F	SUB	PREM CHANDRA	1/9/2004
832	JC	661006P	SUB	RABINDRA NATH SINGH	1/11/2004
1833	JC	661413X	SUB	RAJ KUMAR SHARMA	1/9/2004
1834	JC	661175W	SUB	RAJ NANDAN SINGH	1/11/2004
1835	JC	202581L	SUB	RAJENDER SINGH	1/10/2004
1836	JC	660881L	SUB	RAJNI KANT PRASAD SINGH	1/9/2004
1837	JC	640652Y	SUB	RAM AVTAR	1/1/2005
1838	JC	661421W	SUB	RAM INJOR SINGH	1/12/2004
1839	JC	202572K	SUB	RAMA MURTHY G	1/12/2004
1840	JC	661423F	SUB	RAMESH CHANDRA HARIJAN	1/11/2004
1841	JC	661305N	SUB	RAMESHWAR PRASAD	1/10/2004
1842	JC	640325N	SUB	RANVIR SINGH CHAUHAN	1/11/2004
1843	JC	661062N	SUB	RATTAN LAL	1/11/2004
1844	JC	640042M	SUB	S RAMA KRISHNAN	1/10/2004
1845	JC	641641Y	SUB	SASIDHARAN PILLAI K	1/12/2004
1846	JC	213551N	SUB	SHAM SHER SINGH	1/9/2004
1847	JC	200324P	SUB	SHANKAR DAYAL MISHRA	1/11/2004
1848	JC	213516L	SUB	SHIVALINGAPPA M S	1/10/2004
1849	JC	640631H	SUB	SUNIL KUMAR KUNDU	1/12/2004
1850	JC	661159Y	SUB	SURENDRA SINGH	1/11/2004
1851	JC	660929N	SUB	SURLI SINGH	1/9/2004
1852	JC	208950N	SUB	TRINATH KUMAR BALA	1/9/2004
1853	JC	640017N	SUB	UTTAM CHAND	1/12/2004
1854	JC	660948Y	SUB	VIJAY KUMAR	1/10/2004

ARMY SERVICE CORPS(ANIMAL TRANSPORT)

1855	JC	680349A	RIS	MD RABJUL ALI BARBHUIYA	1/11/2004
1856	JC	680344F	RIS	RAM PAL	1/11/2004
1857	JC	680348X	RIS	RAM SINGH	1/10/2004

ARMY MEDICAL CORPS

1858	JC	691496H	SUB	ABBAS ALI AHMED	1/12/2004
1859	JC	690988P	SUB	AURAN KUMAR SHAHI	1/9/2004
1860	JC	691720K	SUB	BABU RAJAN KT	1/12/2004
1861	JC	691611X	SUB	BHAGAT SINGH DALAL	1/9/2004
1862	JC	691943F	SUB	BHUWANESHWAR SHARMA	1/12/2004

1863	JC	691934A	SUB	BIJAY SHANKAR SINGH	
1864	JC	691426K	SUB	BISHWANATH KUMAR	1/1/2005
1865	JC	691780Y	SUB	DHANESWAR SASMAL	1/9/2004
1866	JC	692270K	SUB	JAI CHAND	1/12/2004
1867	JC	691936L	SUB	JOSHI VIJAYKUMAR NARAYAN	1/9/2004
1868	JC	214867M	SUB	K PALANIVEL	1/9/2004
1869	JC	692304M	SUB	KESHAW PRASAD	1/11/2004
1870	JC	691428P	SUB	M G JOSEPH STEPHEN	1/12/2004
1871	JC	692096H	SUB	MOHAN CHANDRA	1/12/2004
1872	JC	691557P	SUB	MOHANAN S	1/10/2004
1873	JC	219940K	SUB	MRIGANKA BHUSAN DEB	1/12/2004
1874	JC	214863W	SUB	MUKAT LAL	1/1/2005
1875	JC	214864Y	SUB	PARDIP KUMAR	1/11/2004
1876	JC	690152X	SUB	PRASANTAKUMAR SARKAR	1/12/2004
1877	JC	692306X	SUB	RADHA NATH JENA	1/11/2004
1878	JC	219936F	SUB	RAGHBIR SINGH BAJWA	1/1/2005
1879	JC	690404Y	SUB	RAJVIR SINGH	1/10/2004
1880	JC	692303K	SUB	RAMENDRA NATH SANTRA	1/9/2004
1881	JC	691459P	SUB	RANGA LAL ROUT	1/11/2004
1882	JC	691783M	SUB	SAMIR KUMAR MUNSHI	1/12/2004
1883	JC	693121H	SUB	SATPAL SINGH	1/9/2004
1884	JC	691048W	SUB	SHOBH NATH RAM	1/10/2004
1885	JC	690884N	SUB	SUNIL KARMAKAR	1/12/2004
ARMY ORDNANCE CORPS					
1886	JC	723494N	SUB	AJAY SHARMA	1/1/2005
1887	JC	724912K	SUB	AMARJEET SINGH	1/9/2004
1888	JC	723090L	SUB	ARJUN SINGH	1/9/2004
1889	JC	722330L	SUB	BACHAN SINGH	1/9/2004
1890	JC	723281A	SUB	BALAKRISHNAN E P	1/12/2004
1891	JC	722597A	SUB	BALWANT SINGH	1/11/2004
1892	JC	724072P	SUB	BHABES CHANDRA MANDAL	1/1/2005
1893	JC	723460A	SUB	BIKRAM SINGH	1/11/2004
1894	JC	722532M	SUB	BRAJ KISHOR DOBEY	19-08-2004
1895	JC	723580Y	SUB	CHADRAKANT PATTAR	1/9/2004
1896	JC	221618W	SUB	CHANDRA BHAN SINGH	1/12/2004
1897	JC	723451Y	SUB	DARSAN SINGH	1/1/2005
1898	JC	722162X	SUB	DASARE MANOHAR	1/10/2004
1899	JC	723184H	SUB	DAVINDER PAL SINGH	1/9/2004
1900	JC	723556H	SUB	DEV LAL	1/10/2004
1901	JC	723445L	SUB	DEVI DASS	1/12/2004
1902	JC	723181P	SUB	DHAN SINGH GARHIA	1/9/2004
1903	JC	722215L	SUB	DHARAM SINGH	1/9/2004
1904	JC	722575F	SUB	DHRUBA CHARAN MOHARANA	1/10/2004
1905	JC	724483N	SUB	GC KRISHNA	1/1/2005
1906	JC	722255M	SUB	GIAN PRAKASH DATTARWAL	1/12/2004
1907	JC	722266Y	SUB	HARAPRASAD DASH	1/9/2004
1908	JC	723185L	SUB	HARI DATT	1/1/2005
1909	JC	723205N	SUB	HARISH KUMAR PRADHAN	1/10/2004
1910	JC	723581F	SUB	HARISHPATI KOTNALA	1/1/2005
1911	JC	722976W	SUB	JABUL HASAN KHAN	1/1/2005
1912	JC	722627M	SUB	JOHN C THOMAS	1/12/2004
1913	JC	722633A	SUB	JOHNY MD	1/9/2004
1914	JC	723247A	SUB	JOSEPH PRITHIVIRAJ	1/12/2004
					1/11/2004

1915	JC	723404F	SUB	KAMAL SINGH DANGI	1/9/2004
1916	JC	723082M	SUB	KAMARUDDING ANSARI	1/10/2004
1917	JC	722912L	SUB	KARAN SINGH	1/11/2004
1918	JC	722874A	SUB	KHAGENDRA NATH SAIKIA	1/10/2004
1919	JC	723345A	SUB	KHIRODA CHANDRA MISHRA	1/11/2004
1920	JC	723155N	SUB	KHUSHI RAM GALLIAN	1/10/2004
1921	JC	723397W	SUB	KOLE RAJARAM SANTU	1/1/2005
1922	JC	723327X	SUB	KRISHAN JIWAN	1/11/2004
1923	JC	723071A	SUB	LACHHMAN SINGH	1/11/2004
1924	JC	723113F	SUB	MAHENDRA PAL SINGH	1/12/2004
1925	JC	723217H	SUB	MANIK SAHA	1/10/2004
1926	JC	722841P	SUB	MARUTI NARSINGH RAO	1/1/2005
1927	JC	723290F	SUB	MOHANAN V	1/12/2004
1928	JC	723180M	SUB	MOHINDER SINGH	1/9/2004
1929	JC	722262H	SUB	MUSHTAQ ALI KHAN	1/12/2004
1930	JC	722620H	SUB	NAND KISHORE SINGH	1/12/2004
1931	JC	723214P	SUB	NIRANJAN KUMAR CHANDA	1/11/2004
1932	JC	722933F	SUB	P NAIR	1/9/2004
1933	JC	722402K	SUB	POKAR SINGH	1/10/2004
1934	JC	723346H	SUB	PRESANNA KUMAR P	1/12/2004
1935	JC	722694X	SUB	PRITAM SINGH	1/9/2004
1936	JC	722598H	SUB	PUTUL CH BORAH	1/1/2005
1937	JC	722849F	SUB	RAJAN NAIR T N	1/11/2004
1938	JC	722367M	SUB	RAJE SINGH	1/1/2005
1939	JC	722258A	SUB	RAM NIWAS SHARMA	1/11/2004
1940	JC	723739Y	SUB	RATESH KUMAR SINGH PALIA	1/9/2004
1941	JC	725285P	SUB	RAVI BAHADUR	1/11/2004
1942	JC	722907A	SUB	SASIDHARAN V	1/1/2005
1943	JC	724050W	SUB	SHAMBHU DUTT	1/11/2004
1944	JC	723590H	SUB	SHAMBHU PRASAD DHAUNDIYAL	1/11/2004
1945	JC	723493L	SUB	SHANKAR RAMA KAMBLE	1/11/2004
1946	JC	723211F	SUB	SIDESHWAR SINGH	1/12/2004
1947	JC	723293P	SUB	SIMANCHAL RAWLO	1/12/2004
1948	JC	723342M	SUB	SOMAN P P	1/1/2005
1949	JC	723700M	SUB	SUDHANGSU SEKHAR DEY	1/9/2004
1950	JC	723284N	SUB	SUNAMONI DAS	1/10/2004
1951	JC	723339M	SUB	TARAWALE RAJENDRA KRISHAN RAO	1/9/2004
1952	JC	723980L	SUB	UMA CHARAN PATRA	1/11/2004
1953	JC	723367Y	SUB	V NAGAPPA	1/12/2004
1954	JC	723490X	SUB	VIDYADHAR DUBEY	1/10/2004
1955	JC	723351N	SUB	VIJAYKUMARAN B	1/10/2004
1956	JC	722989N	SUB	YOGESHWAR GANPAT RAO	1/9/2004

CORPS OF ELECTRICAL AND MECHANICAL ENGINEERS

1957	JC	751125M	SUB	AJIT KUMAR	1/9/2004
1958	JC	748852Y	SUB	AJIT SINGH	1/10/2004
1959	JC	753069X	SUB	AKSHYA KUMAR BEHERA	1/11/2004
1960	JC	751578X	SUB	ALANATH DE	1/10/2004
1961	JC	751449X	SUB	ALIAR	1/1/2005
1962	JC	749811F	SUB	ALOK KUMAR PAHARI	1/1/2005
1963	JC	751462F	SUB	AMAL KUMAR BOSE	1/9/2004
1964	JC	749992X	SUB	AMAR SINGH SENGAR	1/1/2005
1965	JC	747705K	SUB	AMBER NATH SINGH	1/1/2005
1966	JC	752598X	SUB	ANAND SINGH GUSAIN	1/11/2004

1967	JC	751568N	SUB	APPUKUTTAN NAIR K	1/10/2004
1968	JC	221993F	SUB	ASHOK KUMAR SINGH	1/9/2004
1969	JC	754686M	SUB	AYODHYA NATH CHOUBEY	1/12/2004
1970	JC	750721M	SUB	BALAKANDAN S	1/10/2004
1971	JC	751853M	SUB	BALASAHEV VITHAL GAVALI	1/10/2004
1972	JC	221760A	SUB	BALWANT PRASAD YADAV	1/10/2004
1973	JC	747501X	SUB	BALWANT SINGH	1/9/2004
1974	JC	748407A	SUB	BALWANT SINGH	1/9/2004
1975	JC	221804M	SUB	BANSIDHAR RAI	1/10/2004
1976	JC	751149W	SUB	BAZLUR RAHAMAN	1/1/2005
1977	JC	749559N	SUB	BHAGABAN CH KALITA	1/9/2004
1978	JC	750248M	SUB	BHAGAT BHAGWAN	1/12/2004
1979	JC	750318A	SUB	BHAGWAN DAS	1/1/2005
1980	JC	748417K	SUB	BIJAY KUMAR SINGH	1/9/2004
1981	JC	224022F	SUB	BIKARNA PAUL	1/12/2004
1982	JC	747543K	SUB	BIM SEN BHARDWAJ	1/12/2004
1983	JC	747520H	SUB	BINDHYA CHAL SINGH	1/9/2004
1984	JC	752786Y	SUB	BIRI SINGH	1/12/2004
1985	JC	752144K	SUB	BRAJ MOHAN SINGH	1/1/2005
1986	JC	752360X	SUB	BRIJENDRA PAL SINGH	1/10/2004
1987	JC	751435X	SUB	CHARANJIT SINGH	1/12/2004
1988	JC	751421X	SUB	CHAUHAN SHASHIKANT	1/10/2004
1989	JC	749985F	SUB	CHAVAN SURESH SHANKAR RAO	1/11/2004
1990	JC	747753K	SUB	CHAVAN VISHWAS JOTI	1/9/2004
1991	JC	751343L	SUB	DARSHAN KUMAR	1/11/2004
1992	JC	751719F	SUB	DEVENDRAN K	1/10/2004
1993	JC	747882K	SUB	DEVI SINGH RATHORE	1/10/2004
1994	JC	748888X	SUB	DEVIDAS TULSIRAM DHANDE	1/9/2004
1995	JC	750158L	SUB	DHANASEKKARAN	1/12/2004
1996	JC	749151P	SUB	DHARAM SINGH MEENA	1/9/2004
1997	JC	751852K	SUB	DINESH CHANDRA SHARMA	1/10/2004
1998	JC	747017L	SUB	DURGA DASS	1/10/2004
1999	JC	751393W	SUB	GAIKWAD SURESH BHAGWAT	1/11/2004
2000	JC	752727M	SUB	GAJENDRA SINGH	1/10/2004
2001	JC	750279M	SUB	GANGADHARAN K P	1/10/2004
2002	JC	749815X	SUB	GAURI SHANKER CHAURASIA	1/10/2004
2003	JC	749332A	SUB	GIAN SINGH DAYAL	1/10/2004
2004	JC	748931N	SUB	GOMTI PRASAD DUBEY	1/10/2004
2005	JC	749152X	SUB	GOPI CHARAN	1/9/2004
2006	JC	748579P	SUB	GRIB DASS	1/1/2005
2007	JC	222528F	SUB	HARDEV SINGH	1/9/2004
2008	JC	747840X	SUB	HARISH CHANDRA LOHANI	1/10/2004
2009	JC	222288P	SUB	HARVINDER SINGH HARDEO SINGH	1/12/2004
2010	JC	749770H	SUB	JADHAV ASHOK SITARAM	1/1/2005
2011	JC	748109K	SUB	JADHAV BHIMRAO GANPAT	1/9/2004
2012	JC	749148P	SUB	JAGDISH CHAND	1/9/2004
2013	JC	751208X	SUB	JAGDISH SINGH	1/1/2005
2014	JC	747021N	SUB	JAIRAM MAHATO	1/11/2004
2015	JC	752361A	SUB	JALESHWAR PATHAK	1/10/2004
2016	JC	752333N	SUB	JANARDAN JHA	1/1/2005
2017	JC	224021Y	SUB	JANGBIR SINGH CHAUDHARY	1/12/2004
2018	JC	222219Y	SUB	JOGI CHANDRA SEKHARAM	1/10/2004
2019	JC	750247K	SUB	JOSE T K	1/10/2004
2020	JC	751881Y	SUB	JOY M M	1/1/2005

2021	JC	748502M	SUB	KAKUMANU SESHAGIRI RAO	1/10/2004
2022	JC	748253Y	SUB	KALAL GORAKH DATTUSA	1/1/2005
2023	JC	749112W	SUB	KAMAL SINGH RAWAT	1/10/2004
2024	JC	747541Y	SUB	KAMALKANTI GHOSH	1/10/2004
2025	JC	750202K	SUB	KANHU CHARAN NAYAK	1/10/2004
2026	JC	749317L	SUB	KARUNAKARAN PILLAI N	1/10/2004
2027	JC	751164L	SUB	KASHI RAM	1/1/2005
2028	JC	751420P	SUB	KESHARAM BORA	1/1/2005
2029	JC	751930W	SUB	KRISHAN SINGH THAPA	1/9/2004
2030	JC	749086A	SUB	KRUSHNA CHANDRA NAYAK	1/9/2004
2031	JC	751494K	SUB	KSHITISH CHANDRA ROY	1/9/2004
2032	JC	747147N	SUB	KULVINDER SINGH	1/10/2004
2033	JC	749869Y	SUB	M V RAMANA MURTHY	1/10/2004
2034	JC	747129L	SUB	MADAN GOPAL SINGH	1/12/2004
2035	JC	748222Y	SUB	MADAN LAL	1/10/2004
2036	JC	751205K	SUB	MADAN LAL ATWAL	1/9/2004
2037	JC	751124K	SUB	MADAN PAL SINGH	1/9/2004
2038	JC	752362H	SUB	MADHUSUDANAN NAIR S	1/10/2004
2039	JC	750525M	SUB	MANBAR SINGH	1/12/2004
2040	JC	749314X	SUB	MD AYAZUL ISLAM	1/10/2004
2041	JC	747618W	SUB	MIRZAYA -U-DDIN	1/10/2004
2042	JC	751791X	SUB	MOHAN LAL	1/12/2004
2043	JC	747725X	SUB	MOHANA KUMAR K B	1/10/2004
2044	JC	747720Y	SUB	MOHANAN PILLAI A K	1/9/2004
2045	JC	750073P	SUB	MUHAMMED ALI A	1/10/2004
2046	JC	750074X	SUB	NANU OP	1/10/2004
2047	JC	747839H	SUB	NARASIMHABHAT CH	1/10/2004
2048	JC	750252P	SUB	NARENDRA SHARMA	1/12/2004
2049	JC	749719H	SUB	PADAMALOHAN DAS	1/1/2005
2050	JC	750259Y	SUB	PARSU RAM	1/12/2004
2051	JC	754568Y	SUB	PARVEEN KUMAR	1/11/2004
2052	JC	747953A	SUB	PATIL RAMDAS DHANRAJ	1/9/2004
2053	JC	749331X	SUB	PRAMOD KUMAR	1/10/2004
2054	JC	750018Y	SUB	PREM SINGH RAWAT	1/11/2004
2055	JC	748439H	SUB	PRITAM PRASAD SINGH	1/1/2005
2056	JC	749466Y	SUB	PURAN CHANDRA SANWAL	1/9/2004
2057	JC	753019M	SUB	RAGHAWENDRA KUMAR	1/1/2005
2058	JC	751437H	SUB	RAJENDER SINGH	1/12/2004
2059	JC	751627P	SUB	RAJENDRA NATH PATHAK	1/12/2004
2060	JC	748452M	SUB	RAJENDRA SINGH	1/12/2004
2061	JC	748498P	SUB	RAJPAL SINGH	1/10/2004
2062	JC	753463H	SUB	RAJVIR SINGH YADAV	1/10/2004
2063	JC	751335M	SUB	RAM BACHAN CHAUHAN	1/9/2004
2064	JC	751430Y	SUB	RAM BALAK RAI	1/10/2004
2065	JC	751428F	SUB	RAM KISHORE	1/11/2004
2066	JC	748743M	SUB	RAM KUMAR	1/9/2004
2067	JC	747638K	SUB	RAM NIWAS YADAV	1/1/2005
2068	JC	750759W	SUB	RAM PRAKASH GUPTA	1/10/2004
2069	JC	749879H	SUB	RAM PRASAD SINGH	1/11/2004
2070	JC	750277F	SUB	RAM SAGAR MISHRA	1/11/2004
2071	JC	749966W	SUB	RAMASHRAYA RAM	1/12/2004
2072	JC	749959A	SUB	RAMENDRA KUMAR PAL	1/12/2004
2073	JC	751742P	SUB	RAMESHWAR PRASAD SINGH	1/1/2005
2074	JC	747993F	SUB	RAMYASH RAI	1/1/2005

2075	JC	751127X	SUB	RANDHIR SINGH	1/10/2004
2076	JC	222270Y	SUB	RANVIR SINGH POONIA	1/11/2004
2077	JC	748853F	SUB	RANVIR SINGH SANGWAN	1/10/2004
2078	JC	749312M	SUB	RATTAN SINGH	1/9/2004
2079	JC	753012H	SUB	S D HUSSAIN	1/12/2004
2080	JC	748416F	SUB	SANDON JAMESH PHILIP	1/9/2004
2081	JC	748119N	SUB	SASI M	1/1/2005
2082	JC	750160H	SUB	SASIDHARAN NAIR G	1/10/2004
2083	JC	749894X	SUB	SATPAL SINGH BISHT	1/11/2004
2084	JC	221829Y	SUB	SHAHABUDDIN ANSARI	1/9/2004
2085	JC	752744M	SUB	SHAIK MOULALI SHARIF	1/9/2004
2086	JC	750968N	SUB	SHAMBHU SHARAN KUWAR RAKESH	1/10/2004
2087	JC	752743K	SUB	SHANKAR DAYAL TIWARI	1/10/2004
2088	JC	749807Y	SUB	SHARAFUDEEN A	1/10/2004
2089	JC	751339H	SUB	SHELENDRA KUMAR SAGER	1/10/2004
2090	JC	751439N	SUB	SHINDE BABAN MARUTI	1/12/2004
2091	JC	752365W	SUB	SHIRSAGAR SATISH BALAKRISHNA	1/12/2004
2092	JC	748496K	SUB	SHIV RAM	1/10/2004
2093	JC	754604Y	SUB	SHIVRAJ KUMAR BHARDWAJ	1/9/2004
2094	JC	749803H	SUB	SHYAMRUP RAM	1/11/2004
2095	JC	750959M	SUB	SIMAN CHALA BISOYI	1/10/2004
2096	JC	748886M	SUB	SISHU RAM NATH	1/5/2004
2097	JC	751342H	SUB	SOM NATH	1/11/2004
2098	JC	753071P	SUB	SUBASH CHANDRA SINGH	1/11/2004
2099	JC	747658X	SUB	SUBASH J	1/10/2004
2100	JC	747614A	SUB	SUDHAKARAN S	1/10/2004
2101	JC	748113M	SUB	SUSHIL MISHRA	1/12/2004
2102	JC	747641K	SUB	TAPESHWAR PRASAD SINGH	1/9/2004
2103	JC	750088X	SUB	TEPUGADE HANMANT SIDDAPA	1/10/2004
2104	JC	751635N	SUB	THOMAS SELVA PRAGASH	1/10/2004
2105	JC	754928K	SUB	UMAKANT PANDEY	1/1/2005
2106	JC	749127Y	SUB	V KALI DOSS	1/11/2004
2107	JC	748990A	SUB	VENUGOPAL K S	1/10/2004
2108	JC	748160K	SUB	VIJAY KUMAR KARNA	1/1/2005
2109	JC	751448P	SUB	VIJAY KUMAR SHARMA	1/1/2005
2110	JC	749871W	SUB	VIJAYAN NAIR V	1/10/2004
2111	JC	748934F	SUB	YASH KARAN SINGH YADAV	1/10/2004
ARMY EDUCATION CORPS					
2112	JC	217880F	SUB	ANANT KUMAR CHOUDHARY	1/9/2004
2113	JC	802538F	SUB	ASHOK KORANNAVAR	1/1/2005
2114	JC	223747P	SUB	DEVINDER PAL SINGH	1/10/2004
2115	JC	213361F	SUB	DIAPATE DASHRATH	1/1/2005
2116	JC	802104F	SUB	DHARAMPAL SINGH	1/11/2004
2117	JC	212045W	SUB	DILIP SINGH BAIS	1/11/2004
2118	JC	223055A	SUB	HOSHIYAR SINGH BORA	1/12/2004
2119	JC	219017M	SUB	INDER PARKASH SINGH	1/11/2004
2120	JC	223760Y	SUB	MOHAMMED RASHEED FAQRUDDIN	1/1/2005
2121	JC	211948F	SUB	RAJOLE PRASAD TRIPATHI	1/1/2005
2122	JC	213372N	SUB	RAM KRISHNA OJHA	1/1/2005
2123	JC	802100L	SUB	RAM PAL SINGH RAJPUT	1/9/2004
2124	JC	802106M	SUB	SATISH KUMAR SHARMA	1/1/2005
2125	JC	217881K	SUB	SHARWAN SINGH DHATWALIA	1/9/2004
2126	JC	211941X	SUB	SOMANATHAN P T	1/10/2004

2127	JC	213354L	SUB	SURESH CHANDRA BHARGAVA	1/1/2005
2128	JC	214297F	SUB	SYAMAL ADHIKARI	1/11/2004

REMOUNT AND VETERINARY CORPS

2129	JC	797046W	RIS	BACHCHU SINGH	1/9/2004
2130	JC	797173L	RIS	GAIKWAD RAM DAS NAMDEO	1/11/2004
2131	JC	797102K	RIS	RAMAN K	1/10/2004
2132	JC	797121P	RIS	V MANI	1/11/2004

THE INTELLIGENCE CORPS

2133	JC	204676K	SUB	ARJUN KUMAR JASOD	1/1/2005
2134	JC	206308N	SUB	BIR SINGH	1/9/2004
2135	JC	810269P	SUB	PARAMJEET SINGH	1/12/2004
2136	JC	810371X	SUB	TIRLOK SINGH NEGI	1/10/2004

CORPS OF MILITARY POLICE

2137	JC	818201H	SUB	AMAR SINGH	1/1/2005
2138	JC	818198N	SUB	ASHOK KUMAR	1/1/2005
2139	JC	818172Y	SUB	ASHOK KUMAR SINGH	1/1/2005
2140	JC	818184N	SUB	ATTAM PRAKASH	1/1/2005
2141	JC	818401Y	SUB	AZAD SINGH	1/1/2005
2142	JC	818183L	SUB	BALAKRISHNAN K P	1/1/2005
2143	JC	818268F	SUB	BISWESWAR SINHA RAY	1/12/2004
2144	JC	818196H	SUB	CHANDRA SHEKHAR TIWARI	1/1/2005
2145	JC	818178A	SUB	DHARAMBIR DOGRA	1/1/2005
2146	JC	818252W	SUB	GANESH PRASAD SINGH	1/1/2005
2147	JC	818032M	SUB	GIRJA NANDAN RAI	1/9/2004
2148	JC	818189M	SUB	HARI SINGH	1/1/2005
2149	JC	818177X	SUB	JAI PRAKASH	1/1/2005
2150	JC	818031K	SUB	KALYAN SINGH SOLANKI	1/9/2004
2151	JC	818244X	SUB	KAUSHAL KISHOR PANDEY	1/1/2005
2152	JC	818216L	SUB	KEDAR SHARMA	1/1/2005
2153	JC	818182H	SUB	KHARAPATTU RAM	1/1/2005
2154	JC	818410A	SUB	KHAZAN CHAND	1/10/2004
2155	JC	818128P	SUB	KRAPAL SINGH	1/9/2004
2156	JC	818448K	SUB	LAL SINGH	1/10/2004
2157	JC	818137W	SUB	MADAN MOHAN DATTA	1/9/2004
2158	JC	818248N	SUB	MALHA RAM	1/1/2005
2159	JC	818122N	SUB	MANOHAR SINGH	1/9/2004
2160	JC	818194X	SUB	MUNSHI LAL	1/10/2004
2161	JC	818285F	SUB	NARAYAN SAHOO	1/9/2004
2162	JC	818553A	SUB	NARENDRA KUMAR	1/1/2005
2163	JC	818121L	SUB	OMINDER PAL SINGH SIROHI	1/9/2004
2164	JC	818179H	SUB	OMKAR SINGH	1/1/2005
2165	JC	818188K	SUB	PAN SINGH	1/1/2005
2166	JC	818034X	SUB	PATIL TANAJIRAV GOVINDRAV	1/9/2004
2167	JC	818197L	SUB	RAJENDRA PRASAD YADAV	1/1/2005

2168	JC	818190F	SUB	RAM KISHAN	1/1/2005
2169	JC	818240F	SUB	RAM LAL MAHATO	1/1/2005
2170	JC	818120H	SUB	RAM SAGAR SINGH	1/9/2004
2171	JC	818380N	SUB	RAMA SHANKAR RAM	1/1/2005
2172	JC	818146X	SUB	RAMIST SHIVAJI	1/9/2004
2173	JC	818217N	SUB	RASANANDA MAHAKUD	1/1/2005
2174	JC	818501K	SUB	SADAT MAGAN LAL THAVARAJI	1/9/2004
2175	JC	818175M	SUB	SHANKAR LAL	1/1/2005
2176	JC	818155Y	SUB	SHASHI BHUSHAN PRASAD	1/10/2004
2177	JC	818313H	SUB	SHIDDAPPA HUGAR	1/10/2004
2178	JC	818239M	SUB	SHIVAPPA MALAGAR	1/1/2005
2179	JC	818169Y	SUB	SUMER SINGH	1/1/2005
2180	JC	818235W	SUB	SURENDER BAHADUR SINGH	1/1/2005
2181	JC	818416F	SUB	SURENDRA SINGH	1/1/2005
2182	JC	818171W	SUB	SURESH CHANDRA SAHA	1/1/2005
2183	JC	818166L	SUB	TARLOCHAN SINGH DIAL	1/12/2004
2184	JC	818165H	SUB	TARLOK SINGH	1/9/2004
2185	JC	818270Y	SUB	VIJAY PRATAP SINGH	1/1/2005
2186	JC	818148H	SUB	VIJAY SINGH YADAV	1/9/2004
2187	JC	818208M	SUB	VISWANADHAN K K	1/1/2005

ARMY PHYSICAL TRAINING CORPS

2188	JC	826021P	SUB	CHAUTHI RAM	1/9/2004
2189	JC	826042L	SUB	DHONDIBA YASHWANT FUNDE	1/11/2004
2190	JC	186814P	SUB	JAGAT SINGH	1/11/2004
2191	JC	826060N	SUB	OM PRAKASH THAPA	1/11/2004
2192	JC	826039L	SUB	PRATAP SINGH	1/9/2004

DEFENCE SECURITY CORPS

2193	JC	840211M	SUB	BASHI RAM	1/1/2005
2194	JC	840750H	SUB	BISHAN DASS	1/10/2004
2195	JC	840110Y	SUB	BRIJ LAL	1/1/2005
2196	JC	840102A	SUB	CHARAN SINGH	1/10/2004
2197	JC	840478F	SUB	CHHATRAMAN GURUNG	1/12/2004
2198	JC	192026F	SUB	DAYA SHANKAR PANDEY	1/10/2004
2199	JC	840581M	SUB	GUMAN SINGH	1/11/2004
2200	JC	168981H	SUB	IND RAJ	1/11/2004
2201	JC	178162M	SUB	JAGAT RAM	1/10/2004
2202	JC	840760M	SUB	JEET LAL	1/9/2004
2203	JC	840763A	SUB	LAL SINGH	1/10/2004
2204	JC	840578M	SUB	PIRTHI SINGH	1/1/2005
2205	JC	840704N	SUB	RAM PRATAP SINGH	1/1/2005
2206	JC	840587N	SUB	RAM PRASAD	1/11/2004
2207	JC	840559F	SUB	SAHADEVAN CHERUKUTTY	1/12/2004

TO BE HONORARY RISALDARS/SUBEDARS**REGIMENT OF ARTILLERY**

1	JC 263517K	NB SUB	BABU RAM	1/10/2004
2	JC 264404N	NB SUB	BASDEO RAY	1/12/2004
3	JC 263682P	NB SUB	BAWA SINGH	1/10/2004
4	JC 264414X	NB SUB	BHAGAT SINGH	1/10/2004
5	JC 263138N	NB SUB	BHARAT MARUTI GHORPADE	1/1/2005
6	JC 264003Y	NB SUB	BINDER SINGH	1/11/2004
7	JC 262411L	NB SUB	BODH PRAKASH	1/10/2004
8	JC 264607X	NB SUB	CHACKO P T	1/1/2005
9	JC 264462X	NB SUB	CHINGKHEIREN SINGHA	1/11/2004
10	JC 263351N	NB SUB	DEBASIS ZANA	1/11/2004
11	JC 265972L	NB SUB	DEEPAK KUMAR	1/11/2004
12	JC 262878W	NB SUB	DEVKI NANDAN	1/9/2004
13	JC 263169N	NB SUB	DIWAKAR SURYAKANT PANDURANG	1/10/2004
14	JC 262104N	NB SUB	GURDEV SINGH	1/9/2004
15	JC 258796W	NB SUB	HARI KUMAR K	1/11/2004
16	JC 263998F	NB SUB	HARI OM	1/1/2005
17	JC 265667Y	NB SUB	HARI SINGH RANA	1/12/2004
18	JC 263623H	NB SUB	HEMENDRA RAY	1/1/2005
19	JC 263639N	NB SUB	HEYAT ALI SEIKH	1/10/2004
20	JC 255062K	NB SUB	JAGDISH SINGH	1/9/2004
21	JC 264744W	NB SUB	JAHAN SINGH	1/1/2005
22	JC 264184P	NB SUB	KALIYAPPAN G	1/10/2004
23	JC 263772W	NB SUB	KESHAR SINGH SHEKHAWAT	1/10/2004
24	JC 264784X	NB SUB	KRISHNA CHAND RAWAT	1/12/2004
25	JC 263917W	NB SUB	KRISHNA KANT SINGH	1/12/2004
26	JC 262876L	NB SUB	M SEGA RAM	1/10/2004
27	JC 262785F	NB SUB	MAHADEV SHRIRANG GAIKWAD	1/10/2004
28	JC 264940W	NB SUB	MAJOR SINGH	1/1/2005
29	JC 262337P	NB SUB	MANE ASHOK NIVRUTTI	1/10/2004
30	JC 265713H	NB SUB	MANICKAM L	1/10/2004
31	JC 263301H	NB SUB	MANSA RAM SAREN	1/12/2004
32	JC 264604K	NB SUB	MOHAMMED ANOOF K S	1/1/2005
33	JC 265196W	NB SUB	MOHAN SINGH	1/11/2004
34	JC 263632K	NB SUB	MOHINDER SINGH	1/11/2004
35	JC 263872F	NB SUB	NARAHARI PANDA	1/12/2004
36	JC 264638X	NB SUB	NARAIN SINGH	1/12/2004
37	JC 263126Y	NB SUB	OMVIR SINGH	1/1/2005
38	JC 264924Y	NB SUB	PARKASH SINGH	1/9/2004
39	JC 265877Y	NB SUB	PRAHLAD SINGH PAL	1/10/2004
40	JC 265439W	NB SUB	RADHEY SHYAM	1/12/2004
41	JC 264625A	NB SUB	RAGHUNATH BEHERA	1/10/2004
42	JC 264050W	NB SUB	RAJENDER	1/11/2004
43	JC 263470K	NB SUB	RAM LUBHAYA	1/10/2004
44	JC 263067X	NB SUB	RAM PARTAP	1/10/2004
45	JC 262848Y	NB SUB	RAMBALI BISHWAKARMA	1/1/2005
46	JC 265754M	NB SUB	RAMESAN VELUMBAN	1/1/2005
47	JC 265541Y	NB SUB	RAVINDER SINGH	1/11/2004
48	JC 263930A	NB SUB	SAJJAN SINGH	1/12/2004
49	JC 263748A	NB SUB	SANAP TUKARAM BABURAO	1/10/2004
50	JC 263403Y	NB SUB	SARUP SINGH	1/9/2004

51	JC	263841F	NB SUB	SARWAN SINGH	1/11/2004
52	JC	264253A	NB SUB	SATYA NARAYAN MISHRA	1/9/2004
53	JC	266134H	NB SUB	SHIVLOCHAN SINGH	1/10/2004
54	JC	262622N	NB SUB	SITA RAM	1/9/2004
55	JC	263147P	NB SUB	SUMER SINGH	1/1/2005
56	JC	262790M	NB SUB	SUNIL SINGH	1/10/2004
57	JC	264611A	NB SUB	SURENDER NATH SINGH	1/1/2005
58	JC	263574L	NB SUB	SURENDRA PANDEY	1/1/2005
59	JC	264426M	NB SUB	SURESH SINGH	1/11/2004
60	JC	264410F	NB SUB	SURINDER SINGH	1/12/2004
61	JC	264910Y	NB SUB	THAN SINGH	1/10/2004
62	JC	264790L	NB SUB	TIPPIMANI YALLAPA BASAPPA	1/12/2004
63	JC	264738H	NB SUB	VIRPAL SINGH	1/12/2004
64	JC	260239W	NB SUB	Y DHANABATI SINGHA	1/9/2004
<u>CORPS OF AIR DEFENCE ARTILLERY</u>					
65	JC	298305X	NB SUB	BACHAN SINGH	1/10/2004
66	JC	298664L	NB SUB	DESHMUKH DALIP RAO	1/10/2004
67	JC	298653Y	NB SUB	JEEBAN KUMAR JEENA	1/11/2004
68	JC	298332F	NB SUB	RAM SINGH	1/1/2005
69	JC	298527M	NB SUB	THAKUR BARVA	1/11/2004
70	JC	298301F	NB SUB	UMESH SHARMA	1/9/2004
<u>MADRAS ENGINEER GROUP</u>					
71	JC	307215A	NB SUB	GANDHI P	1/11/2004
72	JC	307576Y	NB SUB	I RAJAGOPAL	1/1/2005
73	JC	307696X	NB SUB	L JAYASEELAN	1/1/2005
74	JC	307127K	NB SUB	MURUGESAN L	1/12/2004
75	JC	307408A	NB SUB	RAVEENDRAN NAIR V	1/9/2004
76	JC	307200X	NB SUB	S BALAN	1/1/2005
77	JC	307191F	NB SUB	VASUDEVAN M	1/11/2004
<u>BENGAL ENGINEER GROUP</u>					
78	JC	326626N	NB SUB	MUNI SHANKAR SINGH	1/10/2004
79	JC	328651L	NB SUB	SUKHPAL SINGH	1/12/2004
<u>BOMBAY ENGINEER GROUP</u>					
80	JC	349308W	NB SUB	ISLAMUDIN KHAN	1/1/2005
<u>CORPS OF SIGNALS</u>					
81	JC	373745P	NB SUB	ANEG SINGH	1/10/2004
82	JC	374242W	NB SUB	BIR BAHADUR SINGH	1/9/2004
83	JC	373612Y	NB SUB	DEVENDRA SINGH CHAUHAN	1/1/2005
84	JC	373146P	NB SUB	DHYAN PAL SINGH	1/12/2004
85	JC	373599A	NB SUB	GAJADHAR PRASAD	1/11/2004
86	JC	371565N	NB SUB	GAJANAN HARIBHAU KULKARNI	1/9/2004
87	JC	373677M	NB SUB	JANAKI RAMAN R	1/11/2004
88	JC	373603X	NB SUB	JAVED ALI	1/11/2004
89	JC	375253P	NB SUB	KAMLESH KUMAR SINGH	1/12/2004
90	JC	372920M	NB SUB	KRISHAN KUMAR SHARMA	1/11/2004
91	JC	374358M	NB SUB	MOOL CHAND RAM	1/10/2004
92	JC	373945L	NB SUB	OM PRAKASH	1/1/2005
93	JC	374555P	NB SUB	RAM RATAN	1/10/2004
94	JC	375328F	NB SUB	RAMESHWAR SINGH	1/12/2004

95	JC 375070Y	NB SUB	SIRIGIRI RANGA NYAKULU	1/11/2004
96	JC 373455X	NB SUB	SURENDRA SINGH	1/10/2004
97	JC 373739F	NB SUB	SURINDER KUMAR THAKUR	1/10/2004
98	JC 378221M	NB SUB	VASUDEVAN PILLAI K J	1/1/2005
99	JC 373744M	NB SUB	VIBHISHAN SINGH	1/10/2004
100	JC 373572H	NB SUB	VICTOR KANDOTH	1/10/2004
<u>THE BRIGADE OF GUARDS</u>				
101	JC 402982K	NB SUB	BABU LAL YADAV	1/11/2004
102	JC 403064K	NB SUB	BISWAMITRA SINGH	1/12/2004
103	JC 403425X	NB SUB	NIRAMAL SINGH	1/11/2004
<u>THE MECHANISED INFANTRY REGIMENT</u>				
104	JC 419435L	NB SUB	HARINDRA RAI	1/10/2004
105	JC 419360Y	NB SUB	KRISHAN LAL	1/11/2004
<u>THE GRENADIERS</u>				
106	JC 449301F	NB SUB	PARSHOTAM CHAND	1/1/2005
107	JC 449307H	NB SUB	PURAN CHAND	1/10/2004
<u>THE RAJPUTANA RIFLES</u>				
108	JC 469002K	NB SUB	ZILE SINGH	1/10/2004
<u>THE RAJPUT REGIMENT</u>				
109	JC 478885A	NB SUB	DAL CHAND	1/12/2004
110	JC 479046P	NB SUB	JEET BAHADUR SINGH	1/12/2004
111	JC 478825L	NB SUB	OMBIR SINGH	1/9/2004
112	JC 479254K	NB SUB	RAM SINGH	1/1/2005
<u>THE JAT REGIMENT</u>				
113	JC 488907F	NB SUB	ANUM SINGH	1/1/2005
<u>THE DOGRA REGIMENT</u>				
114	JC 518871L	NB SUB	RAJINDER SINGH	1/11/2004
<u>THE GARHWAL RIFLES</u>				
115	JC 528744K	NB SUB	MADAN PRASAD	1/9/2004
<u>THE KUMAON REGIMENT</u>				
116	JC 539105H	NB SUB	HIRA SINGH BHANDARI	1/9/2004
<u>THE MAHAR REGIMENT</u>				
117	JC 569302A	NB SUB	AMAL KUMAR BISWAS	1/1/2005
118	JC 569163F	NB SUB	DAULAT SINGH	1/11/2004
<u>THE JAMMU AND KASHMIR RIFLES</u>				
119	JC 579386M	NB SUB	RAMESH CHAND	1/1/2005
<u>1 GORKHA RIFLES</u>				
120	JC 602236L	NB SUB	DHAN BHADUR THAPA	1/1/2005
<u>11 GORKHA RIFLES</u>				
121	JC 634354M	NB SUB	ANIL SUBBA	1/11/2004
122	JC 634479K	NB SUB	ASHOK KUMAR	1/9/2004

123	JC	634503P	NB SUB	ATAL BAHADUR RAI	1/10/2004
124	JC	634393L	NB SUB	BAHADUR SUBBA	1/10/2004
125	JC	634524L	NB SUB	DHAN SINGH LIMBU	1/10/2004
126	JC	634498P	NB SUB	DILLI SER RAI	1/10/2004
127	JC	634506H	NB SUB	GANESH BAHADUR LIMBU	1/10/2004
128	JC	634501K	NB SUB	GANGA BAHADUR RAI	1/9/2004
129	JC	634464F	NB SUB	JAMAN SINGH RAI	1/10/2004
130	JC	634465K	NB SUB	PREM BAHADUR RAI	1/10/2004
131	JC	634523H	NB SUB	PRITHI LAL LIMBU	1/1/2005
132	JC	634371M	NB SUB	SER BAHADUR LIMBU	1/10/2004
133	JC	634395W	NB SUB	SINGH BAHADUR LIMBU	1/10/2004
134	JC	634409L	NB SUB	TEJ BAHADUR THAPA	1/10/2004

ARMY SERVICE CORPS(SOUTH)

135	JC	662505W	NB SUB	ANIL KUMAR GOGAI	1/1/2005
136	JC	662386L	NB SUB	ASHOK KUMAR SINGH	1/12/2004
137	JC	662304X	NB SUB	AVDHESH CHAUTURVEDI	1/1/2005
138	JC	662331F	NB SUB	BALDEV RAJ	1/1/2005
139	JC	662325N	NB SUB	BHAGWAT PRASAD	1/1/2005
140	JC	662320P	NB SUB	BIJAY SINGH	1/1/2005
141	JC	662447X	NB SUB	CHANDAN SINGH	1/10/2004
142	JC	662199M	NB SUB	CLAMENT VIJAYA KUMAR	1/10/2004
143	JC	642111W	NB SUB	DINESH CHANDRA MISHRA	1/11/2004
144	JC	662417A	NB SUB	G NAGARAJAN	1/10/2004
145	JC	662198K	NB SUB	GOPI K R	1/10/2004
146	JC	640955N	NB SUB	JAI RAM RAM	1/9/2004
147	JC	662281F	NB SUB	KHYALI RAM	1/1/2005
148	JC	642025L	NB SUB	LIMKAR SHIRISH CHANDR	1/1/2005
149	JC	662387N	NB SUB	MAHENDER SINGH	1/1/2005
150	JC	662264F	NB SUB	MUKH DEO JHA	1/10/2004
151	JC	662644A	NB SUB	PARMATMA PRASAD	1/12/2004
152	JC	662239H	NB SUB	RAJ SINGH	1/12/2004
153	JC	662122K	NB SUB	RAM CHANDER	1/12/2004
154	JC	641128X	NB SUB	RAM DEO THAKUR	1/12/2004
155	JC	662252M	NB SUB	RAM KISHAN	1/12/2004
156	JC	642800X	NB SUB	RAM MURALI SINGH	1/1/2005
157	JC	662314F	NB SUB	RAMBIR SINGH	1/1/2005
158	JC	641886P	NB SUB	REVI N	1/1/2005
159	JC	642067X	NB SUB	S AYYAKANNU	1/1/2005
160	JC	642435F	NB SUB	S SAMBATH	1/11/2004
161	JC	662349X	NB SUB	SATYBIR SINGH	1/1/2005
162	JC	662513P	NB SUB	SHRI NIWAS PARSAD	1/10/2004
163	JC	662212L	NB SUB	SURJIT SINGH	1/10/2004
164	JC	641885M	NB SUB	T SUDHAKARAN	1/9/2004
165	JC	642680K	NB SUB	THOMAS E M	1/1/2005
166	JC	642803L	NB SUB	VENUGOPALAN K P	1/10/2004

ARMY SERVICE CORPS(ANIMAL TRANSPORT)

167	JC	680633W	NB RIS	TEJ BAHADUR CHETRI	1/9/2004
-----	----	---------	--------	--------------------	----------

ARMY MEDICAL CORPS

168	JC	694392M	NB SUB	GHAN SHAM SINGH	1/1/2005
169	JC	693612Y	NB SUB	KHOT YASHAVANT MAHADEO	1/9/2004
170	JC	693553X	NB SUB	KORATE BABRUWAHAN KISHAN RAO	1/9/2004

171	JC	694127W	NB SUB	KRISHAN KUMAR	1/1/2005
172	JC	693228X	NB SUB	MANINDRA KUMAR SARKAR	1/10/2004
173	JC	693996Y	NB SUB	P SEETHA RAMSARMA	1/11/2004
174	JC	693552P	NB SUB	PRAKASH NANA RUTKUTE	1/9/2004
175	JC	693901N	NB SUB	SADI TAMAYA REDDI	1/12/2004
176	JC	693821W	NB SUB	SUKHJIT SINGH MEHLA	1/11/2004
177	JC	693999M	NB SUB	SWAPAN KUMAR MONDAL	1/12/2004

ARMY ORDNANCE CORPS

178	JC	725416P	NB SUB	HARBANS LAL	1/10/2004
179	JC	726023L	NB SUB	LACHIT GOHAIN	1/9/2004
180	JC	725013P	NB SUB	SHAIK RACHARLA NABHE RASHEED	1/9/2004
181	JC	726029M	NB SUB	SURESH KUMAR	1/11/2004

CORPS OF ELECTRICAL AND MECHANICAL ENGINEERS

182	JC	753496N	NB SUB	ATUL CHANDRA MANDAL	1/11/2004
183	JC	756709F	NB SUB	BHAGWAN DASS	1/10/2004
184	JC	757575X	NB SUB	CHABI LAL NEWAR	1/12/2004
185	JC	756940K	NB SUB	DAMODARA NAIDU	1/6/2004
186	JC	751078A	NB SUB	DAYA SHANKER MISHRA	1/12/2004
187	JC	754577A	NB SUB	GOUTAM BHATTACHARJEE	1/1/2005
188	JC	756344K	NB SUB	JAGDISH SINGH	1/7/2004
189	JC	754054F	NB SUB	JAI NARAIN	1/8/2004
190	JC	757472F	NB SUB	KSHETRA BASI SAHOO	1/10/2004
191	JC	757572M	NB SUB	NAGEN CHANDRA BOURI	1/12/2004
192	JC	753928X	NB SUB	PATEL HIRA BHAI SAKARA BHAI	1/1/2005
193	JC	752948Y	NB SUB	ROKADE VIJAY KUMAR HAIBATI	1/12/2004
194	JC	750245Y	NB SUB	SASIDHARAN K	1/10/2004
195	JC	756712F	NB SUB	SHAM SINGH	1/11/2004
196	JC	756978N	NB SUB	SURESH	1/8/2004
197	JC	757471Y	NB SUB	SURESH BABU	1/10/2004
198	JC	757268H	NB SUB	TIJA ORAON	1/12/2004
199	JC	756893X	NB SUB	VISWANATHAN T M	1/10/2004

REMOUNT AND VETERINARY CORPS

200	JC	797204A	NB RIS	JAYA KUMAR B	1/10/2004
201	JC	797216P	NB RIS	UMANATH RAI	1/1/2005

CORPS OF MILITARY POLICE

202	JC	818673Y	NB SUB	A MANIKANDAN	1/11/2004
203	JC	818679A	NB SUB	KAMALANATHAN S	1/1/2005
204	JC	818759X	NB SUB	LAL SINGH BALYAN	1/12/2004

THE PIONEER CORPS

205	JC	829231A	NB SUB	ABDHESH SINGH	1/10/2004
206	JC	829223F	NB SUB	DEWAN CHAND	1/10/2004
207	JC	829251N	NB SUB	NAR SINGH MEENA	1/9/2004
208	JC	829222Y	NB SUB	NIRMAL SINGH	1/10/2004
209	JC	829256M	NB SUB	RAM NARESH SINGH	1/10/2004
210	JC	829232H	NB SUB	VIJAI SINGH	1/9/2004

DEFENCE SECURITY CORPS

211	JC	841110L	NB SUB	ABDUL GAPHUR KHAN	1/12/2004
212	JC	841062W	NB SUB	AJIT KUMAR BRAHMA	1/9/2004

213	JC	841585P	NB SUB	AMARJIT SINGH	
214	JC	841080Y	NB SUB	BIHARI LAL	1/10/2004
215	JC	840953M	NB SUB	DEVI SINGH	1/11/2004
216	JC	840809X	NB SUB	DHIRAJ SINGH	1/11/2004
217	JC	841397N	NB SUB	DULO RAM	1/12/2004
218	JC	841078F	NB SUB	GEORGE PV	1/9/2004
219	JC	841002F	NB SUB	GOKAL CHAND	1/10/2004
220	JC	841315A	NB SUB	HARI SINGH	1/12/2004
221	JC	840836F	NB SUB	HAZARI LAL	1/11/2004
222	JC	840886M	NB SUB	HEMANT SINGH NEGI	1/11/2004
223	JC	840827A	NB SUB	K P RAGHAVAN	1/11/2004
224	JC	841053P	NB SUB	LEKH RAM	1/10/2004
225	JC	840996F	NB SUB	OM PRAKASH	1/11/2004
226	JC	841134P	NB SUB	RAM SWARUP	1/11/2004
227	JC	841126W	NB SUB	R SELVARAJ	1/11/2004
228	JC	840947Y	NB SUB	SANTILAL BISWAS	1/1/2005
229	JC	841581Y	NB SUB	SHISH PAL SINGH	1/9/2004
					1/1/2005

EX-POST-FACTO
GRANT OF HONORARY RANK OF CAPTAIN
AND SUB MAJ FROM THE DATE SHOWN
AGAINST EACH ON RETIREMENT

HONORARY CAPTAIN

THE DOGRA REGIMENT

1. JC-164072A Ex SUB MAJ & HONY LT BALWANT SINGH 01.04.2001

HONORARY SUBEDAR MAJOR

ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGINEER

2. JC-182303N Ex SUB RAM RICHHPAL 02-12.1997

[No. B/43432/RD-05/AG/CW-2]

MOHINDER SINGH, Lt. Gen., Adjutant General

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जनवरी, 2005

सं० 03(अ) दिनांक 26 जनवरी, 2005.— राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस के अवसर पर निम्नलिखित एन सी ओजि को उनके अवकाश ग्रहण करने पर सेना विनियामावली 1987 के पैरा 180 के अधीन उनके नामों के सामने दी हुई तारीख से अवैतनिक नायब रिसलदार/नायब सुबेदार का पद प्रदान करते हैं:—

अवैतनिक नायब रिसलदार

7 कैवलरी

1	1066087एच	दफादार	हरविन्द्र सिंह	1-11-2004
8	कैवलरी			
2	1065714एक्स	दफादार	विश्वा वीर सिंह मलिक	1-9-2004
66	कवचित रेजिमेन्ट			
3	1066073एच	दफादार	ईश एन	1-11-2004
4	1065860एक्स	दफादार	रामेश्वर यादव	1-10-2004
70	कवचित रेजिमेन्ट			
5	1066074एल	दफादार	राकीभदीन विश्वास	1-11-2004
72	कवचित रेजिमेन्ट			
6	1065832एल	दफादार	विश्राम सिंह	1-10-2004
74	कवचित रेजिमेन्ट			
7	1066264एक्स	दफादार	लक्ष्मी दास	1-1-2005
75	कवचित रेजिमेन्ट			
8	1065862एच	दफादार	गंगाधर एमटी	1-10-2004
81	कवचित रेजिमेन्ट			
9	1066338एफ	दफादार	सुच्चा सिंह	1-1-2005

82	कवचित रेजिमेन्ट				
10	1065819एफ	दफादार	धर्मवीर सिंह		
86	कवचित रेजिमेन्ट				1-9-2004
11	8025888डब्ल्यू	दफादार	गंगा प्रसाद यादव		
88	कवचित रेजिमेन्ट				1-9-2004
12	1066046वाइ	दफादार	श्याम नन्दन पान्डे		
89	कवचित रेजिमेन्ट				1-11-2004
13	1065761पी	हवलदार	सुभाष राय		
90	कवचित रेजिमेन्ट				1-9-2004
14	1065951एफ	दफादार	प्रभु लाल मीना		1-10-2004
15	1066146के	दफादार	राम सुमेर ठाकुर		1-12-2004
16	1066055ए	दफादार	रतनेश झा		1-11-2004
44	कवचित रेजिमेन्ट				
17	1065923पी	दफादार	मोहम्मद राजब अली		
48	कवचित रेजिमेन्ट				1-10-2004
18	1065775पी	दफादार	कुवर ग्वाला		
49	कवचित रेजिमेन्ट				1-9-2004
19	1065884एफ	दफादार	रघुबंस कुमार		
5	कवचित रेजिमेन्ट				1-10-2004
20	1065922एम	दफादार	एम चंद्रा घोष		
13	कवचित रेजिमेन्ट				1-10-2004
21	1065800एच	दफादार	जगदीश राजपूत		
	कवचित कोर				1-9-2004
22	1061983एम	दफादार	बलवंत सिंह		1-1-2005
23	1066106एच	दफादार	भाल सिंह		1-11-2004
24	1066134पी	दफादार	भूपाल सिंह		1-12-2004
25	1065742के	दफादार	बिमल परामणिक		1-9-2004
26	1066342के	दफादार	धर्म पाल		1-1-2005
27	1061819के	दफादार	धर्म पाल		1-12-2004

28	1066067पी	दफादार	दुन्ना बी	1-11-2004
29	1066171एच	दफादार	गज सिंह	1-12-2004
30	1061940एक्स	दफादार	जगबन्ध दास बी	1-1-2005
31	1066207डब्ल्यू	दफादार	जय सिंह	1-12-2004
32	1061743पी	दफादार	जनक राज	1-10-2004
33	1066108एन	दफादार	के एन कुमार	1-11-2004
34	1065668एन	दफादार	के परमासिवम	1-9-2004
35	1066188एल	दफादार	एल पोन्नु स्वामी	1-12-2004
36	1061745ए	दफादार	मदन लाल	1-10-2004
37	1066079के	दफादार	एम सिंह	1-11-2004
38	1065720एल	दफादार	मूलचंद लाल	1-9-2004
39	1061967पी	दफादार	नाबा कुमार नाथ	1-1-2005
40	1061931डब्ल्यू	दफादार	राज किशोर प्रसाद	1-12-2004
41	1066156एन	दफादार	राजिन्दर राम	1-12-2004
42	1061693पी	दफादार	राजपाल बिबयन	1-9-2004
43	1066183एक्स	दफादार	राम आशरे	1-12-2004
44	1066013एन	दफादार	राम चंद	1-11-2004
45	1061724के	दफादार	राम सुरेश	1-10-2004
46	1061942एच	दफादार	रुकाम पाल	1-1-2005
47	1066239वाइ	दफादार	शहीद खान	1-1-2005
48	1068295एक्स	दफादार	सुखविंदर सिंह	1-1-2005
रेजिमेन्ट आफ तोपखाना				

49	1435553एल	हवलदार	ए एन सिंह	1-1-2005
50	14470249एन	हवलदार	अखिलेश झा	1-11-2004
51	14335234एक्स	हवलदार	आनंद सिंह	1-10-2004
52	14354507के	हवलदार	अन्दानापली पापा राव	1-11-2004
53	14337196एल	हवलदार	बाबन सिंह	1-1-2005
54	14470022ए	हवलदार	बेबी एल	1-11-2004
55	14469421एक्स	हवलदार	बजरंग सिंह	1-10-2004
56	14458901एच	हवलदार	बाला चन्द्रन नायर के	1-10-2004
57	14335932ए	हवलदार	बलबीर सिंह	1-11-2004
58	14352451के	हवलदार	बलबीर सिंह	1-9-2004
59	14469991एन	हवलदार	भीम सिंह	1-11-2004
60	14354883एक्स	हवलदार	भिमाम्पा आर भराछनावर	1-12-2004
61	14351439डब्ल्यू	हवलदार	भुनेश सिंह	1-9-2004
62	14458063एक्स	हवलदार	बिमल किशोर सिंह	1-12-2004
63	14458001एक्स	हवलदार	बीर बहादुर सिंह	1-12-2004
64	14352352एफ	हवलदार	बिरेन्द्र सिंह	1-9-2004
65	14470691पी	हवलदार	बिरेन्द्र कुमार घान्डे	1-12-2004
66	14471453वाइ	हवलदार	चिदानमद मेदेगर	1-1-2005
67	14352880एल	हवलदार	डी आनन्दन	1-10-2004
68	14353720एक्स	हवलदार	डी रविन्दन	1-11-2004
69	14468593ए	हवलदार	दागला राम	1-9-2004
70	14335612एल	हवलदार	दर्शन सिंह	1-11-2004
71	14470582एम	हवलदार	दसरथ राय	1-12-2004
72	14469420पी	हवलदार	देवी सिंह	1-10-2004
73	14470787एफ	हवलदार	धनी रेडी बी रेडी	1-12-2004

74	14471494एच	हवलदार	धर्म पाल सिंह यादव	1-1-2005
75	14355764एन	हवलदार	धरमनाथ प्रसाद	1-1-2005
76	14471403एन	हवलदार	धर्मपाल सिंह	1-1-2005
77	14470794एक्स	हवलदार	धर्मवीर सिंह	1-12-2004
78	14352237एफ	हवलदार	धरिन्द्र कुमार	1-9-2004
79	14469529पी	हवलदार	दीवान सिंह	1-10-2004
80	14355011एफ	हवलदार	दूध सिंह	1-10-2004
81	14470023एच	हवलदार	गावड उधव हरीबा	1-11-2004
82	14353554पी	हवलदार	गोपाल राम	1-10-2004
83	14469280एन	हवलदार	गोरखानाथ जगन्नाथ के	1-10-2004
84	14336561पी	हवलदार	गौतम मुनि साही	1-12-2004
85	14353155एल	हवलदार	गुरदयाल सिंह	1-10-2004
86	14351485एल	हवलदार	गुरुदियाल	1-9-2004
87	14470635ए	हवलदार	गुरुसिदा रेवानावर	1-12-2004
88	14469368एक्स	हवलदार	हरबंस सिंह	1-10-2004
89	14355105वाइ	हवलदार	हरीकृष्ण ठाकुर	1-12-2004
90	14470983एफ	हवलदार	एच नारायण सिंह	1-12-2004
91	14471657एल	हवलदार	जे सेकार	1-1-2005
92	14470551एम	हवलदार	जगत सिंह	1-12-2004
93	14351841ए	हवलदार	जगदीश चंद	1-9-2004
94	14354182एफ	हवलदार	जगदीश चंद्रा	1-11-2004
95	14471282एक्स	हवलदार	जगनंदन सिंह	1-1-2005
96	14458313एन	हवलदार	जोगिंदर सिंह	1-1-2005
97	14355132एच	हवलदार	कनगौतन सिंघा	1-12-2004
98	14457096डब्ल्यू	हवलदार	कपीलेश्वर नाथ सिंह	1-10-2004
99	14353914ए	हवलदार	कृपाल सिंह	1-11-2004
100	14351452ए	हवलदार	लच्छी राम	1-9-2004
101	14470611डब्ल्यू	हवलदार	एल राय आर	1-12-2004
102	14354874डब्ल्यू	हवलदार	लौकर सुबाष मनोहर	1-12-2004
103	14469747एन	हवलदार	एम पांडुरंग शिरादवादे	1-10-2004
104	14456481एन	हवलदार	मदन राम	1-9-2004
105	14353906एफ	हवलदार	महेंद्र	1-11-2004
106	14355778एन	हवलदार	महेंद्र सिंह	1-1-2005
107	14352202एल	हवलदार	महेश कुमार भाटी	1-9-2004
108	14353892एम	हवलदार	मलाकाजी मलप्पा एच	1-11-2004
109	14352982एफ	हवलदार	मंगलेश पान्डे	1-10-2004
110	14355128ए	हवलदार	मनिन्द्र सिंह	1-12-2004
111	14471025ए	हवलदार	मथुरी सिंह	1-12-2004
112	14352733एच	हवलदार	मोहिंद्र प्रसाद द्वारिका	1-10-2004
113	14353996एन	हवलदार	मोनू बाबू सिन्हा	1-11-2004
114	14354067एफ	हवलदार	एम जयानन्दम	1-11-2004
115	14355450एम	हवलदार	मोहम्मद बशीर छत्र	1-1-2005
116	14352777ए	हवलदार	नन्द किशोर शर्मा	1-10-2004
117	14352157के	हवलदार	एन ओ सिंह	1-9-2004
118	14470688वाइ	हवलदार	पारस नाथ सिंह	1-12-2004
119	14471490एम	हवलदार	परमात्मा गोस्वामी	1-1-2005
120	14355737के	हवलदार	परमात्मा रासन	1-1-2005
121	14351153एफ	हवलदार	पेप सिंह	1-9-2004
122	14353538एक्स	हवलदार	प्रभात राम	1-10-2004

123	14354722पी	हवलदार	प्रदीप कुमार टी	1-12-2004
124	14471080डब्ल्यू	हवलदार	रबीन्द्र शर्मा	1-12-2004
125	14352354एम	हवलदार	राजेंद्र सिंह	1-9-2004
126	14469232एन	हवलदार	राजेंद्र प्रसाद	1-10-2004
127	14471241एन	हवलदार	राकेश कुमार द्विवेदी	1-1-2005
128	14351404ए	हवलदार	राम अवतार यादव	1-9-2004
129	14468908वाइ	हवलदार	राम अवतार सिंह	1-9-2004
130	14353127वाइ	हवलदार	राम कुमार	1-10-2004
131	14468155के	हवलदार	राम कुमार झा	1-10-2004
132	14469834एफ	हवलदार	राम निवास	1-10-2004
133	14335927पी	हवलदार	राम प्रीत सिंह	1-11-2004
134	14457928एम	हवलदार	राम सकल सिंह	1-12-2004
135	14355072वाइ	हवलदार	रामानारयण भोई	1-12-2004
136	14469510डब्ल्यू	हवलदार	रंजीत कुमार मोन्डल	1-10-2004
137	14352881एन	हवलदार	राओह कोन्दा रमइआ	1-10-2004
138	14469961डब्ल्यू	हवलदार	रिचपाल सिंह	1-11-2004
139	14470093एफ	हवलदार	रोशन लाल	1-11-2004
140	14471568एम	हवलदार	एस संधिरा एस	1-1-2005
141	14470690डब्ल्यू	हवलदार	समरजीत सिंह	1-12-2004
142	14470242के	हवलदार	संत किशोर	1-11-2004
143	14470066एक्स	हवलदार	श्रवण कुमार	1-11-2004
144	14469715एल	हवलदार	श्रवण सिंह	1-10-2004
145	14353600वाइ	हवलदार	सतनाम सिंह	1-10-2004
146	14471368डब्ल्यू	हवलदार	सतवंत सिंह	1-1-2005
147	14337156के	हवलदार	षोष्ण नाथ सिंह	1-1-2005
148	14471033वाइ	हवलदार	शिव बाहासुर सिंह	1-12-2004
149	14352658के	हवलदार	शिव मंगल सिंह	1-10-2004
150	14469756पी	हवलदार	शिव राज सिंह	1-10-2004
151	14352368एम	हवलदार	सिजा कुमार प्रधान	1-9-2004
152	14456418वाइ	हवलदार	सिरे कृष्ण ठाकुर	1-9-2004
153	14351652डब्ल्यू	हवलदार	सोहन सिंह	1-9-2004
154	14470952एफ	हवलदार	सुभाष चंद	1-12-2004
155	14457055एम	हवलदार	सुभाष चंद	1-10-2004
156	14458590वाइ	हवलदार	सुभाष चंद वर्मा	1-1-2005
157	14354665वाइ	हवलदार	सुख देव सिंह चिब	1-12-2004
158	14471043एच	हवलदार	सुंदर पाल	1-12-2004
159	14470744एम	हवलदार	सुरेश कुमार पण्डित	1-12-2004
160	14470749एल	हवलदार	सुरेश नाथ सिंह	1-12-2004
161	14351460वाइ	हवलदार	तेज नारायण सिंह	1-9-2004
162	14471530एच	हवलदार	थानकचन टू	1-1-2005
163	14468447ए	हवलदार	उदय वीर सिंह	1-9-2004
164	14457184एम	हवलदार	उत्तम चंद	1-11-2004
165	14351856एच	हवलदार	वी कलाल	1-9-2004
166	14353563डब्ल्यू	हवलदार	विजया कुमार नायर आर	1-10-2004
167	14335173एल	हवलदार	वीजेन्द्र कुमार	1-10-2004
168	14352742के	हवलदार	याद राम धोबी	1-10-2004

कोर आफ वायु रक्षा तोपखाना

169	14352387एक्स	हवलदार	अमर नाथ	1-9-2004
170	14354703के	हवलदार	अमर सिंह	1-12-2004
171	14351031एक्स	हवलदार	अनिल कुमार	1-9-2004
172	14353499के	हवलदार	अशोक कुमार	1-10-2004
173	14336357डब्ल्यू	हवलदार	बी पी सिंह	1-12-2004
174	14353255डब्ल्यू	हवलदार	बादल मल्लिक	1-10-2004
175	14354159एन	हवलदार	बिहारी लाल शर्मा	1-11-2004
176	14353289के	हवलदार	बिनान चंद्रा राय	1-10-2004
177	14352598ए	हवलदार	बिरेन्द्र सिंह	1-10-2004
178	14354743एल	हवलदार	बिरेन्द्र शर्मा	1-12-2004
179	14355093पी	हवलदार	बुद्धादेब दास	1-12-2004
180	14354606एम	हवलदार	चैन सिंह राणा	1-12-2004
181	14469308एच	हवलदार	चामरू ओरौन	1-10-2004
182	14352592वाइ	हवलदार	चंद्र भुवन	1-10-2004
183	14354635एफ	हवलदार	चान्द्राकान्त सुतार	1-12-2004
184	14354414पी	हवलदार	दलवी समभाजी शंतु	1-11-2004
185	14354315एम	हवलदार	इसी पी सी	1-11-2004
186	14355096एच	हवलदार	गांधी राम	1-12-2004
187	14354460के	हवलदार	गाने एस	1-11-2004
188	14355734डब्ल्यू	हवलदार	गोमती	1-1-2005
189	14469613पी	हवलदार	हरी दास घोष	1-10-2004
190	14355514एम	हवलदार	जे ए	1-1-2005
191	14355327एन	हवलदार	जगदीश प्रसाद	1-1-2005
192	14352360ए	हवलदार	जगलाल राम	1-9-2004
193	14469539वाइ	हवलदार	के जयारमण	1-10-2004
194	14352770डब्ल्यू	हवलदार	कालिका प्रसाद	1-10-2004
195	14352606एन	हवलदार	किशोर कुमार	1-10-2004
196	14355316एफ	हवलदार	लालजी	1-1-2005
197	14351290ए	हवलदार	एल दत्तात्रेय बाबन	1-9-2004
198	14354457के	हवलदार	महावीर सिंह यादव	1-11-2004
199	14353334एल	हवलदार	मांड लक्ष्मन रेडी	1-10-2004
200	14336404एच	हवलदार	मेहरबान सिंह	1-11-2004
201	14468682वाइ	हवलदार	मादु राम	1-9-2004
202	14355382के	हवलदार	मोनोरंजन कुच	1-1-2005
203	14351678एल	हवलदार	मुकेश कुमार	1-9-2004
204	14350878पी	हवलदार	मुरता सिंह	1-9-2004
205	14470696एक्स	हवलदार	नाउ नाथ पान्डे	1-12-2004
206	14354825एन	हवलदार	ओम प्रकाश	1-12-2004
207	14355117एन	हवलदार	पी राजभार	1-12-2004
208	14468418एल	हवलदार	पारेश हज	1-9-2004
209	14355225एक्स	हवलदार	प्रकाश चंद	1-1-2005
210	14337265डब्ल्यू	हवलदार	पुरुषोत्तम माजि	1-1-2005
211	14355172के	हवलदार	आर चूरामणि	1-12-2004
212	14468759डब्ल्यू	हवलदार	राधा कृष्ण सिंह	1-9-2004
213	14470887एम	हवलदार	राज सिंह	1-12-2004
214	14337201एल	हवलदार	राम अवतार सिंह यादव	1-1-2005
215	14352778एच	हवलदार	राम बाबू	1-10-2004

216	14351005डब्ल्यू	हवलदार	राम बहादुर सिंह	1-9-2004
217	14353300एक्स	हवलदार	राम दास सिंह	1-10-2004
218	14355648एल	हवलदार	राम मिलन	1-1-2005
219	14355199एफ	हवलदार	राम सिंह	1-1-2005
220	14334486एक्स	हवलदार	राम सिया कोल	1-9-2004
221	14351700एल	हवलदार	रमावदेश सिंह	1-9-2004
222	14353245एम	हवलदार	रमेश चंद्रा पाल	1-10-2004
223	14352765एल	हवलदार	रामेश्वर तिवारी	1-10-2004
224	14468299ए	हवलदार	रवीन्द्र कुमार	1-9-2004
225	14457330एफ	हवलदार	एस जैकब	1-11-2004
226	14353516वाइ	हवलदार	सरदार सिंह	1-10-2004
227	14354673एक्स	हवलदार	शोक अब्दुल रशीद	1-12-2004
228	14352824एम	हवलदार	शंकरन कुट्टी	1-10-2004
229	14469339एच	हवलदार	श्रीकान्ता कुरुप के	1-10-2004
230	14351096एल	हवलदार	श्रीराम ठाकुर	1-9-2004
231	14355184वाइ	हवलदार	सुरेंद्र नाथ मोन्दल	1-12-2004
232	14354028एच	हवलदार	सुरेंद्र सिंह	1-11-2004
233	14352965एफ	हवलदार	तरुन चंद्रा दास	1-10-2004
234	14354700डब्ल्यू	हवलदार	तुलसी सिंह यादव	1-12-2004
235	14351536एन	हवलदार	तुषार कांती मैती	1-9-2004
236	14353706एल	हवलदार	वाघ एस श्रीपत	1-11-2004
237	14468913के	हवलदार	वरयम सिंह	1-9-2004
मद्रास इंजीनियर ग्रुप				
238	1367258पी	हवलदार	ए अरोकियास्वामी	1-11-2004
239	1373509के	हवलदार	ए जेम्स पौल	1-12-2004
240	1372590पी	हवलदार	एंथोनी क्रुज	1-9-2004
241	1372528एच	हवलदार	ए के	1-10-2004
242	1372673ए	हवलदार	बालचन्द्रन के	1-10-2004
243	137257व्फ	हवलदार	बालासुन्दरम ए	1-9-2004
244	1366899पी	हवलदार	सी जया रमा रेडी	1-9-2004
245	1373437एल	हवलदार	सी मनी	1-12-2004
246	1373287ए	हवलदार	सी मनी	1-11-2004
247	1372728वाइ	हवलदार	सी मुथुपनदियान	1-10-2004
248	1366895वाइ	हवलदार	चन्द्रन के एन	1-9-2004
249	1372537के	हवलदार	सी एम	1-10-2004
250	1372758डब्ल्यू	हवलदार	डी पी जंगीलायाह	1-10-2004
251	1372267ए	हवलदार	डी एस श्रीनाथ	1-9-2004
252	1372834एक्स	हवलदार	डी पाटिल दिलिप	1-10-2004
253	1370121एन	हवलदार	डी कुट्टी वी वी	1-10-2004
254	1374013एफ	हवलदार	जी मुरुगेसन	1-1-2005
255	1373134डब्ल्यू	हवलदार	जी संकरन	1-11-2004
256	1372878पी	हवलदार	गोपीनाथन पी	1-10-2004
257	1374248एन	हवलदार	गोपीनाथन एम	1-12-2004
258	1372926के	हवलदार	गोपीनाथन पी	1-10-2004
259	1373546एक्स	हवलदार	आइ मुरगन	1-12-2004
260	1373054वाइ	हवलदार	आई तालियाह	1-11-2004
261	1367286एफ	हवलदार	इस्माइल शोक	1-12-2004

262	1373161ए	हवलदार	इसतती रवीन्द्रायाह	1-11-2004
263	1373499एल	हवलदार	जे जॉन बॉस्को	1-12-2004
264	1373428के	हवलदार	जे कथिरेसन	1-12-2004
265	1372388एफ	हवलदार	जे विश्वानाथन	1-9-2004
266	1372781के	हवलदार	के आनन्दन	1-10-2004
267	1373417एक्स	हवलदार	के बाबू राजन	1-11-2004
268	1372422डब्ल्यू	हवलदार	के देवेन्द्रन	1-9-2004
269	1372864पी	हवलदार	के एस विजयन	1-10-2004
270	1373681एल	हवलदार	के वेंकटाशन	1-12-2004
271	1372771ए	हवलदार	कमालप्पन जे	1-10-2004
272	1372441एफ	हवलदार	कासा रमी रेडी	1-9-2004
273	1373374एन	हवलदार	कोलागरि सूरी बाबू	1-11-2004
274	1372522एफ	हवलदार	कृष्णमूर्ति आर	1-10-2004
275	13722467एक्स	हवलदार	कृष्णन जी	1-12-2004
276	1372666के	हवलदार	एम कृष्णन	1-10-2004
277	1367229ए	हवलदार	एम मुनिराथिनाम	1-11-2004
278	1373135वाइ	हवलदार	एम पलानी	1-11-2004
279	1373850एफ	हवलदार	एम राजू	1-1-2005
280	1372785ए	हवलदार	एम रंगनाथन	1-10-2004
281	1374058एफ	हवलदार	मधुसुधनन पी	1-1-2005
282	1367456ए	हवलदार	महादेव सुतार	1-1-2005
283	1372718पी	हवलदार	महिन्द्रियन के	1-10-2004
284	1373686के	हवलदार	मणिकम एम	1-12-2004
285	1373792एच	हवलदार	मीनिगा रंगा रेडी	1-12-2004
286	1372607एक्स	हवलदार	मेतुपल्ले आर आर	1-10-2004
287	1372736एच	हवलदार	मोहम्मद खलील	1-10-2004
288	1372613एल	हवलदार	मोहम्मद शमशेर	1-10-2004
289	1375212एफ	हवलदार	मोहाना कुमार वी	1-10-2004
290	1372881पी	हवलदार	मुस्लीधरन के	1-10-2004
291	1372797पी	हवलदार	एन योगानंदन	1-10-2004
292	1367323के	हवलदार	नरसिम्हुलु एम	1-12-2004
293	1373026एम	हवलदार	औदेश वी एम	1-10-2004
294	1373328वाइ	हवलदार	पी जयराजू	1-11-2004
295	1373441एन	हवलदार	पी कसीनाथन	1-12-2004
296	1367517एम	हवलदार	पी आर	1-1-2005
297	1367531वाइ	हवलदार	पी वेलासामी	1-1-2005
298	1368346एक्स	हवलदार	पमदात्त एन	1-11-2004
299	1376579एन	हवलदार	पवित्रन कोलारोध	1-12-2004
300	1373726ए	हवलदार	परीमल एस	1-12-2004
301	1372440वाइ	हवलदार	प्रभाकरण ए	1-9-2004
302	1367634एक्स	हवलदार	प्रकासन वी सी	1-10-2004
303	1372837एल	हवलदार	प्रकाश वी के	1-10-2004
304	1373775एच	हवलदार	ष्युरुषोत्तमन पी	1-12-2004
305	1373420एक्स	हवलदार	आर मरुथापन	1-12-2004
306	1373834के	हवलदार	राधाकृष्णन पी	1-1-2005
307	1372836एच	हवलदार	राजन्दान आचारी जी	1-10-2004
308	1372260डब्ल्यू	हवलदार	राजेन्द्रन एम पी	1-9-2004
309	1373847एफ	हवलदार	रमेश कोरे	1-1-2005
310	1373607के	हवलदार	एस जॉन कुरुस	1-12-2004

311	1373716डब्ल्यू	हवलदार	एस जोसेफ	1-12-2004
312	1372625ए	हवलदार	एस पौल	1-10-2004
313	1372676एन	हवलदार	सुन्नी के आइ	1-10-2004
314	1372651एफ	हवलदार	टी एस कुमार	1-10-2004
315	1372581ए	हवलदार	थानकचन पी	1-10-2004
316	1373176एच	हवलदार	वी अन्नामलाई	1-11-2004
317	1367202एच	हवलदार	वी ब्रधाबन	1-11-2004
318	1367211के	हवलदार	वी एलांगुवान	1-11-2004
319	1372279पी	हवलदार	वी नारायण राव	1-9-2004
320	1367329एल	हवलदार	वी रामचन्द्रन	1-12-2004
321	1373456डब्ल्यू	हवलदार	वी एम यू	1-12-2004
322	1367138डब्ल्यू	हवलदार	वी जिंबागी	1-11-2004
323	1373300वाइ	हवलदार	जेवियर के एस	1-11-2004
324	1367488एच	हवलदार	वाइ शिदप्पा डब्ल्यू	1-1-2005
325	1373993एफ	हवलदार	वाइ थाइरूपालु	1-1-2005
	बंगाल इंजीनियर गुप			
326	1466942ए	हवलदार	अब्बच अली मोला	1-1-2005
327	1488113एम	हवलदार	अब्दुल	1-11-2004
328	1466472ए	हवलदार	अजीत सिंह	1-12-2004
329	1466434के	हवलदार	अनिल कुमार सिंह	1-12-2004
330	1461913एफ	हवलदार	बहादुर सिंह	1-9-2004
331	1464520डब्ल्यू	हवलदार	बलदेव सिंह	1-11-2004
332	1466084एच	हवलदार	बलदेव सिंह	1-11-2004
333	1465672के	हवलदार	बी सिंह	1-10-2004
334	1465396एम	हवलदार	बालीराम साह	1-9-2004
335	1466180के	हवलदार	भगवती प्रसाद	1-11-2004
336	1465965पी	हवलदार	भाई लाल	1-11-2004
337	1465668डब्ल्यू	हवलदार	भानो रिकियासन	1-10-2004
338	1465693ए	हवलदार	भरत सिंह	1-10-2004
339	1466577के	हवलदार	भरव कुमार	1-12-2004
340	1461929एम	हवलदार	भास्कर नायक	1-9-2004
341	1466358एच	हवलदार	भिम प्रसाद	1-12-2004
342	1466972एक्स	हवलदार	बिमन कुमार फाटक	1-1-2005
343	1466618एच	हवलदार	बिरेन्द्र सिंह	1-1-2005
344	1550800एन	हवलदार	चव्हाण लक्ष्मन	1-1-2005
345	1466634ए	हवलदार	चितेश्वर नाथ ओझा	1-1-2005
346	1462047एक्स	हवलदार	इरॉम हरिदास सिंघा	1-12-2004
347	1465456डब्ल्यू	हवलदार	जी लोहरा	1-9-2004
348	1466470पी	हवलदार	गुरचरण सिंह	1-12-2004
349	1466751एल	हवलदार	गुरु दीन	1-1-2005
350	1468099एल	हवलदार	हरबंस सिंह	1-11-2004
351	1466425एच	हवलदार	हरदेव सिंह	1-12-2004
352	1466469ए	हवलदार	हजारी राम	1-12-2004
353	1463028वाइ	हवलदार	हज सिंह	1-1-2005
354	1466288पी	हवलदार	हीरा सिंह	1-12-2004
355	1466599एच	हवलदार	हुकम सिंह	1-1-2005
356	1465381के	हवलदार	इंद्र पाल सिंह	1-9-2004

357	1461938एन	हवलदार	इंदरा सेन सिंह	1-10-2004
358	1466202एल	हवलदार	जग मोहन	1-11-2004
359	1466660एफ	हवलदार	जंगली सिंह	1-1-2005
360	1462245एच	हवलदार	जसबीर सिंह	1-1-2005
361	1466528एफ	हवलदार	जसपाल सिंह	1-12-2004
362	1462145एक्स	हवलदार	जीत सिंह	1-1-2005
363	1466886एम	हवलदार	केशव दत्त पान्डे	1-1-2005
364	1461845वाइ	हवलदार	खेम सिंह ठाकुर	1-9-2004
365	1465663एच	हवलदार	किशन लाल	1-10-2004
366	1461920एक्स	हवलदार	केपी कुन्ही रमन	1-9-2004
367	1466239एम	हवलदार	कृष्ण कुमार	1-11-2004
368	1461875डब्ल्यू	हवलदार	कृष्ण मुरारी	1-9-2004
369	1462173के	हवलदार	कुलविन्द्र सिंह	1-1-2005
370	1465365एग	हवलदार	लाल कंद प्रसाद सिंह	1-9-2004
371	1465408डब्ल्यू	हवलदार	लाला राम	1-9-2004
372	1466895एन	हवलदार	लोक मनी	1-1-2005
373	1466045के	हवलदार	एल बखला	1-11-2004
374	1462422एक्स	हवलदार	मदारी लाल	1-1-2005
375	1462188एम	हवलदार	महेंद्र सिंह	1-1-2005
376	1462191एम	हवलदार	माकेश्वर राम	1-1-2005
377	1465752एफ	हवलदार	मोहम्मद मुताज खान	1-10-2004
378	1466112के	हवलदार	नरेश कुमार सिंह	1-11-2004
379	1465445के	हवलदार	नरेश पासवान	1-9-2004
380	1466796एल	हवलदार	परमा नन्द	1-1-2005
381	1462149एन	हवलदार	परशु राम राम	1-1-2005
382	1465730एच	हवलदार	पी टोपो	1-10-2004
383	1466677पी	हवलदार	फूल सिंह	1-1-2005
384	1465726ए	हवलदार	प्रमोद सिंह	1-10-2004
385	1461981पी	हवलदार	राधे श्याम यू	1-10-2004
386	1461980एम	हवलदार	राज कुमार सिंह	1-10-2004
387	1466630के	हवलदार	राजेंद्र प्रसाद	1-1-2005
388	1466736डब्ल्यू	हवलदार	राजेंद्र प्रसाद	1-1-2005
389	1462096ए	हवलदार	राम के	1-12-2004
390	1462167डब्ल्यू	हवलदार	राम लायक ठाकुर	1-1-2005
391	1465502ए	हवलदार	राम प्यारे सिंह	1-9-2004
392	1466407ए	हवलदार	राम एस	1-12-2004
393	1465616एल	हवलदार	रमा शंकर सिंह	1-10-2004
394	1461963एम	हवलदार	रंजीत कुमार एम1	-10-2004
395	1463460ए	हवलदार	रंजीत प्रसाद	1-9-2004
396	1461999एल	हवलदार	रूप लाल	1-11-2004
397	1464597वाइ	हवलदार	सर्वेश प्रसाद	1-12-2004
398	1466686डब्ल्यू	हवलदार	शिशु पाल सिंह	1-1-2005
399	1466354एम	हवलदार	शिव नाथ राय	1-12-2004
400	1465487डब्ल्यू	हवलदार	श्याम बाबू प्रसाद सिंह	1-9-2004
401	1466135एल	हवलदार	सिकंदर सिंह	1-11-2004
402	1465441एन	हवलदार	सोमा कन्दुलना	1-9-2004
403	1554555एन	हवलदार	सोनवाने मनोहर रंगाराव	1-10-2004
404	1465431के	हवलदार	सुखमिन्द्र सिंह	1-9-2004
405	8026012के	हवलदार	तारा चंद	1-11-2004

406	1466056डब्ल्यू	हवलदार	दुन दुन सिंह	1-11-2004
407	1461950पी	हवलदार	रमा शंकर ठाकुर	1-10-2004
	बंबई इंजीनियर ग्रुप			
408	1555456एक्स	हवलदार	आलानूर	1-1-2005
409	1554853के	हवलदार	अमानुल हक आई	1-11-2004
410	1555024एच	हवलदार	अमरजीत सिंह	1-11-2004
411	1555307के	हवलदार	अशोक कुमार	1-12-2004
412	1555547एफ	हवलदार	अशोक तुकाराम निकम	1-1-2005
413	1555200पी	हवलदार	बाबू नन्द तिवारी	1-12-2004
414	1555033के	हवलदार	भीम सिंह	1-12-2004
415	1554902एफ	हवलदार	बृज बिहारी	1-11-2004
416	1554990एच	हवलदार	चंद राम	1-11-2004
417	1555801के	हवलदार	चंद रमा सिंह	1-1-2005
418	1555004पी	हवलदार	चानी राम	1-11-2004
419	1555394एच	हवलदार	सी रथानियाह	1-1-2005
420	1555391पी	हवलदार	चिरंजी	1-1-2005
421	1555624एल	हवलदार	दलवी मोहन गनपत	1-1-2005
422	1555101एम	हवलदार	दर्शन सिंह	1-12-2004
423	1555326पी	हवलदार	दारू लाल	1-12-2004
424	1555218एल	हवलदार	दिनेश चंद्र	1-12-2004
425	1554475डब्ल्यू	हवलदार	हरबंस सिंह	1-10-2004
426	1554803वाइ	हवलदार	हरगोपाल सिंह	1-11-2004
427	1555478डब्ल्यू	हवलदार	हरीश चंद्रा	1-1-2005
428	1555198एच	हवलदार	हरीश चंद्रा उपाध्याय	1-12-2004
429	1555495डब्ल्यू	हवलदार	हरनेक सिंह	1-1-2005
430	1555472पी	हवलदार	हरपाल	1-1-2005
431	1555286वाइ	हवलदार	हयात सिंह	1-12-2004
432	1554387ए	हवलदार	जगजीत सिंह	1-10-2004
433	1554796एन	हवलदार	जरनैल सिंह	31.10.2004
434	1465356एल	हवलदार	जरनैल सिंह	1-9-2004
435	1555251एच	हवलदार	जसपाल सिंह	1-12-2004
436	1554598एच	हवलदार	काले सरजीराव दादाराव	1-10-2004
437	1554817वाइ	हवलदार	कामता शर्मा	1-11-2004
438	1555338के	हवलदार	खासे शिवाजी बजरंग	1-12-2004
439	1554456एल	हवलदार	खोट कृष्णाथ लाहु	1-10-2004
440	1550613पी	हवलदार	कुलदीप सिंह	1-11-2004
441	1555527एन	हवलदार	लडे आर एम	1-1-2005
442	1554156के	हवलदार	एम चन्द्रन	1-9-2004
443	1550445एफ	हवलदार	मदन लाल	1-9-2004
444	1555175एफ	हवलदार	महावीर प्रसाद नई	1-12-2004
445	1555034एम	हवलदार	महित्रे उमाजी सखाराम	1-12-2004
446	1555393ए	हवलदार	ननार सिंह	1-1-2005
447	1554384एम	हवलदार	नन्द कुमार शंकर सकपाल	1-10-2004
448	1554368पी	हवलदार	एन विश शंकर	1-10-2004
449	1555417वाइ	हवलदार	नेत राम सिंह	1-1-2005
450	1555580वाइ	हवलदार	पर्शातम लाल	1-1-2005
451	1555598पी	हवलदार	पूनी चंद	1-1-2005

452	1554869पी	हवलदार	पूरन सिंह	1-11-2004
453	1554640डब्ल्यू	हवलदार	राजू सिंह	1-10-2004
454	1554511डब्ल्यू	हवलदार	राम अवतार सिंह	1-10-2004
455	1555423एम	हवलदार	राम कुमार सिंह	1-1-2005
456	1555582के	हवलदार	रमेश चंद	1-1-2005
457	1550742पी	हवलदार	रोशन लाल	1-12-2004
458	1554940एक्स	हवलदार	साठे तुकाराम जोतीबा	1-11-2004
459	1555142डब्ल्यू	हवलदार	एस अली	1-11-2004
460	1554830एच	हवलदार	शांति सरूप	1-11-2004
461	1554470एक्स	हवलदार	शेषमणि शर्मा	1-10-2004
462	1550529पी	हवलदार	शिव लाल	1-10-2004
463	1555409ए	हवलदार	श्री कृष्ण	1-1-2005
464	1554755के	हवलदार	सुभान मोहम्मद	1-10-2004
465	1554713एक्स	हवलदार	सुभाष	1-10-2004
466	1554795एल	हवलदार	सुखमिन्द सिंह	1-11-2004
467	1555334एन	हवलदार	सुरेश प्रसाद मिश्रा	1-12-2004
468	1554982के	हवलदार	सुरिन्दर कुमार	1-11-2004
469	1554923एक्स	हवलदार	सुरजीत सिंह	1-11-2004
470	1555235एल	हवलदार	सुरजीत सिंह	1-12-2004
471	1555073एल	हवलदार	स्वर्ण सिंह	1-12-2004
472	1554737एफ	हवलदार	स्यानी एस 1-10-2004	1-10-2004
473	1554340पी	हवलदार	तेलु राम एस	1-10-2004
474	1555180एम	हवलदार	उनिश अली खान	1-12-2004
	कोर आफ सिगनल्स			
475	14241225एक्स	हवलदार	अलबेर सिंह	1-1-2005
476	14239348एल	हवलदार	आलोक कुमार दास	1-10-2004
477	14241141के	हवलदार	अनीश अहमद	1-1-2005
478	14239026एल	हवलदार	अशोक कुमार	1-10-2004
479	14229155एक्स	हवलदार	अशोक राम राव कदम	1-1-2005
480	14241457डब्ल्यू	हवलदार	अशफी यादव	1-1-2005
481	14240818एक्स	हवलदार	अतकारी पण्डित सदाशिव राव	1-1-2005
482	14240915पी	हवलदार	अंतर सिंह	1-1-2005
483	14240487एफ	हवलदार	बी लाल	1-12-2004
484	14240134एफ	हवलदार	बारू सिंह	1-12-2004
485	14299174ए	हवलदार	भागीरथ सिंह	1-10-2004
486	14236565डब्ल्यू	हवलदार	भगवत बैठा	1-11-2004
487	14240565एफ	हवलदार	भवानी लाल थादद	1-12-2004
488	14239176एफ	हवलदार	बिक्रम सिंह	1-10-2004
489	14241065एच	हवलदार	बूटा सिंह	1-1-2005
490	14239987एम	हवलदार	सी जया रमन	1-11-2004
491	14240529एच	हवलदार	चनप्पा अलगोडा संग्रांसुरी	1-12-2004
492	14240676एल	हवलदार	चंद्रा भूषण कुमार सिन्हा	1-12-2004
493	14238942ए	हवलदार	चन्द्रिरा सेकारन आर	1-10-2004
494	14239142एन	हवलदार	चौधरी पद्मकर पुन्डलिक	1-10-2004
495	14240871एच	हवलदार	छवि नाथ सिंह	1-1-2005
496	14241000पी	हवलदार	छज्जू राग	1-1-2005
497	14239593एन	हवलदार	दया शंकर	1-11-2004

498	14238116ए	हवलदार	धर्म राज सिंह	1-9-2004
499	14241361एन	हवलदार	दुर्ग विजय सिंह	1-1-2005
500	14240587एम	हवलदार	डुवुरी वेंकट रमन	1-12-2004
501	14241077एक्स	हवलदार	फौजदार सिंह	1-1-2005
502	14240401एक्स	हवलदार	जी प्रामा शिवम	1-12-2004
503	14241191पी	हवलदार	जी वेलु	1-1-2005
504	14239254एन	हवलदार	गनेश चंद्रा द्विवेदी	1-10-2004
505	14241062पी	हवलदार	गंगा प्रसाद	1-1-2005
506	14228822एन	हवलदार	गोरख नाथ तिवारी	1-10-2004
507	14238690वाइ	हवलदार	गौड पाडा सरकार	1-10-2004
508	14240827वाइ	हवलदार	हरी राम महाला	1-1-2005
509	14239825एफ	हवलदार	हरी शंकर शर्मा	1-11-2004
510	14239004एम	हवलदार	हरी सिंह	1-10-2004
511	14239634एम	हवलदार	हरीबा	1-11-2004
512	14240672पी	हवलदार	हरजीत सिंह	1-12-2004
513	14240429एक्स	हवलदार	जे थामस जॉन बॉस्को	1-12-2004
514	14241368एक्स	हवलदार	जगदीश प्रसाद	1-1-2005
515	14240223ए	हवलदार	जयपाल सिंह	1-12-2004
516	14241325एच	हवलदार	जान मोहम्मद	1-1-2005
517	14240232एफ	हवलदार	जयपाल सिंह	1-12-2004
518	14239659वाइ	हवलदार	झगडू राम प्रजापत	1-10-2004
519	14238870एफ	हवलदार	जीतेन नाथ कुडू	1-10-2004
520	14240297पी	हवलदार	के सैम राज	1-12-2004
521	14239249एच	हवलदार	कैलाश चंद्र नई	1-10-2004
522	14240493पी	हवलदार	काले चैनइया	1-12-2004
523	14239918डब्ल्यू	हवलदार	कालीचरण	1-11-2004
524	14235987पी	हवलदार	कालका प्रसाद	1-1-2005
525	14240946पी	हवलदार	कामेश यादव	1-1-2005
526	14241312एल	हवलदार	कमला प्रसाद	1-1-2005
527	14240816एम	हवलदार	कामता प्रसाद	1-1-2005
528	14238545एफ	हवलदार	कन्वर सिंह	1-9-2004
529	14241245एल	हवलदार	कपूर सिंह	1-1-2005
530	14238215एच	हवलदार	करतार सिंह	1-9-2004
531	14241053एन	हवलदार	करतार सिंह	1-1-2005
532	14240966एच	हवलदार	करयानन्द प्रसाद	1-1-2005
533	14240576ए	हवलदार	कश्मीर सिंह	1-12-2004
534	14240753पी	हवलदार	कोमारोलु रमासुबायाह	1-1-2005
535	14240074एक्स	हवलदार	लक्खा सिंह	1-11-2004
536	14240340एल	हवलदार	ललिता प्रसाद	1-12-2004
537	14240479एच	हवलदार	लक्ष्मन सिंह	1-12-2004
538	14238734एल	हवलदार	लक्ष्मन सिंह	1-10-2004
539	14240790एच	हवलदार	मदेश्वर ठाकुर	1-1-2005
540	14238423एक्स	हवलदार	मल्खान सिंह	1-9-2004
541	14240488के	हवलदार	मंगली राम	1-12-2004
542	14240431पी	हवलदार	मोहम्मद असलेम खान	1-12-2004
543	14241370पी	हवलदार	मोहम्मद इसरार खान	1-1-2005
544	14240460के	हवलदार	मोहन लाल	1-12-2004
545	14239810वाइ	हवलदार	मोहम्मद शफुद्दीन	1-11-2004
546	14240961के	हवलदार	नगेंद्र सिंह	1-1-2005

547	14240536वाइ	हवलदार	नन्दन प्रसाद	1-12-2004
548	14241310ए	हवलदार	नरेन्द्र सिंह यादव	1-1-2005
549	14241264डब्ल्यू	हवलदार	नरेश कुमार	1-1-2005
550	14238770डब्ल्यू	हवलदार	एन पाडा माली	1-10-2004
551	14240329एम	हवलदार	निर्मल कुमार गुप्ता	1-12-2004
552	14240397ए	हवलदार	प्रकाश चंद	1-12-2004
553	14240439एफ	हवलदार	पटेल प्रवीण भाई सेधाभाई	1-12-2004
554	14299179वाइ	हवलदार	प्रकाश	1-10-2004
555	14240112एच	हवलदार	प्रताप चंद्रा प्रधान	1-12-2004
556	14239344पी	हवलदार	पी गुरु	1-10-2004
557	14240592एक्स	हवलदार	पी महंता	1-12-2004
558	14239817एच	हवलदार	आर मनी	1-11-2004
559	14238388ए	हवलदार	रबींद्र कुमार मेहता	1-9-2004
560	14238918के	हवलदार	राधा कृष्णा	1-10-2004
561	14239702पी	हवलदार	राजा राम प्रसाद	1-11-2004
562	14240709एल	हवलदार	राजेंद्र सिंह	1-12-2004
563	14238300एल	हवलदार	राम खिलाड	1-9-2004
564	14239830एम	हवलदार	राम मेहर	1-11-2004
565	14240868एच	हवलदार	राम प्रकाश	1-1-2005
566	14240876एफ	हवलदार	रमेश कुमार	1-1-2005
567	14239592एल	हवलदार	रमेश ओझा	1-11-2004
568	14240758एन	हवलदार	रणजीत सिंह	1-1-2005
569	14238910एक्स	हवलदार	रतन सिंह	1-10-2004
570	14238249डब्ल्यू	हवलदार	राउत दिलीप बालीराम	1-9-2004
571	14241315वाइ	हवलदार	रवीन्द्र सिंह	1-1-2005
572	14240835एक्स	हवलदार	ऋषिपाल	1-1-2005
573	14237997एक्स	हवलदार	एस ध्यानथी	1-9-2004
574	14240473एफ	हवलदार	समपूरन सिंह एस	1-12-2004
575	14239027एन	हवलदार	एस पाल सिंह	1-10-2004
576	14229032एल	हवलदार	सत्य देव	1-12-2004
577	14299187एक्स	हवलदार	सावेक सिंह	1-10-2004
578	14240666एफ	हवलदार	शैलेन्द्र सिंह बायस	1-12-2004
579	14238393एल	हवलदार	शंकरा राम	1-9-2004
580	14239124एल	हवलदार	शत्रुघन तिवारी	1-10-2004
581	14240859एफ	हवलदार	शिब कुमार	1-1-2005
582	14238615पी	हवलदार	शिवनदन प्रसाद	1-9-2004
583	14241058एम	हवलदार	श्रीनाथ राम	1-1-2005
584	14299205पी	हवलदार	श्याम लाल	1-10-2004
585	14238113एम	हवलदार	सिवान पिल्लै वी	1-9-2004
586	14240470एन	हवलदार	श्रीराम	1-12-2004
587	14241339एच	हवलदार	श्री कृष्ण राबत	1-1-2005
588	14241057के	हवलदार	सुभाष राय	1-1-2005
589	14240228वाइ	हवलदार	सुदामा प्रसाद	1-12-2004
590	14240540एफ	हवलदार	सुदामा यादव	1-12-2004
591	14240105एम	हवलदार	सुखविंदर सिंह	1-12-2004
592	14239347एच	हवलदार	सुरेंद्र प्रसाद गुप्ता	1-10-2004
593	14238671एन	हवलदार	सुसंता बान्धुपाध्याय	1-10-2004
594	14241105वाइ	हवलदार	तले सिंह यादव	1-1-2005
595	14239280पी	हवलदार	तपन कुमार रौय	1-10-2004

596	14241167वाइ	हवलदार	उमा शंकर	1-1-2005
597	14239500एन	हवलदार	उपेंद्र भगत	1-10-2004
598	14241445एफ	हवलदार	उपेंद्र प्रसाद	1-1-2005
599	14240861वाइ	हवलदार	उस्मान अहमद अन्सारी	1-1-2005
600	14239729एम	हवलदार	वी चिन्ना सामी	1-11-2004
601	14240188एच	हवलदार	वेनु गोपाल बी	1-11-2004
602	14241120एन	हवलदार	विजय कुमार	1-1-2005
603	14240018वाइ	हवलदार	विजयन टी टी	1-11-2004
604	14240887एन	हवलदार	वीजेन्द्र पाल	1-1-2005
605	14240985एन	हवलदार	विनोद कुमार	1-1-2005
606	14238980डब्ल्यू	हवलदार	वीरेंद्र सिंह	1-10-2004
607	14241125एम	हवलदार	यलप्पु नूका राजू	1-1-2005
608	14240290एल	हवलदार	योगेन्द्र शर्मा	1-12-2004
गार्ड्स				
609	13681049एल	हवलदार	अजब सिंह	1-10-2004
610	13681285एम	हवलदार	अमरीक सिंह	1-11-2004
611	13681116एल	हवलदार	बाल देव सिंह	1-9-2004
612	13681607एफ	हवलदार	बंशीधर	1-1-2005
613	13681550एक्स	हवलदार	ब्रह्मपाल सिंह	1-1-2005
614	13681131ए	हवलदार	चामंडा राम	1-10-2004
615	13681279वाइ	हवलदार	चंद्रिका प्रसाद	1-11-2004
616	13681132एच	हवलदार	दुरना गोगोई	1-10-2004
617	13681249एफ	हवलदार	गेन सिंह	1-11-2004
618	13681381एफ	हवलदार	गनेश दत्त	1-12-2004
619	13681358एन	हवलदार	गोपाल जी प्रसाद	1-12-2004
620	13681351के	हवलदार	गोविंद सिंह	1-12-2004
621	13681589के	हवलदार	हजारी सिंह	1-1-2005
622	13681081ए	हवलदार	हेम राज	1-10-2004
623	13681086वाइ	हवलदार	हेमा राम	1-10-2004
624	13745913ए	हवलदार	जगदीश चंद	1-11-2004
625	13680902एक्स	हवलदार	जनार्दन सिंह	1-9-2004
626	13680943एफ	हवलदार	झब्बु सिंह	1-9-2004
627	13677887एच	हवलदार	कश्मीर सिंह	1-1-2005
628	13680987वाइ	हवलदार	कटक चंद	1-9-2004
629	13681068डब्ल्यू	हवलदार	केशर लाल	1-10-2004
630	13681227एच	हवलदार	किशन लाल	1-10-2004
631	13681348के	हवलदार	कृष्ण कुमार	1-11-2004
632	13681602एच	हवलदार	ललन सिंह यादव	1-1-2005
633	13681504एच	हवलदार	लक्ष्मी नारायण	1-12-2004
634	13681321एम	हवलदार	लोहार दादा रंगनाथ	1-12-2004
635	13681314डब्ल्यू	हवलदार	महेश चंद्रा	1-12-2004
636	13680991एफ	हवलदार	मान सिंह	1-9-2004
637	13681641एफ	हवलदार	नटराजन के	1-1-2005
638	13680945एम	हवलदार	एन रमज मुल्तानी	1-9-2004
639	13681422ए	हवलदार	ओम प्रकाश	1-12-2004
640	13681404एक्स	हवलदार	ओमकार सिंह	1-12-2004
641	13680968एन	हवलदार	परमेश्वर यादव	1-9-2004

642	13681510डब्ल्यू	हवलदार	पूरन सिंह	1-1-2005
643	13681385एक्स	हवलदार	प्रभात गोगोई	1-12-2004
644	13681010वाइ	हवलदार	प्रदीप सिंह	1-10-2004
645	13681549एच	हवलदार	रघुवीर सिंह	1-1-2005
646	13681678एच	हवलदार	राज किशोर सिंह	1-1-2005
647	13681606वाइ	हवलदार	राजेंद्र सिंह	1-1-2005
648	13680948ए	हवलदार	रजनीर कुमार	1-9-2004
649	13681208एक्स	हवलदार	राम बाबू सिंह	1-11-2004
650	13680936एल	हवलदार	राम भगवान शर्मा	1-9-2004
651	13680953एल	हवलदार	राम हेत यादव	1-9-2004
652	13681297एफ	हवलदार	राम निवास	1-12-2004
653	13681539वाइ	हवलदार	राम पदार्थ सिंह	1-1-2005
654	13681325एच	हवलदार	राम प्रताप सोनार	1-12-2004
655	13681203वाइ	हवलदार	रामजी लाल	1-1-2005
656	13680951ए	हवलदार	रण सिंह	1-9-2004
657	13745650एम	हवलदार	रत्तन चंद	1-9-2004
658	13681271एम	हवलदार	संतन प्रसाद	1-11-2004
659	13680906एन	हवलदार	सरजीत	1-9-2004
660	13681664एच	हवलदार	सत्यपाल	1-1-2005
661	13681097एल	हवलदार	सत्यवीर सिंह के	1-10-2004
662	13681559एम	हवलदार	सेवा दास	1-1-2005
663	13680954एन	हवलदार	श्रवण कुमार उपाध्याय	1-9-2004
664	13681498ए	हवलदार	श्रीनिवास सिंह	1-1-2005
665	13681058एम	हवलदार	सुखवीर सिंह	1-10-2004
666	13681562एम	हवलदार	सुंदरेशन एन	1-1-2005
667	13681139एम	हवलदार	टीकम	1-10-2004
668	13681252एफ	हवलदार	उस्मान अली	1-11-2004
669	13681626एम	हवलदार	विजय सिंह	1-1-2005
670	13681608के	हवलदार	विन्देश्वर प्रसाद	1-1-2005
	पैराशूट रेजीमेन्ट			
671	13613752ए	हवलदार	अमर सिंह	1-9-2004
672	13613837डब्ल्यू	हवलदार	अरविंद सिंह	1-11-2004
673	13612331एल	हवलदार	बासा प्रभु मगदम	1-12-2004
674	13613891के	हवलदार	भजन सिंह	1-1-2005
675	13612110वाइ	हवलदार	भकाता बहादुर	1-9-2004
676	13613816ए	हवलदार	भूप सिंह यादव	1-10-2004
677	13613780एम	हवलदार	द्वारिका प्रसाद	1-10-2004
678	2877884एल	हवलदार	देवेन्द्रा प्रताप सिंह	1-1-2005
679	13612109के	हवलदार	हरी लाल	1-9-2004
680	13613836एन	हवलदार	कबिन्द्र सिंह	1-11-2004
681	13613831पी	हवलदार	केवल कृष्ण	1-11-2004
682	13613844एम	हवलदार	ओम प्रकाश	1-11-2004
683	13613772एन	हवलदार	राम खिलावन	1-9-2004
684	13612206एफ	हवलदार	रोमेश चंद्र	1-10-2004
685	3982527एक्स	हवलदार	एस सिंह	1-1-2005
686	13613903एन	हवलदार	सुंदर चंद	1-1-2005
687	13613859पी	हवलदार	तिलक राज	1-12-2004

मैकेनाइज्ड पैदल सेना रेजीमेन्ट

688	14900685डब्ल्यू	हवलदार	14900685डब्ल्यू	1-9-2004
689	13746546एल	हवलदार	अजित सिंह	1-1-2005
690	14900790एम	हवलदार	अंब्रे कृष्णा भीकाजी	1-9-2004
691	2979340के	हवलदार	बाबू लाल	1-10-2004
692	14900890एक्स	हवलदार	बैजनाथ प्रसाद	1-10-2004
693	14900881डब्ल्यू	हवलदार	बाल्मीक प्रसाद	1-9-2004
694	14900882वाइ	हवलदार	भान सिंह	1-9-2004
695	14900899एम	हवलदार	भंवर सिंह	1-10-2004
696	2979080के	हवलदार	भंवर सिंह करमसोट	1-9-2004
697	2979536एक्स	हवलदार	भरत सिंह	1-10-2004
698	2979525एल	हवलदार	भीम सिंह	1-10-2004
699	14900722वाइ	हवलदार	भोसले पांडुरंग दगरू	1-9-2004
700	2979037एच	हवलदार	बिश्राम सिंह	1-9-2004
701	14901096एम	हवलदार	दल बहादुर राय	1-1-2005
702	13746110ए	हवलदार	दलबीर सिंह	1-12-2004
703	14900664ए	हवलदार	दलेल सिंह	1-9-2004
704	2979617एक्स	हवलदार	देवी सिंह	1-10-2004
705	14900998पी	हवलदार	धनेश्वर साहू	1-1-2005
706	14900892एच	हवलदार	धन्ना सिंह	1-10-2004
707	2979220एल	हवलदार	धर्म पाल	1-10-2004
708	14900932वाइ	हवलदार	दीवान सिंह	1-10-2004
709	13746337एन	हवलदार	हंस राज	1-1-2005
710	14900844एच	हवलदार	हरी सिंह	1-9-2004
711	14900929वाइ	हवलदार	जय पाल	1-10-2004
712	2980104पी	हवलदार	जय प्रकाश	1-1-2005
713	14900754एफ	हवलदार	जयकंठन के	1-9-2004
714	14900853के	हवलदार	जोगिंदर सिंह	1-9-2004
715	14900792एक्स	हवलदार	जोख बहादुर भंडारी	1-9-2004
716	2979368के	हवलदार	ज्योती प्रसाद	1-10-2004
717	14902324डब्ल्यू	हवलदार	कालू राम	1-10-2004
718	2979190वाइ	हवलदार	कान सिंह	1-9-2004
719	3977521एम	हवलदार	कंस राज	1-12-2004
720	14900791पी	हवलदार	खेरा नन्द गिनवाली	1-9-2004
721	14900831एल	हवलदार	कृष्ण कुमार शर्मा	1-9-2004
722	2980155एच	हवलदार	कृष्ण पाल सिंह	1-1-2005
723	13746131डब्ल्यू	हवलदार	कृष्ण सिंह	1-12-2004
724	2979029के	हवलदार	लिला राम	1-9-2004
725	2979716ए	हवलदार	महक सिंह	1-11-2004
726	14900984पी	हवलदार	माने भगवान तुकाराम	1-1-2005
727	14900972ए	हवलदार	मनी कुमार तमंग	1-9-2004
728	14900806एम	हवलदार	मोहिन्दर सिंह	1-9-2004
729	2980303एच	हवलदार	नार सिंह	1-1-2005
730	2980179एम	हवलदार	नारायण सिंह	1-1-2005
731	14900780एच	हवलदार	निर्मल चंद	1-9-2004
732	14901102पी	हवलदार	पदम बहादुर तमंग	1-1-2005
733	2979895एल	हवलदार	प्रदीप सिंह चौहान	1-12-2004

734	14900833डब्ल्यू	हवलदार	प्रकाश चंद मीना	1-9-2004
735	5748655एल	हवलदार	प्रसाद गुरुंग	1-12-2004
736	14900840एम	हवलदार	प्रशांत सिंह	1-9-2004
737	14900798वाइ	हवलदार	प्रीतम चंद	1-9-2004
738	2979460एच	हवलदार	राजा राम गुर्जर	1-10-2004
739	13745811के	हवलदार	राकेश सिंह	1-11-2004
740	5244206डब्ल्यू	हवलदार	राम आसरे	1-11-2004
741	14900976डब्ल्यू	हवलदार	राम चंद्र साहनी	1-12-2004
742	14900905पी	हवलदार	राम नरेश सिंह	1-10-2004
743	14901008एल	हवलदार	राम प्रकाश सिंह	1-1-2005
744	14900920के	हवलदार	राम स्नेही	1-10-2004
745	14900925एच	हवलदार	रमाकांत	1-10-2004
746	2979521पी	हवलदार	आर गुर्जर	1-10-2004
747	2978989डब्ल्यू	हवलदार	रामवतार	1-9-2004
748	14900917के	हवलदार	आर शर्मा	1-10-2004
749	14900990एच	हवलदार	सांवल राम	1-1-2005
750	2979737डब्ल्यू	हवलदार	सतीश चंद भट्ट	1-11-2004
751	13746488एम	हवलदार	सोहन सिंह	1-1-2005
752	14900887एक्स	हवलदार	सुबाष चंद्र	1-10-2004
753	14900795एल	हवलदार	सुरेंद्र बहादुर थापा	1-9-2004
754	14900710के	हवलदार	सूर्या प्रकाश	1-9-2004
755	14900778एल	हवलदार	एस सिंह	1-9-2004
756	14900766डब्ल्यू	हवलदार	तीरथ सिंह	1-9-2004
757	14900960एल	हवलदार	उदय कुमार छत्री	1-9-2004

पंजाब रेजिमेन्ट

758	2473546एच	हवलदार	बलबीर सिंह	1-11-2004
759	2473512पी	हवलदार	बलदेव सिंह	1-10-2004
760	2473508एम	हवलदार	बुध्दन सिंह	1-10-2004
761	2473748के	हवलदार	इश्वर दास	1-12-2004
762	2473500ए	हवलदार	मैकू	1-10-2004
763	2473501एच	हवलदार	नैन सिंह	1-10-2004
764	2473774एल	हवलदार	रशपाल सिंह	1-12-2004
765	2473570वाइ	हवलदार	सुखराज सिंह	1-11-2004

मद्रास रेजीमेन्ट

766	2583325वाइ	हवलदार	ए जेसुराजु	1-11-2004
767	2582878एच	हवलदार	ए समीकन्नु	1-10-2004
768	2582513एन	हवलदार	अनिल कुमार पीके	1-9-2004
769	2582638एल	हवलदार	बाबू पुथियाथ	1-9-2004
770	2582623एच	हवलदार	बासना गौदा विराना गौदा गोदर	1-9-2004
771	2582473एक्स	हवलदार	भीमप्पा हुलागप्पा बंदीबादर	1-9-2004
772	2582485एम	हवलदार	बीएन बेल्लियप्पा	1-9-2004
773	2583545एच	हवलदार	सी मरूथापन	1-1-2005
774	2583368एन	हवलदार	सी सुरेंद्र रेडी	1-12-2004
775	2582819डब्ल्यू	हवलदार	दादा मसानी	1-10-2004
776	2583364एक्स	हवलदार	दमाला बाला चैनड्या	1-12-2004

777	2582668एच	हवलदार	दुधाला शिवा कुमार	1-9-2004
778	2583280के	हवलदार	दुग्गी रेडी रमनजानिया रेडी	1-11-2004
779	2583426एम	हवलदार	एलांगुवान	1-12-2004
780	2583014एल	हवलदार	फ्रांसेस ए	1-10-2004
781	2582856के	हवलदार	जी सुन्दामुरथी	1-10-2004
782	2582958ए	हवलदार	गंगाराम यलप्पा नाइक	1-10-2004
783	8027867वाइ	हवलदार	गोपालन पी	1-9-2004
784	2582508एच	हवलदार	गोराला वेंकट रमा मुर्ती	1-9-2004
785	2582569ए	हवलदार	जी रमेश पयप्पा	1-9-2004
786	2582938एम	हवलदार	जसनधिरन	1-10-2004
787	2582476एल	हवलदार	के गोपाल	1-9-2004
788	2583082वाइ	हवलदार	के जयारमण	1-11-2004
789	2582813पी	हवलदार	के माथु	1-10-2004
790	2582879एल	हवलदार	के राजेन्द्रन	1-10-2004
791	2583230वाइ	हवलदार	के सिल्वाराज	1-11-2004
792	2582639एन	हवलदार	कलआना गौदश शंकर गौदा	1-9-2004
793	2582822डब्ल्यू	हवलदार	कांडा बेहर	1-10-2004
794	2583420एल	हवलदार	एम गणेशन	1-12-2004
795	2582456एक्स	हवलदार	एम कुमार	1-9-2004
796	2583338डब्ल्यू	हवलदार	एम सुब्बैया	1-12-2004
797	2582912एक्स	हवलदार	माद्री एम	1-10-2004
798	2583468वाइ	हवलदार	एम रमेश	1-12-2004
799	2582944ए	हवलदार	मैथ्यू सी	1-10-2004
800	2583332पी	हवलदार	मोहनन डी	1-11-2004
801	2583226डब्ल्यू	हवलदार	मोहनन के एम	1-11-2004
802	2562805ए	हवलदार	एम नागप्पा	1-9-2004
803	2582551के	हवलदार	पी चित्रा स्वामी	1-9-2004
804	2583465एल	हवलदार	पी थामस	1-12-2004
805	2583384एल	हवलदार	पी सांभांमुरती	1-12-2004
806	2583031एल	हवलदार	प्रभाकरण नायर आर	1-10-2004
807	2582948डब्ल्यू	हवलदार	प्रसन्न श्री	1-10-2004
808	2583258वाइ	हवलदार	आर पन्नीर सेलवम	1-11-2004
809	2582849एन	हवलदार	आर सुकुमार	1-10-2004
810	2582946एल	हवलदार	राधाकृष्णन नायर एटी	1-10-2004
811	8027982वाइ	हवलदार	राजन टीपी	1-11-2004
812	2583068एम	हवलदार	राजेन्द्रन वी	1-11-2004
813	2582973पी	हवलदार	रविन्द्रन	1-10-2004
814	2583471वाइ	हवलदार	रेवी केसी	1-12-2004
815	2582518एम	हवलदार	एस कालिदास	1-9-2004
816	2583534डब्ल्यू	हवलदार	ससिधरन टी एस	1-1-2005
817	2582899वाइ	हवलदार	सेट्टी शिवकुमार	1-10-2004
818	25827555डब्ल्यू	हवलदार	शोक खाजापीर	1-9-2004
819	2582984एफ	हवलदार	शिवालिंगया चनन्या पुजारी	1-10-2004
820	2583276एफ	हवलदार	सुधाकरण टी	1-11-2004
821	2583217पी	हवलदार	सुन्दु पल्ली हनुमन्थायाह	1-11-2004
822	2582592एन	हवलदार	सुरेश कुमार के	1-9-2004
823	2562817पी	हवलदार	टी मरियप्पन	1-9-2004
824	2583480ए	हवलदार	टी सेलवम	1-12-2004
825	2583124ए	हवलदार	उत्तिक्रिशन के	1-10-2004

826	2583150एफ	हवलदार	वी अय्यर	1-11-2004
827	2582449एफ	हवलदार	वी करुंगन	1-9-2004
828	2582877ए	हवलदार	वी शिवासुब्रह्मनयन	1-10-2004
829	2583075एच	हवलदार	वी वराथाराजन	1-11-2004
ग्रेनेडियर्स				
830	2674580वाइ	हवलदार	अहमद अली	1-1-2005
831	2674429एन	हवलदार	अमीन खान	1-1-2005
832	2673574वाइ	हवलदार	अशोक सिंह	1-10-2004
833	2673371पी	हवलदार	बालम राम	1-9-2004
834	2673475डब्ल्यू	हवलदार	भूर सिंह	1-9-2004
835	2673824पी	हवलदार	चंद्रा सिंह	1-11-2004
836	2673379एफ	हवलदार	देश राज	1-9-2004
837	2674352डब्ल्यू	हवलदार	देव लाल	1-12-2004
838	2673538एन	हवलदार	देवी सिंह	1-10-2004
839	2674177एन	हवलदार	देवकी नन्दन	1-12-2004
840	2673316वाइ	हवलदार	घर सिंह	1-9-2004
841	2673393एन	हवलदार	हुकम सिंह	1-9-2004
842	2673735डब्ल्यू	हवलदार	इंद्र सिंह भाटी	1-10-2004
843	2674623एच	हवलदार	जितेन्द्रा सिंह	1-1-2005
844	2673784वाइ	हवलदार	कैलाश सिंह	1-10-2004
845	2673969ए	हवलदार	कुमेर सिंह	1-11-2004
846	2673917के	हवलदार	मदन लाल	1-11-2004
847	2673831एल	हवलदार	महावीर प्रसाद	1-11-2004
848	2673413डब्ल्यू	हवलदार	महताब सिंह	1-9-2004
849	2674434वाइ	हवलदार	भांगी कथट	1-1-2005
850	2673610वाइ	हवलदार	मोहम्मद साबिर	1-10-2004
851	2673485ए	हवलदार	गोहन लाल	1-9-2004
852	2673762ए	हवलदार	भूल सिंह	1-10-2004
853	2674124एन	हवलदार	ओम प्रकाश	1-12-2004
854	2673658एम	हवलदार	प्रकाश चंद	1-10-2004
855	2674491ए	हवलदार	रघुनाथ सिंह	1-1-2005
856	2673418पी	हवलदार	राज सिंह	1-9-2004
857	2674342एन	हवलदार	राजाराम	1-12-2004
858	2673820वाइ	हवलदार	राजपाल	1-11-2004
859	2673964एफ	हवलदार	राजू सिंह	1-11-2004
860	2673411एल	हवलदार	राग कुमार	1-9-2004
861	2674070एक्स	हवलदार	रामदेव सिंह	1-11-2004
862	2673605एन	हवलदार	रामजी राम	1-10-2004
863	2673529एम	हवलदार	संसार चंद	1-10-2004
864	2673478के	हवलदार	शिव नाथ	1-9-2004
865	2674341के	हवलदार	सुरेश	1-12-2004
866	2674424पी	हवलदार	टी मनु भाई बुद्धा भाई	1-1-2005
867	2673660के	हवलदार	टेक चंद	1-10-2004
मशरूफ लार्ग पैदल सेना				
868	2774322एन	हवलदार	अम्बादास रम्भु गन्नाजे	1-9-2004
869	2774905डब्ल्यू	हवलदार	अंब्रे प्रमोद बलवंत	1-11-2004

870	2775402एक्स	हवलदार	अशोक देवप्पा प्रभाले	1-1-2005
871	2775136के	हवलदार	अशोक कुमार	1-12-2004
872	2774879ए	हवलदार	अशोक एस पाटिल	1-11-2004
873	2774894पी	हवलदार	बसंत दादा चव्हाण	1-11-2004
874	2775152एफ	हवलदार	भांडे गोरख पांडुरंग	1-12-2004
875	2774852एच	हवलदार	भीमराव यलप्पा ए	1-11-2004
876	2775159एल	हवलदार	बी नारायण एम	1-12-2004
877	2774932ए	हवलदार	सी के शिवालिंगप्पा	1-11-2004
878	2774667पी	हवलदार	देवकर सुभाष सखाराम	1-10-2004
879	2774565वाइ	हवलदार	दोशी चान्द्राकान्त भीमराव	1-10-2004
880	2774732के	हवलदार	गायकवाड मोहन कसीराम	1-10-2004
881	2774851ए	हवलदार	गावड यशवंत सोनू	1-11-2004
882	2775431एम	हवलदार	घुले भास्कर रंभु	1-1-2005
883	2775286ए	हवलदार	हेमबोडे विष्णु गनपति	1-1-2005
884	2774996एल	हवलदार	कदम तानाजी शामराव	1-11-2004
885	2775038वाइ	हवलदार	काम्बले मारुति	1-11-2004
886	2774393पी	हवलदार	कशिद भानुदास दनयानु	1-9-2004
887	2774922डब्ल्यू	हवलदार	के रामदास दगरू	1-11-2004
888	2775144एच	हवलदार	मधु मोहनन पिल्लै टी	1-12-2004
889	2775374डब्ल्यू	हवलदार	मनागुतकर नारायण बाबू	1-1-2005
890	2775137एम	हवलदार	मारुति	1-12-2004
891	2775290एच	हवलदार	मोरे तानाजी निवरूती	1-1-2005
892	2774729के	हवलदार	नामदेव बालू जाधव	1-10-2004
893	2775112ए	हवलदार	नरसिंह	1-12-2004
894	2774535एफ	हवलदार	पाटिल अशोक यलप्पा	1-9-2004
895	2774684पी	हवलदार	पाटिल शंकर मारुति	1-10-2004
896	2774299एल	हवलदार	पोपट पांडुरंग जाधव	1-9-2004
897	2776239पी	हवलदार	राधे श्याम	1-10-2004
898	2774620के	हवलदार	रामचंद्र नरसी खादे	1-10-2004
899	2774622पी	हवलदार	रमेश पेन्दारकर	1-10-2004
900	2771607पी	हवलदार	एस बोस	1-1-2005
901	2774731एफ	हवलदार	समभाजी अनप्पा पाटिल	1-10-2004
902	2774797एक्स	हवलदार	सहाजी डी जाधव	1-10-2004
903	2774552एफ	हवलदार	शिंदे नारायण	1-9-2004
904	2774927पी	हवलदार	सुरेश सावन्त	1-11-2004
905	2775423एन	हवलदार	तानाजी गायकवाड	1-1-2005
राजपूत राइफल्स				
906	2878104एफ	हवलदार	अचला राम	1-1-2005
907	2878162एल	हवलदार	अवधेश सिंह	1-1-2005
908	2878095एल	हवलदार	भूप सिंह	1-1-2005
909	2876946एन	हवलदार	ब्रम पाल	1-10-2004
910	2877338वाइ	हवलदार	दलीप सिंह	1-11-2004
911	2877707एल	हवलदार	देविन्द्र ठाकुर	1-12-2004
912	2877363एक्स	हवलदार	धर्म वीर	1-11-2004
913	2877292एफ	हवलदार	गोपाल राम	1-11-2004
914	2877582वाइ	हवलदार	जयपाल सिंह	1-12-2004
915	2877670पी	हवलदार	जतिंद्र कुमार सिंह चौहान	1-12-2004
916	2877135पी	हवलदार	कान सिंह चम्पावत	1-11-2004

917	2877124एच	हवलदार	किरण पाल सिंह	1-11-2004
918	2876975एच	हवलदार	लाल बहादुर थापा	1-10-2004
919	2878034एन	हवलदार	एम सिंह	1-1-2005
920	2876913एच	हवलदार	महेन्द्र सिंह	1-10-2004
921	2877885एन	हवलदार	महेश सिंह	1-1-2005
922	2877035के	हवलदार	मोहिन्दर सिंह पुनिया	1-10-2004
923	2878087एम	हवलदार	नार सिंह	1-1-2005
924	2877062एन	हवलदार	नाशयण सिंह	1-10-2004
925	2876775एम	हवलदार	नरेन्द्र प्रताप सिंह	1-9-2004
926	2877267एच	हवलदार	ओम प्रकाश	1-11-2004
927	3380116एच	हवलदार	पाले राम	1-1-2005
928	2876988ए	हवलदार	पृथ्वी	1-10-2004
929	2878267पी	हवलदार	प्रेम	1-1-2005
930	2877518एफ	हवलदार	पुख सिंह	1-12-2004
931	2877671एक्स	हवलदार	रघु नन्दन सिंह	1-12-2004
932	2877371डब्ल्यू	हवलदार	राम किशन	1-11-2004
933	2877038एक्स	हवलदार	राम लाल घासल	1-10-2004
934	2878160ए	हवलदार	राम प्रताप	1-1-2005
935	2876771डब्ल्यू	हवलदार	राम रतन	1-9-2004
936	2877564डब्ल्यू	हवलदार	रामआधार सिंह	1-12-2004
937	2877409पी	हवलदार	रामेश्वर सिंह शेखावत	1-12-2004
938	2877359पी	हवलदार	रोशन सिंह राजपूत	1-11-2004
939	2877095वाइ	हवलदार	सतवीर सिंह	1-10-2004
940	2877198एक्स	हवलदार	सत्य बीर	1-11-2004
941	2876929एन	हवलदार	शंकर लाल वर्मा	1-10-2004
942	2877516डब्ल्यू	हवलदार	शीश राम डी	1-12-2004
943	2877246एम	हवलदार	शिशु पाल	1-11-2004
944	2877738एल	हवलदार	शिशु पाल सिंह	1-12-2004
945	3380037एन	हवलदार	शिव सिंह	1-1-2005
946	2876895एल	हवलदार	सुमेर सिंह	1-10-2004
947	2878202एफ	हवलदार	सुरेंद्र सिंह	1-1-2005
948	2877285एल	हवलदार	वी नन्द	1-11-2004
949	2877612एल	हवलदार	विजय कुमार सिंह	1-12-2004
950	2877367एन	हवलदार	विजेन्द्र सिंह	1-11-2004
951	2877980ए	हवलदार	वी सिंह	1-1-2005
952	2877150के	हवलदार	यश पाल सिंह	1-11-2004
953	2877778एम	हवलदार	योगेन्द्र सिंह	1-1-2005
954	2877692एन	हवलदार	योगेन्द्र सिंह	1-12-2004
राजपूत रेजीमेन्ट				
955	2979556एल	हवलदार	आनंद कुमार	1-10-2004
956	2979854एफ	हवलदार	बर्सता कुमार महतो	1-11-2004
957	2975321एफ	हवलदार	भीम सिंह गूजर	1-12-2004
958	2980360के	हवलदार	भोला राम	1-1-2005
959	2979261पी	हवलदार	चंदगी राम	1-10-2004
960	2980051एफ	हवलदार	चेत राम शाक्यावार	1-12-2004
961	2979171एन	हवलदार	धर्म सिंह	1-9-2004
962	2979568ए	हवलदार	धर्म सिंह	1-10-2004

963	2979697ए	हवलदार	धीरजा सिंह	1-11-2004
964	2979950डब्ल्यू	हवलदार	गंगादीन सिंह	1-12-2004
965	2979473ए	हवलदार	गिरानन्द सिंह	1-10-2004
966	2979209एम	हवलदार	हैदर खान	1-9-2004
967	2979871एफ	हवलदार	हंस राज	1-11-2004
968	2979715एक्स	हवलदार	हवा सिंह	1-11-2004
969	2979315एल	हवलदार	जगदीश	1-10-2004
970	2979766एल	हवलदार	झंडू राम	1-11-2004
971	2975173एफ	हवलदार	कृष्ण चंद्र	1-10-2004
972	2979109एफ	हवलदार	महाबीर सिंह	1-9-2004
973	2979622एच	हवलदार	मनोहर सिंह शेखावत	1-10-2004
974	2979765एच	हवलदार	नगेंद्र पाल सिंह	1-11-2004
975	2979497के	हवलदार	प्रभु राम	1-10-2004
976	2980237एल	हवलदार	राज पाल	1-1-2005
977	2978915एफ	हवलदार	राजपाल सिंह	1-9-2004
978	2980161डब्ल्यू	हवलदार	राकेश कुमार सिंह	1-1-2005
979	2979990एक्स	हवलदार	रंजीत सिंह	1-12-2004
980	2979814ए	हवलदार	सागर खान	1-11-2004
981	2980126एन	हवलदार	समीम	1-1-2005
982	2979605एच	हवलदार	सावर माल	1-10-2004
983	2979480डब्ल्यू	हवलदार	शिव राम सिंह चौहान	1-10-2004
984	2979630एफ	हवलदार	श्रवण महाली	1-10-2004
985	2979511एल	हवलदार	सुभाष सिंह	1-10-2004
986	2979719एन	हवलदार	सुरेंद्र सिंह	1-11-2004
987	2979931एल	हवलदार	सुरेंद्र सिंह	1-12-2004
988	2979704एल	हवलदार	सुरेश कुमार	1-10-2004
989	2979743के	हवलदार	तेजपाल	1-11-2004
990	2979067ए	हवलदार	विरेन्द्र सिंह	1-9-2004
991	2975340एम	हवलदार	यशपाल सिंह	1-12-2004
जाट रेजीमेन्ट				
992	3174422एक्स	हवलदार	अनिल राज	1-10-2004
993	3174527एफ	हवलदार	बेन सिंह	1-12-2004
994	3174388एच	हवलदार	भवर सिंह शेखावत	1-10-2004
995	3174361एल	हवलदार	बिक्रम सिंह	1-9-2004
996	3174428वाइ	हवलदार	ब्रिजबीर सिंह	1-10-2004
997	3174399पी	हवलदार	दरियाव सिंह	1-10-2004
998	3174268के	हवलदार	देवी सिंह	1-9-2004
999	3174397के	हवलदार	गजेन्द्र	1-10-2004
1000	3174478के	हवलदार	होती लाल	1-11-2004
1001	3174569एन	हवलदार	जय भगवान	1-1-2005
1002	3174372एक्स	हवलदार	जीत सिंह	1-10-2004
1003	3174551एक्स	हवलदार	करतार सिंह	1-12-2004
1004	3174323पी	हवलदार	के बल्लभ	1-9-2004
1005	3174270एफ	हवलदार	कृष्णपाल सिंह	1-9-2004
1006	3170080एक्स	हवलदार	कृष्ण लाल	1-10-2004
1007	3170352एन	हवलदार	ओम प्रकाश	1-1-2005
1008	3174520एक्स	हवलदार	राजन सिंह	1-12-2004

1009	3174566ए	हवलदार	आर सिंह	1-12-2004
1010	3174472एच	हवलदार	रविन्द्र सिंह	1-11-2004
1011	3174313एल	हवलदार	साजन सिंह	1-9-2004
1012	3174278एन	हवलदार	सासा राम थापा	1-9-2004
1013	3174570एच	हवलदार	सत्य नारायण नई	1-1-2005
1014	3174488एन	हवलदार	श्री भगवान	1-11-2004
1015	3174547पी	हवलदार	एस चंद्रा	1-12-2004
1016	3174571एल	हवलदार	उमेद सिंह	1-1-2005
1017	3170444वाइ	हवलदार	जिले सिंह	1-1-2005
सिख रेजीमेन्ट				
1018	3379732डब्ल्यू	हवलदार	अत्तर सिंह	1-9-2004
1019	3380347वाइ	हवलदार	बिप्रा सेठी	1-9-2004
1020	3379874एन	हवलदार	धर्म पाल	1-11-2004
1021	3379824एच	हवलदार	धर्म सिंह	1-11-2004
1022	3379845वाइ	हवलदार	दीवान गिरि	1-11-2004
1023	3379720एफ	हवलदार	गुरबचन सिंह	1-9-2004
1024	3379805एक्स	हवलदार	होरी लाल	1-10-2004
1025	3380035एच	हवलदार	कर्मजीत सिंह	1-1-2005
1026	3379976के	हवलदार	करनैल सिंह	1-12-2004
1027	3379893वाइ	हवलदार	करनैल सिंह	1-11-2004
1028	3379716वाइ	हवलदार	केशव दत्त	1-9-2004
1029	3379827डब्ल्यू	हवलदार	केशव दत्त जोशी	1-11-2004
1030	3379932एम	हवलदार	किशोरी लाल	1-12-2004
1031	3379807एच	हवलदार	महिंद्र सिंह	1-10-2004
1032	3379904ए	हवलदार	मंगत सिंह	1-11-2004
1033	3379916पी	हवलदार	मोहिन्दर सिंह	1-11-2004
1034	3379755एक्स	हवलदार	रमेश कुमार	1-10-2004
1035	3379844डब्ल्यू	हवलदार	शिंदर सिंह	1-11-2004
1036	3379869एच	हवलदार	शिवराज सिंह	1-11-2004
1037	3379887एल	हवलदार	सुरजीत सिंह	1-11-2004
1038	3379914के	हवलदार	सुवेन्दर सिंह	1-11-2004
1039	3376286पी	हवलदार	तरसेम सिंह	1-12-2004
सिख लघु पैदल सेना				
1040	4461039पी	हवलदार	अमरजीत सिंह	1-11-2004
1041	4460687एल	हवलदार	बालकर सिंह	1-9-2004
1042	4461013ए	हवलदार	बलविन्दर सिंह	1-11-2004
1043	4460907के	हवलदार	भुपिन्द्र सिंह	1-10-2004
1044	4461021वाइ	हवलदार	बूटा सिंह	1-11-2004
1045	4461322एच	हवलदार	चंद्र सिंह	1-1-2005
1046	4460760वाइ	हवलदार	दलीप सिंह	1-10-2004
1047	4461230डब्ल्यू	हवलदार	दया सिंह	1-12-2004
1048	4461205एक्स	हवलदार	दीवान सिंह	1-11-2004
1049	4460999एफ	हवलदार	गुरनाम सिंह	1-11-2004
1050	4460954एफ	हवलदार	गुरमीत सिंह	1-11-2004
1051	4460709वाइ	हवलदार	हंस राज	1-9-2004
1052	4461360वाइ	हवलदार	हंस राज	1-1-2005

1053	4460952डब्ल्यू	हवलदार	हरभजन सिंह	1-11-2004
1054	4460761एफ	हवलदार	इंद्रजीत सिंह	1-10-2004
1055	4461118के	हवलदार	इंद्रजीत सिंह	1-11-2004
1056	4461303एक्स	हवलदार	जगदीश सिंह	1-1-2005
1057	4460769एन	हवलदार	जस्सा सिंह	1-10-2004
1058	4460734एक्स	हवलदार	जसवंत सिंह	1-10-2004
1059	4461229एफ	हवलदार	कर्म चंद	1-11-2004
1060	4461133वाइ	हवलदार	कश्मीर सिंह	1-11-2004
1061	4461251एम	हवलदार	कुलदीप सिंह	1-12-2004
1062	4461224एच	हवलदार	लखन सिंह	1-12-2004
1063	4461174एच	हवलदार	लखबीर सिंह	1-11-2004
1064	4460897एल	हवलदार	मनजीत सिंह	1-10-2004
1065	4461061ए	हवलदार	मोहन सिंह	1-11-2004
1066	4460732एम	हवलदार	मुख्त्यार सिंह	1-9-2004
1067	4460930एक्स	हवलदार	प्रेम सिंह	1-11-2004
1068	4461084एफ	हवलदार	प्रीतपाल सिंह	1-11-2004
1069	4461213डब्ल्यू	हवलदार	सत्य नारायण सिंह	1-12-2004
1070	4461256एल	हवलदार	शाम लाल	1-12-2004
1071	4461041एम	हवलदार	शाम सिंह	1-11-2004
1072	4460976ए	हवलदार	शिंदर सिंह	1-11-2004
1073	4461169एक्स	हवलदार	श्याम सिंह	1-11-2004
1074	4461287एल	हवलदार	सुखदेव सिंह	1-1-2005
1075	4461298एक्स	हवलदार	सुखदेव सिंह	1-1-2005
1076	4461203एम	हवलदार	तरसेम सिंह	1-11-2004
डोगरा रेजीमेन्ट				
1077	3981917एन	हवलदार	अमर रंजीत सिंह	1-11-2004
1078	3981471के	हवलदार	अमर सिंह	1-9-2004
1079	3982227डब्ल्यू	हवलदार	अनिल विजय	1-12-2004
1080	3982003डब्ल्यू	हवलदार	अरुण कुमार सिंह	1-11-2004
1081	3982163डब्ल्यू	हवलदार	अशोक कुमार	1-11-2004
1082	3981618पी	हवलदार	अशोक कुमार	1-9-2004
1083	3982042पी	हवलदार	बलबीर सिंह	1-11-2004
1084	3981434डब्ल्यू	हवलदार	बाली राम	1-9-2004
1085	3981655एच	हवलदार	बलवंत सिंह	1-9-2004
1086	3981935डब्ल्यू	हवलदार	बामदेव शर्मा	1-11-2004
1087	3982428पी	हवलदार	बनरसी दास	1-12-2004
1088	3981653एक्स	हवलदार	बरियम सिंह	1-9-2004
1089	3981566के	हवलदार	बावा राम	1-9-2004
1090	3982572के	हवलदार	बीर सिंह	1-1-2005
1091	3982399एल	हवलदार	विरि सिंह	1-12-2004
1092	3981367डब्ल्यू	हवलदार	बुधी सिंह	1-9-2004
1093	3981832एक्स	हवलदार	चैन सिंह	1-10-2004
1094	3981432एल	हवलदार	चुनी लाल	1-9-2004
1095	3981825एफ	हवलदार	दर्शन राम	1-10-2004
1096	3981530एल	हवलदार	देश राज	1-9-2004
1097	3981489ए	हवलदार	देव राज	1-9-2004
1098	3982636के	हवलदार	देविन्द्र सिंह	1-1-2005

1099	3982009एक्स	हवलदार	धर्म सिंह	1-11-2004
1100	3982304ए	हवलदार	धर्म सिंह आर	1-12-2004
1101	3982546एच	हवलदार	ज्ञान चंद	1-1-2005
1102	3982331के	हवलदार	ज्ञानी चंद कौशल	1-12-2004
1103	3981419एफ	हवलदार	गोपाल सिंह एसएम	1-9-2004
1104	3981460एक्स	हवलदार	हंस राज	1-9-2004
1105	3982059एच	हवलदार	हंस राज	1-11-2004
1106	3981656एल	हवलदार	हरबंस लाल	1-9-2004
1107	3982333पी	हवलदार	हरबंस लाल	1-12-2004
1108	3981718ए	हवलदार	जय करन	1-10-2004
1109	3982194डब्ल्यू	हवलदार	जय राम	1-12-2004
1110	3982177डब्ल्यू	हवलदार	जसवंत सिंह	1-11-2004
1111	3981401एल	हवलदार	जिंदर सिंह	1-9-2004
1112	3981662वाइ	हवलदार	जीवन सिंह	1-9-2004
1113	3982565एन	हवलदार	जोगिंदर पौल एस	1-1-2005
1114	3982324एन	हवलदार	जोगिंद्र सिंह	1-12-2004
1115	3982067एफ	हवलदार	ज्योती प्रकाश	1-11-2004
1116	3981565एफ	हवलदार	कन्हाया लाल	1-9-2004
1117	3982630एच	हवलदार	कर्म सिंह	1-1-2005
1118	3982064एन	हवलदार	करतार चंद	1-11-2004
1119	3982053एफ	हवलदार	करतार सिंह	1-11-2004
1120	3981676वाइ	हवलदार	केहर सिंह	1-9-2004
1121	3981910के	हवलदार	केवल सिंह	1-11-2004
1122	3982213डब्ल्यू	हवलदार	खेम चंद	1-12-2004
1123	3981611एल	हवलदार	किशोरी लाल	1-9-2004
1124	3982425एफ	हवलदार	किशोरी लाल	1-12-2004
1125	3982648वाइ	हवलदार	किशोरी लाल	1-1-2005
1126	3982633डब्ल्यू	हवलदार	कुलबीर सिंह	1-1-2005
1127	3981815एक्स	हवलदार	कुलदीप सिंह	1-10-2004
1128	3981813एम	हवलदार	मदन लाल	1-10-2004
1129	3981809के	हवलदार	मदन लाल	1-10-2004
1130	3981600वाइ	हवलदार	मनोहर लाल	1-9-2004
1131	3981424एम	हवलदार	मोहन सिंह	1-9-2004
1132	3981638एच	हवलदार	मुंशी राम	1-9-2004
1133	3981958एक्स	हवलदार	नागेश सिंह	1-11-2004
1134	3981461ए	हवलदार	ओमी चंद	1-9-2004
1135	3981377ए	हवलदार	ओंकार चंद	1-9-2004
1136	3981745के	हवलदार	प्रदीप सिंह	1-10-2004
1137	3982273एल	हवलदार	पर्शोत्तम लाल	1-12-2004
1138	3981956एम	हवलदार	प्रताप चंद	1-11-2004
1139	3981546डब्ल्यू	हवलदार	प्रवीन सिंह	1-9-2004
1140	3981784एच	हवलदार	पी राम	1-10-2004
1141	3981404वाइ	हवलदार	प्रताप सिंह	1-9-2004
1142	3981382एल	हवलदार	प्रीतम चंद	1-9-2004
1143	3981884एन	हवलदार	राज कुमार	1-10-2004
1144	3981877एक्स	हवलदार	राजिन्दर सिंह	1-10-2004
1145	3981818एल	हवलदार	राम लाल	1-10-2004
1146	3982207एच	हवलदार	राम पाल	1-12-2004
1147	3981798एच	हवलदार	रमेश चंद	1-10-2004

1148	3981650के	हवलदार	रमेश चंद	1-9-2004
1149	3981861एम	हवलदार	रमेश कुमार	1-10-2004
1150	3981932एच	हवलदार	रमेश लाल	1-11-2004
1151	3981844एम	हवलदार	रणधीर सिंह	1-10-2004
1152	3981384डब्ल्यू	हवलदार	रंजीत सिंह	1-9-2004
1153	3982374वाइ	हवलदार	रत्न सिंह	1-12-2004
1154	3982063एल	हवलदार	रवि कुमार	1-11-2004
1155	3981367के	हवलदार	रेशम लाल	1-9-2004
1156	3981584एम	हवलदार	रोमेश चंद	1-9-2004
1157	3981940एफ	हवलदार	रोमेश चंद्र	1-11-2004
1158	3980322के	हवलदार	सरवन कुमार	1-9-2004
1159	3981554पी	हवलदार	श्रवण सिंह	1-9-2004
1160	3981624एच	हवलदार	शिव कुमार	1-9-2004
1161	3981767एच	हवलदार	श्रीपति पाल	1-10-2004
1162	3981936वाइ	हवलदार	सुभाष चंद	1-11-2004
1163	3981929एच	हवलदार	सुभाष चंद	1-11-2004
1164	3981666ए	हवलदार	सुख देव	1-9-2004
1165	3981690एल	हवलदार	सुखदेव राज	1-9-2004
1166	3981871डब्ल्यू	हवलदार	सुरिन्दर चंद कटोच	1-10-2004
1167	3981575एल	हवलदार	सुरिन्दर कुमार	1-9-2004
1168	3981378एच	हवलदार	सुरिन्दर सिंह	1-9-2004
1169	3981621पी	हवलदार	स्वर्ण सिंह	1-9-2004
1170	3981480एल	हवलदार	स्वर्ण सिंह	1-9-2004
1171	3982321ए	हवलदार	तारा चंद	1-12-2004
1172	3981717एक्स	हवलदार	तिलक राज	1-10-2004
1173	3982461एम	हवलदार	तिलक राज	1-1-2005
1174	3981433एन	हवलदार	वकिल सिंह	1-9-2004
1175	3981705एच	हवलदार	विजय कुमार	1-10-2004
1176	3982274एन	हवलदार	विनोद कुमार	1-12-2004
गढवाल राइफलस				
1177	4063207एन	हवलदार	आनंद मनी	1-1-2005
1178	4062781ए	हवलदार	आनंद सिंह	1-10-2004
1179	3981810वाइ	हवलदार	अविराम ठाकुर	1-10-2004
1180	4062912ए	हवलदार	अवतार सिंह	1-12-2004
1181	4062807के	हवलदार	बहादुर सिंह	1-11-2004
1182	4062601एम	हवलदार	बलवंत सिंह	1-9-2004
1183	2877992पी	हवलदार	भगवत प्रसाद	1-1-2005
1184	4063000एन	हवलदार	भगवत सिंह	1-12-2004
1185	4062886के	हवलदार	भरत सिंह	1-12-2004
1186	4063218ए	हवलदार	बिजेंद्र मनी	1-1-2005
1187	4063095वाइ	हवलदार	बीर सिंह फनियल	1-1-2005
1188	4062719एन	हवलदार	बृजमोहन सिंह	1-9-2004
1189	4063024एक्स	हवलदार	बृजमोहन सिंह एसएम	1-12-2004
1190	4063057एच	हवलदार	बुधी सिंह	1-1-2005
1191	4063068पी	हवलदार	चंद्र कैलाश	1-1-2005
1192	4063228के	हवलदार	चंद्र सिंह	1-1-2005
1193	4062780एक्स	हवलदार	चंद्र सिंह	1-10-2004

1194	4063021के	हवलदार	चंद्र सिंह रावत	1-12-2004
1195	4063190एल	हवलदार	चोवन सिंह	1-1-2005
1196	4062801एच	हवलदार	दौलत सिंह	1-11-2004
1197	4063030एल	हवलदार	दिलवर सिंह	1-12-2004
1198	4062901एन	हवलदार	गोपाल राम	1-12-2004
1199	4062768डब्ल्यू	हवलदार	गोपाल सिंह	1-10-2004
1200	4062769वाइ	हवलदार	गोपाल सिंह	1-10-2004
1201	4062957ए	हवलदार	गुमान सिंह	1-12-2004
1202	4062987एक्स	हवलदार	ज्ञान सिंह	1-12-2004
1203	4062889एक्स	हवलदार	हर सिंह	1-12-2004
1204	4063113डब्ल्यू	हवलदार	हरक सिंह	1-1-2005
1205	4063215एम	हवलदार	हरी प्रसाद नौटियाल	1-1-2005
1206	4061357एल	हवलदार	हरीश चंद्र	1-4-2004
1207	4062977एन	हवलदार	हयात सिंह	1-12-2004
1208	4062932एन	हवलदार	हीरा सिंह	1-12-2004
1209	4063206एल	हवलदार	हुकम सिंह	1-1-2005
1210	4062657वाइ	हवलदार	जगत सिंह	1-9-2004
1211	5845027ए	हवलदार	जय बहादुर दमई	1-12-2004
1212	4063080डब्ल्यू	हवलदार	जय सिंह	1-1-2005
1213	4062819वाइ	हवलदार	जय दत्त	1-11-2004
1214	4063018के	हवलदार	काधुल चंद एसएम	1-12-2004
1215	4062805वाइ	हवलदार	कमल सिंह	1-11-2004
1216	4062659के	हवलदार	खुशाल सिंह	1-9-2004
1217	4059228एम	हवलदार	कुदन सिंह धनोला	1-9-2004
1218	4062731पी	हवलदार	कुवर सिंह	1-9-2004
1219	4062787एफ	हवलदार	कुवर सिंह	1-10-2004
1220	4063071पी	हवलदार	लक्ष्मन सिंह	1-1-2005
1221	4062647पी	हवलदार	मदन सिंह	1-9-2004
1222	4063167एक्स	हवलदार	माधो सिंह	1-1-2005
1223	4062905के	हवलदार	मगन चंद	1-12-2004
1224	4063045एन	हवलदार	महाराज सिंह	1-12-2004
1225	4062783एल	हवलदार	एम सिंह	1-10-2004
1226	4063089एल	हवलदार	महेन्द्र सिंह	1-1-2005
1227	4062986पी	हवलदार	महीपाल सिंह	1-12-2004
1228	4062918एफ	हवलदार	महीपाल सिंह	1-12-2004
1229	4062909ए	हवलदार	महीपाल सिंह	1-12-2004
1230	4063151एम	हवलदार	महीपाल सिंह	1-1-2005
1231	4062653एच	हवलदार	गानधार सिंह	1-9-2004
1232	4062881एल	हवलदार	मनमोहन सिंह	1-12-2004
1233	4062599ए	हवलदार	मनोहर सिंह राणा	1-9-2004
1234	4062776पी	हवलदार	मनोहर सिंह	1-10-2004
1235	4062606एल	हवलदार	मस्त राम	1-9-2004
1236	4063133के	हवलदार	मेहरवान सिंह	1-1-2005
1237	4062723डब्ल्यू	हवलदार	मोहन लाल	1-9-2004
1238	4062799डब्ल्यू	हवलदार	नारायण सिंह	1-11-2004
1239	4063044एल	हवलदार	पदम सिंह	1-12-2004
1240	4059389पी	हवलदार	प्रताप सिंह	1-12-2004
1241	4063208डब्ल्यू	हवलदार	प्रेम सिंह	1-1-2005
1242	4062992एच	हवलदार	प्रेम सिंह	1-12-2004

1243	4062884वाइ	हवलदार	पुष्कर सिंह	1-12-2004
1244	4059382एल	हवलदार	पुष्कर सिंह	1-12-2004
1245	4062938पी	हवलदार	पुष्कर सिंह	1-12-2004
1246	4063178के	हवलदार	रघु नन्दन लाल	1-1-2005
1247	4062949एफ	हवलदार	राजेंद्र सिंह	1-12-2004
1248	4063102के	हवलदार	राजेंद्र सिंह	1-1-2005
1249	4063067एम	हवलदार	राजपाल सिंह	1-1-2005
1250	4063171ए	हवलदार	राजपाल सिंह	1-1-2005
1251	4062916डब्ल्यू	हवलदार	राम सिंह	1-12-2004
1252	4062650पी	हवलदार	रमेश सिंह	1-9-2004
1253	4059436एफ	हवलदार	रंजीत सिंह	1-12-2004
1254	4062858एक्स	हवलदार	सबल सिंह	1-11-2004
1255	4062847एल	हवलदार	सते सिंह	1-11-2004
1256	4063181के	हवलदार	सतीश	1-1-2005
1257	4062939एक्स	हवलदार	शंकर सिंह	1-12-2004
1258	4063014एन	हवलदार	श्याम सिंह	1-12-2004
1259	4063182एम	हवलदार	सिबार सिंह	1-1-2005
1260	4063174एन	हवलदार	सुदामा सिंह कंधारी	1-1-2005
1261	4063130डब्ल्यू	हवलदार	सुलभ सिंह	1-1-2005
1262	4063132एफ	हवलदार	सुल्तान सिंह	1-1-2005
1263	4063046डब्ल्यू	हवलदार	सूरबीर सिंह	1-12-2004
1264	4062982वाइ	हवलदार	सुरेंद्र सिंह	1-12-2004
1265	4062923एम	हवलदार	सुरेंद्र सिंह	1-12-2004
1266	4063005एम	हवलदार	सुरेश कुमार	1-12-2004
1267	4063031एन	हवलदार	टी सिंह	1-12-2004
1268	4062841के	हवलदार	टी राम	1-11-2004
1269	4062959एल	हवलदार	त्रिलोक सिंह	1-12-2004
1270	4062863एच	हवलदार	टी सिंह	1-12-2004
1271	4062859ए	हवलदार	उजल सिंह	1-12-2004
1272	4063020एफ	हवलदार	विजय सिंह	1-12-2004
1273	4062815एच	हवलदार	वीर सिंह	1-11-2004
1274	4062654एल	हवलदार	वी सिंह	1-9-2004
1275	4062969पी	हवलदार	विरेंद्र सिंह	1-12-2004
1276	4062800ए	हवलदार	विरेंद्र सिंह	1-11-2004
1277	4062759पी	हवलदार	वीरेंद्र सिंह	1-9-2004
1278	4059393एक्स	हवलदार	वाई सिंह	1-12-2004
	कुर्माँउ रेजीमेन्ट			
1279	4175813एल	हवलदार	अमरीक सिंह	1-1-2005
1280	4175784एफ	हवलदार	आनंद बल्लभ	1-1-2005
1281	4175999ए	हवलदार	आनंद सिंह	1-1-2005
1282	4176089वाइ	हवलदार	आनंद सिंह कायरा	1-1-2005
1283	4175283एफ	हवलदार	बाबू लाल	1-11-2004
1284	4175097एल	हवलदार	बच्चै सिंह	1-10-2004
1285	4175332वाइ	हवलदार	बलदेव सिंह	1-11-2004
1286	4174990वाइ	हवलदार	चामु सिंह रावत	1-9-2004
1287	4175856ए	हवलदार	चनार सिंह	1-1-2005
1288	4175885पी	हवलदार	चंद्रा भान यदावा	1-1-2005
1289	4172234एन	हवलदार	चंद्रा सिंह	1-12-2004

1290	4176086एल	हवलदार	चंद्रा सिंह	1-1-2005
1291	4175294एन	हवलदार	दरियाओ सिंह	1-11-2004
1292	4175081ए	हवलदार	देब सिंह	1-10-2004
1293	4175297एफ	हवलदार	देवेंदर सिंह	1-11-2004
1294	4175455एल	हवलदार	देवी प्रसाद	1-12-2004
1295	4175580पी	हवलदार	दीप चंद यादव	1-12-2004
1296	4175140एफ	हवलदार	दीवान सिंह	1-10-2004
1297	4176126एफ	हवलदार	दीवान सिंह	1-1-2005
1298	4175478एम	हवलदार	गनेश दत्त	1-12-2004
1299	4175779डब्ल्यू	हवलदार	गिरीश चंद जोशी	1-1-2005
1300	4175944डब्ल्यू	हवलदार	हीरा सिंह	1-1-2005
1301	4175592के	हवलदार	जगदीश प्रसाद	1-12-2004
1302	4175577पी	हवलदार	कांती बल्लभ जोशी	1-12-2004
1303	4176003पी	हवलदार	कवि गिरि	1-1-2005
1304	4175819एम	हवलदार	खड सिंह	1-1-2005
1305	4175844एल	हवलदार	कृष्ण सिंह	1-1-2005
1306	4175837पी	हवलदार	कुवर सिंह नेगी	1-1-2005
1307	4175039एफ	हवलदार	लछम सिंह	1-10-2004
1308	4172255के	हवलदार	लक्ष्मी दत्त	1-1-2005
1309	4175770एफ	हवलदार	महेन्द्र चंद	1-1-2005
1310	4172259ए	हवलदार	महेन्द्र सिंह यादव	1-1-2005
1311	4176092वाइ	हवलदार	महेश चंद्रा	1-1-2005
1312	4175516एक्स	हवलदार	मनी राम	1-12-2004
1313	4176121एच	हवलदार	मोहन चंद	1-1-2005
1314	4175672एफ	हवलदार	मोहन सिंह	1-1-2005
1315	4172103एच	हवलदार	मोहर सिंह	1-9-2004
1316	4175884एम	हवलदार	परसोतीम	1-1-2005
1317	4172075एफ	हवलदार	प्राण दत्त पाठक	1-9-2004
1318	4175125एम	हवलदार	प्रयाग सिंह	1-10-2004
1319	4175089एम	हवलदार	प्रेम सिंह	1-10-2004
1320	4175254एम	हवलदार	राजेंद्र कुमार	1-10-2004
1321	4175606वाइ	हवलदार	राजेंद्र सिंह	1-12-2004
1322	4175207पी	हवलदार	राम किशन	1-10-2004
1323	4175070एन	हवलदार	रमेश राम	1-10-2004
1324	4175978के	हवलदार	रमेश सिंह राउटेला	1-1-2005
1325	4175576एम	हवलदार	रण सिंह	1-12-2004
1326	4175126पी	हवलदार	रतन सिंह	1-10-2004
1327	4175874एच	हवलदार	रत्न सिंह	1-1-2005
1328	4175051एच	हवलदार	एस एस धपोला	1-10-2004
1329	4175182एन	हवलदार	श्री कृष्णा शर्मा	1-10-2004
1330	4175222के	हवलदार	सुरेश कुमार	1-10-2004
1331	4175107के	हवलदार	त्रिलोक सिंह	1-10-2004
1332	4175314डब्ल्यू	हवलदार	त्रिलोक सिंह बोहरा	1-11-2004
1333	4175684डब्ल्यू	हवलदार	वेद पाल	1-1-2005
1334	4174989के	हवलदार	विष्णु दत्त भट्ट	1-9-2004

असम रेजीमेन्ट

1335	4353447डब्ल्यू	हवलदार	अक्षय कुमार दास	1-9-2004
1336	4354140एक्स	हवलदार	अनिल चंद्रा राजखोवा	1-11-2004
1337	4354117के	हवलदार	अशोक केआर खखालारि	1-11-2004
1338	4354287एन	हवलदार	बाबुल च. सेकिआ	1-11-2004
1339	4354553एफ	हवलदार	बी सिंघा	1-12-2004
1340	4354286एल	हवलदार	बकुल च. सेकिआ	1-11-2004
1341	4426453पी	हवलदार	बनारस तिवारी	1-9-2004
1342	4354395एक्स	हवलदार	भुवनेश्वर सिंघा	1-12-2004
1343	4354345एम	हवलदार	बिजित च. तालुकदार	1-11-2004
1344	4354144एन	हवलदार	बिस्तीराम दैमारी	1-11-2004
1345	4354230वाइ	हवलदार	बिर ब्रमा	1-11-2004
1346	4354132वाइ	हवलदार	चक्रपाणि कलिता	1-11-2004
1347	4353446एन	हवलदार	धनेश्वर	1-9-2004
1348	4354130एन	हवलदार	धरमेश्वर दास	1-11-2004
1349	4353399एफ	हवलदार	दिलीप बोराह	1-9-2004
1350	4354375के	हवलदार	दुर्गा बहादुर घताने	1-12-2004
1351	4353353वाइ	हवलदार	गोलाप चंद्रा फुकन	1-9-2004
1352	4354352एच	हवलदार	गोपीनाथ भूयान	1-12-2004
1353	4354156एच	हवलदार	हरेन बोराह	1-11-2004
1354	4353319वाइ	हवलदार	हरका बहादुर थापा	1-9-2004
1355	4354181एफ	हवलदार	जगदीश चंद्रा सिंघा	1-11-2004
1356	4354545एच	हवलदार	जोगे सिंघा	1-12-2004
1357	4354058एच	हवलदार	ज्योतिश चंद्रा बरुआ	1-11-2004
1358	4353674डब्ल्यू	हवलदार	खुपलम थंग जोउ	1-9-2004
1359	4354075एच	हवलदार	किना राम फुकन	1-11-2004
1360	4354549वाइ	हवलदार	लालफामकिम	1-12-2004
1361	4354444पी	हवलदार	ललतानपुइया	1-12-2004
1362	4354382ए	हवलदार	मगवन बोरो	1-12-2004
1363	4354048वाइ	हवलदार	महेंद्र सिन्हा	1-11-2004
1364	4353449एफ	हवलदार	मनिहर सिंघा	1-9-2004
1365	4354133एफ	हवलदार	मतीराम राय	1-11-2004
1366	4353357पी	हवलदार	मिनाराम डी	1-9-2004
1367	4353827पी	हवलदार	मिसोन के	1-10-2004
1368	4426385एम	हवलदार	नगीना राम	1-9-2004
1369	4354394पी	हवलदार	नरेन च. गोयारी	1-12-2004
1370	4353478डब्ल्यू	हवलदार	निरंजन बोराह	1-9-2004
1371	4353410पी	हवलदार	एन सेनसुआ	1-9-2004
1372	4354387वाइ	हवलदार	प्रदीप कुमार राभा	1-12-2004
1373	4353867डब्ल्यू	हवलदार	पुन्याश्वर कचर	1-10-2004
1374	4354143एल	हवलदार	रबिन चंद्रा रौय	1-11-2004
1375	4426468एक्स	हवलदार	रबिन केआर नाथ	1-11-2004
1376	4426484पी	हवलदार	राम इकबाल ठाकुर	1-1-2005

1377	4426460एल	हवलदार	राम नाथ लोहार	1-10-2004
1378	4426448के	हवलदार	राम विलास वालमिक	1-9-2004
1379	4354638एक्स	हवलदार	रमाग्या यादव	1-1-2005
1380	4354149एम	हवलदार	आर राय	1-11-2004
1381	4353708वाइ	हवलदार	रण बहादुर पुन	1-9-2004
1382	4354307डब्ल्यू	हवलदार	रतनेश्वर देमारी	1-11-2004
1383	4353404एफ	हवलदार	आर पाठक	1-9-2004
1384	4353514डब्ल्यू	हवलदार	एस भट्टाचाजी	1-9-2004
1385	4354347एक्स	हवलदार	श्रीनिवास सिन्हा	1-11-2004
1386	4353610एल	हवलदार	एस आर मराक	1-9-2004
1387	4353590एच	हवलदार	सुमेश्वर बोर्डालय	1-9-2004
1388	4354174एल	हवलदार	सुसेन बोरा	1-11-2004
1389	4353321डब्ल्यू	हवलदार	तिल बहादुर थापा	1-9-2004
1390	4353483एफ	हवलदार	उपेन चंद्रा भूयान	1-9-2004
1391	4354585के	हवलदार	डब्ल्यू बिश सिंघा	1-1-2005
1392	4354488एम	हवलदार	जरलीआना	1-12-2004
बिहार रेजीमेन्ट				
1393	4257565एम	हवलदार	अरुण कुमार दुबे	1-12-2004
1394	4257623एल	हवलदार	भैरब ठाकुर	1-1-2005
1395	4260527एफ	हवलदार	बाहो नाथ शर्मा	1-10-2004
1396	4260615एक्स	हवलदार	बिदेश्वर राम	1-11-2004
1397	4260373ए	हवलदार	बिरेन्द्र सिंह	1-9-2004
1398	4260666एल	हवलदार	बिरेन्द्र ओझा	1-11-2004
1399	4260362एन	हवलदार	चुम्मा सिंह	1-9-2004
1400	4260664ए	हवलदार	कोरनेलियरा मिंज	1-11-2004
1401	4260603एच	हवलदार	देव शंकर प्रसाद	1-11-2004
1402	4260522एच	हवलदार	गनेश प्रसाद साह	1-10-2004
1403	4260601एक्स	हवलदार	गोपाल प्रसाद कानू	1-10-2004
1404	4260685डब्ल्यू	हवलदार	जगदीश पण्डित	1-1-2005
1405	4257337के	हवलदार	जय कुमार सिंह	1-10-2004
1406	4260686वाइ	हवलदार	जिया लाल	1-1-2005
1407	4260633ए	हवलदार	कामाख्या प्रसाद सिंह	1-11-2004
1408	4260496एम	हवलदार	कामेश प्रसाद	1-10-2004
1409	4260379एफ	हवलदार	कन्हैया सिंह	1-9-2004
1410	4260525डब्ल्यू	हवलदार	के तिवारी	1-10-2004
1411	4260551एक्स	हवलदार	कृष्ण कुमार सिंह	1-10-2004
1412	4260636एन	हवलदार	कुंज बिहारी यादव	1-10-2004
1413	4257601एम	हवलदार	लालजी रजाक	1-1-2005
1414	4260642एफ	हवलदार	महेंद्र सिंह	1-11-2004
1415	4260648एच	हवलदार	मनोज कुमार सिंह	1-11-2004
1416	9922291पी	हवलदार	मोहम्मद हनीफ	1-12-2004
1417	4260532एम	हवलदार	पीटर पौल वा	1-10-2004

1418	4257317डब्ल्यू	हवलदार	राज जी पान्डे	1-9-2004
1419	4280575एफ	हवलदार	राजेश रज	1-10-2004
1420	4260568एल	हवलदार	राजेश प्रसाद सिंह	1-10-2004
1421	4260580एम	हवलदार	राम प्रमोद सिंह	1-10-2004
1422	4260680एक्स	हवलदार	रामजीत साह	1-1-2005
1423	6750175ए	हवलदार	रूदाल साह	1-12-2004
1424	4257590एल	हवलदार	एस सिंह	1-1-2005
1425	4280684एन	हवलदार	पूजन सिंह	1-12-2004
1426	4257768डब्ल्यू	हवलदार	सोहन पासवान	1-10-2004
1427	4280357एच	हवलदार	एस होरो	1-9-2004
1428	4259838एच	हवलदार	सुख देव ठाकुर	1-11-2004
1429	4260498एक्स	हवलदार	सुरेश प्रसाद सिंह	1-10-2004
1430	4260565एक्स	हवलदार	उमेश कुमार	1-10-2004
1431	4260586एन	हवलदार	विजय कुमार	1-10-2004
महार रेजीमेन्ट				
1432	4552038ए	हवलदार	अजब सिंह टी	1-12-2004
1433	4551526डब्ल्यू	हवलदार	अनवर आई बख्शी	1-11-2004
1434	4551327एच	हवलदार	बाबू लाल मीना	1-10-2004
1435	4551531एफ	हवलदार	बट्टी दत्त	1-11-2004
1436	4551260पी	हवलदार	बनवारी लाल	1-10-2004
1437	4552002एफ	हवलदार	भगवत दशरथ एस	1-12-2004
1438	4552016एफ	हवलदार	भरत सिंह	1-12-2004
1439	4551083ए	हवलदार	सी टी	1-9-2004
1440	4551528एफ	हवलदार	चंद्रमणि नामदेव एस	1-11-2004
1441	4552005पी	हवलदार	दया किशन	1-12-2004
1442	4552089एन	हवलदार	दया नन्द	1-1-2005
1443	4551532के	हवलदार	दीवान सिंह	1-11-2004
1444	2979795ए	हवलदार	धन सिंह	1-11-2004
1445	4551987ए	हवलदार	धर्म राज	1-12-2004
1446	4552155एल	हवलदार	दोरवे समभाजी गनपति	1-1-2005
1447	4551571एच	हवलदार	गण बहादुर गुरुंग	1-11-2004
1448	4551084एच	हवलदार	गोपालन कंधोत	1-10-2004
1449	4551534पी	हवलदार	गुरदेव सिंह	1-11-2004
1450	4551055एन	हवलदार	हरीश चंद यादव	1-9-2004
1451	4551145पी	हवलदार	हयात सिंह	1-10-2004
1452	2979036ए	हवलदार	जगत सिंह महालावत	1-9-2004
1453	4551398के	हवलदार	जगबीर सिंह	1-10-2004
1454	4551952के	हवलदार	जनार्दन सिंह भादौरिया	1-12-2004
1455	4548291के	हवलदार	जन्कार सिंह	1-10-2004
1456	4551576एफ	हवलदार	कमल सिंह	1-11-2004
1457	4552157डब्ल्यू	हवलदार	काम्यले विक्रम मारुति	1-1-2005

1458	4551405पी	हवलदार	कश्मीर चंद	1-11-2004
1459	4551440एक्स	हवलदार	कृष्णा गोपाल	1-11-2004
1460	4551781एच	हवलदार	लक्ष्मी राम	1-12-2004
1461	4551169वाइ	हवलदार	लक्ष्मन राम	1-10-2004
1462	4551919एम	हवलदार	मदन सिंह	1-12-2004
1463	4551794ए	हवलदार	महाकर सिंह	1-12-2004
1464	4551180एक्स	हवलदार	महेंद्र कुमार	1-10-2004
1465	4551724एफ	हवलदार	माली राम बुन्कर	1-11-2004
1466	4552182पी	हवलदार	मस्त राम	1-1-2005
1467	4551944एल	हवलदार	मोहन सिंह	1-12-2004
1468	4552195एम	हवलदार	नारायण चंद्रा मोन्डल	1-1-2005
1469	4552172एल	हवलदार	निशान चंद्र	1-1-2005
1470	4551537एच	हवलदार	पी सिंह	1-11-2004
1471	4551644के	हवलदार	प्रहलाद प्रसाद शर्मा	1-11-2004
1472	4551933वाइ	हवलदार	प्रेम लाल	1-12-2004
1473	4552130वाइ	हवलदार	राधे श्याम	1-1-2005
1474	4552307एफ	हवलदार	राम दास	1-1-2005
1475	2979316एन	हवलदार	राम नारायण	1-10-2004
1476	4551574डब्ल्यू	हवलदार	राम प्रकाश	1-11-2004
1477	4551568एच	हवलदार	रमेश कुमार	1-11-2004
1478	4551892ए	हवलदार	रमेश प्रसाद सिंह	1-12-2004
1479	4551467पी	हवलदार	रतन पाल	1-10-2004
1480	4551589वाइ	हवलदार	रूप राम विश्वकर्मा	1-11-2004
1481	4551455ए	हवलदार	साही राम	1-11-2004
1482	4551907एक्स	हवलदार	सनातन हेमब्राम	1-12-2004
1483	4552023एक्स	हवलदार	ससंका भूषण कर्माकर	1-12-2004
1484	4552218एच	हवलदार	सत्यबीर	1-1-2005
1485	4551423एक्स	हवलदार	शिवाजी जे पहोरे	1-11-2004
1486	4552266एच	हवलदार	श्याम सिंह	1-1-2005
1487	4551789पी	हवलदार	श्री चंकट पीडी चौरसिया	1-12-2004
1488	2979769वाइ	हवलदार	सुभाष चंद्रा	1-11-2004
1489	4552113वाइ	हवलदार	सुदर्शन सिंह	1-1-2005
1490	4551888एम	हवलदार	सुरेश	1-12-2004
1491	4551749एन	हवलदार	सुरेश सिंह	1-12-2004
1492	4551640एन	हवलदार	सुरजन सिंह	1-11-2004
1493	4551932डब्ल्यू	हवलदार	तेजा प्रसाद	1-12-2004
1494	4551721एन	हवलदार	विजयन के	1-11-2004
1495	4551106डब्ल्यू	हवलदार	वरकारी बिभिषण शिवाजी	1-10-2004
जम्मू एवं कश्मीर राइफल्स				
1496	13745940के	हवलदार	अजित कुमार	1-11-2004
1497	13741496एफ	हवलदार	अशोक कुमार	1-10-2004
1498	13746403एल	हवलदार	अवतार सिंह	1-1-2005

1499	13746024पी	हवलदार	अयुध्या नाथ	1-12-2004
1500	13745893एक्स	हवलदार	बलदेव सिंह	1-11-2004
1501	13745642एन	हवलदार	बलदेव सिंह	1-9-2004
1502	13745824एफ	हवलदार	भगवान दास	1-11-2004
1503	13745730के	हवलदार	भजन सिंह	1-10-2004
1504	13745853डब्ल्यू	हवलदार	बिमल थापा	1-11-2004
1505	13746649के	हवलदार	बीरबल	1-1-2005
1506	13746305एल	हवलदार	बिशम्बर सिंह	1-12-2004
1507	13746301पी	हवलदार	बिशन दास	1-12-2004
1508	13745878एक्स	हवलदार	बोध राज	1-11-2004
1509	13746238एल	हवलदार	बोध सिंह	1-12-2004
1510	13745899वाइ	हवलदार	चैन सिंह	1-11-2004
1511	13745820एल	हवलदार	देव राज	1-11-2004
1512	13745709एफ	हवलदार	दिलबाग सिंह	1-10-2004
1513	13745649एन	हवलदार	दुर्गा सिंह	1-11-2004
1514	13745852एन	हवलदार	गगन सिंह	1-11-2004
1515	13746008एक्स	हवलदार	गिरधारी लाल	1-11-2004
1516	13746284ए	हवलदार	गोपाल सिंह	1-12-2004
1517	13746258वाइ	हवलदार	गोवर्धन लाल चन्देल	1-12-2004
1518	13745904वाइ	हवलदार	गुरदयाल	1-11-2004
1519	13745764एच	हवलदार	हरदेव चंद	1-10-2004
1520	13748300एम	हवलदार	हेम राज	1-12-2004
1521	13745763पी	हवलदार	जगदीश सिंह	1-10-2004
1522	13745960एक्स	हवलदार	कमल किशोर	1-11-2004
1523	13745672एल	हवलदार	कृपा राम	1-10-2004
1524	13746127एन	हवलदार	कृष्ण कुमार	1-12-2004
1525	13745673एन	हवलदार	लभ सिंह चिब	1-10-2004
1526	13746109एल	हवलदार	मदन लाल	1-12-2004
1527	13746004एफ	हवलदार	एम अहमद	1-11-2004
1528	13746149एम	हवलदार	मोहन चंद्र	1-12-2004
1529	13746101वाइ	हवलदार	मोहम्मद सादिक	1-12-2004
1530	13746419डब्ल्यू	हवलदार	नारायण दत्त	1-1-2005
1531	13746652के	हवलदार	नाजि अहमद शेख	1-1-2005
1532	13746292वाइ	हवलदार	ओम प्रकाश	1-12-2004
1533	13746102एफ	हवलदार	ओम प्रकाश	1-12-2004
1534	13745998एफ	हवलदार	प्यारे लाल	1-11-2004
1535	13745836डब्ल्यू	हवलदार	रबिन गुरुंग	1-10-2004
1536	13745663के	हवलदार	राजिन्दर सिंह	1-9-2004
1537	13746307डब्ल्यू	हवलदार	रमेश चंद	1-12-2004
1538	13746266एक्स	हवलदार	रमेश चंद्र	1-12-2004
1539	13746543एक्स	हवलदार	रत्तन चंद भोरया	1-1-2005
1540	13745759एम	हवलदार	रिचपाल सिंह	1-10-2004
1541	13745977एल	हवलदार	रिखी राम	1-11-2004
1542	13745784एल	हवलदार	साहिब दीन	1-11-2004

1543	13746414एक्स	हवलदार	सर्फ राम	1-1-2005
1544	13746639ए	हवलदार	सत पौल सिंह	1-1-2005
1545	13746142एच	हवलदार	सुभाष चंद्र	1-12-2004
1546	13745745एम	हवलदार	सुखदेव	1-10-2004
1547	13745736एल	हवलदार	सुखदेव सिंह	1-10-2004
1548	13745770एल	हवलदार	सुरेश कुमार	1-10-2004
1549	13745865एल	हवलदार	सुरिन्दर कुमार	1-11-2004
1550	5344634के	हवलदार	टेक बहादुर बसनित	1-9-2004
1551	13746232के	हवलदार	वेद प्रकाश	1-12-2004
1552	13746126एल	हवलदार	यश पौल	1-12-2004
लद्दाख स्काउट				
1553	9922251एन	हवलदार	सोनम क्षेत्रांग	1-9-2004
1554	9921895एफ	हवलदार	सेरिंग फुनचोक	1-9-2004
नाग रेजीमेन्ट				
1555	14700947एक्स	हवलदार	गिरीश चंद्रा	1-1-2005
1556	14700943एफ	हवलदार	मेसोयसंग एओ	1-11-2004
1557	4175796डब्ल्यू	हवलदार	प्रताप सिंह	1-1-2005
जम्मू एवं कश्मीर लघु पैदल सेना				
1558	9084021एम	हवलदार	बिहारी लाल	1-1-2005
1559	9083976एन	हवलदार	भगवान सिंह	1-12-2004
1560	9083977डब्ल्यू	हवलदार	बोध राज भगत	1-11-2004
1561	9084011एच	हवलदार	दर्शन सिंह	1-1-2005
1562	9082747डब्ल्यू	हवलदार	दीना नाथ	1-12-2004
1563	9083820डब्ल्यू	हवलदार	गुलजारी लाल	1-9-2004
1564	9084026एल	हवलदार	जनक राज	1-1-2005
1565	9083900एन	हवलदार	करन दास	1-11-2004
1566	9083959एन	हवलदार	करन सिंह	1-11-2004
1567	9083878एन	हवलदार	मदन लाल	1-11-2004
1568	9083798डब्ल्यू	हवलदार	मोहम्मद एस	1-9-2004
1569	9084020के	हवलदार	नसीब चंद	1-1-2005
1570	9083880एल	हवलदार	नसीब सिंह	1-11-2004
1571	9083978वाइ	हवलदार	निर्मल सिंह	1-12-2004
1572	9083805एफ	हवलदार	प्रदीप कुमार	1-9-2004
1573	9083904के	हवलदार	प्रदीप सिंह	1-11-2004
1574	9083972एक्स	हवलदार	प्रदीप सिंह चिव	1-12-2004
1575	9083804वाइ	हवलदार	रोमेश लाल	1-9-2004
1576	9083969एक्स	हवलदार	सत पाल सिंह	1-12-2004
1577	9083899के	हवलदार	शाम लाल	1-11-2004

1578	9083933वाइ	हवलदार	सुभाष चंद्र	1-12-2004
1579	9084014डब्ल्यू	हवलदार	सुभाष सिंह	1-1-2005
1 गोरखा राइफल्स				
1580	5042932एच	हवलदार	भक्त बहादुर थापा	1-10-2004
1581	5042948एन	हवलदार	बुधी प्रसाद गुरुंग	1-11-2004
1582	5042972के	हवलदार	धन बहादुर पुन	1-11-2004
1583	5042964एल	हवलदार	गुप्ता बहादुर थापा	1-11-2004
1584	5043007एम	हवलदार	झिम बहादुर थापा	1-1-2005
1585	5042883एल	हवलदार	मेख बहादुर गुरुंग	1-9-2004
1586	5041969एक्स	हवलदार	ओबी बहादुर गुरुंग	1-1-2005
1587	5042951एन	हवलदार	प्रेम बहादुर थापा	1-11-2004
1588	5042882एच	हवलदार	राम बहादुर पुन	1-09-2004
1589	5042934एन	हवलदार	तिल बहादुर थापा	1-11-2004
3 गोरखा राइफल्स				
1590	5243763एच	हवलदार	गनेश बहादुर मगर	1-1-2005
1591	5244190डब्ल्यू	हवलदार	हरका बहादुर राणा	1-10-2004
1592	5244203एच	हवलदार	जोग बहादुर गुरुंग	1-12-2004
4 गोरखा राइफल्स				
1593	5344689एन	हवलदार	चूरा बहादुर मगर	1-10-2004
1594	5344658एन	हवलदार	दल बहादुर पुन	1-9-2004
1595	5344626एल	हवलदार	धन बहादुर थापा	1-9-2004
1596	5344707एल	हवलदार	दिल बहादुर थापा	1-10-2004
1597	5343767एन	हवलदार	गिरमान सिंह राणा	1-9-2004
1598	5344711एन	हवलदार	गोपाल सिंह थापा	1-11-2004
1599	5344701के	हवलदार	मान बहादुर एस मगर	1-10-2004
1600	5344743डब्ल्यू	हवलदार	पूर्णा बहादुर गुरुंग	1-11-2004
1601	5344665के	हवलदार	पूर्णा बहादुर थापा	1-10-2004
1602	5344622पी	हवलदार	सुधार सिंह	1-9-2004
1603	5344732के	हवलदार	सूर्या बहादुर थापा	1-1-2005
1604	5344692एन	हवलदार	विजय कुमार	1-11-2004
5 गोरखा राइफल्स				
1605	5448522डब्ल्यू	हवलदार	अन्ना पूर्णा हजाम	1-12-2004
1606	5448497एच	हवलदार	भीम बहादुर थापा	1-12-2004
1607	5448415पी	हवलदार	बीर बहादुर गुरुंग	1-9-2004
1608	5448504एन	हवलदार	दामर बहादुर गुरुंग	1-12-2004
1609	5447664एफ	हवलदार	देब बहादुर गुरुंग	1-9-2004
1610	5448439वाइ	हवलदार	धर्म बहादुर थापा	1-11-2004
1611	5448520एल	हवलदार	दुर्गा बहादुर थापा	1-12-2004
1612	5448419एल	हवलदार	फर्श लाल गुरुंग	1-9-2004

1613	5448403ए	हवलदार	गंगा बहादुर थापा	1-9-2004
1614	5448461के	हवलदार	हीरा बहादुर गुरुंग	1-10-2004
1615	5448442वाइ	हवलदार	इमान सिंह थापा	1-11-2004
1616	5448443एफ	हवलदार	खुम बहादुर थापा	1-11-2004
1617	5448482ए	हवलदार	कृष्णा बहादुर गुरुंग	1-11-2004
1618	5447706एच	हवलदार	कुम्बा सिंह गुरुंग	1-9-2004
1619	5448473वाइ	हवलदार	मान बहादुर गुरुंग	1-10-2004
1620	5448515ए	हवलदार	मोहम्मद मनन मंडल	1-1-2005
1621	5447788डब्ल्यू	हवलदार	नारायण प्रसाद प्रधान	1-1-2005
1622	5448440एन	हवलदार	नन बहादुर गुरुंग	1-11-2004
1623	5447737एच	हवलदार	प्रेम बहादुर थापा	1-11-2004
1624	5447776एफ	हवलदार	राम बहादुर थापा	1-12-2004
1625	5448449एच	हवलदार	सुखवीर सिंह	1-11-2004
1626	5750157एक्स	हवलदार	टी गुरुंग	1-11-2004
1627	5448456वाइ	हवलदार	याम बहादुर गुरुंग	1-10-2004
8 गोरखा राइफल्स				
1628	5750182डब्ल्यू	हवलदार	बैंग राज छत्री	1-12-2004
1629	5748725वाइ	हवलदार	भक्त बहादुर थापा	1-12-2004
1630	5750183वाइ	हवलदार	भुवन सिंह अले	1-12-2004
1631	5750152वाइ	हवलदार	चूरा बहादुर थापा	1-10-2004
1632	5750179डब्ल्यू	हवलदार	धर्म नाथ सिंह	1-1-2005
1633	5750159एच	हवलदार	जय राम राय	1-11-2004
1634	5749842डब्ल्यू	हवलदार	जय राम राम	1-1-2005
1635	5750151डब्ल्यू	हवलदार	कवि राज थापा	1-10-2004
1636	5750153एफ	हवलदार	लोक बहादुर खत्री	1-10-2004
1637	5750156पी	हवलदार	नारायण बहादुर थापा	1-11-2004
1638	5750178एन	हवलदार	सुकुमार घोष	1-1-2005
1639	5750138एम	हवलदार	सुरेश चंद्र	1-10-2004
1640	5750202वाइ	हवलदार	तिका बहादुर गुरुंग	1-1-2005
9 गोरखा राइफल्स				
1641	5844977एच	हवलदार	चंद्रा बहादुर छत्री	1-10-2004
1642	5844423के	हवलदार	धर्म बहादुर भंडारी	1-9-2004
1643	5845045एच	हवलदार	गुप्ता बहादुर साही एसएम	1-1-2005
1644	5845057एक्स	हवलदार	कमल नारायण श्रेष्ठ	1-1-2005
1645	5845009एक्स	हवलदार	नंदा बहादुर थापा	1-12-2004
1646	5845022एफ	हवलदार	राम बहादुर छत्री	1-11-2004
1647	5844517एफ	हवलदार	संगम लाल कनुजिया	1-12-2004
1648	9922246एच	हवलदार	शाम लाल	1-9-2004
1649	5844543एच	हवलदार	थांबर बहादुर खत्री	1-12-2004
11 गोरखा राइफल्स				
1650	9416814के	हवलदार	आइता बहादुर तमंग	1-12-2004

1651	9415562डब्ल्यू	हवलदार	बसाप्ता कुमार राय	1-9-2004
1652	9416494ए	हवलदार	बिरती काजी राय	1-12-2004
1653	9415770एल	हवलदार	चमार सिंह राय	1-10-2004
1654	9416271एच	हवलदार	चंद्रा कुमार राय	1-10-2004
1655	9415574एल	हवलदार	चतुर कुमार राय	1-10-2004
1656	9416835ए	हवलदार	दिनेश कुमार राय	1-12-2004
1657	9415823वाइ	हवलदार	गोपाल राय	1-10-2004
1658	9415672एल	हवलदार	हेम बहादुर राय	1-11-2004
1659	9416661एल	हवलदार	हेम बहादुर राय	1-10-2004
1660	9416863एम	हवलदार	इंदरा दास प्रधान	1-1-2005
1661	9416805एच	हवलदार	जगत बहादुर लिम्बु	1-12-2004
1662	9415923के	हवलदार	जीवन कुमार राय	1-10-2004
1663	9415533एफ	हवलदार	मदन कुमार राय	1-9-2004
1664	9416737ए	हवलदार	नंदा कुमार ठाकुर	1-10-2004
1665	9416594एल	हवलदार	एन लामा	1-10-2004
1666	9416095डब्ल्यू	हवलदार	प्रवीण दीवान	1-10-2004
1667	9416504वाइ	हवलदार	प्रेम बहादुर राय	1-10-2004
1668	9416658एल	हवलदार	प्रेम कुमार चेमजौंग	1-10-2004
1669	8025919एल	हवलदार	प्रेम कुमार राय	1-10-2004
1670	9416871एल	हवलदार	राज बहादुर लिम्बु	1-1-2005
1671	9415579के	हवलदार	राजेंद्र हंग	1-10-2004
1672	9415747एक्स	हवलदार	राजेंद्र राम	1-10-2004
1673	9415827पी	हवलदार	राम बहादुर राय	1-10-2004
1674	9416831के	हवलदार	रमेश तमंग	1-12-2004
1675	9416779एम	हवलदार	आर सिंह	1-10-2004
1676	9415858पी	हवलदार	रूपेश कुमार लिम्बु	1-10-2004
1677	9416414एक्स	हवलदार	सहादेव तमंग	1-10-2004
1678	9416101वाइ	हवलदार	शिव बहादुर राय	1-10-2004
1679	9416032एन	हवलदार	श्री कुमार राय	1-10-2004
1680	9415994एल	हवलदार	सुकरा बी राय	1-10-2004
1681	9416050डब्ल्यू	हवलदार	तिका राम राय	1-10-2004
1682	9415925पी	हवलदार	उरजेन लामा यालमो	1-10-2004
1683	9416025एक्स	हवलदार	उत्तर कुमार राय	1-10-2004
सेना सेवा कोर ; दक्षिण ङ				
1684	13883657पी	हवलदार	अब्दुल कलीम खान	1-11-2004
1685	13883049एन	हवलदार	अदतला नागेस्वर राव	1-10-2004
1686	13884279एन	हवलदार	अकाली प्रसाद	1-12-2004
1687	13879486डब्ल्यू	हवलदार	अल्नु रौय	1-10-2004
1688	13863967वाइ	हवलदार	अमल किशोर प्रसाद सिंह	1-12-2004
1689	13883434एक्स	हवलदार	आनंद कुमार सिंह	1-11-2004
1690	13864884ए	हवलदार	अर्जुन भक्त	1-9-2004
1691	13884684एल	हवलदार	अरुण कुमार	1-1-2005
1692	13883545पी	हवलदार	अशोक कुमार चौबे	1-11-2004

1693	13879990डब्ल्यू	हवलदार	आश कुमार तिवारी	1-11-2004
1694	6373708एम	हवलदार	ए मारुति विथल	1-9-2004
1695	13888392ए	हवलदार	अवध बिहारी	1-1-2005
1696	13879825एल	हवलदार	बी बी डी सी बी एम पटेल	1-11-2004
1697	13888473ए	हवलदार	बाबू लाल	1-1-2005
1698	13883454एल	हवलदार	बाबुल बाड	1-11-2004
1699	13879727एल	हवलदार	बेबी पीटी	1-11-2004
1700	13884522ए	हवलदार	बालाकिशोर ठाकुर	1-1-2005
1701	13883739एक्स	हवलदार	बालेश	1-12-2004
1702	13884280एच	हवलदार	बाल्मीक सिंह	1-12-2004
1703	13884693एम	हवलदार	बरुण कुमार चौबे	1-1-2005
1704	13884632पी	हवलदार	बेग इमाम पी	1-1-2005
1705	13869574वाइ	हवलदार	भगवत मिश्रा	1-11-2004
1706	13884562एफ	हवलदार	भजन सिंह	1-12-2004
1707	13888234एल	हवलदार	भंवर लाल	1-1-2005
1708	6375811डब्ल्यू	हवलदार	भवर सूर्यकांत अकरम	1-12-2004
1709	13884481एफ	हवलदार	भोगी राम	1-12-2004
1710	13864618एफ	हवलदार	भूप नारायण द्विवेदी	1-1-2005
1711	13681013एम	हवलदार	भूप नारायण	1-9-2004
1712	13884243पी	हवलदार	भूपेन चंद्रा राय	1-12-2004
1713	6374100के	हवलदार	भुवानेश्वर सिंह	1-12-2004
1714	13884837के	हवलदार	बिकाश कुमार मृद्धया	1-1-2005
1715	13864418एल	हवलदार	बिमल विश्वास	1-1-2005
1716	13883534एच	हवलदार	बिमल सिंह	1-11-2004
1717	13888136एल	हवलदार	बिरेन्द्र ठाकुर	1-1-2005
1718	13884879डब्ल्यू	हवलदार	बिशन दास	1-1-2005
1719	6375830एफ	हवलदार	बोकान शिवाजी गोपालराव	1-12-2004
1720	13884877एल	हवलदार	ब्रह्मजीत आर्य शाक्य	1-1-2005
1721	6375795के	हवलदार	ब्रम दत्त	1-12-2004
1722	13888275पी	हवलदार	बृज किशोर सिंह	1-1-2005
1723	13884028के	हवलदार	बृज पाल सिंह	1-11-2004
1724	6471498एन	हवलदार	बिरजान सिंह	1-12-2004
1725	13882988के	हवलदार	च. चित्तीबाबू स्वामी	1-9-2004
1726	6375722एक्स	हवलदार	चंदन एम	1-10-2004
1727	6375861एफ	हवलदार	सी राव साहेब नेमु	1-1-2005
1728	13884439एच	हवलदार	छोले एन गंगा राम	1-12-2004
1729	13884291पी	हवलदार	डी मुनिराथिनाम	1-12-2004
1730	13883212एच	हवलदार	दाता राम गूजर	1-10-2004
1731	13884204डब्ल्यू	हवलदार	देवी सिंह	1-12-2004
1732	13883920पी	हवलदार	धनेश कुमार	1-12-2004
1733	13888512एन	हवलदार	डी दारा	1-1-2005
1734	13883589एम	हवलदार	दिजेन्द्र सिंह	1-11-2004
1735	13873989एल	हवलदार	दिलीप कुमार ठाकुर	1-10-2004
1736	13884685एन	हवलदार	दिनेश कुमार	1-1-2005

1737	13884538एल	हवलदार	दुदेकुला पी	1-1-2005
1738	6471540एफ	हवलदार	दुरागा चरन बेहेरा	1-1-2005
1739	13888279एल	हवलदार	जी आर	1-1-2005
1740	13874497वाइ	हवलदार	गज सिंह	1-1-2005
1741	13879388डब्ल्यू	हवलदार	गावड देवेन्द्रा लक्ष्मन	1-9-2004
1742	13864268ए	हवलदार	घुड लाल	1-1-2005
1743	13864199पी	हवलदार	गोकुल सिंह	1-12-2004
1744	13883783एफ	हवलदार	गोपीनाथन पिल्लै एन	1-12-2004
1745	6376130ए	हवलदार	गोविंद राम	1-10-2004
1746	13863855वाइ	हवलदार	गोवीन चंद्रा सेकिआ	1-11-2004
1747	13883759एल	हवलदार	गुरु चरन	1-12-2004
1748	13883580एक्स	हवलदार	हकीम सिंह	1-11-2004
1749	13863914ए	हवलदार	हर नाथ	1-12-2004
1750	13874397एन	हवलदार	हरे कृष्णा दत्ता	1-1-2005
1751	13864515एच	हवलदार	हरी प्रसाद शुक्ला	1-1-2005
1752	13869460एन	हवलदार	हरी राम	1-10-2004
1753	13884427एन	हवलदार	हरिहर वेंकट राव जम्भळकर	1-12-2004
1754	13888263ए	हवलदार	हवा सिंह	1-1-2005
1755	13884323एम	हवलदार	हेमंत कुमार साहू	1-12-2004
1756	13883521एल	हवलदार	हेत राम	1-11-2004
1757	13884301एन	हवलदार	हिमांशु शेखर सिन्हा महापात्रा	1-12-2004
1758	13874177के	हवलदार	हृदया राम	1-12-2004
1759	6374094एफ	हवलदार	हृदया नन्द शर्मा	1-12-2004
1760	13864062एच	हवलदार	इंदरा सिंह	1-12-2004
1761	13888233एच	हवलदार	जगन नाथ पान्डे	1-1-2005
1762	13864022एफ	हवलदार	जगदीश प्रसाद	1-12-2004
1763	13863942एम	हवलदार	जगदीश सिंह	1-12-2004
1764	13879638एम	हवलदार	जय प्रकाश सिंह	1-10-2004
1765	13869478के	हवलदार	जलिन्द्र नाथ किसान कराले	1-10-2004
1766	13879850के	हवलदार	जरनैल सिंह	1-11-2004
1767	6374089डब्ल्यू	हवलदार	झगडू महतो	1-12-2004
1768	13874406के	हवलदार	जीत नारायण	1-1-2005
1769	13863817एच	हवलदार	जीवट राम यादव	1-11-2004
1770	13884368एम	हवलदार	जुगल किशोर भंडार घारिया	1-12-2004
1771	13888025एन	हवलदार	के दोराईस्वामी	1-12-2004
1772	13874269डब्ल्यू	हवलदार	के एस एस एस सिंह	1-1-2005
1773	13879684एफ	हवलदार	के थंगवेल	1-10-2004
1774	13884466एम	हवलदार	कैलाश नारायण डी	1-12-2004
1775	13864195वाइ	हवलदार	कैलाश पाल	1-12-2004
1776	13882893के	हवलदार	काले विष्णु हरिदास	1-9-2004
1777	13883481पी	हवलदार	कमलेश कुमार पान्डे	1-11-2004
1778	13883771एम	हवलदार	कथान सिंह	1-12-2004
1779	6374175एफ	हवलदार	कर्म सिंह	1-1-2005
1780	13884054एल	हवलदार	कार्तिक चंद्रा शील	1-11-2004

1781	13874200एम	हवलदार	केदार महतो	1-12-2004
1782	6468948पी	हवलदार	केदार राम	1-9-2004
1783	13884110वाइ	हवलदार	कोंदय्या	1-12-2004
1784	13882899एल	हवलदार	कोरे आनंदा दनयानु	1-9-2004
1785	13883631ए	हवलदार	कृष्ण पाल	1-11-2004
1786	13883069एफ	हवलदार	कृष्णा कुमार रावत	1-10-2004
1787	6375727डब्ल्यू	हवलदार	केशेत्रा पाल सिंह	1-10-2004
1788	13884385एम	हवलदार	कुलन्डे	1-12-2004
1789	13888119एल	हवलदार	कुलवंत सिंह	1-12-2004
1790	13884449एम	हवलदार	कुमान सिंह	1-12-2004
1791	13884459डब्ल्यू	हवलदार	कुर्बान अन्सारी	1-12-2004
1792	13888184एल	हवलदार	कुरु भिमाप्पा लक्ष्मप्पा	1-1-2005
1793	13879650एन	हवलदार	लाजा राम	1-10-2004
1794	13874230के	हवलदार	लाल सिंह	1-1-2005
1795	13864230एन	हवलदार	लक्ष्मन सिंह	1-1-2005
1796	13864519वाइ	हवलदार	मदन लाल	1-1-2005
1797	6471488के	हवलदार	महावीर सिंह	1-12-2004
1798	6373684एन	हवलदार	महबूब अली	1-9-2004
1799	13883019डब्ल्यू	हवलदार	महेन्द्र पाल सिंह	1-9-2004
1800	13884552एक्स	हवलदार	महेन्द्र सिंह	1-1-2005
1801	13874543एच	हवलदार	महेन्द्र नाथ	1-1-2005
1802	13864432एक्स	हवलदार	महेन्द्र शौ	1-1-2005
1803	6375760एन	हवलदार	महेश शर्मा	1-11-2004
1804	13888049एक्स	हवलदार	महीपाल सिंह	1-12-2004
1805	13884559एफ	हवलदार	एम केकेट्टा	1-1-2005
1806	13884752एन	हवलदार	मोहम्मद अल्शारा अली	1-1-2005
1807	13883539एफ	हवलदार	मोहम्मद बसीर उद्दीन बी	1-11-2004
1808	13884277एच	हवलदार	मोधु एम मोन्डल	1-12-2004
1809	13864212एन	हवलदार	मोहन च. दत्ता	1-12-2004
1810	13879734एफ	हवलदार	मोहन लाल वर्मा	1-11-2004
1811	6375833पी	हवलदार	मोहन नाथर टी जी	1-12-2004
1812	6373975एन	हवलदार	मोनोज कुमार दास	1-12-2004
1813	13879808एल	हवलदार	मुकेश कुमार	1-11-2004
1814	13884092एफ	हवलदार	मुनेश साफी	1-11-2004
1815	13879481एक्स	हवलदार	मुरलीधरन के	1-10-2004
1816	6471538के	हवलदार	मुरलीधरन पिल्लै के	1-1-2005
1817	13883330डब्ल्यू	हवलदार	नादिकाटु वेंकटेश रेडी	1-11-2004
1818	13869486एच	हवलदार	नगेंद्र प्रसाद सिंह	1-10-2004
1819	13864165एफ	हवलदार	नन्द राम	1-12-2004
1820	13883400के	हवलदार	नन्दन ठाकुर	1-11-2004
1821	13882909के	हवलदार	नरेन्द्र नाथ मोन्डल	1-9-2004
1822	13883743ए	हवलदार	नाथू लाल	1-12-2004
1823	6374024एच	हवलदार	नजीम उद्दीन	1-12-2004
1824	13879299एक्स	हवलदार	नीलकंठ मनी मंडल	1-9-2004

1825	13863872वाइ	हवलदार	ओम पाल सिंह	1-11-2004
1826	13874238डब्ल्यू	हवलदार	ओम प्रकाश	1-1-2005
1827	13888013वाइ	हवलदार	पी एम एम	1-12-2004
1828	13874300एक्स	हवलदार	पी एन पुरुषोत्तमन	1-1-2005
1829	13864155एक्स	हवलदार	पदम नाथ सिंह	1-12-2004
1830	13873849वाइ	हवलदार	पंचम	1-10-2004
1831	13874204एच	हवलदार	प्राण महाली	1-12-2004
1832	13874561एल	हवलदार	परमजीत शर्मा	1-1-2005
1833	13884875ए	हवलदार	पोसुपुरतुली सत्यनारायण	1-1-2005
1834	13883817के	हवलदार	भ्रमात चंद्रा खानिकोर	1-12-2004
1835	13888425ए	हवलदार	पी कुमार महापात्रा	1-1-2005
1836	13884734एल	हवलदार	प्रकाश अत्रा अतोले	1-1-2005
1837	13879859वाइ	हवलदार	प्रकाश चंद	1-11-2004
1838	13874138एल	हवलदार	प्रमोद कुमार दीक्षित	1-12-2004
1839	13884083ए	हवलदार	प्राण नाथ प्रधान	1-11-2004
1840	13884801एल	हवलदार	प्रेम किशोर	1-1-2005
1841	13884367के	हवलदार	प्रेमानन्द मोहंती	1-12-2004
1842	13879644ए	हवलदार	पूनम चंद	1-10-2004
1843	13884443एल	हवलदार	पूरन प्रसाद	1-12-2004
1844	13864423डब्ल्यू	हवलदार	आर मनी	1-1-2005
1845	13883014एक्स	हवलदार	रवीन्द्र नाथ विश्वास	31.08.2004
1846	13884763ए	हवलदार	राधा कृष्णा नायर	1-1-2005
1847	13879439वाइ	हवलदार	राज कुमार डी इ	1-10-2004
1848	13884842पी	हवलदार	राजेंद्र सिंह	1-1-2005
1849	13879826एम	हवलदार	राजिन्दर सिंह	1-11-2004
1850	13864499डब्ल्यू	हवलदार	राजवीर	1-1-2005
1851	13884259ए	हवलदार	राम आशरे	1-12-2004
1852	13888061वाइ	हवलदार	राम औतार	1-12-2004
1853	13864478ए	हवलदार	राम बदन	1-1-2005
1854	13869416के	हवलदार	राम बाली सिंह	1-10-2004
1855	13888463डब्ल्यू	हवलदार	राम भजन पाल	1-1-2005
1856	13884389एच	हवलदार	राम बिनोद चौधरी	1-12-2004
1857	13879377के	हवलदार	राम दास	1-9-2004
1858	13869135एन	हवलदार	राम देव तिवारी	1-12-2004
1859	13883183वाइ	हवलदार	राम ध्यान सिंह	1-10-2004
1860	13869404पी	हवलदार	राम इकबाल चौधरी	1-10-2004
1861	13877434एफ	हवलदार	राम नारायण	1-1-2005
1862	13883033एच	हवलदार	राम प्रकाश	1-9-2004
1863	13883944वाइ	हवलदार	राम प्रसाद दत्ता	1-12-2004
1864	13884189एम	हवलदार	राम प्रताप सिंह	1-12-2004
1865	13874139एन	हवलदार	राम सेवक	1-12-2004
1866	13864280एफ	हवलदार	राम सिंह	1-1-2005
1867	13879666वाइ	हवलदार	राम स्वरूप	1-10-2004
1868	13883094ए	हवलदार	रमाकांत मिश्रा	1-10-2004

1869	13864430एम	हवलदार	रामचंद्र प्रसाद	1-1-2005
1870	13874092एन	हवलदार	रामधीर सिंह	1-12-2004
1871	13884806के	हवलदार	रमेश कुमार	1-1-2005
1872	13884900एन	हवलदार	रामनिवास	1-1-2005
1873	13879704के	हवलदार	रामपाल सिंह	1-10-2004
1874	13884500एफ	हवलदार	आर लाल	1-12-2004
1875	13883872ए	हवलदार	रनवीर सिंह	1-12-2004
1876	13869558एफ	हवलदार	रतन लाल	1-11-2004
1877	13884845एच	हवलदार	रत्नाकरण टी के	1-1-2005
1878	13879822एक्स	हवलदार	रत्न लाल	1-11-2004
1879	13874495एन	हवलदार	रत्न सिंह	1-1-2005
1880	13884797एन	हवलदार	रवि शंकर	1-1-2005
1881	13888416वाइ	हवलदार	रवि वी	1-1-2005
1882	13883829वाइ	हवलदार	रविन्द्र सिंह	1-12-2004
1883	6373811एक्स	हवलदार	रोमेश सिंह सी	1-10-2004
1884	13884861ए	हवलदार	एस राजेन्द्रन	1-1-2005
1885	13864518डब्ल्यू	हवलदार	सामल कुमार दुबे	1-1-2005
1886	13884513वाइ	हवलदार	सरकार सिंह	1-1-2005
1887	13884496के	हवलदार	सरनाम सिंह	1-12-2004
1888	13883866एम	हवलदार	सरु मोहन राय	1-12-2004
1889	13879529ए	हवलदार	सतेन्द्रन पी	1-10-2004
1890	13879767एम	हवलदार	सतीश कुमार	1-11-2004
1891	13884567ए	हवलदार	सेवीर सिंह	1-1-2005
1892	6373826ए	हवलदार	शाम कुमार	1-11-2004
1893	13870825के	हवलदार	शम्भू नाथिवरि	1-11-2004
1894	13864294एफ	हवलदार	शर्मा संत शरण रमेश चंद्रा	1-1-2005
1895	13888348डब्ल्यू	हवलदार	एस रामदास महातु	1-1-2005
1896	13873967एम	हवलदार	शिशु पाल सिंह राजपूत	1-10-2004
1897	13874328एक्स	हवलदार	शिव मंगल कुमार सिंह	1-1-2005
1898	13879544पी	हवलदार	शिव नाथ सिंह	1-10-2004
1899	13882953एन	हवलदार	शिव शंकर बघेल	1-9-2004
1900	13879966ए	हवलदार	श्रवण कुमार	1-11-2004
1901	13864222एक्स	हवलदार	श्री राम सिंह	1-12-2004
1902	6375775डब्ल्यू	हवलदार	श्याम सुंदर साहा	1-11-2004
1903	6375689एल	हवलदार	सिम्पल प्रभु बाबू राव	1-9-2004
1904	13884556एन	हवलदार	सीता राम साहू	1-1-2005
1905	13883571डब्ल्यू	हवलदार	सिवनकुट्टी नाथर के	1-11-2004
1906	13884256एम	हवलदार	सुधाकरण एम	1-12-2004
1907	13884483एम	हवलदार	सुख लाल	1-12-2004
1908	13884183एल	हवलदार	सुकु राम	1-12-2004
1909	13864260एन	हवलदार	सुमन सिंह	1-12-2004
1910	13863884एन	हवलदार	सुमेर सिंह	1-11-2004

1911	13884212पी	हवलदार	एस के चको	1-12-2004
1912	13883268पी	हवलदार	सुनापाले मदालिते	1-10-2004
1913	13864437 डब्ल्यू	हवलदार	सपन राम	1-1-2005
1914	13884167एन	हवलदार	सुरेंद्र सिंह	1-12-2004
1915	6374027 डब्ल्यू	हवलदार	सुरेंद्र कुमार सिंह	1-12-2004
1916	13876384पी	हवलदार	सुरेन्द्रन पी	1-11-2004
1917	13888660वाइ	हवलदार	सुरेश कुमार	1-1-2005
1918	6374098एक्स	हवलदार	सुर्यावंश चौबे	1-12-2004
1919	13879476एम	हवलदार	टी स्वामीमुथू	1-10-2004
1920	6373984पी	हवलदार	तंकेश्वर बरुआ	1-12-2004
1921	13879425वाइ	हवलदार	तिलक सिंह	1-10-2004
1922	6375654पी	हवलदार	उमा शंकर	1-9-2004
1923	13870976एच	हवलदार	उमेश चंद्रा दैमारी	1-12-2004
1924	13883140के	हवलदार	उत्ती के	1-10-2004
1925	13879290एच	हवलदार	उत्तम नन्दन वारे	1-9-2004
1926	13879259 डब्ल्यू	हवलदार	वी चौकालिंगम	1-9-2004
1927	13883272एक्स	हवलदार	वी वी	1-10-2004
1928	6469492एन	हवलदार	वेद प्रकाश हरिजन	1-12-2004
1929	13879487वाइ	हवलदार	विजय कुमार प्रसाद	1-10-2004
1930	13883633एल	हवलदार	वीर सिंह	1-11-2004
1931	6375704पी	हवलदार	यशपाल सिंह नेगी	1-10-2004
सेना सेवा कोर जंतु परिवहन				
1932	6471471 डब्ल्यू	हवलदार	अब्दुल जब्बेर	1-11-2004
1933	6469674एफ	दफादार	आगर सिंह	1-1-2005
1934	6468807ए	दफादार	अजब सिंह	1-9-2004
1935	6469226पी	दफादार	अली हुसेन	1-12-2004
1936	6468954एच	दफादार	बाबन सिंह	1-9-2004
1937	13879998एच	हवलदार	बालन पीएम	1-11-2004
1938	6469484पी	हवलदार	बालेश पाल	1-12-2004
1939	6471431पी	हवलदार	बलवीर सिंह	1-9-2004
1940	13874304एन	दफादार	भीखा राम	1-1-2005
1941	6469731एक्स	दफादार	भीम सिंह	1-1-2005
1942	6468822पी	दफादार	बिद्या राम	1-9-2004
1943	6468731एल	दफादार	बिष्णु देव प्रसाद थादव	1-9-2004
1944	13874093 डब्ल्यू	दफादार	बिटेश्वर ठाकुर	1-12-2004
1945	13870867 डब्ल्यू	दफादार	बी सामल	1-12-2004
1946	6469641 डब्ल्यू	दफादार	बुद्धेन सेकिआ	1-1-2005
1947	6468860एल	दफादार	चंद्र शेखर सिंह	1-9-2004
1948	6471545ए	हवलदार	दशरथ प्रसाद	1-1-2005
1949	6469147ए	दफादार	देवेंदर रेडी	1-11-2004
1950	6469443एल	दफादार	धुरनधर साह	1-12-2004
1951	13879608पी	हवलदार	दीपा एंथोनी	1-10-2004

1952	13874210डब्ल्यू	दफादार	फ्रांसिस एम कुजुर	1-12-2004
1953	13888124डब्ल्यू	हवलदार	गोविंद सिंह	1-12-2004
1954	13884512डब्ल्यू	हवलदार	जगत बहादुर हरी प्रसाद चत्री	1-1-2005
1955	13884176पी	हवलदार	जय राम यादव	1-12-2004
1956	6469355पी	दफादार	जयप्रकाश यादव	1-12-2004
1957	6469543डब्ल्यू	दफादार	जिले सिंह	1-1-2005
1958	13884746ए	हवलदार	जीवन लाल	1-1-2005
1959	13874105ए	हवलदार	कमल किशोर सिंह	1-12-2004
1960	6469258एक्स	दफादार	कनक चंद्रा नाथ	1-12-2004
1961	6468801वाइ	दफादार	केशव चंद्रा बर्मन	1-9-2004
1962	6469526डब्ल्यू	हवलदार	खेम राज	1-1-2005
1963	13873975एल	दफादार	खिरा कांता बोरा	1-10-2004
1964	6374007एच	दफादार	कृष्णा कुलिता	1-12-2004
1965	6469075एफ	दफादार	कुलदीप सिंह	1-10-2004
1966	6468771एम	दफादार	कुंवर सिंह	1-9-2004
1967	6469420के	दफादार	लक्ष्मी चंद	1-12-2004
1968	6469071एल	दफादार	लेख राज	1-10-2004
1969	6469427एन	दफादार	मदन सिंह	1-12-2004
1970	13870836डब्ल्यू	दफादार	मंगल सिंह	1-11-2004
1971	13884575वाइ	हवलदार	मिथिलेश कुमार सिंह	1-1-2005
1972	6468895एफ	दफादार	मोहन सिंह	1-9-2004
1973	6469637एन	दफादार	मुनि लाल	1-1-2005
1974	13884728एक्स	हवलदार	नेना सिंह	1-1-2005
1975	6468963के	दफादार	पंकजाकशन च्हा	1-10-2004
1976	6471433ए	हवलदार	राजन वी के विलारी कान्दाथिल	1-9-2004
1977	6469194एक्स	दफादार	राजेश प्रसाद	1-11-2004
1978	6469702एच	दफादार	राम अयोध्या सिंह	1-1-2005
1979	6469143के	दफादार	राम लखन पटेल	1-11-2004
1980	13879337एच	हवलदार	राम लाल सिंह जाट	1-9-2004
1981	6469001एम	दफादार	रवीन्द्रन के	1-10-2004
1982	6469479के	दफादार	रविकान्त सिंह	1-12-2004
1983	6469036एच	दफादार	नियेजुल इस्लाम	1-10-2004
1984	6471432एक्स	हवलदार	शाम लाल	1-9-2004
1985	6468849एम	दफादार	शंकर लाल मीना	1-9-2004
1986	6469496के	दफादार	शंकर सैनी	1-12-2004
1987	13874154एच	दफादार	शिवा शंकर प्रसाद	1-12-2004
1988	6471467एन	हवलदार	श्री कृष्णा सिंह यादव	1-11-2004
1989	6468832वाइ	हवलदार	सिमाचल मिश्रा	1-9-2004
1990	14337010डब्ल्यू	हवलदार	एस दत्ता	1-1-2005
1991	6468725एक्स	दफादार	श्री उरजीत राम	1-9-2004
1992	13874136ए	दफादार	सुरेश चंद	1-12-2004
1993	6469434के	दफादार	सुरेश कुमार सिंह	1-12-2004
1994	6468816एफ	दफादार	सुरेश सिंह लोधी	1-9-2004
1995	6373816डब्ल्यू	दफादार	तारलौक सिंह	1-10-2004

1996	13879281एफ	हवलदार	तरसेम कुमार	1-9-2004
1997	13874199एच	दफादार	उदय नारायण सिंह	1-12-2004
1998	6469481एफ	दफादार	उदय प्रसाद	1-12-2004
1999	6469430एन	दफादार	उमेश रजाक	1-12-2004
2000	6374104ए	दफादार	विजय कुमार सिंह	1-12-2004
2001	6469490एच	दफादार	विजय शंकर सिंह	1-12-2004
2002	6489027एफ	दफादार	विजया कुमार के	1-10-2004
सेना चिकित्सा कोर				
2003	13951920डब्ल्यू	हवलदार	अब्राहम	1-1-2005
2004	13950937एक्स	हवलदार	आदित्य नारायण शर्मा	1-10-2004
2005	13951588ए	हवलदार	अमर बहादुर सिंह	1-12-2004
2006	13951656एन	हवलदार	आनंद राय	1-12-2004
2007	13951179एक्स	हवलदार	अनिल शंकर दीक्षित	1-11-2004
2008	13951210वाइ	हवलदार	अंजनी कुमार हरिजन	1-11-2004
2009	13946825ए	हवलदार	अरुण हज	1-12-2004
2010	13947050एम	हवलदार	अरुण केआर खोनिकर	1-1-2005
2011	13947045एफ	हवलदार	अरुण कुमार राय	1-1-2005
2012	13946607एफ	हवलदार	अशोक कुमार	1-11-2004
2013	13950669वाइ	हवलदार	अशोक कुमार राय	1-9-2004
2014	13947106एन	हवलदार	बब्बन राम	1-1-2005
2015	2470908एन	हवलदार	बलदेव सिंह चौधरी	1-1-2005
2016	13951372के	हवलदार	बी कुमार गुप्ता	1-11-2004
2017	13946806पी	हवलदार	बाली राम दुबे	1-12-2004
2018	13950687एफ	हवलदार	बलवान सिंह	1-9-2004
2019	13946500एम	हवलदार	बशिष्ठ नारायण	1-10-2004
2020	13951842के	हवलदार	भगवान पण्डित	1-1-2005
2021	13950881डब्ल्यू	हवलदार	भीम राम	1-10-2004
2022	13950556डब्ल्यू	हवलदार	भूपाल सिंह	1-9-2004
2023	13951223डब्ल्यू	हवलदार	बु चंद्रा निओग	1-11-2004
2024	13951111डब्ल्यू	हवलदार	सी चन्द्रन	1-10-2004
2025	13950684ए	हवलदार	चक्रवर्ती	1-9-2004
2026	13947230पी	हवलदार	चंचल सिंह	1-1-2005
2027	13947581के	हवलदार	चंद्र भान	1-9-2004
2028	13947193एम	हवलदार	चंद्रा बल्लदुर	1-1-2005
2029	13947126एफ	हवलदार	चंद्रावती यादव	1-1-2005
2030	13951182एफ	हवलदार	दाता सिंह	1-11-2004
2031	13947069एल	हवलदार	दविन्द्र कुमार	1-1-2005
2032	13947146पी	हवलदार	देबा राज साहनी	1-1-2005
2033	13951676एफ	हवलदार	देबेन्द्र नाथ एम	1-12-2004
2034	13947192के	हवलदार	देवेन्द्रा कुमार	1-1-2005
2035	13951285डब्ल्यू	हवलदार	देविन्द्र सिंह	1-11-2004
2036	13951023ए	हवलदार	देवर्का नाथ शर्मा	1-10-2004

2037	13950688के	हवलदार	धन राज	
2038	13947189के	हवलदार	धर्म सिंह	1-9-2004
2039	13947047एम	हवलदार	धीर सिंह यादव	1-1-2005
2040	13951810एफ	हवलदार	दीना बंधु मंडल	1-1-2005
2041	13947122एल	हवलदार	दीना नाथ राय	1-1-2005
2042	13946471एच	हवलदार	दुस्सासन गोछायत	1-1-2005
2043	13951527एन	हवलदार	गाला कृष्णा मूर्ति	1-10-2004
2044	13951613वाइ	हवलदार	गंगा सागर राम	1-12-2004
2045	13946978के	हवलदार	घान श्याम	1-12-2004
2046	13951373एम	हवलदार	जान सिंह	1-12-2004
2047	13951222एन	हवलदार	गोलापति अप्पला नायडू	1-11-2004
2048	13947125वाइ	हवलदार	गोपाल सिंह	1-11-2004
2049	13947139वाइ	हवलदार	गोविंदन कुट्टी	1-1-2005
2050	13946434पी	हवलदार	हंस राज वर्मा	1-1-2005
2051	13947225के	हवलदार	हरी शंकर दास	1-9-2004
2052	13947184एल	हवलदार	हरी शंकर सिंह	1-1-2005
2053	13951238वाइ	हवलदार	हीरा लाल	1-1-2005
2054	13946638एफ	हवलदार	हुकम चंद	1-11-2004
2055	13946657एम	हवलदार	इश्वर सिंह	1-11-2004
2056	13947271वाइ	हवलदार	जे जॉन बेथ	1-11-2004
2057	13946964के	हवलदार	जगदीश प्रसाद गौतम	1-1-2005
2058	13946382के	हवलदार	जगपाल सिंह	1-12-2004
2059	13951134एक्स	हवलदार	जया चन्दन के	1-9-2004
2060	13946742पी	हवलदार	जया कुमार के एम	1-10-2004
2061	13946930डब्ल्यू	हवलदार	कैलाश सिंह	1-10-2004
2062	13946407एल	हवलदार	कला कुमार के	1-12-2004
2063	13946971ए	हवलदार	कलन्दी चरन साहू	1-9-2004
2064	13947149एच	हवलदार	कामेश पण्डित	1-12-2004
2065	13950554एल	हवलदार	कमला पति भट्ट	1-1-2005
2066	13947117ए	हवलदार	कन्वर भान	1-9-2004
2067	13950603एच	हवलदार	कर्म सिंह	1-1-2005
2068	13951875पी	हवलदार	करमालकर आनंदा सदासिव	1-9-2004
2069	13946820एफ	हवलदार	करिश चंद	1-1-2005
2070	13950639एफ	हवलदार	करीम मोहम्मद	1-12-2004
2071	13946917एम	हवलदार	कश्मीर सिंह	1-9-2004
2072	13951707डब्ल्यू	हवलदार	केमपत्रा हितानागी	1-12-2004
2073	13951166ए	हवलदार	केशर सिंह राठौड	1-1-2005
2074	13946950के	हवलदार	केशर सिंह रावत	1-10-2004
2075	13950793ए	हवलदार	कृष्ण चंद्र धंकार	1-12-2004
2076	13951251एच	हवलदार	कृष्ण मुरारी	1-10-2004
2077	13949566एन	हवलदार	कुंदन सिंह	1-11-2004
2078	13951049पी	हवलदार	लखो औरौन	1-9-2004
2079	13951306एफ	हवलदार	लाल बाबू प्रसाद सिंह	1-10-2004
				1-11-2004

2080	13951163एम	हवलदार	लक्ष्मन सिंह राठौर	1-10-2004
2081	13951428एल	हवलदार	लीला धर	1-12-2004
2082	13951323एफ	हवलदार	एम अंटनी राज	1-11-2004
2083	13951819डब्ल्यू	हवलदार	एम चैन्नावेकटवल्लु	1-1-2005
2084	13947251एल	हवलदार	मदन लाल	1-1-2005
2085	13946357एल	हवलदार	मधु सुधानन उन्निथन एम बी	1-9-2004
2086	13950786के	हवलदार	महावीर सिंह	1-9-2004
2087	13946466एक्स	हवलदार	महेंद्र नाथ पान्डे	1-9-2004
2086	13951813पी	हवलदार	महेंद्र प्रसाद	1-1-2005
2089	13947182ए	हवलदार	महेंद्र प्रसाद	1-1-2005
2090	13950746एच	हवलदार	महेंद्र सिंह	1-9-2004
2091	13950843ए	हवलदार	महेश कुमार थापा	1-10-2004
2092	13950099एन	हवलदार	मानिक चंद्रा दास	1-12-2004
2093	13950876पी	हवलदार	मासी दास संगी	1-9-2004
2094	13951523एक्स	हवलदार	मथाई पी जे	1-12-2004
2095	13946592के	हवलदार	मोहन एस	1-10-2004
2096	13948935एन	हवलदार	मुन्ना लाल	1-10-2004
2097	13947195एक्स	हवलदार	मुरली धर	1-1-2005
2096	13947077के	हवलदार	नंदा गोपाल सिंघा	1-1-2005
2099	13950727एक्स	हवलदार	नरेन्द्र कुमार	1-9-2004
2100	13946945वाइ	हवलदार	नरेश प्रसाद यादव	1-12-2004
2101	13946643एम	हवलदार	नरायण दत्त	1-11-2004
2102	13951158एफ	हवलदार	निकात अजीनाथ शरजे राव	1-10-2004
2103	13950637डब्ल्यू	हवलदार	नीला मोहन सिंघा	1-9-2004
2104	13946752वाइ	हवलदार	निरोद चंद्रा गिरि	1-11-2004
2105	13950634एच	हवलदार	निरवाने टगोर भाऊ	1-9-2004
2106	13951089डब्ल्यू	हवलदार	ओम प्रकाश	1-10-2004
2107	13950623डब्ल्यू	हवलदार	ओम प्रकाश मीना	1-9-2004
2106	13950880एन	हवलदार	ओम प्रकाश पैनुलि	1-10-2004
2109	13947229ए	हवलदार	ओमकार सिंह यादव	1-1-2005
2110	13951324के	हवलदार	पी बालैया	1-11-2004
2111	13946489वाइ	हवलदार	पी पत्नीर सेलवम	1-10-2004
2112	13946884एम	हवलदार	पलुस मसीह	1-12-2004
2113	13950680एक्स	हवलदार	फूल चंद मुंडा	1-9-2004
2114	13950660के	हवलदार	प्रभा शंकर प्रसाद	1-9-2004
2115	13946498ए	हवलदार	प्रेम लाल	1-10-2004
2116	13951022एक्स	हवलदार	कुदरुतुल्लाह	1-10-2004
2117	13950717एन	हवलदार	आर पंचनाथन	1-9-2004
2118	13951377एच	हवलदार	आर पिचन्दी	1-11-2004
2119	13950811एक्स	हवलदार	रबींद्र सिंह	1-10-2004
2120	13951799एन	हवलदार	राधा कृष्णन नायर एम	1-1-2005
2121	13946761ए	हवलदार	राधेश्याम करमाकेर	1-11-2004
2122	13951835एन	हवलदार	राज पाल	1-1-2005
2123	13947068एच	हवलदार	राज सिंह	1-1-2005

2124	13946402एम	हवलदार	राजा लाल सिंह	1-9-2004
2125	13950560वाइ	हवलदार	राजबीर सिंह	1-9-2004
2126	13946929एफ	हवलदार	राजेंद्र कुमार	1-12-2004
2127	13951520के	हवलदार	राजेन्द्रन नायर पी	1-12-2004
2128	13950759ए	हवलदार	राजेन्द्रन पी के	1-9-2004
2129	13946370पी	हवलदार	राजेश सिंह	1-9-2004
2130	13950967पी	हवलदार	राकेश कुमार	1-10-2004
2131	13946842ए	हवलदार	राम अवध मिश्रा	1-12-2004
2132	13947085एच	हवलदार	राम बचन	1-1-2005
2133	13950777एच	हवलदार	राम चंद्रा सेकिआ	1-9-2004
2134	13947071एच	हवलदार	राम कुंवर	1-1-2005
2135	13948498वाइ	हवलदार	राम फल सिंह लकरा	1-12-2004
2136	13947301एल	हवलदार	राम फल सिंह सोलंकी	1-1-2005
2137	13950820वाइ	हवलदार	राम फल यादव	1-10-2004
2138	13947061वाइ	हवलदार	राम प्रवेश सिंह	1-1-2005
2139	13946398पी	हवलदार	राम सेवक	1-9-2004
2140	13946927डब्ल्यू	हवलदार	रामप्पा पी दोदनावर	1-12-2004
2141	13947051पी	हवलदार	रामाधान प्रजापत	1-1-2005
2142	13950778एल	हवलदार	रामेन निओग	1-9-2004
2143	13947186डब्ल्यू	हवलदार	रमेश चंद्र शर्मा	1-1-2005
2144	13946580पी	हवलदार	रमेश कुमार	1-10-2004
2145	13946463के	हवलदार	रमेश सिंह	1-9-2004
2146	13947250एच	हवलदार	रामवतार	1-1-2005
2147	13951286वाइ	हवलदार	रंजीत सिंह	1-11-2004
2148	13950629एक्स	हवलदार	रावसाहेब भगवान पाटिल	1-9-2004
2149	13946958डब्ल्यू	हवलदार	रवीन्द्र प्रसाद सिंह	1-12-2004
2150	13950933एफ	हवलदार	रवीन्द्र सिंह	1-10-2004
2151	13951578एफ	हवलदार	रोहताश सिंह	1-12-2004
2152	13951772डब्ल्यू	हवलदार	एस प्रसाद चतुर्वेदी	1-1-2005
2153	13946711पी	हवलदार	सदा नंदा दास	1-11-2004
2154	13947041एल	हवलदार	संत कुमार	1-1-2005
2155	13951061डब्ल्यू	हवलदार	संत राम	1-10-2004
2156	13951195पी	हवलदार	संतोख सिंह	1-11-2004
2157	13951014वाइ	हवलदार	सर्जन च. दास	1-10-2004
2158	13951641एल	हवलदार	सतबीर सिंह	1-12-2004
2159	13946363वाइ	हवलदार	सत्य नारायण सिंह	1-9-2004
2160	13947037एच	हवलदार	सत्य राम	1-1-2005
2161	13951153एच	हवलदार	शैलेंद्र कुमार	1-10-2004
2162	13951331ए	हवलदार	श्रवण कुमार	1-11-2004
2163	13947155डब्ल्यू	हवलदार	शशि धर सिंह	1-1-2005
2164	13946732एल	हवलदार	शत्रुघन पान्डे	1-11-2004
2165	13947056एन	हवलदार	शिव कुमार रौय	1-1-2005
2166	13950855पी	हवलदार	शिव मोहन लाल	1-10-2004
2167	13950964एफ	हवलदार	शेर सिंह	1-10-2004

2168	13950789एक्स	हवलदार	शीश पाल शर्मा	1-10-2004
2169	13946802वाइ	हवलदार	श्री नारायण	1-12-2004
2170	13947157एफ	हवलदार	श्याम बिहारी दुबे	1-1-2005
2171	13946610एफ	हवलदार	सिकंदर लाल	1-11-2004
2172	13946709एक्स	हवलदार	सिया राम	1-11-2004
2173	13947132पी	हवलदार	सोहन लाल	1-1-2005
2174	13946668वाइ	हवलदार	सोमा एस ए आर	1-11-2004
2175	13947223वाइ	हवलदार	सोनवीर	1-1-2005
2176	13946747एन	हवलदार	श्री धरन पी जी	1-11-2004
2177	13946653डब्ल्यू	हवलदार	सुमाष चंद्रा	1-11-2004
2178	13951092डब्ल्यू	हवलदार	सुदामा प्रसाद	1-10-2004
2179	13946445एफ	हवलदार	सुदामा सिंह	1-9-2004
2180	13950551एक्स	हवलदार	सुख राम सिंह	1-9-2004
2181	13946997पी	हवलदार	सूर्या बाली प्रसाद	1-12-2004
2182	13946976वाइ	हवलदार	सूर्यकांत एस	1-12-2004
2183	13950870के	हवलदार	टी श्रीधर	1-10-2004
2184	13951118ए	हवलदार	टी इक्का	1-10-2004
2185	13951017एम	हवलदार	ताज मोहम्मद अन्सारी	1-9-2004
2186	13950714ए	हवलदार	तानिक ठाकुर	1-9-2004
2187	13946908एल	हवलदार	तरसेम सिंह	1-12-2004
2188	13950729एच	हवलदार	थीमा रयान	1-9-2004
2189	13951317एन	हवलदार	उमाकांत सिंह	1-11-2004
2190	13951663के	हवलदार	वरघेसे के ए	1-12-2004
2191	13951387एम	हवलदार	वीरा परीमल इ	1-11-2004
2192	13950552ए	हवलदार	विद्या राम	1-9-2004
2193	13951594वाइ	हवलदार	विजय पाल	1-12-2004
2194	13946011ए	हवलदार	वीरेंद्र सिंह	1-10-2004
2195	13946563पी	हवलदार	विश्वनाथ कृष्णा गायकवाड	1-10-2004
2196	13951843एम	हवलदार	वकील सिंह	1-1-2005
2197	13946956एल	हवलदार	योगेन्द्र सिंह	1-12-2004
2198	13946414एफ	हवलदार	योगेन्द्र प्रसाद सिंह	1-9-2004
सेना आर्डनेंस कोर				
2199	6916766पी	हवलदार	ए रामेसन	1-12-2004
2200	6913333एम	हवलदार	अजीत राज मजोत्रा	1-10-2004
2201	6913814एच	हवलदार	अखिलेश चंद्रा मिश्रा	1-12-2004
2202	6913811पी	हवलदार	ए लफरा	1-12-2004
2203	6918622एम	हवलदार	अमर कुमार समादर	1-11-2004
2204	6913060पी	हवलदार	अम्बिका शरण सिंह	1-9-2004
2205	6913275एन	हवलदार	अंग्रेज सिंह	1-10-2004
2206	6916783पी	हवलदार	असाराम टी भानयुज	1-12-2004
2207	6913343डब्ल्यू	हवलदार	बी एस आर दादाबा	1-11-2004
2208	6916985डब्ल्यू	हवलदार	बाबला घोस	1-1-2005
2209	6916436डब्ल्यू	हवलदार	बद्री नारायण बासु	1-10-2004

2210	6913834एम	हवलदार	बादशाह सिंह	1-1-2005
2211	6916698एम	हवलदार	बायापुरी बाला सुब्बैया	1-12-2004
2212	6913569एफ	हवलदार	भगवान शर्मा	1-12-2004
2213	6916509एक्स	हवलदार	भगवान सिंह	1-10-2004
2214	6916700वाइ	हवलदार	भरत सिंह	1-12-2004
2215	6913609एक्स	हवलदार	भोरे सिंह	1-12-2004
2216	6913338एल	हवलदार	भूप सिंह	1-11-2004
2217	6913872एच	हवलदार	बिधान चंद्रा दास	1-1-2005
2218	6913755एक्स	हवलदार	बिरेन्द्र सिंह	1-12-2004
2219	6913107पी	हवलदार	चंद्रा मनी प्रसाद	1-9-2004
2220	6913765एफ	हवलदार	छोटे लाल पाठक	1-1-2005
2221	6916665एफ	हवलदार	देवेंद्र कुमार सिंह	1-11-2004
2222	6916910वाइ	हवलदार	देवी सिंह रावत	1-1-2005
2223	6913629एल	हवलदार	धरामेश्वर बोराह	1-12-2004
2224	6913410डब्ल्यू	हवलदार	दीना नाथ सिंह	1-11-2004
2225	6913085एफ	हवलदार	दीवान सिंह	1-9-2004
2226	6916542पी	हवलदार	दुलाल चंद्रा घोष	1-10-2004
2227	6916900पी	हवलदार	जी चन्द्रन	1-1-2005
2228	6913925डब्ल्यू	हवलदार	हनुमान सिंह	1-12-2004
2229	6913083डब्ल्यू	हवलदार	हनुमान सिंह नेगी	1-9-2004
2230	6916507एम	हवलदार	हीरा लाल	1-10-2004
2231	6913545एक्स	हवलदार	जगत सिंह नेगी	1-12-2004
2232	6913244एन	हवलदार	जे सिंह	1-10-2004
2233	6913949ए	हवलदार	जगदीश प्रसाद	1-1-2005
2234	6916928पी	हवलदार	जगमाल शर्मा	1-1-2005
2235	6913409एफ	हवलदार	जलेश्वर डी प्रसाद	1-11-2004
2236	6916831के	हवलदार	जवाहर लाल सिंह	1-12-2004
2237	6916764के	हवलदार	जितेंद्र कुमार सिंह	1-12-2004
2238	6916441एफ	हवलदार	के जथारमण	1-10-2004
2239	6916822एच	हवलदार	कल्यान सिंह	1-12-2004
2240	6913399एच	हवलदार	कौशल किशोर	1-11-2004
2241	6913189एच	हवलदार	कृष्णकान्त तिवारी	1-10-2004
2242	6913361वाइ	हवलदार	कुलदीप सिंह	1-11-2004
2243	6913114एल	हवलदार	मदन सिंह	1-9-2004
2244	6916829एम	हवलदार	माधो सिंह कुशवाह	1-12-2004
2245	6916345एम	हवलदार	महानंद सिंह	1-9-2004
2246	6916726एन	हवलदार	महाराज सिंह	1-12-2004
2247	6913094एच	हवलदार	महेश सिंह	1-9-2004
2248	6913173एक्स	हवलदार	मोहम्मद कादिरआली एस	1-10-2004
2249	6913172पी	हवलदार	मोहम्मद नूरुल इस्लाम	1-10-2004
2250	6913764वाइ	हवलदार	मोहम्मद हिसामुद्दीन	1-1-2005
2251	6913321एक्स	हवलदार	मोहन लाल	1-10-2004
2252	6913646एल	हवलदार	मोहन पिल्लै एस	1-12-2004
2253	6913316एम	हवलदार	नारायण सिंह	1-10-2004

2254	6916492पी	हवलदार	पी एस सत्री	1-10-2004
2255	6913581एच	हवलदार	पारस नाथ सिंह	1-12-2004
2256	6913403ए	हवलदार	फूल बदन	1-11-2004
2257	6916593एच	हवलदार	प्रहलाद राय नई	1-11-2004
2258	6913105के	हवलदार	पुरुषोत्तम दास	1-9-2004
2259	6916867एच	हवलदार	पुष्पा राय पुष्पटी	1-12-2004
2260	6913923एल	हवलदार	राकेश सिंह	1-12-2004
2281	6913245डब्ल्यू	हवलदार	रक्षपाल सिंह पठानिया	1-10-2004
2282	6913116डब्ल्यू	हवलदार	राम बाबू सिंह	1-9-2004
2263	6916840एल	हवलदार	राम बचन राम	1-12-2004
2264	6916826वाइ	हवलदार	राम बदन सिंह	1-12-2004
2265	6913980एम	हवलदार	राम किशन शर्मा	1-1-2005
2266	6916459एक्स	हवलदार	राम नगीना रजाक	1-10-2004
2287	6916842डब्ल्यू	हवलदार	राम निवास सिंह	1-12-2004
2288	6913414एम	हवलदार	राम प्रवेश चौबे	1-11-2004
2289	6913527पी	हवलदार	रमाकांत चौबे	1-12-2004
2270	6913870एक्स	हवलदार	रामाश्रय सिंह यादव	1-1-2005
2271	6913582एल	हवलदार	रामवतार सिंह	1-12-2004
2272	6913926वाइ	हवलदार	रमेश चंद	1-12-2004
2273	6913091पी	हवलदार	रमेश चंद	1-9-2004
2274	6913429पी	हवलदार	रामेश्वर राम	1-11-2004
2275	6913698एफ	हवलदार	रेमानन डी	1-1-2005
2276	6913088पी	हवलदार	सत्य गोपाल	1-9-2004
2277	6913588एम	हवलदार	सत्य पाल शर्मा	1-12-2004
2278	6913849पी	हवलदार	शिव भजन सिंह	1-1-2005
2279	6913217के	हवलदार	श्री प्रकेश सिंह	1-10-2004
2280	6916934एच	हवलदार	सिधीक कुट्टी एमई	1-1-2005
2281	6913325एन	हवलदार	सुमेर सिंह गौड	1-10-2004
2282	6913574एम	हवलदार	सुरेंद्र मिश्रा	1-12-2004
2283	6913585वाइ	हवलदार	सैकाम माला एम	1-12-2004
2284	6916377पी	हवलदार	तनारधन गनपत पथंकर	1-9-2004
2285	6913641एम	हवलदार	त्रिलोक सिंह	1-12-2004
2286	6916601डब्ल्यू	हवलदार	दुल बहादुर खादका	1-11-2004
2287	6913505डब्ल्यू	हवलदार	उमाशंकर तिवारी	1-12-2004
2288	6913281एफ	हवलदार	विजय पाल सिंह	1-10-2004
2289	6916684वाइ	हवलदार	वी सिंह शैनगार	1-11-2004
2290	6913827डब्ल्यू	हवलदार	यशोधरन पिल्लै के	1-1-2005
	कोर आफ वैद्युत एवं यांत्रिक इंजीनियर्स			
2291	14539507डब्ल्यू	हवलदार	अछर सिंह बरवाल	1-11-2004
2292	14530964एच	हवलदार	अमर पाल सिंह	1-10-2004
2293	14531812एन	हवलदार	अमर सिंह	1-1-2005
2294	14539298के	हवलदार	अमर सिंह	1-10-2004
2295	14539072वाइ	हवलदार	ए चौधरी	1-10-2004

2296	14530618एम	हवलदार	अनिल कुमार	1-9-2004
2297	14540587एल	हवलदार	अनिल कुमार गुप्ता	1-1-2005
2298	14540155डब्ल्यू	हवलदार	अनिल कुमार लाल	1-12-2004
2299	14539101एच	हवलदार	अनिरुध रथ	1-10-2004
2300	14539271एम	हवलदार	अनुस अशोक लक्ष्मन	1-11-2004
2301	14540627एफ	हवलदार	अनवर सिंह	1-1-2005
2302	14540121एच	हवलदार	अरविंदन कन्माना	1-12-2004
2303	14531877एफ	हवलदार	अर्जुन चरन राउत	1-1-2005
2304	14540380एल	हवलदार	अर्जुन प्रसाद मेहता	1-12-2004
2305	14540740डब्ल्यू	हवलदार	अशोक कुमार	1-1-2005
2306	14539339एच	हवलदार	अशोक कुमार	1-10-2004
2307	14538725एच	हवलदार	अशोक कुमार बिस्वाल	1-9-2004
2308	14538604एफ	हवलदार	अशोक मारुति साल्वे	1-9-2004
2309	14540743के	हवलदार	अत्तर सिंह	1-1-2005
2310	14538990वाइ	हवलदार	अवतार सिंह	1-10-2004
2311	14540437पी	हवलदार	अवधेश कुमार शर्मा	1-12-2004
2312	14531494पी	हवलदार	बाबन प्रसाद	1-1-2005
2313	14540523ए	हवलदार	बाबू टी	1-1-2005
2314	14531417ए	हवलदार	बच्चन राम	1-1-2005
2315	14540543एन	हवलदार	बाल मुकुंद	1-1-2005
2316	14538719पी	हवलदार	बाला कृष्णा पिल्लै के के	1-9-2004
2317	14539171एफ	हवलदार	बालन इंदुविकाल	1-10-2004
2318	14539216डब्ल्यू	हवलदार	बी पहान	1-10-2004
2319	14531378एम	हवलदार	बाली राम सिंह	1-12-2004
2320	14539223एम	हवलदार	बलजिन्दर सिंह	1-10-2004
2321	2470890एच	हवलदार	बालकर चंद	1-12-2004
2322	14539952पी	हवलदार	बरमेश्वर सिंह	1-12-2004
2323	14540234एल	हवलदार	बसंता कुमार रौय	1-1-2005
2324	14539773पी	हवलदार	बीर विजय सिंह	1-12-2004
2325	14530639एच	हवलदार	बैलाम सिंह	1-9-2004
2326	14538256एल	हवलदार	बेन्द्रेय लाल	1-10-2004
2327	14538723एक्स	हवलदार	भाग सिंह	1-9-2004
2328	14538804एक्स	हवलदार	भगवान दास	1-10-2004
2329	14531201वाइ	हवलदार	भगवान सिंह	1-11-2004
2330	14531300एफ	हवलदार	भगवत प्रसाद यादव	1-12-2004
2331	14530659डब्ल्यू	हवलदार	भरत लाल	1-9-2004
2332	14531252एम	हवलदार	भरत सिंह	1-12-2004
2333	14538646एन	हवलदार	भीम सिंह	1-9-2004
2334	14538849एक्स	हवलदार	भूप सिंह	1-10-2004
2335	14539197डब्ल्यू	हवलदार	बिनोद शंकर प्रसाद	1-10-2004
2336	14530671एक्स	हवलदार	बिरेन्द्र सिंह गुसाइ	1-9-2004
2337	14539842ए	हवलदार	ब्रमानंद	1-12-2004
2338	14540442ए	हवलदार	बी प्रसाद शर्मा	1-12-2004
2339	14540382डब्ल्यू	हवलदार	बरम देव दाहा	1-12-2004

2340	14539808ए	हवलदार	बृज बिहारी	1-12-2004
2341	14538331के	हवलदार	सी विश्वनाथन	1-9-2004
2342	14540693के	हवलदार	चंद्र सिंह	1-1-2005
2343	14540280के	हवलदार	चंद्रा भाल मनी तिवारी	1-1-2005
2344	14530635एम	हवलदार	चंद्रा दत्त गौड	1-9-2004
2345	14539310ए	हवलदार	चंद्रा रेखरन के	1-10-2004
2346	14531127एच	हवलदार	चंद्रमा सिंह	1-12-2004
2347	14539598एल	हवलदार	छत्तर सिंह	1-11-2004
2348	14538842एन	हवलदार	छोदू राम	1-10-2004
2349	14531562एक्स	हवलदार	दयाशंकर सिंह	1-1-2005
2350	14538962एम	हवलदार	देव मनी	1-10-2004
2351	14531031ए	हवलदार	देव राज सिंह	1-11-2004
2352	14538749एम	हवलदार	देश राज यादव	1-9-2004
2353	14539620एल	हवलदार	देवादसन एम	1-11-2004
2354	14540526एन	हवलदार	देवैया एन जी	1-1-2005
2355	14539239एक्स	हवलदार	देवेन्द्रा कुमार चौबे	1-11-2004
2356	14539727ए	हवलदार	देवी दत्त	1-11-2004
2357	14540895पी	हवलदार	देवी सिंह	1-1-2005
2358	14539279वाइ	हवलदार	धर्म पाल	1-11-2004
2359	14539903एम	हवलदार	धर्म सिंह	1-12-2004
2360	14539823पी	हवलदार	धर्मबीर	1-12-2004
2361	14531503एल	हवलदार	धर्मपाल	1-1-2005
2362	14540685एल	हवलदार	धर्मा राम दास	1-1-2005
2363	14531068एफ	हवलदार	ध्यान सिंह	1-11-2004
2364	14530871एन	हवलदार	धीर सिंह	1-10-2004
2365	14540694एम	हवलदार	धीरेन्द्र प्रसाद सिंह	1-1-2005
2366	14531506वाइ	हवलदार	दिलीप कुमार पाल	1-1-2005
2367	14538968एन	हवलदार	दिनेश शर्मा	1-10-2004
2368	14531391डब्ल्यू	हवलदार	दिवाकर प्रसाद तिवारी	1-1-2005
2369	14539994एफ	हवलदार	दुर्गा प्रसाद राठौर	1-12-2004
2370	14544017एम	हवलदार	दुर्गा सिंह	1-11-2004
2371	14540767एन	हवलदार	फूल कुंवर	1-1-2005
2372	14539805एम	हवलदार	जी डेनिअल	1-12-2004
2373	14540762पी	हवलदार	जी वानिसेलवन	1-1-2005
2374	14538791एल	हवलदार	गम्भीर सिंह	1-10-2004
2375	14539818के	हवलदार	गनेश ठाकुर	1-12-2004
2376	14539173एम	हवलदार	गंगाधरन के	1-10-2004
2377	14531394के	हवलदार	गरासिया शिगांजी भाई जिवाजी	1-1-2005
2378	14540546एफ	हवलदार	गौरी शंकर	1-1-2005
2379	14539437एच	हवलदार	गावले वी विश्वनाथ राव	1-11-2004
2380	14538927के	हवलदार	घतागे शिवाजी एस	1-10-2004
2381	14539119वाइ	हवलदार	गिरजानन्दन शर्मा	1-10-2004
2382	14538343वाइ	हवलदार	गोकाउमा महेश राव	1-9-2004
2383	14540057डब्ल्यू	हवलदार	गोपाल सिंह	1-12-2004

2384	14540677एम	हवलदार	गोपीनाथन नायर पी के	1-1-2005
2385	14540243एम	हवलदार	गौरी शंकर पाल	1-1-2005
2386	14530869डब्ल्यू	हवलदार	हनुमान पानिग्रही	1-10-2004
2387	14540619एच	हवलदार	हरबीर सिंह	1-1-2005
2388	7771110एम	हवलदार	हरी नन्दन प्रसाद	1-11-2004
2389	14537366एन	हवलदार	हरीश चंद्रा जुम्मन	1-10-2004
2390	14531189एच	हवलदार	हेम चादरा पंत	1-11-2004
2391	14540078एम	हवलदार	हीरा लाल दास	1-1-2005
2392	14531282के	हवलदार	आइ जेसू रथिनाम	1-11-2004
2393	14539123एफ	हवलदार	इंद्र सिंह	1-10-2004
2394	14538752एम	हवलदार	इंद्रजीत सिंह	1-9-2004
2395	14538663एन	हवलदार	इगवले शशिकांत हनामन्त	1-9-2004
2396	14539649एन	हवलदार	इशाम सिंह	1-11-2004
2397	14676366वाइ	हवलदार	ईश सिंह सिवाल	1-12-2004
2398	14539787पी	हवलदार	जबार सिंह	1-12-2004
2399	14539688एम	हवलदार	जगन नाथ मोन्डल	1-12-2004
2400	14538353एच	हवलदार	जगदीप राय	1-9-2004
2401	14539162ए	हवलदार	जगदीश चंद	1-10-2004
2402	14540702ए	हवलदार	जगदीश चंद्रा पाठक	1-1-2005
2403	14531156एक्स	हवलदार	जगमोहन सिंह	1-12-2004
2404	14539334के	हवलदार	जगवीर सिंह	1-10-2004
2405	14540307एम	हवलदार	जगवीर सिंह	1-1-2005
2406	14540239के	हवलदार	जय लाल सिंह	1-1-2005
2407	14538854एच	हवलदार	जय सिंह	1-10-2004
2408	14530929ए	हवलदार	जयनारायण त्रिपाठी	1-10-2004
2409	14540059एफ	हवलदार	जयपाल सिंह	1-12-2004
2410	14539091के	हवलदार	जयराम पान्डे	1-10-2004
2411	14539609एम	हवलदार	जमन्त कुमार पान्डे	1-11-2004
2412	14530687एच	हवलदार	जनार्दन प्रसाद यादव	1-9-2004
2413	14538643ए	हवलदार	जनार्दन पान्डे	1-9-2004
2414	14530702एम	हवलदार	जीत चंद	1-9-2004
2415	14539428एफ	हवलदार	झनावी कुमार	1-11-2004
2416	14538972डब्ल्यू	हवलदार	जीता राम	1-10-2004
2417	14538623एम	हवलदार	जोगिंदर पाल	1-9-2004
2418	14540244पी	हवलदार	जोगिंदर सिंह	1-1-2005
2419	14540688वाइ	हवलदार	जोगराज पाल	1-1-2005
2420	14538514ए	हवलदार	के जी हिम्मतराव	1-9-2004
2421	14539739पी	हवलदार	के राजबिहारी सिंह	1-11-2004
2422	14530753ए	हवलदार	कादिर अली	1-9-2004
2423	14538934ए	हवलदार	कैलाश चंद कुम्हार	1-10-2004
2424	14531861डब्ल्यू	हवलदार	कैलाश चंद्रा होता	1-1-2005
2425	14538335ए	हवलदार	काम्बले हिंदुराव विष्णु	1-9-2004
2426	14539690के	हवलदार	कन्वर सिंह	1-12-2004
2427	14539031पी	हवलदार	करन सिंह रावत	1-10-2004

2428	14540423पी	हवलदार	केशो तिवारी	1-12-2004
2429	14531411वाइ	हवलदार	खिम सिंह	1-1-2005
2430	14531720एफ	हवलदार	कृष्णा कुमार	1-1-2005
2431	14531898एक्स	हवलदार	क्षीतिश चंद्रा सेन	1-1-2005
2432	14538748के	हवलदार	कुलदीप सिंह	1-9-2004
2433	14531250एफ	हवलदार	लाल बहादुर प्रसाद	1-12-2004
2434	14538830वाइ	हवलदार	लाला राम यादव	1-10-2004
2435	14530800एम	हवलदार	लक्ष्मन लाल मीना	1-10-2004
2436	14538984एल	हवलदार	लक्ष्मन माझी	1-10-2004
2437	14540700पी	हवलदार	एम चेलास्वामी	1-1-2005
2438	14539092एम	हवलदार	एम डी अमीन	1-10-2004
2439	14540760के	हवलदार	एम कथिरवेल	1-1-2005
2440	14538733एफ	हवलदार	मदन गोपाल	1-9-2004
2441	14538882पी	हवलदार	एम सिंह	1-10-2004
2442	14540020पी	हवलदार	माधव सिंह जाटव	1-12-2004
2443	14540006एच	हवलदार	मधु एस पिल्लै पी	1-12-2004
2444	14539315वाइ	हवलदार	मधुसुदानन नायर एन	1-10-2004
2445	14530658एन	हवलदार	माझी मेहर	1-9-2004
2446	14530909एम	हवलदार	मान सिंह	1-10-2004
2447	14540418के	हवलदार	एम लक्ष्मन दगादु	1-1-2005
2448	14530763के	हवलदार	मौला एस	1-9-2004
2449	14539286एफ	हवलदार	मोहम्मद नजरुल हक	1-11-2004
2450	14531896एम	हवलदार	मदाबास अली	1-1-2005
2451	14539248वाइ	हवलदार	मेहर चंद	1-11-2004
2452	14539422ए	हवलदार	मोहनन जी	1-11-2004
2453	14540753एन	हवलदार	मोहनन के	1-1-2005
2454	14540362एच	हवलदार	मोसीस ए	1-12-2004
2455	2470596एच	हवलदार	मुख्तार सिंह	1-9-2004
2456	14539346वाइ	हवलदार	मुकुन्द बोरदोलइ	1-10-2004
2457	14539623वाइ	हवलदार	मुरलीधरन पिल्लै जी	1-11-2004
2458	14541138एच	हवलदार	मुथुकुमारन टी	14.07.2004
2459	14538753पी	हवलदार	नर्गेद्र प्रसाद	1-9-2004
2460	14540430एल	हवलदार	नर्गेद्र प्रसाद	1-12-2004
2461	14539648एल	हवलदार	नंदा बल्लभ	1-11-2004
2462	14531472डब्ल्यू	हवलदार	नंदा कुमार बी	1-12-2004
2463	14538675एच	हवलदार	नारा सिंघा सनीग्रही	1-9-2004
2464	14530474पी	हवलदार	नरला वी एम मोहाना राव	1-10-2004
2465	14540717एच	हवलदार	नसीरुद्दीन अहमद	1-1-2005
2466	14539670डब्ल्यू	हवलदार	नाथन लेपचा	1-12-2004
2467	14540621ए	हवलदार	ओम प्रकाश मिश्रा	1-1-2005
2468	14539892एल	हवलदार	ओमकार सिंह	1-12-2004
2489	14538726एल	हवलदार	ऑट्टुडु लक्ष्माया	1-9-2004
2470	14539468एच	हवलदार	पी जयहिन्द रेडी	1-11-2004

2471	14540615एम	हवलदार	पी मनोहरन	1-1-2005
2472	14538760एल	हवलदार	पंछी लाल	1-9-2004
2473	14539098एन	हवलदार	परसू राम सिंह	1-10-2004
2474	14539734डब्ल्यू	हवलदार	परीमल एमसी	1-11-2004
2475	14539667डब्ल्यू	हवलदार	पी सिंह	1-12-2004
2476	14531366एक्स	हवलदार	प्यार चंद	1-12-2004
2477	14539109पी	हवलदार	पूरा राम बोरावत	1-10-2004
2478	14531582एल	हवलदार	प्रहलाद सिंह	1-1-2005
2479	14539007वाइ	हवलदार	प्रकाश सिंह	1-10-2004
2480	14538535डब्ल्यू	हवलदार	प्रताप कुमार चक्र	1-9-2004
2481	14539104डब्ल्यू	हवलदार	प्रताप सिंह	1-10-2004
2482	14539360एल	हवलदार	प्रताप सिंह	1-10-2004
2483	14540088डब्ल्यू	हवलदार	प्रेम नारायण पान्डे	1-1-2005
2484	14538651वाइ	हवलदार	पी कुमार घोष	1-9-2004
2485	14540306के	हवलदार	पूरन सिंह गालब	1-1-2005
2486	14540682एक्स	हवलदार	रबींद्र कुमार	1-1-2005
2487	14539724एम	हवलदार	रबीन्द्रनाथ जाना	1-11-2004
2488	14539891एच	हवलदार	राधा चरन	1-12-2004
2489	14538955डब्ल्यू	हवलदार	राधाकृष्णन जी एस	1-10-2004
2490	14540468पी	हवलदार	राधेश्याम शर्मा	1-12-2004
2491	14539081ए	हवलदार	रघुनाथ पान्डे	1-10-2004
2492	14540190वाइ	हवलदार	राज किशोर राम	1-1-2005
2493	14539156एम	हवलदार	राज पाल सिंह	1-10-2004
2494	14538958के	हवलदार	राजा राम जाट	1-10-2004
2495	14539819एम	हवलदार	राजन वी	1-12-2004
2496	14539300डब्ल्यू	हवलदार	राजाराम फकिरा के	1-10-2004
2497	14540712के	हवलदार	राजबीर सिंह	1-1-2005
2498	14531497एच	हवलदार	राजेंद्र भारती	1-1-2005
2499	14540549पी	हवलदार	राजेंद्र सिंह	1-1-2005
2500	14531449एच	हवलदार	राजेंद्र सिंह	1-12-2004
2501	14539042एफ	हवलदार	राजेंद्र सिंह	1-10-2004
2502	14539902के	हवलदार	राजेश कुमार	1-12-2004
2503	14539426डब्ल्यू	हवलदार	राजेश कुमार	1-11-2004
2504	14539738एम	हवलदार	राजिन्दर सिंह	1-11-2004
2505	14538920ए	हवलदार	राकेश कुमार	1-10-2004
2506	14540360एक्स	हवलदार	राम औतार	1-12-2004
2507	14530962एक्स	हवलदार	राम अवध सिंह	1-10-2004
2508	14540416वाइ	हवलदार	राम बाबू	1-1-2005
2509	14539108एम	हवलदार	राम बहादुर चेट्टरी	1-10-2004
2510	14539832डब्ल्यू	हवलदार	राम चंद्र	1-12-2004
2511	14538542एम	हवलदार	राम चंद्रा झा	1-9-2004
2512	14540698एच	हवलदार	राम दर्शन सिंह	1-1-2005
2513	14539662एक्स	हवलदार	राम कुमार शर्मा	1-11-2004
2514	14540769वाइ	हवलदार	राम लाल	1-1-2005

2515	14537024ए	हवलदार	राम नाथ	1-9-2004
2516	14540605एच	हवलदार	राम नाथ सिंह	1-1-2005
2517	14542945के	हवलदार	राम प्रसाद गोयर	1-9-2004
2518	14539968पी	हवलदार	राम सजीवन	1-12-2004
2519	14538709एल	हवलदार	राम सेवक	1-10-2004
2520	14539941एच	हवलदार	राम सूरत सिंह चौहान	1-12-2004
2521	14538537एफ	हवलदार	रमा चंद्रा नायक	1-9-2004
2522	14538904एच	हवलदार	रमा शंकर सिंह	1-10-2004
2523	14538973वाइ	हवलदार	रामानुज सिंह	1-10-2004
2524	14538906एन	हवलदार	रामवतार	1-10-2004
2525	14538648वाइ	हवलदार	रामेन बरुआ	1-9-2004
2526	14539487एन	हवलदार	रमेश च. मुरमु	1-11-2004
2527	14530928एक्स	हवलदार	रमेश चंद पान्डे	1-10-2004
2528	14540148ए	हवलदार	रमेश चंद त्रिपाठी	1-12-2004
2529	14539809एच	हवलदार	रमेश चंद्रा	1-12-2004
2530	14539867ए	हवलदार	रमेश तुकाराम पवार	1-12-2004
2531	14530848ए	हवलदार	रतन कुमार दास	1-10-2004
2532	14540311पी	हवलदार	आर राय	1-1-2005
2533	14539869एफ	हवलदार	रविन्द्र कुमार	1-12-2004
2534	14538443के	हवलदार	रवीन्द्र सिंह	1-9-2004
2535	14530660एल	हवलदार	रवीन्द्र नाथ साह	1-9-2004
2536	14540749एल	हवलदार	रविन्द्रन एम	1-1-2005
2537	14540594एफ	हवलदार	रविन्द्रन टीएल	1-1-2005
2538	14539839ए	हवलदार	रिंग लाल	1-12-2004
2539	14540222डब्ल्यू	हवलदार	रोबिन बोरुआ	1-1-2005
2540	14530669ए	हवलदार	रोहिणी प्रसाद	1-9-2004
2541	14530812एफ	हवलदार	रोहितसवा कुमार	1-10-2004
2542	14538517एन	हवलदार	रूप सिंह	1-9-2004
2543	14531089के	हवलदार	रूप कुमार	1-11-2004
2544	14539810एक्स	हवलदार	रूप राम चेतिया	1-12-2004
2545	14540585ए	हवलदार	एस मोहन कुमार	1-1-2005
2546	14539515पी	हवलदार	एस एस बाबू	1-11-2004
2547	14675788एक्स	हवलदार	सदानंद चौधरी	1-10-2004
2548	14538884ए	हवलदार	साही राम	1-10-2004
2549	14538695डब्ल्यू	हवलदार	साजन सिंह	1-10-2004
2550	14538987वाइ	हवलदार	शक्ति पाडा विश्वास	1-10-2004
2551	14540041एल	हवलदार	सेम जॉन	1-12-2004
2552	14531258एन	हवलदार	एस सिंह	1-12-2004
2553	14540633पी	हवलदार	संतोष कुमार मिश्रा	1-1-2005
2554	14539810एफ	हवलदार	ससिधरन टी	1-11-2004
2555	14538960एफ	हवलदार	सतबीर सिंह	1-10-2004
2556	14538320एक्स	हवलदार	संत्य राम	1-9-2004
2557	14538794वाइ	हवलदार	सावंत एस अर्जुन	1-10-2004
2558	14539708पी	हवलदार	सिल्वाराज एम	1-11-2004

2559	14538683एफ	हवलदार	शेक अजीज बाशा	1-10-2004
2560	14538734के	हवलदार	शाम सिंह	1-9-2004
2561	14530856वाइ	हवलदार	श्रवण कुमार मिश्रा	1-11-2004
2562	14538770पी	हवलदार	शेरे हिंद	1-9-2004
2563	14540675एफ	हवलदार	शेषाम्पा एम के	1-1-2005
2564	14540120ए	हवलदार	शिंदे राम जाडु	1-12-2004
2565	14540396डब्ल्यू	हवलदार	शिशु पाल सिंह	1-12-2004
2566	14540325पी	हवलदार	शिव शंकर	1-1-2005
2567	14531388डब्ल्यू	हवलदार	श्री भगवान उपाध्याय	1-12-2004
2568	14530688एल	हवलदार	श्री निवास गिरि	1-9-2004
2569	14530891एफ	हवलदार	शुभ करन	1-11-2004
2570	14538974एफ	हवलदार	श्याम किशोर शर्मा	1-10-2004
2571	14539742पी	हवलदार	सिवान नाथर एम	1-11-2004
2572	14538841एल	हवलदार	एस के मोहम्मद मैनुदिन	1-10-2004
2573	14538832के	हवलदार	एस के हिनुस	1-10-2004
2574	14531426एफ	हवलदार	सोहन प्रसाद	1-12-2004
2575	14531559एक्स	हवलदार	श्री नारायण वर्मा	1-1-2005
2576	14531890एल	हवलदार	श्रीबत्छा कुमार मोहंती	1-1-2005
2577	14539439एन	हवलदार	श्रीरुरे विनायक दत्तात्रया	1-11-2004
2578	14531075एक्स	हवलदार	सुबाष चंद्र शर्मा	1-11-2004
2579	14540691वाइ	हवलदार	सुबेदार सिंह यादव	1-1-2005
2580	14539844एल	हवलदार	सुभाष चंद्र	1-12-2004
2581	14539261एच	हवलदार	सुभाष कुमार आर	1-11-2004
2582	14530634के	हवलदार	सुबीर कुमार राय चौधुरी	1-9-2004
2583	14540579एम	हवलदार	एस कुमार गुप्ता	1-1-2005
2584	14539673के	हवलदार	सुनील कुमार गुप्त	1-12-2004
2585	14539380वाइ	हवलदार	सुरेंद्र सिंह राणा	1-10-2004
2586	14540378एन	हवलदार	सुरेंद्र कुमार	1-12-2004
2587	14531066डब्ल्यू	हवलदार	सुरेंद्र प्रसाद सिंह	1-11-2004
2588	14539603एल	हवलदार	सुरेंद्र सिंह	1-11-2004
2589	14531484एल	हवलदार	सुरेश चंद्रा	1-12-2004
2590	14536311एक्स	हवलदार	सुरेश कुमार	1-9-2004
2591	14539302एफ	हवलदार	सुरेश कुमार	1-10-2004
2592	14538559ए	हवलदार	सुरेश कुमार	1-9-2004
2593	14538576ए	हवलदार	सुरेश सिंह	1-9-2004
2594	14539387एच	हवलदार	सुरिन्दर कुमार	1-11-2004
2595	14539338ए	हवलदार	सुरिन्दर कुमार	1-10-2004
2596	14531753एम	हवलदार	सुरजीत सिंह	1-1-2005
2597	14531383एक्स	हवलदार	सुशील कुमार तिवारी	1-12-2004
2598	14540522एक्स	हवलदार	स्वामी नाथ यादव	1-1-2005
2599	14539735वाइ	हवलदार	टी सेकार	1-11-2004
2600	14540529एफ	हवलदार	तन्का नाथ सिन्हा	1-1-2005
2601	14538704एम	हवलदार	तपन कुमार दास	1-10-2004
2602	14531878के	हवलदार	तरनी सिंह	1-1-2005

2603	14539514एम	हवलदार	तिलक राज	1-11-2004
2604	14538580एच	हवलदार	उमा शंकर पान्डे	1-9-2004
2605	14538902एक्स	हवलदार	उमेश सिंह बिष्ट	1-10-2004
2606	14538985एन	हवलदार	उमेश मिश्रा	1-10-2004
2607	14539214एल	हवलदार	उपेंद्र नाथ पान्डे	1-10-2004
2608	14538475एम	हवलदार	वेनुगोपाल टी एस	1-9-2004
2609	7772828एच	हवलदार	विजय प्रकाश शर्मा	1-1-2005
2610	14540750ए	हवलदार	विजया कुमार पी	1-1-2005
2611	14538717के	हवलदार	विजयन उत्रिथन जी	1-9-2004
2612	14538462पी	हवलदार	विनेश गुरंग	1-9-2004
2613	14531521एन	हवलदार	वीरेंद्र	1-1-2005
2614	14540337के	हवलदार	विश्वनाथ	1-1-2005
2615	14539370पी	हवलदार	यश पाल शर्मा	1-10-2004
2618	14531343डब्ल्यू	हवलदार	योगेन्द्र नाथ एस	1-12-2004
2617	14531065एन	हवलदार	ज सिंह	1-11-2004

रिमाउंट एवं वेटेरिनरी कोर

2618	7237887एन	दफादार	अमर नाथ	1-10-2004
2619	7237944के	हवलदार	अनिल कोंगरी	1-12-2004
2620	7237857डब्ल्यू	दफादार	अनिल कुमार प्रसाद	1-9-2004
2621	7238036एन	हवलदार	बोलेन छलिया	1-1-2005
2622	7238026के	हवलदार	गोपाल सिंह	1-1-2005
2623	7237927के	दफादार	लालेश्वर तिवारी	1-12-2004
2624	7237864एम	दफादार	ओम प्रकाश	1-10-2004
2625	7237876एफ	दफादार	राम सरन	1-10-2004
2626	7237867एल	दफादार	रंजीत सिंह	1-12-2004
2627	7237977पी	दफादार	सेलेन्द्रन जी	1-12-2004
2628	7237878एम	दफादार	सरदारी लाल	1-10-2004
2629	7237951ए	दफादार	सर्वेश प्रसाद पाठक	1-12-2004
2630	7237884ए	दफादार	श्रवण कुमार	1-10-2004
2631	7237889वाइ	दफादार	शाम लाल	1-11-2004
2632	7238601ए	दफादार	सुधेश्वर सिंह	1-9-2004
2633	7237892वाइ	दफादार	स्वर्ण सिंह	1-11-2004
2634	7237914एम	दफादार	थानकचन वाइ	1-11-2004
2635	7238059पी	दफादार	विवेन्द्र सिंह	1-1-2005
2636	7237958के	दफादार	वीरेंद्र सिंह	1-1-2005
2637	7237968एन	दफादार	योगेन्द्र नाथ प्रसाद	1-12-2004

आसूचना कोर

2638	2979553एक्स	हवलदार	राम चंद्र	1-10-2004
2639	4063222एच	हवलदार	टी अली	1-1-2005

कोर आफ सेना पुलिस

2640	7771172एम	हवलदार	अकसाइ बार राम	1-12-2004
2641	7771233वाइ	हवलदार	फतेह सिंह	1-1-2005
2642	7771156पी	हवलदार	गोपाल रौय	1-12-2004
2643	7771304पी	हवलदार	कमला कांत पान्डे	1-1-2005
2644	7771141एम	हवलदार	लाल मोहन मोहंता	1-11-2004
2645	7771297के	हवलदार	महीपाल सिंह रावत	1-1-2005
2646	7771000एक्स	हवलदार	नवल किशोर राय	1-9-2004
2647	7772710एफ	हवलदार	फूल सिंह	1-11-2004
2648	7771238एक्स	हवलदार	सुभाष चंद	1-1-2005
2649	7771123के	हवलदार	तिलक राज	1-11-2004
2650	7771092पी	हवलदार	वीरेंद्र पाल	1-11-2004

सेना शारिरिक प्रशिक्षण कोर

2651	2771590एम	हवलदार	निकम पी एम	1-12-2004
2652	3982570वाइ	हवलदार	रघु नाथ राणा	1-1-2005

पायोनियर कोर

2653	8025961के	हवलदार	दर्शन लाल	1-10-2004
2654	8028007एक्स	हवलदार	गौरहरि घोष	1-11-2004
2655	8025892वाइ	हवलदार	ओम प्रकाश	1-9-2004
2656	8027876ए	हवलदार	राम प्रसाद गौतम	1-10-2004
2657	8026029एक्स	हवलदार	राम प्यारे	1-12-2004
2658	8025926एफ	हवलदार	सथियादेवन के	1-10-2004

सेना डाक सेवा

2659	6469617ए	हवलदार	राजेश कुमार शर्मा	1-1-2005
------	----------	--------	-------------------	----------

रक्षा सुरक्षा कोर

2660	8015608के	हवलदार	बृज पाल	1-10-2004
2661	6481939एम	हवलदार	धर्म पाल	1-1-2005
2662	6893995एल	हवलदार	हाज राम	1-11-2004
2663	8015504एध	हवलदार	जय नारायण	1-10-2004
2664	10180476के	हवलदार	कौशल प्रसाद	1-10-2004
2665	4047088वाइ	हवलदार	मगन सिंह	1-11-2004
2666	10357160पी	हवलदार	नागराजू	1-12-2004

प्रादेशिक सेना

2667	10134772डब्ल्यू	हवलदार	अनिल कुमार	30-9-2004
2668	10165854ए	हवलदार	ए विजय कुमार	31-5-2004
2669	10314431एन	हवलदार	रमेश कुमार	29-2-2004
2670	10314462एन	हवलदार	सुरेश कुमार	31-5-2004

[सं० बी/43432/आरडी-05/एजी/सीडब्ल्यू-2]

मोहिन्दर सिंह, लै. जनरल, एडजूटेंट जनरल

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th January, 2005

No. 03(E) dated 26 January, 2005.—The president is pleased to grant honorary rank of Naib Risaldar/Naib Subedar to the undermentioned NCOs on the eve of Republic Day 2005 on retirement under para 180 of the Regulations for the Army 1987 with effect from their respective date of retirement :-

TO BE HONORARY NAIB RISALDARS/SUBEDARS**7 CAVALRY**

1	1066087H	DFR	HARWINDER SINGH	1/11/2004
---	----------	-----	-----------------	-----------

8 CAVALRY

2	1065714X	DFR	VISHWA VIR SINGH MALIK	1/9/2004
---	----------	-----	------------------------	----------

66 ARMoured REGIMENT

3	1066073H	DFR	EASWARAN N	1/11/2004
---	----------	-----	------------	-----------

4	1065860X	DFR	RAMESHWAR YADAV	1/10/2004
---	----------	-----	-----------------	-----------

70 ARMoured REGIMENT

5	1066074L	DFR	RAKIBHDDIN BISWAS	1/11/2004
---	----------	-----	-------------------	-----------

72 ARMoured REGIMENT

6	1065832L	DFR	VISHRAM SINGH	1/10/2004
---	----------	-----	---------------	-----------

74 ARMoured REGIMENT

7	1066264X	DFR	LAKSHMI DASS	1/1/2005
---	----------	-----	--------------	----------

75 ARMoured REGIMENT

8	1065862H	DFR	GANGADHARA MT	1/10/2004
---	----------	-----	---------------	-----------

81 ARMoured REGIMENT

9	1066338F	DFR	SUCHA SINGH	1/1/2005
---	----------	-----	-------------	----------

82 ARMoured REGIMENT

10	1065819F	DFR	DHARMVIR SINGH	1/9/2004
----	----------	-----	----------------	----------

86 ARMoured REGIMENT

11	8025888W	DFR	GANGA PRASAD YADAV	1/9/2004
----	----------	-----	--------------------	----------

88 ARMoured REGIMENT

12 1066046Y DFR SHYAM NANDAN PANDEY 1/11/2004
89 ARMoured REGIMENT

13 1065761P HAV SUBHASH RAI 1/9/2004
90 ARMoured REGIMENT

14 1065951F DFR PRABHU LAL MEENA 1/10/2004
 15 1066146K DFR RAM SUMER THAKUR 1/12/2004
 16 1066055A DFR RATNESHWAR JHA 1/11/2004
44 ARMoured REGIMENT

17 1065923P DFR MD RAJAB ALI 1/10/2004
48 ARMoured REGIMENT

18 1065775P DFR KUNWAR GWALA 1/9/2004
49 ARMoured REGIMENT

19 1065884F DFR RAGHUBANS KUMAR 1/10/2004
5 ARMoured REGIMENT

20 1065922M DFR MANICK CHANDRA GHOSH 1/10/2004
13 ARMoured REGIMENT

21 1065800H DFR JAGDISH RAJPUT 1/9/2004
ARMoured CORPS

22 1061983M DFR BALWANT SINGH 1/1/2005
 23 1066106H DFR BHAL SINGH 1/11/2004
 24 1066134P DFR BHUPAL SINGH 1/12/2004
 25 1065742K DFR BIMOL PARAMANIK 1/9/2004
 26 1066342K DFR DHARAM PAL 1/1/2005
 27 1061819K DFR DHARAM PAL 1/12/2004
 28 1066067P DFR DUNNA VIZAYA 1/11/2004
 29 1066171H DFR GAJRAJ SINGH 1/12/2004
 30 1061940X DFR JAGABANDHU DAS BAIRAGYA 1/1/2005
 31 1066207W DFR JAI SINGH 1/12/2004
 32 1061743P DFR JANAK RAJ 1/10/2004
 33 1066108N DFR K NANTHA KUMAR 1/11/2004
 34 1065668N DFR K PARAMASIVAM 1/9/2004
 35 1066186L DFR L PONNU SWAMY 1/12/2004

36	1061745A	DFR	MADAN LAL	1/10/2004
37	1066079K	DFR	MAHINDRA SINGH	1/11/2004
38	1065720L	DFR	MOOLCHAND LAL	1/9/2004
39	1061967P	DFR	NABA KUMAR NATH	1/1/2005
40	1061931W	DFR	RAJ KISHORE PRASAD	1/12/2004
41	1066156N	DFR	RAJINDER RAM	1/12/2004
42	1061693P	DFR	RAJPAL BIBYAN	1/9/2004
43	1066183X	DFR	RAM ASHRE	1/12/2004
44	1066013N	DFR	RAM CHAND	1/11/2004
45	1061724K	DFR	RAM SURESH	1/10/2004
46	1061942H	DFR	RUKAM PAL	1/1/2005
47	1066239Y	DFR	SHAHEED KHAN	1/1/2005
48	1066295X	DFR	SUKHWINDER SINGH	1/1/2005

REGIMENT OF ARTILLERY

49	14355553L	HAV	A N SINGH	1/1/2005
50	14470249N	HAV	AKHILESHWAR JHA	1/11/2004
51	14335234X	HAV	ANAND SINGH	1/10/2004
52	14354507K	HAV	ANDANAPALLI PAPA RAO	1/11/2004
53	14337196L	HAV	BABAN SINGH	1/1/2005
54	14470022A	HAV	BABY L	1/11/2004
55	14469421X	HAV	BAJRANG SINGH	1/10/2004
56	14456901H	HAV	BALA CHANDRAN NAIR K	1/10/2004
57	14335932A	HAV	BALBIR SINGH	1/11/2004
58	14352451K	HAV	BALBIR SINGH	1/9/2004
59	14469991N	HAV	BHIM SINGH	1/11/2004
60	14354883X	HAV	BHIMAPPA RUDRAPPA MARACHANNAVAR	1/12/2004
61	14351439W	HAV	BHUNESHWAR SINGH	1/9/2004
62	14458063X	HAV	BIMAL KISHOR SINGH	1/12/2004
63	14458001X	HAV	BIR BAHADUR SINGH	1/12/2004
64	14352352F	HAV	BIRENDER SINGH	1/9/2004
65	14470891P	HAV	BIRENDRA KUMAR PANDEY	1/12/2004
66	14471453Y	HAV	CHIDANAMD MEDEGAR	1/1/2005
67	14352880L	HAV	D ANANDAN	1/10/2004
68	14353720X	HAV	D RAVINDRAN	1/11/2004
69	14468593A	HAV	DAGLA RAM	1/9/2004
70	14335612L	HAV	DARSHAN SINGH	1/11/2004
71	14470582M	HAV	DASRATH RAI	1/12/2004
72	14469420P	HAV	DEVI SINGH	1/10/2004
73	14470787F	HAV	DHANI REDDY BALAKONDA REDDY	1/12/2004
74	14471494H	HAV	DHARAM PAL SINGH YADAV	1/1/2005
75	14355764N	HAV	DHARAMNATH PRASAD	1/1/2005
76	14471403N	HAV	DHARAMPAL SINGH	1/1/2005
77	14470794X	HAV	DHARAMVEER SINGH	1/12/2004
78	14352237F	HAV	DHARINDER KUMAR	1/9/2004
79	14469529P	HAV	DIWAN SINGH	1/10/2004
80	14355011F	HAV	DUDH SINGH	1/10/2004
81	14470023H	HAV	GAVADE UDHAV HARIBA	1/11/2004
82	14353554P	HAV	GOPAL RAM	1/10/2004
83	14469280N	HAV	GORAKHANATH JAGANNATH K	1/10/2004
84	14336561P	HAV	GOUTAM MUNI SAHI	1/12/2004

85	14353155L	HAV	GURDIAL SINGH	
86	14351485L	HAV	GURUDIAL	1/10/2004
87	14470635A	HAV	GURUSIDDA REVANNAVAR	1/9/2004
88	14469368X	HAV	HARBANS SINGH	1/12/2004
89	14355105Y	HAV	HARIKRISHAN THAKUR	1/10/2004
90	14470983F	HAV	HRIDYA NARAYAN SINGH	1/12/2004
91	14471657L	HAV	J SEKAR	1/12/2004
92	14470551M	HAV	JAGAT SINGH	1/1/2005
93	14351841A	HAV	JAGDISH CHAND	1/12/2004
94	14354182F	HAV	JAGDISH CHANDRA	1/9/2004
95	14471282X	HAV	JAGNANDAN SINGH	1/11/2004
96	14458313N	HAV	JOGINDER SINGH	1/1/2005
97	14355132H	HAV	KANGAUTON SINGHA	1/1/2005
98	14457096W	HAV	KAPILESHWAR NATH SINGH	1/12/2004
99	14353914A	HAV	KRIPAL SINGH	1/10/2004
100	14351452A	HAV	LACHHI RAM	1/11/2004
101	14470611W	HAV	LALLANA RAI RAJBHAR	1/9/2004
102	14354874W	HAV	LONKAR SUBASH MANOHAR	1/12/2004
103	14469747N	HAV	M PANDURANG SHIRADWADE	1/12/2004
104	14456481N	HAV	MADAN RAM	1/10/2004
105	14353906F	HAV	MAHENDER	1/9/2004
106	14355778N	HAV	MAHENDRA SINGH	1/11/2004
107	14352202L	HAV	MAHESH KUMAR BHATI	1/1/2005
108	14353892M	HAV	MALAKANJI MALAPPA HAWANI	1/9/2004
109	14352982F	HAV	MANGALESH PANDEY	1/11/2004
110	14355128A	HAV	MANINDRA SINGH	1/10/2004
111	14471025A	HAV	MATHURI SINGH	1/12/2004
112	14352733H	HAV	MOHINDRA PRASAD DWARIKA	1/12/2004
113	14353996N	HAV	MONU BABU SINHA	1/10/2004
114	14354067F	HAV	MORSUG JAYANANDAM	1/11/2004
115	14355450M	HAV	MUHAMMAD BASHEER NP	1/11/2004
116	14352777A	HAV	NAND KISHORE SHARMA	1/1/2005
117	14352157K	HAV	NGAMOM OMESHWAR SINGH	1/10/2004
118	14470688Y	HAV	PARAS NATH SINGH	1/9/2004
119	14471490M	HAV	PARMATMA GOSWAMI	1/12/2004
120	14355737K	HAV	PARMATMA SARAN	1/1/2005
121	14351153F	HAV	PEP SINGH	1/1/2005
122	14353538X	HAV	PRABHAT RAM	1/9/2004
123	14354722P	HAV	PRADEEP KUMAR T	1/10/2004
124	14471080W	HAV	RABINDRA SHARMA	1/12/2004
125	14352354M	HAV	RAJENDER SINGH	1/12/2004
126	14469232N	HAV	RAJENDRA PRASAD	1/9/2004
127	14471241N	HAV	RAKESH KUMAR DWIVEDI	1/10/2004
128	14351404A	HAV	RAM AVTAR YADAV	1/1/2005
129	14468908Y	HAV	RAM AWATAR SINGH	1/9/2004
130	14353127Y	HAV	RAM KUMAR	1/9/2004
131	14469155K	HAV	RAM KUMAR JHA	1/10/2004
132	14469834F	HAV	RAM NIWAS	1/10/2004
133	14335927P	HAV	RAM PRIT SINGH	1/10/2004
134	14457928M	HAV	RAM SAKAL SINGH	1/11/2004
135	14355072Y	HAV	RAMANARYAN BHOI	1/12/2004
136	14469510W	HAV	RANJIT KUMAR MONDAL	1/12/2004

137	14352881N	HAV	RAOH KONDA RAMAIAH	1/10/2004
138	14469961W	HAV	RICHPAL SINGH	1/11/2004
139	14470093F	HAV	ROSHAN LAL	1/11/2004
140	14471568M	HAV	S SANDIRA SEGARANE	1/1/2005
141	14470690W	HAV	SAMARJEET SINGH	1/12/2004
142	14470242K	HAV	SANT KISHOR	1/11/2004
143	14470066X	HAV	SARWAN KUMAR	1/11/2004
144	14469715L	HAV	SARWAN SINGH	1/10/2004
145	14353600Y	HAV	SATNAM SINGH	1/10/2004
146	14471368W	HAV	SATWANT SINGH	1/1/2005
147	14337156K	HAV	SESH NATH SINGH	1/1/2005
148	14471033Y	HAV	SHIV BAHASUR SINGH	1/12/2004
149	14352658K	HAV	SHIV MANGAL SINGH	1/10/2004
150	14469756P	HAV	SHIV RAJ SINGH	1/10/2004
151	14352368M	HAV	SIJA KUMAR PRADHAN	1/9/2004
152	14456418Y	HAV	SIRE KRISHAN THAKUR	1/9/2004
153	14351652W	HAV	SOHAN SINGH	1/9/2004
154	14470952F	HAV	SUBHASH CHAND	1/12/2004
155	14457055M	HAV	SUBHASH CHAND	1/10/2004
156	14458590Y	HAV	SUBHASH CHAND VERMA	1/1/2005
157	14354665Y	HAV	SUKH DEV SINGH CHIB	1/12/2004
158	14471043H	HAV	SUNDER PAL	1/12/2004
159	14470744M	HAV	SURESH KUMAR PANDIT	1/12/2004
160	14470749L	HAV	SURESH NATH SINGH	1/12/2004
161	14351460Y	HAV	TEJ NARAYAN SINGH	1/9/2004
162	14471530H	HAV	THANKACHAN TO	1/1/2005
163	14468447A	HAV	UDAI VIR SINGH	1/9/2004
164	14457184M	HAV	UTTAM CHAND	1/11/2004
165	14351856H	HAV	VENKAPPA KALAL	1/9/2004
166	14353563W	HAV	VIJAYA KUMAR NAIR R	1/10/2004
167	14335173L	HAV	VJENDRA KUMAR	1/10/2004
168	14352742K	HAV	YAD RAM DHOBI	1/10/2004

CORPS OF AIR DEFENCE ARTILLERY

169	14352387X	HAV	AMAR NATH	1/9/2004
170	14354703K	HAV	AMAR SINGH	1/12/2004
171	14351031X	HAV	ANIL KUMAR	1/9/2004
172	14353499K	HAV	ASHOK KUMAR	1/10/2004
173	14336357W	HAV	B P SINGH	1/12/2004
174	14353255W	HAV	BADAL MALLICK	1/10/2004
175	14354159N	HAV	BIHARI LAL SHARMA	1/11/2004
176	14353289K	HAV	BINAN CHANDRA RAY	1/10/2004
177	14352598A	HAV	BIRENDER SINGH	1/10/2004
178	14354743L	HAV	BIRENDRA SHARMA	1/12/2004
179	14355093P	HAV	BUDHADEB DAS	1/12/2004
180	14354606M	HAV	CHAIN SINGH RANA	1/12/2004
181	14469308H	HAV	CHAMRU ORAON	1/10/2004
182	14352592Y	HAV	CHANDER BHUVAN	1/10/2004
183	14354635F	HAV	CHANDRAKANT SUTAR	1/12/2004
184	14354414P	HAV	DALVI SAMBHAJI SANTU	1/11/2004
185	14354315M	HAV	EASI P C	1/11/2004

186	14355096H	HAV	GANDHI RAM	1/12/2004
187	14354460K	HAV	GANE SIMHADRI	1/11/2004
188	14355734W	HAV	GOMATI	1/1/2005
189	14469613P	HAV	HARI DAS GHOSH	1/10/2004
190	14355514M	HAV	J AMALADOSS	1/1/2005
191	14355327N	HAV	JAGDISH PRASAD	1/1/2005
192	14352360A	HAV	JAGLAL RAM	1/9/2004
193	14469539Y	HAV	K JAYARAMAN	1/10/2004
194	14352770W	HAV	KALIKA PARSHAD	1/10/2004
195	14352606N	HAV	KISHOR KUMAR	1/10/2004
196	14355316F	HAV	LALJI	1/1/2005
197	14351290A	HAV	LOKHANDE DATTATRAY BABAN	1/9/2004
198	14354457K	HAV	MAHAVIR SINGH YADAV	1/11/2004
199	14353334L	HAV	MANDA LAXMAN REDDY	1/10/2004
200	14336404H	HAV	MEHARBAN SINGH	1/11/2004
201	14468682Y	HAV	MODU RAM	1/9/2004
202	14355382K	HAV	MONORANJAN KOCH	1/1/2005
203	14351678L	HAV	MUKESH KUMAR	1/9/2004
204	14350878P	HAV	MURTA SINGH	1/9/2004
205	14470696X	HAV	NAW NATH PANDEY	1/12/2004
206	14354825N	HAV	OM PRAKASH	1/12/2004
207	14355117N	HAV	PARAMHAN RAJBHAR	1/12/2004
208	14468418L	HAV	PARESH HAZARIKA	1/9/2004
209	14355225X	HAV	PARKASH CHAND	1/1/2005
210	14337265W	HAV	PURUSHATTAM MAJI	1/1/2005
211	14355172K	HAV	R CHOODAMANI	1/12/2004
212	14468759W	HAV	RADHA KRISHAN SINGH	1/9/2004
213	14470887M	HAV	RAJ SINGH	1/12/2004
214	14337201L	HAV	RAM AVTAR SINGH YADAV	1/1/2005
215	14352778H	HAV	RAM BABU	1/10/2004
216	14351005W	HAV	RAM BAHADUR SINGH	1/9/2004
217	14353300X	HAV	RAM DAS SINGH	1/10/2004
218	14355648L	HAV	RAM MILAN	1/1/2005
219	14355199F	HAV	RAM SINGH	1/1/2005
220	14334486X	HAV	RAM SIYA KOL	1/9/2004
221	14351700L	HAV	RAMAWADHESH SINGH	1/9/2004
222	14353245M	HAV	RAMESH CHANDRA PAL	1/10/2004
223	14352765L	HAV	RAMESHWAR TIWARI	1/10/2004
224	14468299A	HAV	RAVINDER KUMAR	1/9/2004
225	14457330F	HAV	S JACOB	1/11/2004
226	14353516Y	HAV	SARDAR SINGH	1/10/2004
227	14354673X	HAV	SHAIK ABDUL RASHEED	1/12/2004
228	14352824M	HAV	SHANKARAN KUTTY	1/10/2004
229	14469339H	HAV	SREEKANTA KURUP K	1/10/2004
230	14351096L	HAV	SRIRAM THAKUR	1/9/2004
231	14355184Y	HAV	SURENDRA NATH MONDAL	1/12/2004
232	14354028H	HAV	SURENDRA SINGH	1/11/2004
233	14352965F	HAV	TARUN CHANDRA DAS	1/10/2004
234	14354700W	HAV	TULSI SINGH YADAV	1/12/2004
235	14351536N	HAV	TUSAR KANTI MAITY	1/9/2004
236	14353706L	HAV	WAGH SAJNAY SHRIPAT	1/11/2004
237	14468913K	HAV	WARYAM SINGH	1/9/2004

MADRAS ENGINEER GROUP

238	1367258P	HAV	A AROCKIASWAMY	1/11/2004
239	1373509K	HAV	A JAMES PAUL	1/12/2004
240	1372590P	HAV	ANTHONY CRUZ	1/9/2004
241	1372528H	HAV	AYYASAMY K	1/10/2004
242	1372673A	HAV	BALACHANDRAN K	1/10/2004
243	1372570F	HAV	BALASUNDARAM A	1/9/2004
244	1366899P	HAV	C JAYA RAMA REDDY	1/9/2004
245	1373437L	HAV	C MANI	1/12/2004
246	1373287A	HAV	C MANI	1/11/2004
247	1372728Y	HAV	C MUTHUPANDIAN	1/10/2004
248	1366895Y	HAV	CHANDRAN K N	1/9/2004
249	1372537K	HAV	CHIKKARANGAPPA M	1/10/2004
250	1372758W	HAV	D P JANGILAI AH	1/10/2004
251	1372267A	HAV	D S SREENATH	1/9/2004
252	1372834X	HAV	DEVARAM PATIL DEELIP	1/10/2004
253	1370121N	HAV	DEVASSI KUTTY V V	1/10/2004
254	1374013F	HAV	G MURUGESAN	1/1/2005
255	1373134W	HAV	G SANKARAN	1/11/2004
256	1372878P	HAV	GOPINADHAN P	1/10/2004
257	1374248N	HAV	GOPINATHAN M	1/12/2004
258	1372926K	HAV	GOPINATHAN P	1/10/2004
259	1373546X	HAV	I MURGAN	1/12/2004
260	1373054Y	HAV	IPPILI TATAIAH	1/11/2004
261	1367286F	HAV	ISMAIL SHAIK	1/12/2004
262	1373161A	HAV	ISTATI RAVEENDRAIAH	1/11/2004
263	1373499L	HAV	J JOHN BOSCO	1/12/2004
264	1373428K	HAV	J KATHIRESAN	1/12/2004
265	1372388F	HAV	J VISWANATHAN	1/9/2004
266	1372781K	HAV	K ANANDAN	1/10/2004
267	1373417X	HAV	K BABU RAJAN	1/11/2004
268	1372422W	HAV	K DEVENDIRAN	1/9/2004
269	1372864P	HAV	K S VIJAYAN	1/10/2004
270	1373681L	HAV	K VENKATASHAN	1/12/2004
271	1372771A	HAV	KAMALAPPAN J	1/10/2004
272	1372441F	HAV	KASA RAMI REDDY	1/9/2004
273	1373374N	HAV	KOLAGARI SURI BABU	1/11/2004
274	1372522F	HAV	KRISHNAMOORTHI R	1/10/2004
275	13722467X	HAV	KRISHNAN G	1/12/2004
276	1372666K	HAV	M KRISHNAN	1/10/2004
277	1367229A	HAV	M MUNIRATHINAM	1/11/2004
278	1373135Y	HAV	M PALANI	1/11/2004
279	1373850F	HAV	M RAJU	1/1/2005
280	1372785A	HAV	M RANGANATHAN	1/10/2004
281	1374058F	HAV	MADHUSOODHANAN P	1/1/2005
282	1367456A	HAV	MAHADEV SUTAR	1/1/2005
283	1372718P	HAV	MAHENDIRAN K	1/10/2004
284	1373686K	HAV	MANICKAM M	1/12/2004
285	1373792H	HAV	MEENIGA RANGA REDDY	1/12/2004
286	1372607X	HAV	METTUPALLE R R	1/10/2004

287	1372738H	HAV	MOHAMED KHALEEL	
288	1372613L	HAV	MOHAMMAD SHAMSHER	1/10/2004
289	1375212F	HAV	MOHANA KUMAR V	1/10/2004
290	1372881P	HAV	MURALEEDHARAN K	1/10/2004
291	1372797P	HAV	N YOGANANDAN	1/10/2004
292	1367323K	HAV	NARASIMHULU M	1/10/2004
293	1373026M	HAV	OUDESPH V M	1/12/2004
294	1373328Y	HAV	P JAYARAJU	1/10/2004
295	1373441N	HAV	P KASINATHAN	1/11/2004
296	1367517M	HAV	P RAMMER	1/12/2004
297	1367531Y	HAV	P VELLASAMY	1/1/2005
298	1368346X	HAV	PAMDATH N	1/1/2005
299	1376579N	HAV	PAVITHRAN KOLLAROTH	1/11/2004
300	1373726A	HAV	PERUMAL S	1/12/2004
301	1372440Y	HAV	PRABHAKARAN A	1/12/2004
302	1367634X	HAV	PRAKASAN V C	1/9/2004
303	1372837L	HAV	PRAKASH V K	1/10/2004
304	1373775H	HAV	PURUSHOTHAMAN P	1/10/2004
305	1373420X	HAV	R MARUTHAPPAN	1/12/2004
306	1373834K	HAV	RADHAKRISHNAN P	1/12/2004
307	1372836H	HAV	RAJANDRAN ACHARI G	1/1/2005
308	1372260W	HAV	RAJENDRAN M P	1/10/2004
309	1373847F	HAV	RAMESH KORE	1/9/2004
310	1373607K	HAV	S JOHN KURUS	1/1/2005
311	1373716W	HAV	S JOSEPH	1/12/2004
312	1372625A	HAV	S PAUL	1/12/2004
313	1372676N	HAV	SUNNI K I	1/10/2004
314	1372651F	HAV	T S KUMAR	1/10/2004
315	1372561A	HAV	THANKACHAN P	1/10/2004
316	1373176H	HAV	V ANNAMALAI	1/10/2004
317	1367202H	HAV	V BRADHABAN	1/11/2004
318	1367211K	HAV	V ELANGOVAN	1/11/2004
319	1372279P	HAV	V NARAYANA RAO	1/11/2004
320	1367329L	HAV	V RAMACHANDRAN	1/9/2004
321	1373456W	HAV	VARKEY M U	1/12/2004
322	1367138W	HAV	VENKANNA JAMBAGI	1/12/2004
323	1373300Y	HAV	XAVIER K S	1/11/2004
324	1367488H	HAV	Y SHIDDAPPA WAGGAR	1/11/2004
325	1373993F	HAV	Y THYRUPALU	1/1/2005
BENGAL ENGINEER GROUP				
326	1466942A	HAV	ABBACH ALI MOLLA	
327	1466113M	HAV	ABDUL	1/1/2005
328	1466472A	HAV	AJEET SINGH	1/11/2004
329	1466434K	HAV	ANIL KUMAR SINGH	1/12/2004
330	1461913F	HAV	BAHADUR SINGH	1/12/2004
331	1464520W	HAV	BALDEO SINGH	1/9/2004
332	1466084H	HAV	BALDEV SINGH	1/11/2004
333	1465672K	HAV	BALESHWAR SINGH	1/11/2004
334	1465396M	HAV	BALIRAM SAH	1/10/2004
335	1466160K	HAV	BHAGWATI PRASAD	1/9/2004
				1/11/2004

336	1465965P	HAV	BHAI LAL	1/11/2004
337	1465666W	HAV	BHANO RIKIYASAN	1/10/2004
338	1465693A	HAV	BHARAT SINGH	1/10/2004
339	1466577K	HAV	BHARAW KUMAR	1/12/2004
340	1461929M	HAV	BHASKAR NAYAK	1/9/2004
341	1466358H	HAV	BHIMMA PRASAD	1/12/2004
342	1466972X	HAV	BIMAN KUMAR PHATAK	1/1/2005
343	1466618H	HAV	BIRENDER SINGH	1/1/2005
344	1550800N	HAV	CHAVAN LAXMAN	1/1/2005
345	1466634A	HAV	CHHITESHWER NATH OJHA	1/1/2005
346	1462047X	HAV	EROM HARIDAS SINGHA	1/12/2004
347	1465456W	HAV	GHURAN LOHRA	1/9/2004
348	1466470P	HAV	GURCHARAN SINGH	1/12/2004
349	1466751L	HAV	GURU DEEN	1/1/2005
350	1466099L	HAV	HARBANS SINGH	1/11/2004
351	1466425H	HAV	HARDEV SINGH	1/12/2004
352	1466469A	HAV	HAZARI RAM	1/12/2004
353	1463028Y	HAV	HAZOR SINGH	1/1/2005
354	1466288P	HAV	HIRA SINGH	1/12/2004
355	1466599H	HAV	HUKAM SINGH	1/1/2005
356	1465381K	HAV	INDER PAL SINGH	1/9/2004
357	1461938N	HAV	INDRA SEN SINGH	1/10/2004
358	1466202L	HAV	JAG MOHAN	1/11/2004
359	1466660F	HAV	JANGALI SINGH	1/1/2005
360	1462245H	HAV	JASBIR SINGH	1/1/2005
361	1466528F	HAV	JASPAL SINGH	1/12/2004
362	1462145X	HAV	JIT SINGH	1/1/2005
363	1466886M	HAV	KESHAV DATT PANDEY	1/1/2005
364	1461845Y	HAV	KHEM SINGH THAKUR	1/9/2004
365	1465663H	HAV	KISHAN LAL	1/10/2004
366	1461920X	HAV	KP KUNHI RAMAN	1/9/2004
367	1466239M	HAV	KRISHAN KUMAR	1/11/2004
368	1461875W	HAV	KRISHAN MURARI	1/9/2004
369	1462173K	HAV	KULWINDER SINGH	1/1/2005
370	1465365M	HAV	LAL KAND PRASAD SINGH	1/9/2004
371	1465408W	HAV	LALA RAM	1/9/2004
372	1466895N	HAV	LOK MANI	1/1/2005
373	1466045K	HAV	LUKSSIUS BAKHLA	1/11/2004
374	1462422X	HAV	MADARI LAL	1/1/2005
375	1462188M	HAV	MAHENDRA SINGH	1/1/2005
376	1462191M	HAV	MAKESHWAR RAM	1/1/2005
377	1465752F	HAV	MOHD MUTAZ KHAN	1/10/2004
378	1466112K	HAV	NARESH KUMAR SINGH	1/11/2004
379	1465445K	HAV	NARESH PASWAN	1/9/2004
380	1466796L	HAV	PARMA NAND	1/1/2005
381	1462149N	HAV	PARSHU RAM RAM	1/1/2005
382	1465730H	HAV	PASKAL TOPPO	1/10/2004
383	1466677P	HAV	PHOOL SINGH	1/1/2005
384	1465726A	HAV	PRAMOD SINGH	1/10/2004
385	1461981P	HAV	RADHEY SHYAM UPADHY	1/10/2004
386	1461980M	HAV	RAJ KUMAR SINGH	1/10/2004
387	1466630K	HAV	RAJENDRA PRASAD	1/1/2005

388	1466736W	HAV	RAJENDRA PRASAD	1/1/2005
389	1462096A	HAV	RAM KHELAN	1/12/2004
390	1462167W	HAV	RAM LAYAK THAKUR	1/1/2005
391	1465502A	HAV	RAM PYARE SINGH	1/9/2004
392	1466407A	HAV	RAM SIROMANI	1/12/2004
393	1465616L	HAV	RAMA SHANKAR SINGH	1/10/2004
394	1461963M	HAV	RANJIT KUMAR MALLIC	1/10/2004
395	1463460A	HAV	RANJIT PRASAD	1/9/2004
396	1461999L	HAV	ROOP LAL	1/11/2004
397	1464597Y	HAV	SARVESHWAR PRASAD	1/12/2004
398	1466686W	HAV	SHISHU PAL SINGH	1/1/2005
399	1466354M	HAV	SHIV NATH RAY	1/12/2004
400	1465487W	HAV	SHYAM BABU PRASAD SINGH	1/9/2004
401	1466135L	HAV	SIKANDAR SINGH	1/11/2004
402	1465441N	HAV	SOMA KANDULNA	1/9/2004
403	1554555N	HAV	SONAWANE MANOHAR RANGARAO	1/10/2004
404	1465431K	HAV	SUKHMINDER SINGH	1/9/2004
405	8026012K	HAV	TARA CHAND	1/11/2004
406	1466056W	HAV	TUN TUN SINGH	1/11/2004
407	1461950P	HAV	UMA SHANKAR THAKUR	1/10/2004

BOMBAY ENGINEER GROUP

408	1555456X	HAV	ALLANOR	1/1/2005
409	1554853K	HAV	AMANUL HAQUE IDRISI	1/11/2004
410	1555024H	HAV	AMARJIT SINGH	1/11/2004
411	1555307K	HAV	ASHOK KUMAR	1/12/2004
412	1555547F	HAV	ASHOK TUKARAM NIKAM	1/1/2005
413	1555200P	HAV	BABU NAND TIWARI	1/12/2004
414	1555033K	HAV	BHIM SINGH	1/12/2004
415	1554902F	HAV	BRIJ BIHARI	1/11/2004
416	1554990H	HAV	CHAND RAM	1/11/2004
417	1555601K	HAV	CHAND RAMA SINGH	1/1/2005
418	1555004P	HAV	CHANI RAM	1/11/2004
419	1555394H	HAV	CHINTALA RATHANIAH	1/1/2005
420	1555391P	HAV	CHIRANJI	1/1/2005
421	1555624L	HAV	DALVI MOHAN GANPAT	1/1/2005
422	1555101M	HAV	DARSHAN SINGH	1/12/2004
423	1555326P	HAV	DARU LAL	1/12/2004
424	1555218L	HAV	DINESH CHANDER	1/12/2004
425	1554475W	HAV	HARBANS SINGH	1/10/2004
426	1554803Y	HAV	HARGOPAL SINGH	1/11/2004
427	1555478W	HAV	HARISH CHANDRA	1/1/2005
428	1555198H	HAV	HARISH CHANDRA UPADHYAYA	1/12/2004
429	1555495W	HAV	HARNEK SINGH	1/1/2005
430	1555472P	HAV	HARPAL	1/1/2005
431	1555286Y	HAV	HAYAT SINGH	1/12/2004
432	1554387A	HAV	JAGJIT SINGH	1/10/2004
433	1554796N	HAV	JARNAIL SINGH	31-10-2004
434	1465356L	HAV	JARNAIL SINGH	1/9/2004
435	1555251H	HAV	JASPAL SINGH	1/12/2004
436	1554598H	HAV	KALE SARJERAO DADARAO	1/10/2004

437	1554817Y	HAV	KAMTA SHARMA	1/11/2004
438	1555338K	HAV	KHOSE SHIVAJI BAJRANG	1/12/2004
439	1554456L	HAV	KHOT KRISHNATH LAHU	1/10/2004
440	1550613P	HAV	KULDIP SINGH	1/11/2004
441	1555527N	HAV	LADE REWAJI MADHURAO	1/1/2005
442	1554156K	HAV	M CHANDRAN	1/9/2004
443	1550445F	HAV	MADAN LAL	1/9/2004
444	1555175F	HAV	MAHAVIR PRASAD NAI	1/12/2004
445	1555034M	HAV	MEHETRE UMAJI SAKHARAM	1/12/2004
446	1555393A	HAV	NANAR SINGH	1/1/2005
447	1554384M	HAV	NAND KUMAR SHANKAR SAKPAL	1/10/2004
448	1554368P	HAV	NAVADKAR VISHWAS SHANKAR	1/10/2004
449	1555417Y	HAV	NET RAM SINGH	1/1/2005
450	1555580Y	HAV	PARSHOTAM LAL	1/1/2005
451	1555598P	HAV	PUNI CHAND	1/1/2005
452	1554869P	HAV	PURAN SINGH	1/11/2004
453	1554640W	HAV	RAJU SINGH	1/10/2004
454	1554511W	HAV	RAM AVTAR SINGH	1/10/2004
455	1555423M	HAV	RAM KUMAR SINGH	1/1/2005
456	1555582K	HAV	RAMESH CHAND	1/1/2005
457	1550742P	HAV	ROSHAN LAL	1/12/2004
458	1554940X	HAV	SATHE TUKARAM JOTIBA	1/11/2004
459	1555142W	HAV	SHAHID ALI	1/11/2004
460	1554830H	HAV	SHANTI SARUP	1/11/2004
461	1554470X	HAV	SHESHMANI SHARMA	1/10/2004
462	1550529P	HAV	SHIV LAL	1/10/2004
463	1555409A	HAV	SHRI KRISHAN	1/1/2005
464	1554755K	HAV	SUBHAN MOHAMMAD	1/10/2004
465	1554713X	HAV	SUBHASH	1/10/2004
466	1554795L	HAV	SUKHMINDER SINGH	1/11/2004
467	1555334N	HAV	SURESH PRASAD MISHRA	1/12/2004
468	1554982K	HAV	SURINDER KUMAR	1/11/2004
469	1554923X	HAV	SURJIT SINGH	1/11/2004
470	1555235L	HAV	SURJIT SINGH	1/12/2004
471	1555073L	HAV	SWARN SINGH	1/12/2004
472	1554737F	HAV	SYANI SIMHADRI	1/10/2004
473	1554340P	HAV	TELU RAM SEEKHU	1/10/2004
474	1555180M	HAV	UNISH ALI KHAN	1/12/2004

CORPS OF SIGNALS

475	14241225X	HAV	ALBER SINGH	1/1/2005
476	14239348L	HAV	ALOKE KUMAR DAS	1/10/2004
477	14241141K	HAV	ANISH AHMED	1/1/2005
478	14239026L	HAV	ASHOK KUMAR	1/10/2004
479	14229155X	HAV	ASHOK RAM RAO KADAM	1/1/2005
480	14241457W	HAV	ASHRFI YADAV	1/1/2005
481	14240818X	HAV	ATKARI PANDIT SADASHIVA RAO	1/1/2005
482	14240915P	HAV	ATTAR SINGH	1/1/2005
483	14240487F	HAV	BAISAKU LAL	1/12/2004
484	14240134F	HAV	BARU SINGH	1/12/2004
485	14299174A	HAV	BHAGIRATH SINGH	1/10/2004

486	14236565W	HAV	BHAGWAT BAITHA	1/11/2004
487	14240585F	HAV	BHAWANI LAL YADAV	1/12/2004
488	14239176F	HAV	BIKRAM SINGH	1/10/2004
489	14241065H	HAV	BUTA SINGH	1/1/2005
490	14239987M	HAV	C JAYA RAMAN	1/11/2004
491	14240529H	HAV	CHANAPPA ALGOUDA SANGASURI	1/12/2004
492	14240676L	HAV	CHANDERA BHUSHAN KUMAR SINHA	1/12/2004
493	14238942A	HAV	CHANDIRA SEKARAN R	1/10/2004
494	14239142N	HAV	CHAUDHARI PADMAKAR PUNDLIK	1/10/2004
495	14240871H	HAV	CHHABI NATH SINGH	1/1/2005
496	14241000P	HAV	CHHAJU RAM	1/1/2005
497	14239593N	HAV	DAYA SHANKAR	1/11/2004
498	14238116A	HAV	DHARAM RAJ SINGH	1/9/2004
499	14241361N	HAV	DURG VIJAY SINGH	1/1/2005
500	14240587M	HAV	DUVVURI VENKATA RAMANA	1/12/2004
501	14241077X	HAV	FOJDAR SINGH	1/1/2005
502	14240401X	HAV	G PARAMA SHIVAM	1/12/2004
503	14241191P	HAV	G VELU	1/1/2005
504	14239254N	HAV	GANESH CHANDRA DWIVEDI	1/10/2004
505	14241062P	HAV	GANGA PRASAD	1/1/2005
506	14228822N	HAV	GORAKH NATH TIWARI	1/10/2004
507	14238690Y	HAV	GOUR PADA SARKAR	1/10/2004
508	14240827Y	HAV	HARI RAM MAHALA	1/1/2005
509	14239825F	HAV	HARI SHANKAR SHARMA	1/11/2004
510	14239004M	HAV	HARI SINGH	1/10/2004
511	14239634M	HAV	HARIBA	1/11/2004
512	14240672P	HAV	HARJIT SINGH	1/12/2004
513	14240429X	HAV	J THOMAS JOHN BOSCO	1/12/2004
514	14241368X	HAV	JAGDISH PRASAD	1/1/2005
515	14240223A	HAV	JAIPAL SINGH	1/12/2004
516	14241325H	HAV	JAN MOHAMMED	1/1/2005
517	14240232F	HAV	JAYPAL SINGH	1/12/2004
518	14239659Y	HAV	JHAGRU RAM PRAJAPAT	1/10/2004
519	14238870F	HAV	JITEN NATH KUNDU	1/10/2004
520	14240297P	HAV	K SAM RAJ	1/12/2004
521	14239249H	HAV	KAILASH CHANDER NAI	1/10/2004
522	14240493P	HAV	KALE CHENNAIAH	1/12/2004
523	14239918W	HAV	KALICHARAN	1/11/2004
524	14235987P	HAV	KALKA PRASAD	1/1/2005
525	14240946P	HAV	KAMESHWAR YADAV	1/1/2005
526	14241312L	HAV	KAMLA PRASAD	1/1/2005
527	14240816M	HAV	KAMTA PRASAD	1/1/2005
528	14238545F	HAV	KANWAR SINGH	1/9/2004
529	14241245L	HAV	KAPOOR SINGH	1/1/2005
530	14238215H	HAV	KARTAR SINGH	1/9/2004
531	14241053N	HAV	KARTAR SINGH	1/1/2005
532	14240966H	HAV	KARYANAND PRASAD	1/1/2005
533	14240576A	HAV	KASHMIR SINGH	1/12/2004
534	14240753P	HAV	KOMAROLU RAMASUBBAIAH	1/1/2005
535	14240074X	HAV	LAKHA SINGH	1/11/2004
536	14240340L	HAV	LALITA PRASAD	1/12/2004
537	14240479H	HAV	LAXMAN SINGH	1/12/2004

538	14238734L	HAV	LAXMAN SINGH	1/10/2004
539	14240790H	HAV	MADHESHWAR THAKUR	1/1/2005
540	14238423X	HAV	MALKHAN SINGH	1/9/2004
541	14240488K	HAV	MANGLI RAM	1/12/2004
542	14240431P	HAV	MD ASLEM KHAN	1/12/2004
543	14241370P	HAV	MD ISRAR KHAN	1/1/2005
544	14240460K	HAV	MOHAN LAL	1/12/2004
545	14239810Y	HAV	MOHMMED SHARFUDDIN	1/11/2004
546	14240961K	HAV	NAGENDRA SINGH	1/1/2005
547	14240536Y	HAV	NANDAN PARSAD	1/12/2004
548	14241310A	HAV	NARENDRA SINGH YADAV	1/1/2005
549	14241264W	HAV	NARESH KUMAR	1/1/2005
550	14238770W	HAV	NETAI PADA MALI	1/10/2004
551	14240329M	HAV	NIRMAL KUMAR GUPTA	1/12/2004
552	14240397A	HAV	PARKASH CHAND	1/12/2004
553	14240439F	HAV	PATEL PRAVIN BHAI SENDHABHAI	1/12/2004
554	14299179Y	HAV	PRAKASH	1/10/2004
555	14240112H	HAV	PRATAP CHANDRA PRADHAN	1/12/2004
556	14239344P	HAV	PURASTAMA GURU	1/10/2004
557	14240592X	HAV	PURUSOTTAM MAHANTA	1/12/2004
558	14239817H	HAV	R MANI	1/11/2004
559	14238388A	HAV	RABINDER KUMAR MEHTA	1/9/2004
560	14238918K	HAV	RADHA KRISHNA	1/10/2004
561	14239702P	HAV	RAJA RAM PRASAD	1/11/2004
562	14240709L	HAV	RAJENDER SINGH	1/12/2004
563	14238300L	HAV	RAM KHILARI	1/9/2004
564	14239830M	HAV	RAM MEHAR	1/11/2004
565	14240868H	HAV	RAM PRAKASH	1/1/2005
566	14240876F	HAV	RAMESH KUMAR	1/1/2005
567	14239592L	HAV	RAMESH OJHA	1/11/2004
568	14240758N	HAV	RANJEET SINGH	1/1/2005
569	14238910X	HAV	RATAN SINGH	1/10/2004
570	14238249W	HAV	RAUT DILIP BALIRAM	1/9/2004
571	14241315Y	HAV	RAVINDER SINGH	1/1/2005
572	14240835X	HAV	RISHIPAL	1/1/2005
573	14237997X	HAV	S DHAYANITHY	1/9/2004
574	14240473F	HAV	SAMPURAN SINGH SALATHIA	1/12/2004
575	14239027N	HAV	SANTER PAL SINGH	1/10/2004
576	14229032L	HAV	SATYA DEO	1/12/2004
577	14299187X	HAV	SAWEK SINGH	1/10/2004
578	14240666F	HAV	SHALENDRA SINGH BAYAS	1/12/2004
579	14238393L	HAV	SHANKRA RAM	1/9/2004
580	14239124L	HAV	SHATRUGHAN TIWARI	1/10/2004
581	14240859F	HAV	SHIB KUMAR	1/1/2005
582	14238615P	HAV	SHIVNANDAN PRASAD	1/9/2004
583	14241058M	HAV	SHREENATH RAM	1/1/2005
584	14299205P	HAV	SHYAM LAL	1/10/2004
585	14238113M	HAV	SIVAN PILLAI V	1/9/2004
586	14240470N	HAV	SREERAM	1/12/2004
587	14241339H	HAV	SRI KRISHAN RABAT	1/1/2005
588	14241057K	HAV	SUBHASH RAY	1/1/2005
589	14240228Y	HAV	SUDAMA PRASAD	1/12/2004

590	14240540F	HAV	SUDAMA YADAV	
591	14240105M	HAV	SUKHWINDER SINGH	1/12/2004
592	14239347H	HAV	SURENDRA PRASAD GUPTA	1/12/2004
593	14238671N	HAV	SUSANTA BANDOPADHYAY	1/10/2004
594	14241105Y	HAV	TALE SINGH YADAV	1/10/2004
595	14239280P	HAV	TAPAN KUMAR ROY	1/1/2005
596	14241167Y	HAV	UMA SHANKAR	1/10/2004
597	14239500N	HAV	UPENDRA BHAGAT	1/1/2005
598	14241445F	HAV	UPENDRA PRASAD	1/10/2004
599	14240861Y	HAV	USMAN AHMED ANSARI	1/1/2005
600	14239729M	HAV	V CHINNA SAMY	1/1/2005
601	14240188H	HAV	venu GOPAL B	1/11/2004
602	14241120N	HAV	VIJAI KUMAR	1/11/2004
603	14240018Y	HAV	VIJAYAN T T	1/1/2005
604	14240887N	HAV	VIJENDRA PAL	1/11/2004
605	14240985N	HAV	VINOD KUMAR	1/1/2005
606	14238980W	HAV	VIRENDRA SINGH	1/1/2005
607	14241125M	HAV	YALLAPU NOOKA RAJU	1/10/2004
608	14240290L	HAV	YOGENDRA SHARMA	1/1/2005
THE BRIGADE OF GUARDS				

609	13681049L	HAV	AJAB SINGH	1/12/2004
610	13681285M	HAV	AMRIK SINGH	1/10/2004
611	13681116L	HAV	BAL DEV SINGH	1/11/2004
612	13681607F	HAV	BANSHIDHAR	1/9/2004
613	13681550X	HAV	BRAMPAL SINGH	1/1/2005
614	13681131A	HAV	CHAMANDA RAM	1/1/2005
615	13681279Y	HAV	CHANDRIKA PRASAD	1/10/2004
616	13681132H	HAV	DURNA GOGOI	1/11/2004
617	13681249F	HAV	GAIN SINGH	1/10/2004
618	13681381F	HAV	GANESH DATT	1/11/2004
619	13681358N	HAV	GOPAL JEE PRASAD	1/12/2004
620	13681351K	HAV	GOVIND SINGH	1/12/2004
621	13681589K	HAV	HAZARI SINGH	1/12/2004
622	13681081A	HAV	HEM RAJ	1/1/2005
623	13681086Y	HAV	HEMA RAM	1/10/2004
624	13745913A	HAV	JAGDISH CHAND	1/10/2004
625	13680902X	HAV	JANARDAN SINGH	1/11/2004
626	13680943F	HAV	JHABBU SINGH	1/9/2004
627	13677887H	HAV	KASHMIR SINGH	1/9/2004
628	13680987Y	HAV	KATAK CHAND	1/1/2005
629	13681068W	HAV	KESHAR LAL	1/9/2004
630	13681227H	HAV	KISHAN LAL	1/10/2004
631	13681348K	HAV	KRISHAN KUMAR	1/10/2004
632	13681602H	HAV	LALAN SINGH YADAV	1/11/2004
633	13681504H	HAV	LAXMI NARAYAN	1/1/2005
634	13681321M	HAV	LOHAR DADA RANGANATH	1/12/2004
635	13681314W	HAV	MAHESH CHANDRA	1/12/2004
636	13680991F	HAV	MAN SINGH	1/12/2004
637	13681641F	HAV	NATARAJAN K	1/9/2004
638	13680945M	HAV	NAZURUDDIN RAMZAN MULTANI	1/1/2005
				1/9/2004

639	13681422A	HAV	OM PRAKASH	
640	13681404X	HAV	OMKAR SINGH	1/12/2004
641	13680968N	HAV	PARMESHWAR YADAV	1/12/2004
642	13681510W	HAV	POORAN SINGH	1/9/2004
643	13681385X	HAV	PRABHAT GOGOI	1/1/2005
644	13681010Y	HAV	PRADIP SINGH	1/12/2004
645	13681549H	HAV	RAGHUBIR SINGH	1/10/2004
646	13681678H	HAV	RAJ KISHORE SINGH	1/1/2005
647	13681606Y	HAV	RAJENDRA SINGH	1/1/2005
648	13680948A	HAV	RAJENER KUMAR	1/1/2005
649	13681208X	HAV	RAM BABU SINGH	1/9/2004
650	13680936L	HAV	RAM BHAGWAN SHARMA	1/11/2004
651	13680953L	HAV	RAM HET YADAV	1/9/2004
652	13681297F	HAV	RAM NIWAS	1/9/2004
653	13681539Y	HAV	RAM PADARTH SINGH	1/12/2004
654	13681325H	HAV	RAM PRATAP SONAR	1/1/2005
655	13681203Y	HAV	RAMJI LAL	1/12/2004
656	13680951A	HAV	RAN SINGH	1/1/2005
657	13745650M	HAV	RATTAN CHAND	1/9/2004
658	13681271M	HAV	SANTAN PRASAD	1/9/2004
659	13680906N	HAV	SARJIT	1/11/2004
660	13681664H	HAV	SATYAPAL	1/9/2004
661	13681097L	HAV	SATYAVEER SINGH KARELA	1/1/2005
662	13681559M	HAV	SEVA DASS	1/10/2004
663	13680954N	HAV	SHARVAN KUMAR UPADHYAY	1/1/2005
664	13681498A	HAV	SREENIVAS SINGH	1/9/2004
665	13681058M	HAV	SUKHBIR SINGH	1/1/2005
666	13681562M	HAV	SUNDARESAN N	1/10/2004
667	13681139M	HAV	TIKAM	1/1/2005
668	13681252F	HAV	USMAN ALI	1/10/2004
669	13681626M	HAV	VIJAI SINGH	1/11/2004
670	13681608K	HAV	VINDESHWAR PRASAD	1/1/2005
				1/1/2005

THE PARACHUTE REGIMENT

671	13613752A	HAV	AMAR SINGH	
672	13613837W	HAV	ARVIND SINGH	1/9/2004
673	13612331L	HAV	BASA PRABHU MAGADUM	1/11/2004
674	13613891K	HAV	BHAJAN SINGH	1/12/2004
675	13612110Y	HAV	BHAKATA BAHADUR	1/1/2005
676	13613816A	HAV	BHUP SINGH YADAV	1/9/2004
677	13613780M	HAV	DAWARIKA PRASAD	1/10/2004
678	2877884L	HAV	DEVENDRA PRATAP SINGH	1/10/2004
679	13612109K	HAV	HARI LAL	1/1/2005
680	13613836N	HAV	KABINDRA SINGH	1/9/2004
681	13613831P	HAV	KEWAL KRISHAN	1/11/2004
682	13613844M	HAV	OM PRAKASH	1/11/2004
683	13613772N	HAV	RAM KHELAWAN	1/11/2004
684	13612206F	HAV	ROMESH CHANDER	1/9/2004
685	3982527X	HAV	SAKINDER SINGH	1/10/2004
686	13613903N	HAV	SUNDER CHAND	1/1/2005
687	13613859P	HAV	TILAK RAJ	1/1/2005
				1/12/2004

THE MECHANISED INFANTRY REGIMENT

688	14900685W	HAV	14900685W	1/9/2004
689	13746546L	HAV	AJIT SINGH	1/1/2005
690	14900790M	HAV	AMBRE KRISHNA BHIKAJI	1/9/2004
691	2979340K	HAV	BABU LAL	1/10/2004
692	14900890X	HAV	BAIJNATH PRASAD	1/10/2004
693	14900881W	HAV	BALMEEK PRASAD	1/9/2004
694	14900882Y	HAV	BHAN SINGH	1/9/2004
695	14900899M	HAV	BHANWAR SINGH	1/10/2004
696	2979080K	HAV	BHANWAR SINGH KARAMSOT	1/9/2004
697	2979536X	HAV	BHARAT SINGH	1/10/2004
698	2979525L	HAV	BHEEM SINGH	1/10/2004
699	14900722Y	HAV	BHOSLE PANDURANG DAGDU	1/9/2004
700	2979037H	HAV	BISHRAM SINGH	1/9/2004
701	14901096M	HAV	DAL BAHADUR RAI	1/1/2005
702	13746110A	HAV	DALBIR SINGH	1/12/2004
703	14900664A	HAV	DALEL SINGH	1/9/2004
704	2979617X	HAV	DEVI SINGH	1/10/2004
705	14900998P	HAV	DHANESHWAR SAHU	1/1/2005
706	14900892H	HAV	DHANNA SINGH	1/10/2004
707	2979220L	HAV	DHARAM PAL	1/10/2004
708	14900932Y	HAV	DIWAN SINGH	1/10/2004
709	13746337N	HAV	HANS RAJ	1/1/2005
710	14900844H	HAV	HARI SINGH	1/9/2004
711	14900929Y	HAV	JAI PAL	1/10/2004
712	2980104P	HAV	JAI PARKASH	1/1/2005
713	14900754F	HAV	JAYAKANTHAN K	1/9/2004
714	14900853K	HAV	JOGINDER SINGH	1/9/2004
715	14900792X	HAV	JOKH BAHADUR BHANDARI	1/9/2004
716	2979368K	HAV	JYOTI PARSHAD	1/10/2004
717	14902324W	HAV	KALU RAM	1/10/2004
718	2979190Y	HAV	KAN SINGH	1/9/2004
719	3977521M	HAV	KANS RAJ	1/12/2004
720	14900791P	HAV	KHERA NAND GINWALI	1/9/2004
721	14900831L	HAV	KRISHAN KUMAR SHARMA	1/9/2004
722	2980155H	HAV	KRISHAN PAL SINGH	1/1/2005
723	13746131W	HAV	KRISHAN SINGH	1/12/2004
724	2979029K	HAV	LILA RAM	1/9/2004
725	2979716A	HAV	MAHAK SINGH	1/11/2004
726	14900984P	HAV	MANE BHAGWAN TUKARAM	1/1/2005
727	14900972A	HAV	MANI KUMAR TAMANG	1/9/2004
728	14900806M	HAV	MOHINDER SINGH	1/9/2004
729	2980303H	HAV	NAR SINGH	1/1/2005
730	2980179M	HAV	NARAYAN SINGH	1/1/2005
731	14900780H	HAV	NIRMAL CHAND	1/9/2004
732	14901102P	HAV	PADAM BAHADUR TAMANG	1/1/2005
733	2979895L	HAV	PRADEEP SINGH CHAUHAN	1/12/2004
734	14900833W	HAV	PRAKASH CHAND MEENA	1/9/2004
735	5748655L	HAV	PRASAD GURUNG	1/12/2004
736	14900840M	HAV	PRASANT SINGH	1/9/2004

737	14900798Y	HAV	PRITAM CHAND	1/9/2004
738	2979460H	HAV	RAJA RAM GURJAR	1/10/2004
739	13745811K	HAV	RAKESH SINGH	1/11/2004
740	5244206W	HAV	RAM ASARE	1/11/2004
741	14900976W	HAV	RAM CHANDER SAHNI	1/12/2004
742	14900905P	HAV	RAM NARESH SINGH	1/10/2004
743	14901008L	HAV	RAM PRAKASH SINGH	1/1/2005
744	14900920K	HAV	RAM SANEHI	1/10/2004
745	14900925H	HAV	RAMAKANT	1/10/2004
746	2979521P	HAV	RAMJILAL GURJAR	1/10/2004
747	2978989W	HAV	RAMOTAR	1/9/2004
748	14900917K	HAV	RAMVIR SHARMA	1/10/2004
749	14900990H	HAV	SANWAL RAM	1/1/2005
750	2979737W	HAV	SATISH CHAND BHATT	1/11/2004
751	13746488M	HAV	SOHAN SINGH	1/1/2005
752	14900887X	HAV	SUBASH CHANDER	1/10/2004
753	14900795L	HAV	SURENDRA BAHADUR THAPA	1/9/2004
754	14900710K	HAV	SURYA PARKASH	1/9/2004
755	14900778L	HAV	SWARAM SINGH	1/9/2004
756	14900766W	HAV	TIRATH SINGH	1/9/2004
757	14900960L	HAV	UDAI KUMAR CHHETRI	1/9/2004

THE PUNJAB REGIMENT

758	2473546H	HAV	BALBIR SINGH	1/11/2004
759	2473512P	HAV	BALDEV SINGH	1/10/2004
760	2473508M	HAV	BUDHAN SINGH	1/10/2004
761	2473748K	HAV	ISHWAR DASS	1/12/2004
762	2473500A	HAV	MEKU	1/10/2004
763	2473501H	HAV	NAIN SINGH	1/10/2004
764	2473774L	HAV	RASHPAL SINGH	1/12/2004
765	2473570Y	HAV	SUKHRAJ SINGH	1/11/2004

THE MADRAS REGIMENT

766	2583325Y	HAV	A JESURAJU	1/11/2004
767	2582878H	HAV	A SAMIKANNU	1/10/2004
768	2582513N	HAV	ANIL KUMAR PK	1/9/2004
769	2582638L	HAV	BABU PUTHIYATH	1/9/2004
770	2582623H	HAV	BAŠANA GOUDA VEERANA GOUDA GOUDAR	1/9/2004
771	2582473X	HAV	BHEEMAPPA HULAGAPPA BANDIWADDER	1/9/2004
772	2582485M	HAV	BN BELLIAPPA	1/9/2004
773	2583545H	HAV	C MARUTHAPPAN	1/1/2005
774	2583368N	HAV	C SURENDRA REDDY	1/12/2004
775	2582819W	HAV	DADA MASANI	1/10/2004
776	2583364X	HAV	DAMALA BALA CHENNAIAH	1/12/2004
777	2582668H	HAV	DUDALA SHIVA KUMAR	1/9/2004
778	2583280K	HAV	DUGGI REDDY RAMANJANEYA REDDY	1/11/2004
779	2583426M	HAV	ELANGOVAN	1/12/2004
780	2583014L	HAV	FRANCIS A	1/10/2004
781	2582856K	HAV	G SUNDARAMURTHY	1/10/2004
782	2582958A	HAV	GANGARAM YALLAPPA NAIK	1/10/2004

783	8027867Y	HAV	GOPALAN P	1/9/2004
784	2582508H	HAV	GORRALA VENKATA RAMA MOORTHY	1/9/2004
785	2582569A	HAV	GOURANNA RAMESH PAYAPPA	1/9/2004
786	2582938M	HAV	JESSENTHIRAN	1/10/2004
787	2582476L	HAV	K GOPAL	1/9/2004
788	2583082Y	HAV	K JAYARAMAN	1/11/2004
789	2582813P	HAV	K MATHU	1/10/2004
790	2582879L	HAV	K RAJENDRAN	1/10/2004
791	2583230Y	HAV	K SELVARAJ	1/11/2004
792	2582639N	HAV	KALLANA GOUDRA SHANKAR GOUDA	1/9/2004
793	2582822W	HAV	KANDA BEHARA	1/10/2004
794	2583420L	HAV	M GANESHAN	1/12/2004
795	2582456X	HAV	M KUMAR	1/9/2004
796	2583338W	HAV	M SUBBAIAH	1/12/2004
797	2582912X	HAV	MADRI MATHAIAH	1/10/2004
798	2583468Y	HAV	MAGULURI RAMESH	1/12/2004
799	2582944A	HAV	MATHEW C	1/10/2004
800	2583332P	HAV	MOHANAN D	1/11/2004
801	2583226W	HAV	MOHANAN KM	1/11/2004
802	2582605A	HAV	MUTAGUDD NAGAPPA	1/9/2004
803	2582551K	HAV	P CHINNA SWAMY	1/9/2004
804	2583465L	HAV	P THOMAS	1/12/2004
805	2583384L	HAV	PALAKAVETI SAMBAMURTHY	1/12/2004
806	2583031L	HAV	PRABHAKARAN NAIR R	1/10/2004
807	2582948W	HAV	PRASANNAN MR	1/10/2004
808	2583258Y	HAV	R PANNEER SELVAM	1/11/2004
809	2582849N	HAV	R SUKUMAR	1/10/2004
810	2582946L	HAV	RADHAKRISHNAN NAIR AT	1/10/2004
811	8027982Y	HAV	RAJAN TP	1/11/2004
812	2583068M	HAV	RAJENDRAN V	1/11/2004
813	2582973P	HAV	RAVINDRAN	1/10/2004
814	2583471Y	HAV	REVI KC	1/12/2004
815	2582518M	HAV	S KALIDAS	1/9/2004
816	2583534W	HAV	SASIDHARAN TS	1/1/2005
817	2582899Y	HAV	SETTY SIVAKUMAR	1/10/2004
818	25827555W	HAV	SHAIK KHAJAPPEER	1/9/2004
819	2582984F	HAV	SHIVALINGAYYA CHANNAYYA PUJARI	1/10/2004
820	2583276F	HAV	SUDHAKARAN THEKKINANDI	1/11/2004
821	2583217P	HAV	SUNDU PALLI HANUMANTAIAH	1/11/2004
822	2582592N	HAV	SURESH KUMAR K	1/9/2004
823	2582617P	HAV	T MARIAPPAN	1/9/2004
824	2583480A	HAV	T SELVAM	1/12/2004
825	2583124A	HAV	UNNIKRISHNAN K	1/10/2004
826	2583150F	HAV	V AYYAR	1/11/2004
827	2582449F	HAV	V KARUNGAN	1/9/2004
828	2582877A	HAV	V SIVASUBRAMANIAN	1/10/2004
829	2583075H	HAV	V VARATHARAJAN	1/11/2004
<u>THE GRENADIERS</u>				
830	2674580Y	HAV	AHMAD ALI	1/1/2005
831	2674429N	HAV	AMIN KHAN	1/1/2005

832	2673574Y	HAV	ASHOK SINGH	1/10/2004
833	2673371P	HAV	BALAM RAM	1/9/2004
834	2673475W	HAV	BHOOR SINGH	1/9/2004
835	2673824P	HAV	CHANDRA SINGH	1/11/2004
836	2673379F	HAV	DESH RAJ	1/9/2004
837	2674352W	HAV	DEV LAL	1/12/2004
838	2673538N	HAV	DEVI SINGH	1/10/2004
839	2674177M	HAV	DEVKI NANDAN	1/12/2004
840	2673316Y	HAV	GHAR SINGH	1/9/2004
841	2673393N	HAV	HUKAM SINGH	1/9/2004
842	2673735W	HAV	INDER SINGH BHATI	1/10/2004
843	2674623H	HAV	JITENDRA SINGH	1/1/2005
844	2673784Y	HAV	KAILASH SINGH	1/10/2004
845	2673969A	HAV	KUMER SINGH	1/11/2004
846	2673917K	HAV	MADAN LAL	1/11/2004
847	2673831L	HAV	MAHAVIR PARSHAD	1/11/2004
848	2673413W	HAV	MAHTAB SINGH	1/9/2004
849	2674434Y	HAV	MANGI KATHAT	1/1/2005
850	2673610Y	HAV	MOHAMMAD SABIR	1/10/2004
851	2673485A	HAV	MOHAN LAL	1/9/2004
852	2673762A	HAV	MOOL SINGH	1/10/2004
853	2674124N	HAV	OM PARKASH	1/12/2004
854	2673658M	HAV	PRAKASH CHAND	1/10/2004
855	2674491A	HAV	RAGHUNATH SINGH	1/1/2005
856	2673418P	HAV	RAJ SINGH	1/9/2004
857	2674342M	HAV	RAJARAM	1/12/2004
858	2673820Y	HAV	RAJPAL	1/11/2004
859	2673964F	HAV	RAJU SINGH	1/11/2004
860	2673411L	HAV	RAM KUMAR	1/9/2004
861	2674070X	HAV	RAMDEV SINGH	1/11/2004
862	2673605N	HAV	RAMJI RAM	1/10/2004
863	2673529M	HAV	SANSAR CHAND	1/10/2004
864	2673478K	HAV	SHIV NATH	1/9/2004
865	2674341K	HAV	SURESH	1/12/2004
866	2674424P	HAV	TALAPADA MANU BHAI BHDHA BHAI	1/1/2005
867	2673660K	HAV	TEK CHAND	1/10/2004

THE MARATHA LIGHT INFANTRY

868	2774322N	HAV	AMBADAS RAMBHU GANAGE	1/9/2004
869	2774905W	HAV	AMBRE PRAMOD BALWANT	1/11/2004
870	2775402X	HAV	ASHOK DEVAPPA PARABHALE	1/1/2005
871	2775136K	HAV	ASHOK KUMAR	1/12/2004
872	2774879A	HAV	ASHOK SAMRAO PATIL	1/11/2004
873	2774894P	HAV	BASANT DADA CHAVAN	1/11/2004
874	2775152F	HAV	BHANDE GORAKH PANDURANG	1/12/2004
875	2774852H	HAV	BHIMRAO YALLAPPA ATHWADKAR	1/11/2004
876	2775159L	HAV	BHOJNE NARAYAN MANIKRAO	1/12/2004
877	2774932A	HAV	C K SHIVALINGAPPA	1/11/2004
878	2774667P	HAV	DEVKAR SUBHASH SAKHARAM	1/10/2004
879	2774565Y	HAV	DOSHI CHANDRAKANT BHIMRAO	1/10/2004
880	2774732K	HAV	GAIKWAD MOHAN KASIRAM	1/10/2004

881	2774851A	HAV	GAWADE YESVANT SONU	1/11/2004
882	2775431M	HAV	GHULE BHASKAR RAMBHAU	1/1/2005
883	2775286A	HAV	HEMBODE VISHNU GANPATI	1/1/2005
884	2774996L	HAV	KADAM TANAJI SHAMRAO	1/11/2004
885	2775036Y	HAV	KAMBLE MARUTI	1/11/2004
886	2774393P	HAV	KASHID BHANUDAS DNYANU	1/9/2004
887	2774922W	HAV	KHENAT RAMDASS DAGDU	1/11/2004
888	2775144H	HAV	MADHU MOHANAN PILLAI T	1/12/2004
889	2775374W	HAV	MANAGUTKAR NARAYAN BABU	1/1/2005
890	2775137M	HAV	MARUTI	1/12/2004
891	2775290H	HAV	MORE TANAJI NIVRUTI	1/1/2005
892	2774729K	HAV	NAMDEO BALU JADHAV	1/10/2004
893	2775112A	HAV	NARSING	1/12/2004
894	2774535F	HAV	PATIL ASHOK YALLAPPA	1/9/2004
895	2774684P	HAV	PATIL SHANKAR MARUTI	1/10/2004
896	2774299L	HAV	POPAT PANDURANG JADHAV	1/9/2004
897	2776239P	HAV	RADHE SHYAM	1/10/2004
898	2774620K	HAV	RAMCHANDRA NARSI KHADE	1/10/2004
899	2774622P	HAV	RAMESH PENDARKAR	1/10/2004
900	2771607P	HAV	S BOSE	1/1/2005
901	2774731F	HAV	SAMBHAJI ANNAPPA PATIL	1/10/2004
902	2774797X	HAV	SHAHAJI DHONDI JADHAV	1/10/2004
903	2774552F	HAV	SHINDE NARAYAN	1/9/2004
904	2774927P	HAV	SURESH SAVANT	1/11/2004
905	2775423N	HAV	TANAJI GAYAKWAD	1/1/2005

THE RAJPUTANA RIFLES

906	2878104F	HAV	ACHLA RAM	1/1/2005
907	2878162L	HAV	AVDHESH SINGH	1/1/2005
908	2878095L	HAV	BHUP SINGH	1/1/2005
909	2876946N	HAV	BRAHAM PAL	1/10/2004
910	2877338Y	HAV	DALIP SINGH	1/11/2004
911	2877707L	HAV	DEVINDER THAKUR	1/12/2004
912	2877363X	HAV	DHARAM VIR	1/11/2004
913	2877292F	HAV	GOPAL RAM	1/11/2004
914	2877582Y	HAV	JAIPAL SINGH	1/12/2004
915	2877670P	HAV	JATINDER KUMAR SINGH CHAUHAN	1/12/2004
916	2877135P	HAV	KAN SINGH CHAMPAWAT	1/11/2004
917	2877124H	HAV	KIRAN PAL SINGH	1/11/2004
918	2876975H	HAV	LAL BAHADUR THAPA	1/10/2004
919	2878034N	HAV	MAHENDAR SINGH	1/1/2005
920	2876913H	HAV	MAHENDER SINGH	1/10/2004
921	2877885N	HAV	MAHESH SINGH	1/1/2005
922	2877035K	HAV	MOHINDER SINGH PUNIA	1/10/2004
923	2878087M	HAV	NAR SINGH	1/1/2005
924	2877062N	HAV	NARAYAN SINGH	1/10/2004
925	2876775M	HAV	NARENDRA PRATAP SINGH	1/9/2004
926	2877267H	HAV	OM PARKASH	1/11/2004
927	3380116H	HAV	PALE RAM	1/1/2005
928	2876988A	HAV	PIRTHI	1/10/2004
929	2878267P	HAV	PREM	1/1/2005

930	2877518F	HAV	PUKH SINGH	1/12/2004
931	2877671X	HAV	RAGHU NANDAN SINGH	1/12/2004
932	2877371W	HAV	RAM KISHAN	1/11/2004
933	2877038X	HAV	RAM LAL GHASAL	1/10/2004
934	2878160A	HAV	RAM PRATAP	1/1/2005
935	2876771W	HAV	RAM RATAN	1/9/2004
936	2877564W	HAV	RAMADHAR SINGH	1/12/2004
937	2877409P	HAV	RAMESHWAR SINGH SHEKHAWAT	1/12/2004
938	2877359P	HAV	ROSHAN SINGH RAJPUT	1/11/2004
939	2877095Y	HAV	SATVIR SINGH	1/10/2004
940	2877198X	HAV	SATYA BIR	1/11/2004
941	2876929N	HAV	SHANKAR LAL VERMA	1/10/2004
942	2877516W	HAV	SHISH RAM DHINWA	1/12/2004
943	2877246M	HAV	SHISHU PAL	1/11/2004
944	2877738L	HAV	SHISHU PAL SINGH	1/12/2004
945	3380037N	HAV	SHIV SINGH	1/1/2005
946	2876895L	HAV	SUMER SINGH	1/10/2004
947	2878202F	HAV	SURENDRA SINGH	1/1/2005
948	2877285L	HAV	VIDHYA NAND	1/11/2004
949	2877612L	HAV	VIJAY KUMAR SINGH	1/12/2004
950	2877367N	HAV	VJENDER SINGH	1/11/2004
951	2877980A	HAV	VIRENDAR SINGH	1/1/2005
952	2877150K	HAV	YASH PAL SINGH	1/11/2004
953	2877778M	HAV	YOGENDRA SINGH	1/1/2005
954	2877692N	HAV	YOGENDRA SINGH	1/12/2004

THE RAJPUT REGIMENT

955	2979556L	HAV	ANAND KUMAR	1/10/2004
956	2979854F	HAV	BASANTA KUMAR MAHATO	1/11/2004
957	2975321F	HAV	BHIM SINGH GUJAR	1/12/2004
958	2980360K	HAV	BHOLA RAM	1/1/2005
959	2979261P	HAV	CHANDGI RAM	1/10/2004
960	2980051F	HAV	CHET RAM SHAKYAWAR	1/12/2004
961	2979171N	HAV	DHARAM SINGH	1/9/2004
962	2979568A	HAV	DHARAM SINGH	1/10/2004
963	2979697A	HAV	DHERAJ SINGH	1/11/2004
964	2979950W	HAV	GANGADIN SINGH	1/12/2004
965	2979473A	HAV	GIRAND SINGH	1/10/2004
966	2979209M	HAV	HAIDER KHAN	1/9/2004
967	2979871F	HAV	HANS RAJ	1/11/2004
968	2979715X	HAV	HAWA SINGH	1/11/2004
969	2979315L	HAV	JAGDISH	1/10/2004
970	2979766L	HAV	JHANDU RAM	1/11/2004
971	2975173F	HAV	KRISHAN CHANDER	1/10/2004
972	2979109F	HAV	MAHABIR SINGH	1/9/2004
973	2979622H	HAV	MANOHAR SINGH SHEKHAWAT	1/10/2004
974	2979765H	HAV	NAGENDRA PAL SINGH	1/11/2004
975	2979497K	HAV	PARBHU RAM	1/10/2004
976	2980237L	HAV	RAJ PAL	1/1/2005
977	2978915F	HAV	RAJPAL SINGH	1/9/2004
978	2980161W	HAV	RAKESH KUMAR SINGH	1/1/2005

979	2979990X	HAV	RANJIT SINGH	1/12/2004
980	2979814A	HAV	SAGIR KHAN	1/11/2004
981	2980126N	HAV	SAMIM	1/1/2005
982	2979605H	HAV	SAWAR MAL	1/10/2004
983	2979480W	HAV	SHEO RAM SINGH CHAUHAN	1/10/2004
984	2979630F	HAV	SHRAWAN MAHALI	1/10/2004
985	2979511L	HAV	SUBHASH SINGH	1/10/2004
986	2979719N	HAV	SURENDER SINGH	1/11/2004
987	2979931L	HAV	SURENDRA SINGH	1/12/2004
988	2979704L	HAV	SURESH KUMAR	1/10/2004
989	2979743K	HAV	TEJPAL	1/11/2004
990	2979067A	HAV	VIRENDER SINGH	1/9/2004
991	2975340M	HAV	YASHPAL SINGH	1/12/2004

THE JAT REGIMENT

992	3174422X	HAV	ANIL RAJ	1/10/2004
993	3174527F	HAV	BANE SINGH	1/12/2004
994	3174388H	HAV	BHAWAR SINGH SEKHAWAT	1/10/2004
995	3174361L	HAV	BIKRAM SINGH	1/9/2004
996	3174428Y	HAV	BRIJBIR SINGH	1/10/2004
997	3174399P	HAV	DARIYAB SINGH	1/10/2004
998	3174268K	HAV	DEVI SINGH	1/9/2004
999	3174397K	HAV	GAJENDRA	1/10/2004
1000	3174478K	HAV	HOTI LAL	1/11/2004
1001	3174569N	HAV	JAI BHAGWAN	1/1/2005
1002	3174372X	HAV	JIT SINGH	1/10/2004
1003	3174551X	HAV	KARTAR SINGH	1/12/2004
1004	3174323P	HAV	KHASTI BALLABH	1/9/2004
1005	3174270F	HAV	KIRSHANPAL SINGH	1/9/2004
1006	3170080X	HAV	KRISHAN LAL	1/10/2004
1007	3170352N	HAV	OM PARKASH	1/1/2005
1008	3174520X	HAV	RAJAN SINGH	1/12/2004
1009	3174566A	HAV	RAJINDRA SINGH	1/12/2004
1010	3174472H	HAV	RAVENDRA SINGH	1/11/2004
1011	3174313L	HAV	SAJJAN SINGH	1/9/2004
1012	3174278N	HAV	SASA RAM THAPA	1/9/2004
1013	3174570H	HAV	SATYA NARAYAN NAI	1/1/2005
1014	3174488N	HAV	SHRI BHAGWAN	1/11/2004
1015	3174547P	HAV	SURASH CHANDRA	1/12/2004
1016	3174571L	HAV	UMED SINGH	1/1/2005
1017	3170444Y	HAV	ZILE SINGH	1/1/2005

THE SIKH REGIMENT

1018	3379732W	HAV	ATTAR SINGH	1/9/2004
1019	3380347Y	HAV	BIPRA SETHI	1/9/2004
1020	3379874N	HAV	DHARAM PAL	1/11/2004
1021	3379824H	HAV	DHARAM SINGH	1/11/2004
1022	3379845Y	HAV	DIWAN GIRI	1/11/2004
1023	3379720F	HAV	GURBACHAN SINGH	1/9/2004
1024	3379805X	HAV	HORI LAL	1/10/2004

1025	3380035H	HAV	KARAMJIT SINGH	1/1/2005
1026	3379976K	HAV	KARNAIL SINGH	1/12/2004
1027	3379893Y	HAV	KARNAIL SINGH	1/11/2004
1028	3379716Y	HAV	KESHAV DATT	1/9/2004
1029	3379827W	HAV	KESHAV DUTT JOSHI	1/11/2004
1030	3379932M	HAV	KISHORI LAL	1/12/2004
1031	3379807H	HAV	MAHINDER SINGH	1/10/2004
1032	3379904A	HAV	MANGAT SINGH	1/11/2004
1033	3379916P	HAV	MOHINDER SINGH	1/11/2004
1034	3379755X	HAV	RAMESH KUMAR	1/10/2004
1035	3379844W	HAV	SHINDER SINGH	1/11/2004
1036	3379869H	HAV	SHIVRAJ SINGH	1/11/2004
1037	3379887L	HAV	SURJIT SINGH	1/11/2004
1038	3379914K	HAV	SWINDER SINGH	1/11/2004
1039	3376286P	HAV	TARSEM SINGH	1/12/2004

THE SIKH LIGHT INFANTRY

1040	4461039P	HAV	AMARJIT SINGH	1/11/2004
1041	4460687L	HAV	BALKAR SINGH	1/9/2004
1042	4461013A	HAV	BALWINDER SINGH	1/11/2004
1043	4460907K	HAV	BHUPINDER SINGH	1/10/2004
1044	4461021Y	HAV	BOOTA SINGH	1/11/2004
1045	4461322H	HAV	CHANDER SINGH	1/1/2005
1046	4460760Y	HAV	DALIP SINGH	1/10/2004
1047	4461230W	HAV	DAYA SINGH	1/12/2004
1048	4461205X	HAV	DIWAN SINGH	1/11/2004
1049	4460999F	HAV	GOURNAM SINGH	1/11/2004
1050	4460954F	HAV	GURMIT SINGH	1/11/2004
1051	4460709Y	HAV	HANS RAJ	1/9/2004
1052	4461360Y	HAV	HANS RAJ	1/1/2005
1053	4460952W	HAV	HARBHAJAN SINGH	1/11/2004
1054	4460761F	HAV	INDERJIT SINGH	1/10/2004
1055	4461118K	HAV	INDERJIT SINGH	1/11/2004
1056	4461303X	HAV	JAGDISH SINGH	1/1/2005
1057	4460769N	HAV	JASSA SINGH	1/10/2004
1058	4460734X	HAV	JASWANT SINGH	1/10/2004
1059	4461229F	HAV	KARAM CHAND	1/11/2004
1060	4461133Y	HAV	KASHMIR SINGH	1/11/2004
1061	4461251M	HAV	KULDIP SINGH	1/12/2004
1062	4461224H	HAV	LAKHAN SINGH	1/12/2004
1063	4461174H	HAV	LAKHBIR SINGH	1/11/2004
1064	4460897L	HAV	MANJIT SINGH	1/10/2004
1065	4461061A	HAV	MOHAN SINGH	1/11/2004
1066	4460732M	HAV	MUKHTIAR SINGH	1/9/2004
1067	4460930X	HAV	PREM SINGH	1/11/2004
1068	4461084F	HAV	PRITPAL SINGH	1/11/2004
1069	4461213W	HAV	SATYA NARAIN SINGH	1/12/2004
1070	4461256L	HAV	SHAM LAL	1/12/2004
1071	4461041M	HAV	SHAM SINGH	1/11/2004
1072	4460976A	HAV	SHINDER SINGH	1/11/2004
1073	4461169X	HAV	SHYAM SINGH	1/11/2004

1074	4461287L	HAV	SUKHDEV SINGH	1/1/2005
1075	4461298X	HAV	SUKHDEV SINGH	1/1/2005
1076	4461203M	HAV	TARSEM SINGH	1/11/2004

THE DOGRA REGIMENT

1077	3981917N	HAV	AMAR RANJIT SINGH	1/11/2004
1078	3981471K	HAV	AMAR SINGH	1/9/2004
1079	3982227W	HAV	ANIL VIJAY	1/12/2004
1080	3982003W	HAV	ARUN KUMAR SINGH	1/11/2004
1081	3982163W	HAV	ASHOK KUMAR	1/11/2004
1082	3981618P	HAV	ASHOK KUMAR	1/9/2004
1083	3982042P	HAV	BALBIR SINGH	1/11/2004
1084	3981434W	HAV	BALI RAM	1/9/2004
1085	3981655H	HAV	BALWANT SINGH	1/9/2004
1086	3981935W	HAV	BAMDEV SHARMA	1/11/2004
1087	3982428P	HAV	BANRSI DAS	1/12/2004
1088	3981653X	HAV	BARIAM SINGH	1/9/2004
1089	3981566K	HAV	BAVA RAM	1/9/2004
1090	3982572K	HAV	BIR SINGH	1/1/2005
1091	3982399L	HAV	BIRI SINGH	1/12/2004
1092	3981367W	HAV	BUDHI SINGH	1/9/2004
1093	3981832X	HAV	CHAIN SINGH	1/10/2004
1094	3981432L	HAV	CHUNI LAL	1/9/2004
1095	3981825F	HAV	DARSHAN RAM	1/10/2004
1096	3981530L	HAV	DESH RAJ	1/9/2004
1097	3981489A	HAV	DEV RAJ	1/9/2004
1098	3982636K	HAV	DEVINDER SINGH	1/1/2005
1099	3982009X	HAV	DHARAM SINGH	1/11/2004
1100	3982304A	HAV	DHARAM SINGH RAIKHOLA	1/12/2004
1101	3982546H	HAV	GIAN CHAND	1/1/2005
1102	3982331K	HAV	GIANI CHAND KAUSHAL	1/12/2004
1103	3981419F	HAV	GOPAL SINGH SM	1/9/2004
1104	3981460X	HAV	HANS RAJ	1/9/2004
1105	3982059H	HAV	HANS RAJ	1/11/2004
1106	3981656L	HAV	HARBANS LAL	1/9/2004
1107	3982333P	HAV	HARBANS LAL	1/12/2004
1108	3981718A	HAV	JAI KARAN	1/10/2004
1109	3982194W	HAV	JAI RAM	1/12/2004
1110	3982177W	HAV	JASWANT SINGH	1/11/2004
1111	3981401L	HAV	JINDER SINGH	1/9/2004
1112	3981662Y	HAV	JIWAN SINGH	1/9/2004
1113	3982565N	HAV	JOGINDER PAUL SANKHYAN	1/1/2005
1114	3982324N	HAV	JOGINDRA SINGH	1/12/2004
1115	3982067F	HAV	JYOTI PARKASH	1/11/2004
1116	3981565F	HAV	KANAHYA LAL	1/9/2004
1117	3982630H	HAV	KARAM SINGH	1/1/2005
1118	3982064N	HAV	KARTAR CHAND	1/11/2004
1119	3982053F	HAV	KARTAR SINGH	1/11/2004
1120	3981676Y	HAV	KEHAR SINGH	1/9/2004
1121	3981910K	HAV	KEWAL SINGH	1/11/2004
1122	3982213W	HAV	KHEM CHAND	1/12/2004

1123	3981611L	HAV	KISHORI LAL	1/9/2004
1124	3982425F	HAV	KISHORI LAL	1/12/2004
1125	3982648Y	HAV	KISHORI LAL	1/1/2005
1126	3982633W	HAV	KULBIR SINGH	1/1/2005
1127	3981815X	HAV	KULDIP SINGH	1/10/2004
1128	3981813M	HAV	MADAN LAL	1/10/2004
1129	3981809K	HAV	MADAN LAL	1/10/2004
1130	3981600Y	HAV	MANOHAR LAL	1/9/2004
1131	3981424M	HAV	MOHAN SINGH	1/9/2004
1132	3981638H	HAV	MUNSHI RAM	1/9/2004
1133	3981958X	HAV	NAGESWAR SINGH	1/11/2004
1134	3981461A	HAV	OMI CHAND	1/9/2004
1135	3981377A	HAV	ONKAR CHAND	1/9/2004
1136	3981745K	HAV	PARDEEP SINGH	1/10/2004
1137	3982273L	HAV	PARSHOTAM LAL	1/12/2004
1138	3981956M	HAV	PARTAP CHAND	1/11/2004
1139	3981546W	HAV	PARWEEN SINGH	1/9/2004
1140	3981784H	HAV	PIRTHI RAM	1/10/2004
1141	3981404Y	HAV	PRATAP SINGH	1/9/2004
1142	3981382L	HAV	PRITAM CHAND	1/9/2004
1143	3981884N	HAV	RAJ KUMAR	1/10/2004
1144	3981877X	HAV	RAJINDER SINGH	1/10/2004
1145	3981818L	HAV	RAM LAL	1/10/2004
1146	3982207H	HAV	RAM PAL	1/12/2004
1147	3981798H	HAV	RAMESH CHAND	1/10/2004
1148	3981650K	HAV	RAMESH CHAND	1/9/2004
1149	3981861M	HAV	RAMESH KUMAR	1/10/2004
1150	3981932H	HAV	RAMESH LAL	1/11/2004
1151	3981844M	HAV	RANDHIR SINGH	1/10/2004
1152	3981384W	HAV	RANJIT SINGH	1/9/2004
1153	3982374Y	HAV	RATTAN SINGH	1/12/2004
1154	3982063L	HAV	RAVI KUMAR	1/11/2004
1155	3981387K	HAV	RESHAM LAL	1/9/2004
1156	3981584M	HAV	ROMESH CHAND	1/9/2004
1157	3981940F	HAV	ROMESH CHANDER	1/11/2004
1158	3980322K	HAV	SARVAN KUMAR	1/9/2004
1159	3981554P	HAV	SARWAN SINGH	1/9/2004
1160	3981624H	HAV	SHIV KUMAR	1/9/2004
1161	3981767H	HAV	SHRIPATI PAL	1/10/2004
1162	3981936Y	HAV	SUBHASH CHAND	1/11/2004
1163	3981929H	HAV	SUBHASH CHAND	1/11/2004
1164	3981668A	HAV	SUKH DEV	1/9/2004
1165	3981690L	HAV	SUKHDEV RAJ	1/9/2004
1166	3981871W	HAV	SURINDER CHAND KATOCH	1/10/2004
1167	3981575L	HAV	SURINDER KUMAR	1/9/2004
1168	3981378H	HAV	SURINDER SINGH	1/9/2004
1169	3981621P	HAV	SWARAN SINGH	1/9/2004
1170	3981480L	HAV	SWARAN SINGH	1/9/2004
1171	3982321A	HAV	TARA CHAND	1/12/2004
1172	3981717X	HAV	TILAK RAJ	1/10/2004
1173	3982461M	HAV	TILAK RAJ	1/1/2005
1174	3981433N	HAV	VAKIL SINGH	1/9/2004

1175	3981705H	HAV	VIJAY KUMAR	1/10/2004
1176	3982274N	HAV	VINOD KUMAR	1/12/2004
<u>THE GARHWAL RIFLES</u>				
1177	4063207N	HAV	ANAND MANI	1/1/2005
1178	4062781A	HAV	ANAND SINGH	1/10/2004
1179	3981810Y	HAV	AVIRAM THAKUR	1/10/2004
1180	4062912A	HAV	AVTAR SINGH	1/12/2004
1181	4062807K	HAV	BAHADUR SINGH	1/11/2004
1182	4062601M	HAV	BALWANT SINGH	1/9/2004
1183	2877992P	HAV	BHAGWAT PRASAD	1/1/2005
1184	4063000N	HAV	BHAGWAT SINGH	1/12/2004
1185	4062886K	HAV	BHARAT SINGH	1/12/2004
1186	4063218A	HAV	BIJENDRA MANI	1/1/2005
1187	4063095Y	HAV	BIR SINGH FANIYAL	1/1/2005
1188	4062719N	HAV	BRIJMOHAN SINGH	1/9/2004
1189	4063024X	HAV	BRIJMOHAN SINGH, SM	1/12/2004
1190	4063057H	HAV	BUDHI SINGH	1/1/2005
1191	4063068P	HAV	CHANDER KAILASH	1/1/2005
1192	4063228K	HAV	CHANDER SINGH	1/1/2005
1193	4062780X	HAV	CHANDER SINGH	1/10/2004
1194	4063021K	HAV	CHANDER SINGH RAWAT	1/12/2004
1195	4063190L	HAV	CHOVAN SINGH	1/1/2005
1196	4062801H	HAV	DAULAT SINGH	1/11/2004
1197	4063030L	HAV	DILWAR SINGH	1/12/2004
1198	4062901N	HAV	GOPAL RAM	1/12/2004
1199	4062768W	HAV	GOPAL SINGH	1/10/2004
1200	4062769Y	HAV	GOPAL SINGH	1/10/2004
1201	4062957A	HAV	GUMAN SINGH	1/12/2004
1202	4062987X	HAV	GYAN SINGH	1/12/2004
1203	4062889X	HAV	HAR SINGH	1/12/2004
1204	4063113W	HAV	HARAK SINGH	1/1/2005
1205	4063215M	HAV	HARI PRASAD NAUTIYAL	1/1/2005
1206	4061357L	HAV	HARISH CHANDER	1/4/2004
1207	4062977N	HAV	HAYAT SINGH	1/12/2004
1208	4062932N	HAV	HIRA SINGH	1/12/2004
1209	4063206L	HAV	HUKAM SINGH	1/1/2005
1210	4062657Y	HAV	JAGAT SINGH	1/9/2004
1211	5845027A	HAV	JAI BAHADUR DAMAI	1/12/2004
1212	4063080W	HAV	JAI SINGH	1/1/2005
1213	4062819Y	HAV	JAY DATT	1/11/2004
1214	4063018K	HAV	KABUL CHAND, SM	1/12/2004
1215	4062805Y	HAV	KAMAL SINGH	1/11/2004
1216	4062659K	HAV	KHUSHAL SINGH	1/9/2004
1217	4059228M	HAV	KUNDAN SINGH DHANOLA	1/9/2004
1218	4062731P	HAV	KUNWAR SINGH	1/9/2004
1219	4062787F	HAV	KUNWAR SINGH	1/10/2004
1220	4063071P	HAV	LAXMAN SINGH	1/1/2005
1221	4062647P	HAV	MADAN SINGH	1/9/2004
1222	4063167X	HAV	MADHO SINGH	1/1/2005
1223	4062905K	HAV	MAGAN CHAND	1/12/2004

1224	4063045N	HAV	MAHARAJ SINGH	1/12/2004
1225	4062783L	HAV	MAHENDAR SINGH	1/10/2004
1226	4063089L	HAV	MAHENDRA SINGH	1/1/2005
1227	4062986P	HAV	MAHIPAL SINGH	1/12/2004
1228	4062918F	HAV	MAHIPAL SINGH	1/12/2004
1229	4062909A	HAV	MAHIPAL SINGH	1/12/2004
1230	4063151M	HAV	MAHIPAL SINGH	1/1/2005
1231	4062653H	HAV	MANBAR SINGH	1/9/2004
1232	4062881L	HAV	MANMOHAN SINGH	1/12/2004
1233	4062599A	HAV	MANOHAR SINGH RANA	1/9/2004
1234	4062776P	HAV	MANOHER SINGH	1/10/2004
1235	4062606L	HAV	MAST RAM	1/9/2004
1236	4063133K	HAV	MEHARWAN SINGH	1/1/2005
1237	4062723W	HAV	MOHAN LAL	1/9/2004
1238	4062799W	HAV	NARAYAN SINGH	1/11/2004
1239	4063044L	HAV	PADAM SINGH	1/12/2004
1240	4059389P	HAV	PRATAP SINGH	1/12/2004
1241	4063208W	HAV	PREM SINGH	1/1/2005
1242	4062992H	HAV	PREM SINGH	1/12/2004
1243	4062884Y	HAV	PUSHKAR SINGH	1/12/2004
1244	4059382L	HAV	PUSHKAR SINGH	1/12/2004
1245	4062938P	HAV	PUSHKAR SINGH	1/12/2004
1246	4063178K	HAV	RAGHU NANDAN LAL	1/1/2005
1247	4062949F	HAV	RAJENDER SINGH	1/12/2004
1248	4063102K	HAV	RAJENDER SINGH	1/1/2005
1249	4063067M	HAV	RAJPAL SINGH	1/1/2005
1250	4063171A	HAV	RAJPAL SINGH	1/1/2005
1251	4062916W	HAV	RAM SINGH	1/12/2004
1252	4062650P	HAV	RAMESH SINGH	1/9/2004
1253	4059436F	HAV	RANJIT SINGH	1/12/2004
1254	4062858X	HAV	SABAL SINGH	1/11/2004
1255	4062847L	HAV	SATE SINGH	1/11/2004
1256	4063181K	HAV	SATISH	1/1/2005
1257	4062939X	HAV	SHANKAR SINGH	1/12/2004
1258	4063014N	HAV	SHYAM SINGH	1/12/2004
1259	4063182M	HAV	SIBAR SINGH	1/1/2005
1260	4063174N	HAV	SUDAMA SINGH KANDARI	1/1/2005
1261	4063130W	HAV	SULABH SINGH	1/1/2005
1262	4063132F	HAV	SULTAN SINGH	1/1/2005
1263	4063046W	HAV	SURBIR SINGH	1/12/2004
1264	4062982Y	HAV	SURENDER SINGH	1/12/2004
1265	4062923M	HAV	SURENDRA SINGH	1/12/2004
1266	4063005M	HAV	SURESH KUMAR	1/12/2004
1267	4063031N	HAV	THEPAD SINGH	1/12/2004
1268	4062841K	HAV	TOTA RAM	1/11/2004
1269	4062959L	HAV	TRILOK SINGH	1/12/2004
1270	4062863H	HAV	TUNGAL SINGH	1/12/2004
1271	4062859A	HAV	UJAL SINGH	1/12/2004
1272	4063020F	HAV	VIJAY SINGH	1/12/2004
1273	4062815H	HAV	VIR SINGH	1/11/2004
1274	4062654L	HAV	VIRENDAR SINGH	1/9/2004
1275	4062969P	HAV	VIRENDER SINGH	1/12/2004

1276	4062800A	HAV	VIRENDER SINGH	1/11/2004
1277	4062759P	HAV	VIRENDRA SINGH	1/9/2004
1278	4059393X	HAV	YOGAMBAR SINGH	1/12/2004

THE KUMAON REGIMENT

1279	4175813L	HAV	AMRIK SINGH	1/1/2005
1280	4175784F	HAV	ANAND BALLABH	1/1/2005
1281	4175999A	HAV	ANAND SINGH	1/1/2005
1282	4176089Y	HAV	ANAND SINGH KAIRA	1/1/2005
1283	4175283F	HAV	BABU LAL	1/11/2004
1284	4175097L	HAV	BACHI SINGH	1/10/2004
1285	4175332Y	HAV	BALDEV SINGH	1/11/2004
1286	4174990Y	HAV	CHAMU SINGH RAWAT	1/9/2004
1287	4175856A	HAV	CHANAR SINGH	1/1/2005
1288	4175885P	HAV	CHANDRA BHAN YADAWA	1/1/2005
1289	4172234N	HAV	CHANDRA SINGH	1/12/2004
1290	4176086L	HAV	CHANDRA SINGH	1/1/2005
1291	4175294N	HAV	DARYAO SINGH	1/11/2004
1292	4175081A	HAV	DEB SINGH	1/10/2004
1293	4175297F	HAV	DEVENDER SINGH	1/11/2004
1294	4175455L	HAV	DEVI PRASAD	1/12/2004
1295	4175580P	HAV	DIP CHAND YADAV	1/12/2004
1296	4175140F	HAV	DIWAN SINGH	1/10/2004
1297	4176126F	HAV	DIWAN SINGH	1/1/2005
1298	4175478M	HAV	GANESH DATT	1/12/2004
1299	4175779W	HAV	GIRISH CHAND JOSHI	1/1/2005
1300	4175944W	HAV	HIRA SINGH	1/1/2005
1301	4175592K	HAV	JAGDISH PARSHAD	1/12/2004
1302	4175577P	HAV	KANTI BALLABH JOSHI	1/12/2004
1303	4176003P	HAV	KAVI GIRI	1/1/2005
1304	4175819M	HAV	KHARAK SINGH	1/1/2005
1305	4175844L	HAV	KRISHAN SINGH	1/1/2005
1306	4175837P	HAV	KUWAR SINGH NEGI	1/1/2005
1307	4175039F	HAV	LACHHAM SINGH	1/10/2004
1308	4172255K	HAV	LAXMI DATT	1/1/2005
1309	4175770F	HAV	MAHENDRA CHAND	1/1/2005
1310	4172259A	HAV	MAHENDRA SINGH YADAV	1/1/2005
1311	4176092Y	HAV	MAHESH CHANDRA	1/1/2005
1312	4175516X	HAV	MANI RAM	1/12/2004
1313	4176121H	HAV	MOHAN CHAND	1/1/2005
1314	4175672F	HAV	MOHAN SINGH	1/1/2005
1315	4172103H	HAV	MOHAR SINGH	1/9/2004
1316	4175884M	HAV	PARSOTIM	1/1/2005
1317	4172075F	HAV	PRAN DATT PATHAK	1/9/2004
1318	4175125M	HAV	PRAYAG SINGH	1/10/2004
1319	4175089M	HAV	PREM SINGH	1/10/2004
1320	4175254M	HAV	RAJENDER KUMAR	1/10/2004
1321	4175606Y	HAV	RAJENDRA SINGH	1/12/2004
1322	4175207P	HAV	RAM KISHAN	1/10/2004
1323	4175070N	HAV	RAMESH RAM	1/10/2004
1324	4175978K	HAV	RAMESH SINGH RAUTELA	1/1/2005

1325	4175576M	HAV	RAN SINGH	1/12/2004
1326	4175126P	HAV	RATAN SINGH	1/10/2004
1327	4175874H	HAV	RATTAN SINGH	1/1/2005
1328	4175051H	HAV	S S DHAPOLA	1/10/2004
1329	4175182N	HAV	SHRI KRISHNA SHARMA	1/10/2004
1330	4175222K	HAV	SURESH KUMAR	1/10/2004
1331	4175107K	HAV	TRILOK SINGH	1/10/2004
1332	4175314W	HAV	TRILOK SINGH BOHRA	1/11/2004
1333	4175684W	HAV	VED PAL	1/1/2005
1334	4174989K	HAV	VISHNU DATT BHATT	1/9/2004
THE ASSAM REGIMENT				
1335	4353447W	HAV	AKSHAY KUMAR DAS	1/9/2004
1336	4354140X	HAV	ANIL CHANDRA RAJKHOWA	1/11/2004
1337	4354117K	HAV	ASHOK KR KHAKHALARY	1/11/2004
1338	4354287N	HAV	BABUL CH SAIKIA	1/11/2004
1339	4354553F	HAV	BAGINDRA SINGHA	1/12/2004
1340	4354286L	HAV	BAKUL CH SAIKIA	1/11/2004
1341	4426453P	HAV	BANARAS TIWARI	1/9/2004
1342	4354395X	HAV	BHUBNESWAR SINGHA	1/12/2004
1343	4354345M	HAV	BIJIT CH TALUKDAR	1/11/2004
1344	4354144N	HAV	BISTIRAM DAIMARI	1/11/2004
1345	4354230Y	HAV	BISWAJIT BRAHMA	1/11/2004
1346	4354132Y	HAV	CHAKRAPANI KALITA	1/11/2004
1347	4353446N	HAV	DHANESHWAR	1/9/2004
1348	4354130N	HAV	DHARMESWAR DAS	1/11/2004
1349	4353399F	HAV	DILIP BORAH	1/9/2004
1350	4354375K	HAV	DURGA BAHADUR GHATANE	1/12/2004
1351	4353353Y	HAV	GOLAP CHANDRA PPHUKAN	1/9/2004
1352	4354352H	HAV	GOPINATH BHUYAN	1/12/2004
1353	4354156H	HAV	HAREN BORAH	1/11/2004
1354	4353319Y	HAV	HARKA BAHADUR THAPA	1/9/2004
1355	4354181F	HAV	JAGDISH CHANDRA SINGHA	1/11/2004
1356	4354545H	HAV	JUGE SINGHA	1/12/2004
1357	4354058H	HAV	JYOTISH CHANDRA BARUA	1/11/2004
1358	4353674W	HAV	KHUPLAM THANG ZOU	1/9/2004
1359	4354075H	HAV	KINA RAM PHUKAN	1/11/2004
1360	4354549Y	HAV	LALFAMKIM	1/12/2004
1361	4354444P	HAV	LALTANPUJA	1/12/2004
1362	4354382A	HAV	MAGWN BORO	1/12/2004
1363	4354048Y	HAV	MAHENDRA SINHA	1/11/2004
1364	4353449F	HAV	MANIHAR SINGHA	1/9/2004
1365	4354133F	HAV	MATIRAM RAY	1/11/2004
1366	4353357P	HAV	MINARAM DEKARAJA	1/9/2004
1367	4353827P	HAV	MISON KHAKHLARY	1/10/2004
1368	4426385M	HAV	NAGINA RAM	1/9/2004
1369	4354394P	HAV	NAREN CH GOYARI	1/12/2004
1370	4353478W	HAV	NIRANJAN BORAH	1/9/2004
1371	4353410P	HAV	NORENDRA SENSUA	1/9/2004
1372	4354387Y	HAV	PRADIP KUMAR RABHA	1/12/2004
1373	4353867W	HAV	PUNYASWAR KACHAR	1/10/2004

1374	4354143L	HAV	RABIN CHANDRA ROY	1/11/2004
1375	4426468X	HAV	RABIN KR NATH	1/11/2004
1376	4426484P	HAV	RAM IQBAL THAKUR	1/1/2005
1377	4426460L	HAV	RAM NATH LOHAR	1/10/2004
1378	4426448K	HAV	RAM VILAS WALMIK	1/9/2004
1379	4354638X	HAV	RAMAGYA YADAV	1/1/2005
1380	4354149M	HAV	RAMESWAR RAY	1/11/2004
1381	4353708Y	HAV	RAN BAHADUR PUN	1/9/2004
1382	4354307W	HAV	RATNESWAR DAIMARY	1/11/2004
1383	4353404F	HAV	RIKHESWAR PATHAK	1/9/2004
1384	4353514W	HAV	SADHAN BHATTACHARJEE	1/9/2004
1385	4354347X	HAV	SRINIBAS SINHA	1/11/2004
1386	4353610L	HAV	STONSING R MARAK	1/9/2004
1387	4353590H	HAV	SUMESHWAR BORDALAI	1/9/2004
1388	4354174L	HAV	SUSEN BORA	1/11/2004
1389	4353321W	HAV	TIL BAHADUR THAPA	1/9/2004
1390	4353483F	HAV	UPEN CHANDRA BHUYAN	1/9/2004
1391	4354585K	HAV	W BISWAJIT SINGHA	1/1/2005
1392	4354488M	HAV	ZARLIANA	1/12/2004

THE BIHAR REGIMENT

1393	4257565M	HAV	ARUN KUMAR DUBEY	1/12/2004
1394	4257623L	HAV	BHAIRAB THAKUR	1/1/2005
1395	4260527F	HAV	BHAO NATH SHARMA	1/10/2004
1396	4260615X	HAV	BINDESHWAR RAM	1/11/2004
1397	4260373A	HAV	BIRENDER SINGH	1/9/2004
1398	4260666L	HAV	BIRENDRA OJHA	1/11/2004
1399	4260362N	HAV	CHUMMA SINGH	1/9/2004
1400	4260664A	HAV	CORNELIUS MINJ	1/11/2004
1401	4260603H	HAV	DEO SHANKAR PRASAD	1/11/2004
1402	4260522H	HAV	GANESH PRASAD SAH	1/10/2004
1403	4260601X	HAV	GOPAL PRASAD KANNU	1/10/2004
1404	4260685W	HAV	JAGDISH PANDIT	1/1/2005
1405	4257337K	HAV	JAI KUMAR SINGH	1/10/2004
1406	4260686Y	HAV	JIYA LAL	1/1/2005
1407	4260633A	HAV	KAMAKHYA PRASAD SINGH	1/11/2004
1408	4260496M	HAV	KAMESHWAR PRASAD	1/10/2004
1409	4260379F	HAV	KANHAIYA SINGH	1/9/2004
1410	4260525W	HAV	KAPILDEV TIWARI	1/10/2004
1411	4260551X	HAV	KRISHAN KUMAR SINGH	1/10/2004
1412	4260636N	HAV	KUNJ BIHARI YADAV	1/10/2004
1413	4257601M	HAV	LALJI RAJAK	1/1/2005
1414	4260642F	HAV	MAHENDRA SINGH	1/11/2004
1415	4260648H	HAV	MANOJ KUMAR SINGH	1/11/2004
1416	9922291P	HAV	MOHD HANIF	1/12/2004
1417	4260532M	HAV	PETER PAUL BAA	1/10/2004
1418	4257317W	HAV	RAJ GIRIH PANDEY	1/9/2004
1419	4260575F	HAV	RAJESH RAZAK	1/10/2004
1420	4260568L	HAV	RAJESHWAR PRASAD SINGH	1/10/2004
1421	4260580M	HAV	RAM PRAMOD SINGH	1/10/2004
1422	4260680X	HAV	RAMJEET SAH	1/1/2005

1423	5750175A	HAV	RUDAL SAH	1/12/2004
1424	4257590L	HAV	SATENDER SINGH	1/1/2005
1425	4260684N	HAV	SEO PUJAN SINGH	1/12/2004
1426	4257768W	HAV	SOHAN PASWAN	1/10/2004
1427	4260357H	HAV	SOMBRA HORO	1/9/2004
1428	4259838H	HAV	SUKH DEO THAKUR	1/11/2004
1429	4260498X	HAV	SURESH PRASAD SINGH	1/10/2004
1430	4260565X	HAV	UMESH KUMAR	1/10/2004
1431	4260586N	HAV	VIJAY KUMAR	1/10/2004

THE MAHAR REGIMENT

1432	4552038A	HAV	AJAB SINGH TOMAR	1/12/2004
1433	4551526W	HAV	ANWAR IQBAAL BAKSHI	1/11/2004
1434	4551327H	HAV	BABU LAL MEENA	1/10/2004
1435	4551531F	HAV	BADRI DATT	1/11/2004
1436	4551260P	HAV	BANWARI LAL	1/10/2004
1437	4552002F	HAV	BHAGWATH DASHRATH SIRSAT	1/12/2004
1438	4552016F	HAV	BHARAT SINGH	1/12/2004
1439	4551083A	HAV	C THANAPAL	1/9/2004
1440	4551528F	HAV	CHANDRAMANI NAMDEO SURADKAR	1/11/2004
1441	4552005P	HAV	DAYA KISHAN	1/12/2004
1442	4552089N	HAV	DAYA NAND	1/1/2005
1443	4551532K	HAV	DEEWAN SINGH	1/11/2004
1444	2979795A	HAV	DHAN SINGH	1/11/2004
1445	4551987A	HAV	DHARAM RAJ	1/12/2004
1446	4552155L	HAV	DORWE SAMBHAJI GANPATI	1/1/2005
1447	4551571H	HAV	GAN BAHADUR GURUNG	1/11/2004
1448	4551084H	HAV	GOPALAN KANDOTH	1/10/2004
1449	4551534P	HAV	GURDEV SINGH	1/11/2004
1450	4551055N	HAV	HARISH CHAND YADAV	1/9/2004
1451	4551145P	HAV	HAYAT SINGH	1/10/2004
1452	2979036A	HAV	JAGAT SINGH MAHLAWAT	1/9/2004
1453	4551398K	HAV	JAGBIR SINGH	1/10/2004
1454	4551952K	HAV	JANARDHAN SINGH BHADAURIA	1/12/2004
1455	4548291K	HAV	JANKAR SINGH	1/10/2004
1456	4551576F	HAV	KAMAL SINGH	1/11/2004
1457	4552157W	HAV	KAMBLE VIKRAM MARUTI	1/1/2005
1458	4551405P	HAV	KASHMIR CHAND	1/11/2004
1459	4551440X	HAV	KRISHNA GOPAL	1/11/2004
1460	4551781H	HAV	LAKHI RAM	1/12/2004
1461	4551169Y	HAV	LAXMAN RAM	1/10/2004
1462	4551919M	HAV	MADAN SINGH	1/12/2004
1463	4551794A	HAV	MAHAKAR SINGH	1/12/2004
1464	4551180X	HAV	MAHENDER KUMAR	1/10/2004
1465	4551724F	HAV	MALI RAM BUNKAR	1/11/2004
1466	4552182P	HAV	MAST RAM	1/1/2005
1467	4551944L	HAV	MOHAN SINGH	1/12/2004
1468	4552195M	HAV	NARAYAN CHANDRA MONDAL	1/1/2005
1469	4552172L	HAV	NISHAN CHANDER	1/1/2005
1470	4551537H	HAV	PRALAD SINGH	1/11/2004
1471	4551644K	HAV	PRALHAD PRASAD SHARMA	1/11/2004

1472	4551933Y	HAV	PREM LAL	1/12/2004
1473	4552130Y	HAV	RADHE SHYAM	1/1/2005
1474	4552307F	HAV	RAM DASS	1/1/2005
1475	2979316N	HAV	RAM NARAIN	1/10/2004
1476	4551574W	HAV	RAM PRAKASH	1/11/2004
1477	4551568H	HAV	RAMESH KUMAR	1/11/2004
1478	4551892A	HAV	RAMESH PRASAD SINGH	1/12/2004
1479	4551467P	HAV	RATAN PAL	1/10/2004
1480	4551589Y	HAV	ROOP RAM VISHWAKARMA	1/11/2004
1481	4551455A	HAV	SAHI RAM	1/11/2004
1482	4551907X	HAV	SANATAN HEMBRAM	1/12/2004
1483	4552023X	HAV	SASANKA BHUSHAN KARMAKAR	1/12/2004
1484	4552218H	HAV	SATYABIR	1/1/2005
1485	4551423X	HAV	SHIVAJI JAIWANTA POVHARE	1/11/2004
1486	4552266H	HAV	SHYAM SINGH	1/1/2005
1487	4551789P	HAV	SRI VANKAT PD CHAURASIYA	1/12/2004
1488	2979769Y	HAV	SUBHASH CHANDRA	1/11/2004
1489	4552113Y	HAV	SUDARSHAN SINGH	1/1/2005
1490	4551886M	HAV	SURESH	1/12/2004
1491	4551749N	HAV	SURESH SINGH	1/12/2004
1492	4551640N	HAV	SURJAN SINGH	1/11/2004
1493	4551932W	HAV	TEJA PRASAD	1/12/2004
1494	4551721N	HAV	VIJAYAN K	1/11/2004
1495	4551106W	HAV	WARKARI BIBHISHAN SHIVAJI	1/10/2004

THE JAMMU AND KASHMIR RIFLES

1496	13745940K	HAV	AJIT KUMAR	1/11/2004
1497	13741496F	HAV	ASHOK KUMAR	1/10/2004
1498	13746403L	HAV	AVTAR SINGH	1/1/2005
1499	13746024P	HAV	AYUDHIA NATH	1/12/2004
1500	13745893X	HAV	BALDEV SINGH	1/11/2004
1501	13745642N	HAV	BALDEV SINGH	1/9/2004
1502	13745824F	HAV	BHAGWAN DASS	1/11/2004
1503	13745730K	HAV	BHAJAN SINGH	1/10/2004
1504	13745853W	HAV	BIMAL THAPA	1/11/2004
1505	13746649K	HAV	BIRBAL	1/1/2005
1506	13746305L	HAV	BISHAMBER SINGH	1/12/2004
1507	13746301P	HAV	BISHAN DASS	1/12/2004
1508	13745876X	HAV	BODH RAJ	1/11/2004
1509	13746238L	HAV	BODH SINGH	1/12/2004
1510	13745899Y	HAV	CHAIN SINGH	1/11/2004
1511	13745820L	HAV	DEV RAJ	1/11/2004
1512	13745709F	HAV	DILBAG SINGH	1/10/2004
1513	13745849N	HAV	DURGA SINGH	1/11/2004
1514	13745852N	HAV	GAGAN SINGH	1/11/2004
1515	13746008X	HAV	GIRDHARI LAL	1/11/2004
1516	13746284A	HAV	GOPAL SINGH	1/12/2004
1517	13746258Y	HAV	GOVERDHAN LAL CHANDEL	1/12/2004
1518	13745904Y	HAV	GURDAYAL	1/11/2004
1519	13745704H	HAV	HARDEV CHAND	1/10/2004
1520	13746300M	HAV	HEM RAJ	1/12/2004

1521	13745763P	HAV	JAGDISH SINGH	1/10/2004
1522	13745960X	HAV	KAMAL KISHOR	1/11/2004
1523	13745672L	HAV	KIRPA RAM	1/10/2004
1524	13746127N	HAV	KRISHAN KUMAR	1/12/2004
1525	13745673N	HAV	LABH SINGH CHIB	1/10/2004
1526	13746109L	HAV	MADAN LAL	1/12/2004
1527	13746004F	HAV	MAROOF AHMED	1/11/2004
1528	13746149M	HAV	MOHAN CHANDER	1/12/2004
1529	13746101Y	HAV	MOHD SADIQ	1/12/2004
1530	13746419W	HAV	NARAYAN DUTT	1/1/2005
1531	13746652K	HAV	NAZIR AHMED SHEIKH	1/1/2005
1532	13746292Y	HAV	OM PARKASH	1/12/2004
1533	13746102F	HAV	OM PRAKASH	1/12/2004
1534	13745998F	HAV	PIARE LAL	1/11/2004
1535	13745836W	HAV	RABIN GURUNG	1/11/2004
1536	13745663K	HAV	RAJINDER SINGH	1/9/2004
1537	13746307W	HAV	RAMESH CHAND	1/12/2004
1538	13746266X	HAV	RAMESH CHANDER	1/12/2004
1539	13746543X	HAV	RATTAN CHAND BHORYA	1/1/2005
1540	13745759M	HAV	RICHPAL SINGH	1/10/2004
1541	13745977L	HAV	RIKHI RAM	1/11/2004
1542	13745784L	HAV	SAHIB DIN	1/11/2004
1543	13746414X	HAV	SARF RAM	1/1/2005
1544	13746639A	HAV	SAT PAUL SINGH	1/1/2005
1545	13746142H	HAV	SUBHASH CHANDER	1/12/2004
1546	13745745M	HAV	SUKHDEV	1/10/2004
1547	13745736L	HAV	SUKHDEV SINGH	1/10/2004
1548	13745770L	HAV	SURESH KUMAR	1/10/2004
1549	13745865L	HAV	SURINDER KUMAR	1/11/2004
1550	5344634K	HAV	TEK BAHADUR BASNET	1/9/2004
1551	13746232K	HAV	VED PARKASH	1/12/2004
1552	13746126L	HAV	YASH PAUL	1/12/2004

THE LADAKH SCOUTS

1553	9922251N	HAV	SONAM CHHEWANG	1/9/2004
1554	9921895F	HAV	TSERING PHUNCHOK	1/9/2004

THE NAGA REGIMENT

1555	14700947X	HAV	GIRISH CHANDRA	1/1/2005
1556	14700943F	HAV	MEYISOSANG AO	1/11/2004
1557	4175796W	HAV	PRATAP SINGH	1/1/2005

THE JAMMU AND KASHMIR LIGHT INFANTRY

1558	9084021M	HAV	BEHARI LAL	1/1/2005
1559	9083976N	HAV	BHAGWAN SINGH	1/12/2004
1560	9083977W	HAV	BODH RAJ BHAGAT	1/11/2004
1561	9084011H	HAV	DARSHAN SINGH	1/1/2005
1562	9082747W	HAV	DINA NATH	1/12/2004
1563	9083820W	HAV	GULZARI LAL	1/9/2004

1564	9084026L	HAV	JANAK RAJ	1/1/2005
1565	9083900N	HAV	KARAN DASS	1/11/2004
1566	9083959N	HAV	KARAN SINGH	1/11/2004
1567	9083878N	HAV	MADAN LAL	1/11/2004
1568	9083798W	HAV	MOHD SADEEQ	1/9/2004
1569	9084020K	HAV	NASIB CHAND	1/1/2005
1570	9083880L	HAV	NASIB SINGH	1/11/2004
1571	9083978Y	HAV	NIRMAL SINGH	1/12/2004
1572	9083805F	HAV	PARDEEP KUMAR	1/9/2004
1573	9083904K	HAV	PARDEEP SINGH	1/11/2004
1574	9083972X	HAV	PARDEEP SINGH CHIB	1/12/2004
1575	9083804Y	HAV	ROMESH LAL	1/9/2004
1576	9083969X	HAV	SAT PAL SINGH	1/12/2004
1577	9083899K	HAV	SHAM LAL	1/11/2004
1578	9083933Y	HAV	SUBHASH CHANDER	1/12/2004
1579	9084014W	HAV	SUBHASH SINGH	1/1/2005

1 GORKHA RIFLES

1580	5042932H	HAV	BHAKTA BAHADUR THAPA	1/10/2004
1581	5042948N	HAV	BUDHI PRASAD GURUNG	1/11/2004
1582	5042972K	HAV	DHAN BAHADUR PUN	1/11/2004
1583	5042964L	HAV	GUPTA BAHADUR THAPA	1/11/2004
1584	5043007M	HAV	JHIM BAHADUR THAPA	1/1/2005
1585	5042883L	HAV	MEKH BAHADUR GURUNG	1/9/2004
1586	5041969X	HAV	OB BAHADUR GURUNG	1/1/2005
1587	5042951N	HAV	PREM BAHADUR THAPA	1/11/2004
1588	5042882H	HAV	RAM BAHADUR PUN	31-08-2004
1589	5042934N	HAV	TIL BAHADUR THAPA	1/11/2004

3 GORKHA RIFLES

1590	5243763H	HAV	GANESH BAHADUR MAGAR	1/1/2005
1591	5244190W	HAV	HARKA BAHADUR RANA	1/10/2004
1592	5244203H	HAV	JOG BAHADUR GURUNG	1/12/2004

4 GORKHA RIFLES

1593	5344689N	HAV	CHURA BAHADUR MAGAR	1/10/2004
1594	5344658N	HAV	DAL BAHADUR PUN	1/9/2004
1595	5344626L	HAV	DHAN BAHADUR THAPA	1/9/2004
1596	5344707L	HAV	DIL BAHADUR THAPA	1/10/2004
1597	5343767N	HAV	GIRMAN SINGH RANA	1/9/2004
1598	5344711N	HAV	GOPAL SINGH THAPA	1/11/2004
1599	5344701K	HAV	MAN BAHADUR SHIRIS MAGAR	1/10/2004
1600	5344743W	HAV	PURNA BAHADUR GURUNG	1/11/2004
1601	5344665K	HAV	PURNA BAHADUR THAPA	1/10/2004
1602	5344622P	HAV	SUGHAR SINGH	1/9/2004
1603	5344732K	HAV	SURYA BAHADUR THAPA	1/1/2005
1604	5344692N	HAV	VIJAY KUMAR	1/11/2004

5 GORKHA RIFLES

1605	5448522W	HAV	ANNA PURNA HAZAM	1/12/2004
1606	5448497H	HAV	BHIM BAHADUR THAPA	1/12/2004
1607	5448415P	HAV	BIR BAHADUR GURUNG	1/9/2004
1608	5448504N	HAV	DAMAR BAHADUR GURUNG	1/12/2004
1609	5447664F	HAV	DEB BAHADUR GURUNG	1/9/2004
1610	5448439Y	HAV	DHARAM BAHADUR THAPA	1/11/2004
1611	5448520L	HAV	DURGA BAHADUR THAPA	1/12/2004
1612	5448419L	HAV	FARSH LAL GURUNG	1/9/2004
1613	5448403A	HAV	GANGA BAHADUR THAPA	1/9/2004
1614	5448461K	HAV	HIRA BAHADUR GURUNG	1/10/2004
1615	5448442Y	HAV	IMAN SINGH THAPA	1/11/2004
1616	5448443F	HAV	KHUM BAHADUR THAPA	1/11/2004
1617	5448482A	HAV	KRISHNA BAHADUR GURUNG	1/11/2004
1618	5447706H	HAV	KUMBA SINGH GURUNG	1/11/2004
1619	5448473Y	HAV	MAN BAHADUR GURUNG	1/9/2004
1620	5448515A	HAV	MOHAMMAD MANAN MANDAL	1/10/2004
1621	5447788W	HAV	NARAYAN PRASAD PRADHAN	1/1/2005
1622	5448440N	HAV	NUN BAHADUR GURUNG	1/1/2005
1623	5447737H	HAV	PREM BAHADUR THAPA	1/11/2004
1624	5447776F	HAV	RAM BAHADUR THAPA	1/11/2004
1625	5448449H	HAV	SUKHBIR SINGH	1/12/2004
1626	5750157X	HAV	TEKMAN GURUNG	1/11/2004
1627	5448456Y	HAV	YAM BAHADUR GURUNG	1/10/2004

8 GORKHA RIFLES

1628	5750182W	HAV	BAG RAJ CHHETRI	1/12/2004
1629	5748725Y	HAV	BHAKTA BAHADUR THAPA	1/12/2004
1630	5750183Y	HAV	BHUWAN SINGH ALE	1/12/2004
1631	5750152Y	HAV	CHURA BAHADUR THAPA	1/10/2004
1632	5750179W	HAV	DHARAM NATH SINGH	1/1/2005
1633	5750159H	HAV	JAI RAM RAI	1/11/2004
1634	5749842W	HAV	JAI RAM RAM	1/1/2005
1635	5750151W	HAV	KABI RAJ THAPA	1/10/2004
1636	5750153F	HAV	LOK BAHADUR KHATRI	1/10/2004
1637	5750156P	HAV	NARAYAN BAHADUR THAPA	1/11/2004
1638	5750178N	HAV	SUKUMAR GHOSH	1/1/2005
1639	5750138M	HAV	SURESH CHANDER	1/10/2004
1640	5750202Y	HAV	TIKA BAHADUR GURUNG	1/1/2005

9 GORKHA RIFLES

1641	5844977H	HAV	CHANDRA BAHADUR CHHETRI	1/10/2004
1642	5844423K	HAV	DHARAM BAHADUR BHANDARI	1/9/2004
1643	5845045H	HAV	GUPTA BAHADUR SAHI SM	1/1/2005
1644	5845057X	HAV	KAMAL NARAIN SHRESTHA	1/1/2005
1645	5845009X	HAV	NANDA BAHADUR THAPA	1/12/2004
1646	5845022F	HAV	RAM BAHADUR CHHETRI	1/11/2004
1647	5844517F	HAV	SANGAM LAL KANUJA	1/12/2004
1648	9922246H	HAV	SHAM LAL	1/9/2004
1649	5844543H	HAV	THAMBAR BAHADUR KHATTRI	1/12/2004

11 GORKHA RIFLES

1650	9416814K	HAV	AITA BAHADUR TAMANG	1/12/2004
1651	9415562W	HAV	BASABTA KUMAR RAI	1/9/2004
1652	9416494A	HAV	BIRTI KAJI RAI	1/12/2004
1653	9415770L	HAV	CHAMAR SINGH RAI	1/10/2004
1654	9416271H	HAV	CHANDRA KUMAR RAI	1/10/2004
1655	9415574L	HAV	CHATUR KUMAR RAI	1/10/2004
1656	9416835A	HAV	DINESH KUMAR RAI	1/12/2004
1657	9415823Y	HAV	GOPAL RAI	1/10/2004
1658	9415672L	HAV	HEM BAHADUR RAI	1/11/2004
1659	9416661L	HAV	HEM BAHADUR RAI	1/10/2004
1660	9416863M	HAV	INDRA DASS PRADHAN	1/1/2005
1661	9416805H	HAV	JAGAT BAHADUR LIMBU	1/12/2004
1662	9415923K	HAV	JIWAN KUMAR RAI	1/10/2004
1663	9415533F	HAV	MADAN KUMAR RAI	1/9/2004
1664	9416737A	HAV	NANDA KUMAR THAKUR	1/10/2004
1665	9416594L	HAV	NARBOO LAMA	1/10/2004
1666	9416095W	HAV	PRAWIN DEWAN	1/10/2004
1667	9416504Y	HAV	PREM BAHADUR RAI	1/10/2004
1668	9416658L	HAV	PREM KUMAR CHEMZONG	1/10/2004
1669	8025919L	HAV	PREM KUMAR RAI	1/10/2004
1670	9416871L	HAV	RAJ BAHADUR LIMBU	1/1/2005
1671	9415579K	HAV	RAJENDRA HANG	1/10/2004
1672	9415747X	HAV	RAJENDRA RAM	1/10/2004
1673	9415827P	HAV	RAM BAHADUR RAI	1/10/2004
1674	9416831K	HAV	RAMESH TAMANG	1/12/2004
1675	9416779M	HAV	RISHAL SINGH	1/10/2004
1676	9415858P	HAV	RUPESH KUMAR LIMBU	1/10/2004
1677	9416414X	HAV	SAHADEV TAMANG	1/10/2004
1678	9416101Y	HAV	SHIV BAHADUR RAI	1/10/2004
1679	9416032N	HAV	SHRI KUMAR RAI	1/10/2004
1680	9415994L	HAV	SUKRA BAHADDUR RAI	1/10/2004
1681	9416050W	HAV	TIKA RAM RAI	1/10/2004
1682	9415925P	HAV	URGEN LAMA YOLMO	1/10/2004
1683	9416025X	HAV	UTTAR KUMAR RAI	1/10/2004

ARMY SERVICE CORPS(SOUTH)

1684	13883657P	HAV	ABDUL KALIM KHAN	1/11/2004
1685	13883049N	HAV	ADTALA NAGESWARA RAO	1/10/2004
1686	13884279N	HAV	AKALI PRASAD	1/12/2004
1687	13879486W	HAV	ALGU ROY	1/10/2004
1688	13863967Y	HAV	AMAL KISHOR PRASAD SINGH	1/12/2004
1689	13883434X	HAV	ANAND KUMAR SINGH	1/11/2004
1690	13864884A	HAV	ARJUN BHAKTA	1/9/2004
1691	13884684L	HAV	ARUN KUMAR	1/1/2005
1692	13883545P	HAV	ASHOK KUMAR CHOUBEY	1/11/2004
1693	13879990W	HAV	ASHWANI KUMAR TIWARI	1/11/2004
1694	6373708M	HAV	ATAPADKAR MARUTI VITHAL	1/9/2004
1695	13888392A	HAV	AWADH BIHARI	1/1/2005
1696	13879825L	HAV	B B D C B M PATEL	1/11/2004

1697	13888473A	HAV	BABU LAL	1/1/2005
1698	13883454L	HAV	BABUL BARA	1/11/2004
1699	13879727L	HAV	BABY PT	1/11/2004
1700	13884522A	HAV	BALAKISHORE THAKUR	1/1/2005
1701	13883739X	HAV	BALESWER	1/12/2004
1702	13884280H	HAV	BALMEEK SINGH	1/12/2004
1703	13884693M	HAV	BARUN KUMAR CHOUBE	1/1/2005
1704	13884632P	HAV	BEG IMAM PIRBEG	1/1/2005
1705	13869574Y	HAV	BHAGWAT MISHRA	1/11/2004
1706	13884562F	HAV	BHAJAN SINGH	1/12/2004
1707	13888234L	HAV	BHANWAR LAL	1/1/2005
1708	6375811W	HAV	BHAVAR SURYAKANT AKARAM	1/12/2004
1709	13884481F	HAV	BHOGI RAM	1/12/2004
1710	13864618F	HAV	BHOOP NARAYAN DWIVEDI	1/1/2005
1711	13681013M	HAV	BHUP NARAYAN	1/9/2004
1712	13884243P	HAV	BHUPEN CHANDRA RAY	1/12/2004
1713	6374100K	HAV	BHUWANESHWAR SINGH	1/12/2004
1714	13884837K	HAV	BIKASH KUMAR MRIDHYA	1/1/2005
1715	13864418L	HAV	BIMAL BISWAS	1/1/2005
1716	13883534H	HAV	BIMAL SINGH	1/11/2004
1717	13888136L	HAV	BIRENDRA THAKUR	1/1/2005
1718	13884879W	HAV	BISHAN DAS	1/1/2005
1719	6375830F	HAV	BOKAN SHIVAJI GOPALRAO	1/12/2004
1720	13884877L	HAV	BRAHAMJEET ARYA SHAKYA	1/1/2005
1721	6375795K	HAV	BRAHM DUTT	1/12/2004
1722	13888275P	HAV	BRIJ KISHOR SINGH	1/1/2005
1723	13884028K	HAV	BRIJ PAL SINGH	1/11/2004
1724	6471498N	HAV	BRIJAN SINGH	1/12/2004
1725	13882988K	HAV	CH CHITTIBABU SWAMY	1/9/2004
1726	6375722X	HAV	CHANDAN MOJUMDER	1/10/2004
1727	6375861F	HAV	CHAUGULE RAO SAHEB NEMU	1/1/2005
1728	13884439H	HAV	CHOLE NIVRATI GANGA RAM	1/12/2004
1729	13884291P	HAV	D MUNIRATHINAM	1/12/2004
1730	13883212H	HAV	DATA RAM GUJAR	1/10/2004
1731	13884204W	HAV	DEVI SINGH	1/12/2004
1732	13883920P	HAV	DHANESH KUMAR	1/12/2004
1733	13888512N	HAV	DHUPAN DASS	1/1/2005
1734	13883589M	HAV	DIJENDRA SINGH	1/11/2004
1735	13873989L	HAV	DILIP KUMAR THAKUR	1/10/2004
1736	13884685N	HAV	DINESH KUMAR	1/1/2005
1737	13884538L	HAV	DUDEKULA PEERAI AH	1/1/2005
1738	6471540F	HAV	DURAGA CHARAN BEHERA	1/1/2005
1739	13888279L	HAV	G RAYAPPAN	1/1/2005
1740	13874497Y	HAV	GAJRAJ SINGH	1/1/2005
1741	13879388W	HAV	GAWADE DEVENDRA LAXMAN	1/9/2004
1742	13864268A	HAV	GHURE LAL	1/1/2005
1743	13864199P	HAV	GOKUL SINGH	1/12/2004
1744	13883783F	HAV	GOPINATHAN PILLAI N	1/12/2004
1745	6376130A	HAV	GOVIND RAM	1/10/2004
1746	13863855Y	HAV	GUBIN CHANDRA SAIKIA	1/11/2004
1747	13883759L	HAV	GURU CHARAN	1/12/2004
1748	13883580X	HAV	HAKIM SINGH	1/11/2004

1749	13863914A	HAV	HAR NATH	1/12/2004
1750	13874397N	HAV	HARE KRISHNA DATTA	1/1/2005
1751	13864515H	HAV	HARI PRASAD SHUKALA	1/1/2005
1752	13869460N	HAV	HARI RAM	1/10/2004
1753	13884427N	HAV	HARIHAR VENKAT RAO KENDRE	1/12/2004
1754	13888263A	HAV	HAWA SINGH	1/1/2005
1755	13884323M	HAV	HEMANT KUMAR SAHOO	1/12/2004
1756	13883521L	HAV	HET RAM	1/11/2004
1757	13884301N	HAV	HIMANSU SEKHAR SINHA MAHAPATRA	1/12/2004
1758	13874177K	HAV	HIRDAY RAM	1/12/2004
1759	6374094F	HAV	HRIDAYA NAND SHARMA	1/12/2004
1760	13864062H	HAV	INDRA SINGH	1/12/2004
1761	13888233H	HAV	JAGAN NATH PANDEY	1/1/2005
1762	13864022F	HAV	JAGDISH PRASAD	1/12/2004
1763	13863942M	HAV	JAGDISH SINGH	1/12/2004
1764	13879638M	HAV	JAI PRAKASH SINGH	1/10/2004
1765	13869478K	HAV	JALINDRA NATH KISAN KARALE	1/10/2004
1766	13879850K	HAV	JARNAIL SINGH	1/11/2004
1767	6374089W	HAV	JHAGRU MAHTO	1/12/2004
1768	13874406K	HAV	JIT NARAIN	1/1/2005
1769	13863817H	HAV	JIWAT RAM YADAV	1/11/2004
1770	13884368M	HAV	JUGAL KISHOR BHANDAR GHARIA	1/12/2004
1771	13888025N	HAV	K DORAISWAMY	1/12/2004
1772	13874269W	HAV	K S S S SINGH	1/1/2005
1773	13879684F	HAV	K THANGAVEL	1/10/2004
1774	13884466M	HAV	KAILASH NARAYAN DHANUK	1/12/2004
1775	13864195Y	HAV	KAILASH PAL	1/12/2004
1776	13882893K	HAV	KALE VISHNU HARIDAS	1/9/2004
1777	13883481P	HAV	KAMLESH KUMAR PANDEY	1/11/2004
1778	13883771M	HAV	KAPTHAN SINGH	1/12/2004
1779	6374175F	HAV	KARAM SINGH	1/1/2005
1780	13884054L	HAV	KARTICK CHANDRA SHIL	1/11/2004
1781	13874200M	HAV	KEDAR MAHTO	1/12/2004
1782	6468948P	HAV	KEDAR RAM	1/9/2004
1783	13884110Y	HAV	KONDAIAH	1/12/2004
1784	13882899L	HAV	KORE ANANDA DNYANU	1/9/2004
1785	13883631A	HAV	KRISHAN PAL	1/11/2004
1786	13883069F	HAV	KRISHNA KUMAR RAWAT	1/10/2004
1787	6375727W	HAV	KSHETRA PAL SINGH	1/10/2004
1788	13884385M	HAV	KULANDY	1/12/2004
1789	13888119L	HAV	KULWANT SINGH	1/12/2004
1790	13884449M	HAV	KUMAN SINGH	1/12/2004
1791	13884459W	HAV	KURBAN ANSARI	1/12/2004
1792	13888184L	HAV	KURU BHIMAPPA LAXMAPPA	1/1/2005
1793	13879650N	HAV	LAJA RAM	1/10/2004
1794	13874230K	HAV	LAL SINGH	1/1/2005
1795	13864310N	HAV	LAXMAN SINGH	1/1/2005
1796	13864519Y	HAV	MADAN LAL	1/1/2005
1797	6471488K	HAV	MAHABIR SINGH	1/12/2004
1798	6373684N	HAV	MAHBOOB ALI	1/9/2004
1799	13883019W	HAV	MAHENDER PAL SINGH	1/9/2004
1800	13884552X	HAV	MAHENDER SINGH	1/1/2005

1801	13874543H	HAV	MAHENDRA NATH	1/1/2005
1802	13864432X	HAV	MAHENDRA SAO	1/1/2005
1803	6375760N	HAV	MAHESH SHARMA	1/11/2004
1804	13888049X	HAV	MAHIPAL SINGH	1/12/2004
1805	13884559F	HAV	MARKAS KERKETTA	1/1/2005
1806	13884752N	HAV	MD ALSHRA ALI	1/1/2005
1807	13883539F	HAV	MD BASIR UDDIN BARBHUIYA	1/11/2004
1808	13884277H	HAV	MODHU MONGAL MONDAL	1/12/2004
1809	13864212N	HAV	MOHAN CH DUTTA	1/12/2004
1810	13879734F	HAV	MOHAN LAL VERMA	1/11/2004
1811	6375833P	HAV	MOHAN NAIR T G	1/12/2004
1812	6373975N	HAV	MONOJ KUMAR DAS	1/12/2004
1813	13879808L	HAV	MUKESH KUMAR	1/11/2004
1814	13884092F	HAV	MUNESHWAR SAFI	1/11/2004
1815	13879481X	HAV	MURALEEDHARAN K	1/10/2004
1816	6471538K	HAV	MURALEEDHARAN PILLAI K	1/1/2005
1817	13883330W	HAV	NADIKATTU VENKATESWARA REDDY	1/11/2004
1818	13869486H	HAV	NAGENDRA PRASAD SINGH	1/10/2004
1819	13864165F	HAV	NAND RAM	1/12/2004
1820	13883400K	HAV	NANDAN THAKUR	1/11/2004
1821	13882909K	HAV	NARENDRA NATH MONDAL	1/9/2004
1822	13883743A	HAV	NATHU LAL	1/12/2004
1823	6374024H	HAV	NAZIM UDDIN	1/12/2004
1824	13879299X	HAV	NIL MANI MANDAL	1/9/2004
1825	13863872Y	HAV	OM PAL SINGH	1/11/2004
1826	13874238W	HAV	OM PRAKASH	1/1/2005
1827	13888013Y	HAV	P M MUTHANNA	1/12/2004
1828	13874300X	HAV	P N PURUSHOTHAMAN	1/1/2005
1829	13864155X	HAV	PADAM NATH SINGH	1/12/2004
1830	13873849Y	HAV	PANCHAM	1/10/2004
1831	13874204H	HAV	PARAN MAHALI	1/12/2004
1832	13874561L	HAV	PARMJIT SHARMA	1/1/2005
1833	13884875A	HAV	POSUPURTULI SATYANARAYAN	1/1/2005
1834	13883817K	HAV	PRABHAT CHANDRA KHANIKOR	1/12/2004
1835	13888425A	HAV	PRADYAT KUMAR MAHAPATRA	1/1/2005
1836	13884734L	HAV	PRAKASH ANNA ATOLE	1/1/2005
1837	13879859Y	HAV	PRAKASH CHAND	1/11/2004
1838	13874138L	HAV	PRAMOD KUMAR DIXIT	1/12/2004
1839	13884083A	HAV	PRAN NATH PRADHAN	1/11/2004
1840	13884801L	HAV	PREM KISHORE	1/1/2005
1841	13884367K	HAV	PREMANAND MOHANTY	1/12/2004
1842	13879644A	HAV	PUNAM CHAND	1/10/2004
1843	13884443L	HAV	PURAN PRASAD	1/12/2004
1844	13864423W	HAV	R MANI	1/1/2005
1845	13883014X	HAV	RABINDRA NATH BISWAS	31-08-2004
1846	13884763A	HAV	RADHA KRISHNA NAIR	1/1/2005
1847	13879439Y	HAV	RAJ KUMAR D E	1/10/2004
1848	13884842P	HAV	RAJENDRA SINGH	1/1/2005
1849	13879826N	HAV	RAJINDER SINGH	1/11/2004
1850	13864499W	HAV	RAJVIR	1/1/2005
1851	13884259A	HAV	RAM ASHRE	1/12/2004
1852	13888061Y	HAV	RAM AUTAR	1/12/2004

1853	13864478A	HAV	RAM BADAN	
1854	13869416K	HAV	RAM BALI SINGH	1/1/2005
1855	13888463W	HAV	RAM BHAJAN PAL	1/10/2004
1856	13884389H	HAV	RAM BINOD CHOUDHARY	1/1/2005
1857	13879377K	HAV	RAM DASS	1/12/2004
1858	13869135N	HAV	RAM DEO TIWARI	1/9/2004
1859	13883183Y	HAV	RAM DHIAN SINGH	1/12/2004
1860	13869404P	HAV	RAM EKBAL CHAUDHARY	1/10/2004
1861	13877434F	HAV	RAM NARAYAN	1/10/2004
1862	13883033H	HAV	RAM PRAKASH	1/1/2005
1863	13883944Y	HAV	RAM PRASAD DUTTA	1/9/2004
1864	13884189M	HAV	RAM PRATAP SINGH	1/12/2004
1865	13874139N	HAV	RAM SEWAK	1/12/2004
1866	13864280F	HAV	RAM SINGH	1/12/2004
1867	13879666Y	HAV	RAM SWAROOP	1/1/2005
1868	13883094A	HAV	RAMAKANT MISHRA	1/10/2004
1869	13864430M	HAV	RAMCHANDRA PRASAD	1/10/2004
1870	13874092N	HAV	RAMDHIR SINGH	1/1/2005
1871	13884806K	HAV	RAMESH KUMAR	1/12/2004
1872	13884900N	HAV	RAMNIWAS	1/1/2005
1873	13879704K	HAV	RAMPAL SINGH	1/1/2005
1874	13884500F	HAV	RAMPYARA LAL	1/10/2004
1875	13883872A	HAV	RANVIR SINGH	1/12/2004
1876	13869558F	HAV	RATAN LAL	1/12/2004
1877	13884845H	HAV	RATHANKARAN T K	1/11/2004
1878	13879822X	HAV	RATTAN LAL	1/1/2005
1879	13874495N	HAV	RATTAN SINGH	1/11/2004
1880	13884797N	HAV	RAVI SHANKAR	1/1/2005
1881	13888416Y	HAV	RAVI V	1/1/2005
1882	13883829Y	HAV	RAVINDAR SINGH	1/1/2005
1883	6373811X	HAV	ROMESH SINGH CHHATTKA	1/12/2004
1884	13884861A	HAV	S RAJENDRAN	1/10/2004
1885	13864518W	HAV	SAMAL KUMAR DUBEY	1/1/2005
1886	13884513Y	HAV	SARKAR SINGH	1/1/2005
1887	13884496K	HAV	SARNAM SINGH	1/1/2005
1888	13883866M	HAV	SARU MOHAN RAY	1/12/2004
1889	13879529A	HAV	SATENDRAN P	1/12/2004
1890	13879767M	HAV	SATISH KUMAR	1/10/2004
1891	13884567A	HAV	SAYVEER SINGH	1/11/2004
1892	6373826A	HAV	SHAM KUMAR	1/1/2005
1893	13870825K	HAV	SHAMBHU NATHIWARI	1/11/2004
1894	13864294F	HAV	SHARMA SANT SHARAN RAMESH CHANDRA	1/11/2004
1895	13888348W	HAV	SHELKE RAMDAS MAHATU	1/1/2005
1896	13873967M	HAV	SHISHU PAL SINGH RAJPUT	1/1/2005
1897	13874328X	HAV	SHIV MANGAL KUMAR SINGH	1/10/2004
1898	13879544P	HAV	SHIV NATH SINGH	1/1/2005
1899	13882953N	HAV	SHIV SHANKAR BAGHEL	1/10/2004
1900	13879966A	HAV	SHRAWAN KUMAR	1/9/2004
1901	13864222X	HAV	SHRI RAM SINGH	1/11/2004
1902	6375775W	HAV	SHYAM SUNDAR SAHA	1/12/2004
1903	6375689L	HAV	SIMPLE PRABHU BABU RAO	1/11/2004
1904	13884556N	HAV	SITA RAM SAHU	1/9/2004
				1/1/2005

1905	13885571W	HAV	SIVANKUTTY NAIR K	1/11/2004
1906	13884256M	HAV	SUDHAKARAN M	1/12/2004
1907	13884483M	HAV	SUKH LAL	1/12/2004
1908	13884183L	HAV	SUKHU RAM	1/12/2004
1909	13864260N	HAV	SUMAN SINGH	1/12/2004
1910	13863884N	HAV	SUMER SINGH	1/11/2004
1911	13884212P	HAV	SUMUEL K CHACKO	1/12/2004
1912	13883268P	HAV	SUNAPALLE MADDALETY	1/10/2004
1913	13864437W	HAV	SUPAN RAM	1/1/2005
1914	13884167N	HAV	SURENDER SINGH	1/12/2004
1915	6374027W	HAV	SURENDRA KUMAR SINGH	1/12/2004
1916	13876384P	HAV	SURENDRAN P	1/11/2004
1917	13888660Y	HAV	SURESH KUMAR	1/1/2005
1918	6374098X	HAV	SURYABANS CHAUBEY	1/12/2004
1919	13879476M	HAV	T SAVARIMUTHU	1/10/2004
1920	6373984P	HAV	TANKESWAR BARUAH	1/12/2004
1921	13879425Y	HAV	TILAK SINGH	1/10/2004
1922	6375654P	HAV	UMA SHANKAR	1/9/2004
1923	13870976H	HAV	UMESH CHANDRA DAIMARI	1/12/2004
1924	13883140K	HAV	UNNI K	1/10/2004
1925	13879290H	HAV	UTTAM NANDAN WARE	1/9/2004
1926	13879259W	HAV	V CHOCKALINGAM	1/9/2004
1927	13883272X	HAV	VALSAN V	1/10/2004
1928	6469492N	HAV	VED PRAKASH HARIJAN	1/12/2004
1929	13879487Y	HAV	VIJAY KUMAR PRASAD	1/10/2004
1930	13883633L	HAV	VIR SINGH	1/11/2004
1931	6375704P	HAV	YESPAL SINGH NEGI	1/10/2004

ARMY SERVICE CORPS (ANIMAL TRANSPORT)

1932	6471471W	HAV	ABDUL JABBER	1/11/2004
1933	6469674F	DFR	AGAR SINGH	1/1/2005
1934	6468807A	DFR	AJAB SINGH	1/9/2004
1935	6469226P	DFR	ALI HUSEN	1/12/2004
1936	6468954H	DFR	BABAN SINGH	1/9/2004
1937	13879998H	HAV	BALAN PM	1/11/2004
1938	6469484P	HAV	BALESWAR PAL	1/12/2004
1939	6471431P	HAV	BALVIR SINGH	1/9/2004
1940	13874304N	DFR	BHIKHA RAM	1/1/2005
1941	6469731X	DFR	BHIM SINGH	1/1/2005
1942	6468822P	DFR	BIDYA RAM	1/9/2004
1943	6468731L	DFR	BISHNU DEO PRASAD YADAV	1/9/2004
1944	13874093W	DFR	BITESHWAR THAKUR	1/12/2004
1945	13870867W	DFR	BRUNDABAN SAMAL	1/12/2004
1946	6469641W	DFR	BUDHEN SAIKIA	1/1/2005
1947	6468860L	DFR	CHANDER SHEKHAR SINGH	1/9/2004
1948	6471545A	HAV	DASHRATH PRASAD	1/1/2005
1949	6469147A	DFR	DEVENDER REDDY	1/11/2004
1950	6469443L	DFR	DHURANDHAR SAH	1/12/2004
1951	13879608P	HAV	DODDA ANTHONY	1/10/2004
1952	13874210W	DFR	FRANCIS M KUJUR	1/12/2004
1953	13888124W	HAV	GOVIND SINGH	1/12/2004

1954	13884512W	HAV	JAGAT BAHADUR HARI PRASAD CHATRI	1/1/2005
1955	13884176P	HAV	JAI RAM YADAV	1/12/2004
1956	6469355P	DFR	JAYAPRAKASH YADAV	1/12/2004
1957	6469543W	DFR	JILE SINGH	1/1/2005
1958	13884746A	HAV	JIWAN LAL	1/1/2005
1959	13874105A	HAV	KAMAL KISHORE SINGH	1/12/2004
1960	6469258X	DFR	KANAK CHANDRA NATH	1/12/2004
1961	6468801Y	DFR	KESHAB CHANDRA BARMAN	1/9/2004
1962	6469526W	HAV	KHEM RAJ	1/1/2005
1963	13873975L	DFR	KHIRA KANTA BOFA	1/10/2004
1964	6374007H	DFR	KRISHNA KULITA	1/12/2004
1965	6469075F	DFR	KULDIP SINGH	1/10/2004
1966	6468771M	DFR	KUWAR SINGH	1/9/2004
1967	6469420K	DFR	LAKHMI CHAND	1/12/2004
1968	6469071L	DFR	LEKH RAJ	1/10/2004
1969	6469427N	DFR	MADAN SINGH	1/12/2004
1970	13870836W	DFR	MANGAL SINGH	1/11/2004
1971	13884575Y	HAV	MITHILESH KUMAR SINGH	1/1/2005
1972	6468895F	DFR	MOHAN SINGH	1/9/2004
1973	6469637N	DFR	MUNI LAL	1/1/2005
1974	13884728X	HAV	NENA SINGH	1/1/2005
1975	6468963K	DFR	PANKAJAKSHAN PK	1/10/2004
1976	6471433A	HAV	RAJAN V K VELLARY KANDATHIL	1/9/2004
1977	6469194X	DFR	RAJESWAR PRASAD	1/11/2004
1978	6469702H	DFR	RAM AYODHYA SINGH	1/1/2005
1979	6469143K	DFR	RAM LAKHAN PATEL	1/11/2004
1980	13879337H	HAV	RAM LAL SINGH JAT	1/9/2004
1981	6469001M	DFR	RAVEENDRAN K	1/10/2004
1982	6469479K	DFR	RAVIKANT SINGH	1/12/2004
1983	6469036H	DFR	RIEAJUL ISLAM	1/10/2004
1984	6471432X	HAV	SHAM LAL	1/9/2004
1985	6468849M	DFR	SHANKAR LAL MEENA	1/9/2004
1986	6469496K	DFR	SHANKAR SAINI	1/12/2004
1987	13874154H	DFR	SHIVA SHANKAR PRASAD	1/12/2004
1988	6471467N	HAV	SHRI KRISHNA SINGH YADAV	1/11/2004
1989	6468832Y	HAV	SIMANCHAL MISHRA	1/9/2004
1990	14337010W	HAV	SONESWAR DUTTA	1/1/2005
1991	6468725X	DFR	SRI URJIT RAM	1/9/2004
1992	13874136A	DFR	SURESH CHAND	1/12/2004
1993	6469434K	DFR	SURESH KUMAR SINGH	1/12/2004
1994	6468816F	DFR	SURESH SINGH LODHI	1/9/2004
1995	6373816W	DFR	TARLOCK SINGH	1/10/2004
1996	13879281F	HAV	TARSEM KUMAR	1/9/2004
1997	13874199H	DFR	UDAY NARAYAN SINGH	1/12/2004
1998	6469481F	DFR	UDAY PRASAD	1/12/2004
1999	6469430N	DFR	UMESH RAJAK	1/12/2004
2000	6374104A	DFR	VIJAY KUMAR SINGH	1/12/2004
2001	6469490H	DFR	VIJAY SHANKAR SINGH	1/12/2004
2002	6469027F	DFR	VIJAYA KUMAR K	1/10/2004
ARMY MEDICAL CORPS				
2003	13951920W	HAV	ABRAHAM	

2004	13950937X	HAV	ADITYA NARAYAN SHARMA	1/10/2004
2005	13951586A	HAV	AMAR BAHADUR SINGH	1/12/2004
2006	13951656N	HAV	ANAND RAJ	1/12/2004
2007	13951179X	HAV	ANIL SHANKAR DIKSHIT	1/11/2004
2008	13951210Y	HAV	ANJANI KUMAR HARIJAN	1/11/2004
2009	13946825A	HAV	ARUN HAZARIKA	1/12/2004
2010	13947050M	HAV	ARUN KR KHONIKAR	1/1/2005
2011	13947045F	HAV	ARUN KUMAR RAI	1/1/2005
2012	13946607F	HAV	ASHOK KUMAR	1/11/2004
2013	13950669Y	HAV	ASHOK KUMAR RAI	1/9/2004
2014	13947106N	HAV	BABBAN RAM	1/1/2005
2015	2470908N	HAV	BALDEV SINGH CHOUDHARY	1/1/2005
2016	13951372K	HAV	BALESHWAR KUMAR GUPTA	1/11/2004
2017	13946806P	HAV	BALI RAM DUBEY	1/12/2004
2018	13950687F	HAV	BALWAN SINGH	1/9/2004
2019	13946500M	HAV	BASHISHT NARAIN	1/10/2004
2020	13951842K	HAV	BHAGWAN PANDIT	1/1/2005
2021	13950881W	HAV	BHIM RAM	1/10/2004
2022	13950556W	HAV	BHUPAL SINGH	1/9/2004
2023	13951223W	HAV	BUDHIN CHANDRA NEOG	1/11/2004
2024	13951111W	HAV	C CHANDRAN	1/10/2004
2025	13950664A	HAV	CHAKARVARTHI	1/9/2004
2026	13947230P	HAV	CHANCHAL SINGH	1/1/2005
2027	13947581K	HAV	CHANDER BHAN	1/9/2004
2028	13947193M	HAV	CHANDRA BAHADUR	1/1/2005
2029	13947126F	HAV	CHANDRAVALI YADAV	1/1/2005
2030	13951192F	HAV	DATA SINGH	1/11/2004
2031	13947069L	HAV	DAVINDER KUMAR	1/1/2005
2032	13947146P	HAV	DEBA RAJ SAHANI	1/1/2005
2033	13951676F	HAV	DEBENDRA NATH MAITHI	1/12/2004
2034	13947192K	HAV	DEVENDRA KUMAR	1/1/2005
2035	13951285W	HAV	DEVINDER SINGH	1/11/2004
2036	13951023A	HAV	DEWARKA NATH SHARMA	1/10/2004
2037	13950688K	HAV	DHAN RAJ	1/9/2004
2038	13947189K	HAV	DHARAM SINGH	1/1/2005
2039	13947047M	HAV	DHIR SINGH YADAV	1/1/2005
2040	13951810F	HAV	DINA BANDHU MANDAL	1/1/2005
2041	13947122L	HAV	DINA NATH RAY	1/1/2005
2042	13946471H	HAV	DUSASAN GOCHHAYAT	1/10/2004
2043	13951527N	HAV	GALLA KRISHNA MURTHY	1/12/2004
2044	13951613Y	HAV	GANGA SAGAR RAM	1/12/2004
2045	13946978K	HAV	GHAN SHYAM	1/12/2004
2046	13951373M	HAV	GIAN SINGH	1/11/2004
2047	13951222N	HAV	GOLLAPALLI APPALA NAIDU	1/11/2004
2048	13947125Y	HAV	GOPAL SINGH	1/1/2005
2049	13947139Y	HAV	GOVINDAN KUTTY	1/1/2005
2050	13946434P	HAV	HANS RAJ VERMA	1/9/2004
2051	13947225K	HAV	HARI SHANKAR DAS	1/1/2005
2052	13947184L	HAV	HARI SHANKAR SINGH	1/1/2005
2053	13951238Y	HAV	HIRA LAL	1/11/2004
2054	13946638F	HAV	HUKAM CHAND	1/11/2004
2055	13946657M	HAV	ISHWAR SINGH	1/11/2004

2056	13947271Y	HAV	J JOHN BETH	1/1/2005
2057	13946964K	HAV	JAGDISH PRASAD GOUTAM	1/12/2004
2058	13946382K	HAV	JAGPAL SINGH	1/9/2004
2059	13951134X	HAV	JAYA CHANDRAN K	1/10/2004
2060	13946742P	HAV	JAYA KUMAR K M	1/10/2004
2061	13946930W	HAV	KAILASH SINGH	1/12/2004
2062	13946407L	HAV	KALA KUMAR K	1/9/2004
2063	13946971A	HAV	KALANDI CHARAN SAHOO	1/12/2004
2064	13947149H	HAV	KAMESHWAR PANDIT	1/1/2005
2065	13950554L	HAV	KAMLA PATI BHATT	1/9/2004
2066	13947117A	HAV	KANWAR BHAN	1/1/2005
2067	13950603H	HAV	KARAM SINGH	1/9/2004
2068	13951875P	HAV	KARAMALKAR ANANDA SADASHIV	1/1/2005
2069	13946820F	HAV	KARESH CHAND	1/12/2004
2070	13950639F	HAV	KARIM MOHAMMAD	1/9/2004
2071	13946917M	HAV	KASHMIR SINGH	1/12/2004
2072	13951707W	HAV	KEMPANNA HITTANAGI	1/1/2005
2073	13951166A	HAV	KESHAR SINGH RATHOR	1/10/2004
2074	13946950K	HAV	KESHAR SINGH RAWAT	1/12/2004
2075	13950793A	HAV	KRISHAN CHANDER DHANKHAR	1/10/2004
2076	13951251H	HAV	KRISHAN MURARI	1/11/2004
2077	13949566N	HAV	KUNDAN SINGH	1/9/2004
2078	13951049P	HAV	LAKHO ORAON	1/10/2004
2079	13951306F	HAV	LAL BABU PRASAD SINGH	1/11/2004
2080	13951163M	HAV	LAXMAN SINGH RATHORE	1/10/2004
2081	13951428L	HAV	LEELA DHAR	1/12/2004
2082	13951323F	HAV	M ANTONI RAJ	1/11/2004
2083	13951819W	HAV	MACHERLI CHINNAVENKATESWARLU	1/1/2005
2084	13947251L	HAV	MADAN LAL	1/1/2005
2085	13946357L	HAV	MADHU SUDHANAN UNNITHAN M B	1/9/2004
2086	13950786K	HAV	MAHAVIR SINGH	1/9/2004
2087	13946466X	HAV	MAHENDER NATH PANDEY	1/9/2004
2088	13951813P	HAV	MAHENDRA PRASAD	1/1/2005
2089	13947182A	HAV	MAHENDRA PRASAD	1/1/2005
2090	13950746H	HAV	MAHENDRA SINGH	1/9/2004
2091	13950843A	HAV	MAHESH KUMAR THAPA	1/10/2004
2092	13950099N	HAV	MANIK CHANDRA DAS	1/12/2004
2093	13950676P	HAV	MASI DASS SANGA	1/9/2004
2094	13951523X	HAV	MATHAI P J	1/12/2004
2095	13946592K	HAV	MOHAN S	1/10/2004
2096	13948935N	HAV	MUNNA LAL	1/10/2004
2097	13947195X	HAV	MURLI DHAR	1/1/2005
2098	13947077K	HAV	NANDA GOPAL SINGHA	1/1/2005
2099	13950727X	HAV	NARENDRA KUMAR	1/9/2004
2100	13946945Y	HAV	NARESH PRASAD YADAV	1/12/2004
2101	13946643M	HAV	NARIAN DUTT	1/11/2004
2102	13951158F	HAV	NIKAT AJINATH SARJE RAO	1/10/2004
2103	13950637W	HAV	NILA MOHAN SINGHA	1/9/2004
2104	13946752Y	HAV	NIROD CHANDRA GIRI	1/11/2004
2105	13950634H	HAV	NIRWANE TAGOR BHAAU	1/9/2004
2106	13951089W	HAV	OM PARKASH	1/10/2004
2107	13950623W	HAV	OM PRAKASH MEENA	1/9/2004

2108	13950880N	HAV	OM PRAKASH PAINULY	1/10/2004
2109	13947229A	HAV	OMKAR SINGH YADAV	1/1/2005
2110	13951324K	HAV	P BALAIAH	1/11/2004
2111	13946489Y	HAV	P PANNEER SELVAM	1/10/2004
2112	13946884M	HAV	PALUS MASIH	1/12/2004
2113	13950680X	HAV	PHOOL CHAND MUNDA	1/9/2004
2114	13950660K	HAV	PRABHA SHANKAR PRASAD	1/9/2004
2115	13946498A	HAV	PREM LAL	1/10/2004
2116	13951022X	HAV	QUDURUTULLAH	1/10/2004
2117	13950717N	HAV	R PANCHANATHAN	1/9/2004
2118	13951377H	HAV	R PICHANDY	1/11/2004
2119	13950811X	HAV	RABINDER SINGH	1/10/2004
2120	13951799N	HAV	RADHA KRISHNAN NAIR M	1/1/2005
2121	13946761A	HAV	RADHESHYAM KARMAKER	1/11/2004
2122	13951835N	HAV	RAJ PAL	1/1/2005
2123	13947068H	HAV	RAJ SINGH	1/1/2005
2124	13946402M	HAV	RAJA LAL SINGH	1/9/2004
2125	13950560Y	HAV	RAJBIR SINGH	1/9/2004
2126	13946929F	HAV	RAJENDRA KUMAR	1/12/2004
2127	13951520K	HAV	RAJENDRAN NAIR P	1/12/2004
2128	13950759A	HAV	RAJENDRAN P K	1/9/2004
2129	13946370P	HAV	RAJESHWAR SINGH	1/9/2004
2130	13950967P	HAV	RAKESH KUMAR	1/10/2004
2131	13946842A	HAV	RAM AWADH MISHRA	1/12/2004
2132	13947085H	HAV	RAM BACHAN	1/1/2005
2133	13950777H	HAV	RAM CHANDRA SAIKIA	1/9/2004
2134	13947071H	HAV	RAM KUWAR	1/1/2005
2135	13948498Y	HAV	RAM PHAL SINGH LAKRA	1/12/2004
2136	13947301L	HAV	RAM PHAL SINGH SOLANKI	1/1/2005
2137	13950820Y	HAV	RAM PHAL YADAV	1/10/2004
2138	13947061Y	HAV	RAM PRAWESH SINGH	1/1/2005
2139	13946398P	HAV	RAM SEWAK	1/9/2004
2140	13946927W	HAV	RAMAPPA P DODDANAVAR	1/12/2004
2141	13947051P	HAV	RAMDHAN PRAJAPAT	1/1/2005
2142	13950778L	HAV	RAMEN NEOG	1/9/2004
2143	13947186W	HAV	RAMESH CHANDER SHARMA	1/1/2005
2144	13946580P	HAV	RAMESH KUMAR	1/10/2004
2145	13946463K	HAV	RAMESH SINGH	1/9/2004
2146	13947250H	HAV	RAMOTAR	1/1/2005
2147	13951286Y	HAV	RANJIT SINGH	1/11/2004
2148	13950629X	HAV	RAOSAHEB BHAGWAN PATIL	1/9/2004
2149	13946958W	HAV	RAVINDER PRASAD SINGH	1/12/2004
2150	13950933F	HAV	RAVINDRA SINGH	1/10/2004
2151	13951578F	HAV	ROHTASH SINGH	1/12/2004
2152	13951772W	HAV	S PRASAD CHATURVEDI	1/1/2005
2153	13946711P	HAV	SADA NANDA DAS	1/11/2004
2154	13947041L	HAV	SANT KUMAR	1/1/2005
2155	13951061W	HAV	SANT RAM	1/10/2004
2156	13951195P	HAV	SANTOKH SINGH	1/11/2004
2157	13951014Y	HAV	SARJAN CH DAS	1/10/2004
2158	13951641L	HAV	SATBIR SINGH	1/12/2004
2159	13946363Y	HAV	SATYA NARAYAN SINGH	1/9/2004

2160	13947037H	HAV	SATYA RAM	1/1/2005
2161	13951153H	HAV	SHAIENDRA KUMAR	1/10/2004
2162	13951331A	HAV	SHARWAN KUMAR	1/11/2004
2163	13947155W	HAV	SHASHI DHAR SINGH	1/1/2005
2164	13946732L	HAV	SHATRUGHAN PANDEY	1/11/2004
2165	13947056N	HAV	SHEO KUMAR ROY	1/1/2005
2166	13950855P	HAV	SHEO MOHAN LAL	1/10/2004
2167	13950964F	HAV	SHER SINGH	1/10/2004
2168	13950789X	HAV	SHISH PAL SHARMA	1/10/2004
2169	13946802Y	HAV	SHRI NARAYAN	1/12/2004
2170	13947157F	HAV	SHYAM BIHARI DUBEY	1/1/2005
2171	13946610F	HAV	SIKANDER LAL	1/11/2004
2172	13946709X	HAV	SIYA RAM	1/11/2004
2173	13947132P	HAV	SOHAN LAL	1/1/2005
2174	13946668Y	HAV	SOMA SUNDARAN A R	1/11/2004
2175	13947223Y	HAV	SONVIR	1/1/2005
2176	13946747N	HAV	SREE DHARAN POLLAI G	1/11/2004
2177	13946653W	HAV	SUBHASH CHANDRA	1/11/2004
2178	13951092W	HAV	SUDAMA PRASAD	1/10/2004
2179	13946445F	HAV	SUDAMA SINGH	1/9/2004
2180	13950551X	HAV	SUKH RAM SINGH	1/9/2004
2181	13946997P	HAV	SURYA BALI PRASAD	1/12/2004
2182	13946976Y	HAV	SURYAKANT SHAMRA	1/12/2004
2183	13950870K	HAV	T SREEDHARA	1/10/2004
2184	13951118A	HAV	TAIRAS EKKA	1/10/2004
2185	13951017M	HAV	TAJ MOHAMMAD ANSARI	1/9/2004
2186	13950714A	HAV	TANIK THAKUR	1/9/2004
2187	13946908L	HAV	TARSEM SINGH	1/12/2004
2188	13950729H	HAV	THIMMA RAYAN	1/9/2004
2189	13951317N	HAV	UMAKANT SINGH	1/11/2004
2190	13951663K	HAV	VARGHESE K A	1/12/2004
2191	13951387M	HAV	VEERA PERUMAL E	1/11/2004
2192	13950552A	HAV	VIDYA RAM	1/9/2004
2193	13951594Y	HAV	VIJAI PAL	1/12/2004
2194	13948011A	HAV	VIRENDRA SINGH	1/10/2004
2195	13946563P	HAV	VISAWANATH KRISHNA GAIKWAD	1/10/2004
2196	13951843M	HAV	WAKEEL SINGH	1/1/2005
2197	13946956L	HAV	YOGENDAR SINGH	1/12/2004
2198	13946414F	HAV	YOGENDRA PRASAD SINGH	1/9/2004
ARMY ORDNANCE CORPS				
2199	6916766P	HAV	A RAMESAN	1/12/2004
2200	6913333M	HAV	AJEET RAJ MAJOTRA	1/10/2004
2201	6913614H	HAV	AKHILESH CHANDRA MISHRA	1/12/2004
2202	6913611P	HAV	ALEXIYOUS LAKRA	1/12/2004
2203	6916622M	HAV	AMAR KUMAR SAMADDAR	1/11/2004
2204	6913060P	HAV	AMBIKA SHARAN SINGH	1/9/2004
2205	6913275N	HAV	ANGREZ SINGH	1/10/2004
2206	6916783P	HAV	ASARAM TEJRAO BHANUSE	1/12/2004
2207	6913343W	HAV	B S R DADABA	1/11/2004
2208	6916985W	HAV	BABLA GHOSE	1/1/2005
2209	6916436W	HAV	BADRI NARAYAN BASU	1/10/2004

2210	6913834M	HAV	BADSHAH SINGH	1/1/2005
2211	6916698M	HAV	BAYAPURI BALA SUBBAIAH	1/12/2004
2212	6913569F	HAV	BHAGWAN SHARMA	1/12/2004
2213	6916509X	HAV	BHAGWAN SINGH	1/10/2004
2214	6916700Y	HAV	BHAGWAN SINGH	1/12/2004
2215	6913609X	HAV	BHARAT SINGH	1/12/2004
2216	6913338L	HAV	BHOORE SINGH	1/11/2004
2217	6913872H	HAV	BHUP SINGH	1/1/2005
2218	6913755X	HAV	BIDHAN CHANDRA DAS	1/12/2004
2219	6913107P	HAV	BIRENDRA SINGH	1/9/2004
2220	6913765F	HAV	CHANDRA MANI PRASAD	1/1/2005
2221	6916665F	HAV	CHHOTE LAL PATHAK	1/11/2004
2222	6916910Y	HAV	DEVENDER KUMAR SINGH	1/1/2005
2223	6913629L	HAV	DEVI SINGH RAWAT	1/12/2004
2224	6913410W	HAV	DHARAMESWAR BORAH	1/11/2004
2225	6913085F	HAV	DINA NATH SINGH	1/9/2004
2226	6916542P	HAV	DIWAN SINGH	1/10/2004
2227	6916900P	HAV	DULAL CHANDRA GHOSH	1/1/2005
2228	6913925W	HAV	G CHANDRAN	1/12/2004
2229	6913083W	HAV	HANUMAN SINGH	1/9/2004
2230	6916507M	HAV	HANUMAN SINGH NEGI	1/10/2004
2231	6913545X	HAV	HIRA LAL	1/12/2004
2232	6913244N	HAV	JAGAT SINGH NEGI	1/10/2004
2233	6913949A	HAV	JAGATTAR SINGH	1/1/2005
2234	6916928P	HAV	JAGDISH PRASAD	1/1/2005
2235	6913409F	HAV	JAGMAL SHARMA	1/11/2004
2236	6916831K	HAV	JALESHWAR DOKARA PRASAD	1/12/2004
2237	6916764K	HAV	JAWAHAR LAL SINGH	1/12/2004
2238	6916441F	HAV	JITENDER KUMAR SINGH	1/10/2004
2239	6916822H	HAV	K JAYARAMAN	1/12/2004
2240	6913399H	HAV	KALYAN SINGH	1/11/2004
2241	6913189H	HAV	KAUSHAL KISHOR	1/10/2004
2242	6913361Y	HAV	KRISHNAKANT TIWARI	1/11/2004
2243	6913114L	HAV	KULDIP SINGH	1/9/2004
2244	6916829M	HAV	MADAN SINGH	1/12/2004
2245	6916345M	HAV	MADHO SINGH KUSHWAH	1/9/2004
2246	6916726N	HAV	MAHANAND SINGH	1/12/2004
2247	6913094H	HAV	MAHARAJ SINGH	1/9/2004
2248	6913173X	HAV	MAHESHWAR SINGH	1/10/2004
2249	6913172P	HAV	MD KADERALI SHAKE	1/10/2004
2250	6913764Y	HAV	MD NURUL ISLAM	1/1/2005
2251	6913321X	HAV	MOHAMAD HISAMUDDIN	1/10/2004
2252	6913646L	HAV	MOHAN LAL	1/12/2004
2253	6913316M	HAV	MOHAN PILLAI S	1/10/2004
2254	6916492P	HAV	NARAYAN SINGH	1/10/2004
2255	6913581H	HAV	P S SUNNY	1/12/2004
2256	6913403A	HAV	PARAS NATH SINGH	1/11/2004
2257	6916593H	HAV	PHOOL BADAN	1/11/2004
2258	6913105K	HAV	PRAHLAD RAY NAI	1/9/2004
2259	6916867H	HAV	PURSHOTTAM DAS	1/12/2004
2260	6913923L	HAV	PUSPA RAI PRUSTY	1/12/2004
2261	6913245W	HAV	RAKESH SINGH	1/10/2004
			RAKSHPAL SINGH PATHANIA	

2262	6913116W	HAV	RAM BABU SINGH	
2263	6916840L	HAV	RAM BACHAN RAM	1/9/2004
2264	6916826Y	HAV	RAM BADAN SINGH	1/12/2004
2265	6913980M	HAV	RAM KISHAN SHARMA	1/12/2004
2266	6916459X	HAV	RAM NAGINA SHARMA	1/1/2005
2267	6916842W	HAV	RAM NIWAS SINGH	1/10/2004
2268	6913414M	HAV	RAM PRAVESH CHOWBAY	1/12/2004
2269	6913527P	HAV	RAMAKANT CHOUBEY	1/11/2004
2270	6913870X	HAV	RAMASHRAY SINGH YADAV	1/12/2004
2271	6913582L	HAV	RAMAWATAR SINGH	1/1/2005
2272	6913926Y	HAV	RAMESH CHAND	1/12/2004
2273	6913091P	HAV	RAMESH CHAND	1/12/2004
2274	6913429P	HAV	RAMESHWAR RAM	1/9/2004
2275	6913698F	HAV	REMANAN D	1/11/2004
2276	6913088P	HAV	SATYA GOPAL	1/1/2005
2277	6913588M	HAV	SATYA PAL SHARMA	1/9/2004
2278	6913849P	HAV	SHIV BHAJAN SINGH	1/12/2004
2279	6913217K	HAV	SHRI PRAKESH SINGH	1/1/2005
2280	6916934H	HAV	SIDHIK KUTTY ME	1/10/2004
2281	6913325N	HAV	SUMER SINGH GAUR	1/1/2005
2282	6913574M	HAV	SURENDRA MISHRA	1/10/2004
2283	6913585Y	HAV	SYKAM MALA MONDAIAH	1/12/2004
2284	6916377P	HAV	TANARDHAN GANPAT PATHANKAR	1/12/2004
2285	6913641M	HAV	TRILOK SINGH	1/9/2004
2286	6916601W	HAV	TUL BAHADUR KHADKA	1/12/2004
2287	6913505W	HAV	UMASHANKAR TIWARI	1/11/2004
2288	6913281F	HAV	VIJAY PAL SINGH	1/12/2004
2289	6916664Y	HAV	VIRPAL SINGH SHENGAR	1/10/2004
2290	6913827W	HAV	YESODHARAN PILLAI K	1/11/2004
CORPS OF ELECTRICAL AND MECHANICAL ENGINEERS				
2291	14539507W	HAV	ACHHAR SINGH BARWAL	1/11/2004
2292	14530964H	HAV	AMAR PAL SINGH	1/10/2004
2293	14531812N	HAV	AMAR SINGH	1/1/2005
2294	14539298K	HAV	AMAR SINGH	1/10/2004
2295	14539072Y	HAV	AMERANDRA CHOUDHARY	1/10/2004
2296	14530618M	HAV	ANIL KUMAR	1/9/2004
2297	14540587L	HAV	ANIL KUMAR GUPTA	1/1/2005
2298	14540155W	HAV	ANIL KUMAR LAL	1/12/2004
2299	14539101H	HAV	ANIRUDHA RATH	1/10/2004
2300	14539271M	HAV	ANUSE ASHOK LAXMAN	1/11/2004
2301	14540627F	HAV	ANWAR SINGH	1/1/2005
2302	14540121H	HAV	ARAVINDAN KANMANA	1/12/2004
2303	14531877F	HAV	ARJUN CHARAN ROUT	1/1/2005
2304	14540380L	HAV	ARJUN PRASAD MEHTA	1/12/2004
2305	14540740W	HAV	ASHOK KUMAR	1/1/2005
2306	14539339H	HAV	ASHOK KUMAR	1/12/2004
2307	14538725H	HAV	ASHOK KUMAR BISWAL	1/1/2005
2308	14538604F	HAV	ASHOK MARUTI SALVE	1/10/2004
2309	14540743K	HAV	ATTAR SINGH	1/9/2004
2310	14538990Y	HAV	AVTAR SINGH	1/9/2004
				1/1/2005
				1/10/2004

2311	14540437P	HAV	AWADHESH KUMAR SHARMA	1/12/2004
2312	14531494P	HAV	BABAN PRASAD	1/1/2005
2313	14540523A	HAV	BABU T	1/1/2005
2314	14531417A	HAV	BACHCHAN RAM	1/1/2005
2315	14540543N	HAV	BAL MUKUND	1/1/2005
2316	14538719P	HAV	BALA KRISHNA PILLAI K K	1/9/2004
2317	14539171F	HAV	BALAN EDUVIKKAL	1/10/2004
2318	14539216W	HAV	BALESHWAR PAHAN	1/10/2004
2319	14531378M	HAV	BALI RAM SINGH	1/12/2004
2320	14539223M	HAV	BALJINDER SINGH	1/10/2004
2321	2470890H	HAV	BALKAR CHAND	1/12/2004
2322	14539952P	HAV	BARMESHWAR SINGH	1/12/2004
2323	14540234L	HAV	BASANTA KUMAR ROY	1/1/2005
2324	14539773P	HAV	BEER VIJAY SINGH	1/12/2004
2325	14530639H	HAV	BELLAM SINGH	1/9/2004
2326	14538256L	HAV	BENCHEY LAL	1/10/2004
2327	14538723X	HAV	BHAG SINGH	1/9/2004
2328	14538804X	HAV	BHAGWAN DASS	1/10/2004
2329	14531201Y	HAV	BHAGWAN SINGH	1/11/2004
2330	14531300F	HAV	BHAGWAT PRASAD YADAV	1/12/2004
2331	14530659W	HAV	BHARAT LAL	1/9/2004
2332	14531252M	HAV	BHARAT SINGH	1/12/2004
2333	14538646N	HAV	BHIM SINGH	1/9/2004
2334	14538849X	HAV	BHUP SINGH	1/10/2004
2335	14539197W	HAV	BINOD SHANKAR PRASAD	1/10/2004
2336	14530671X	HAV	BIRENDAR SINGH GUSAI	1/9/2004
2337	14539842A	HAV	BRAHMANAND	1/12/2004
2338	14540442A	HAV	BRAJENDRA PRASAD SHARMA	1/12/2004
2339	14540382W	HAV	BRAM DEO DAHA	1/12/2004
2340	14539808A	HAV	BRIJ BIHARI	1/12/2004
2341	14538331K	HAV	C VISWANATHAN	1/9/2004
2342	14540693K	HAV	CHANDER SINGH	1/1/2005
2343	14540290K	HAV	CHANDRA BHAL MANI TIWARI	1/1/2005
2344	14530635M	HAV	CHANDRA DUTT GAUR	1/9/2004
2345	14539310A	HAV	CHANDRA SEKHARAN K	1/10/2004
2346	14531127H	HAV	CHANDRAMA SINGH	1/12/2004
2347	14539598L	HAV	CHHATTAR SINGH	1/11/2004
2348	14538842N	HAV	CHHOTU RAM	1/10/2004
2349	14531562X	HAV	DAYASHANKAR SINGH	1/1/2005
2350	14538962M	HAV	DEO MANI	1/10/2004
2351	14531031A	HAV	DEO RAJ SINGH	1/11/2004
2352	14538749M	HAV	DESH RAJ YADAV	1/9/2004
2353	14539620L	HAV	DEVADASAN M	1/11/2004
2354	14540526N	HAV	DEVAIAH N G	1/1/2005
2355	14539239X	HAV	DEVENDRA KUMAR CHOUBE	1/11/2004
2356	14539727A	HAV	DEVI DATT	1/11/2004
2357	14540695P	HAV	DEVI SINGH	1/1/2005
2358	14539279Y	HAV	DHARAM PAL	1/11/2004
2359	14539903M	HAV	DHARAM SINGH	1/12/2004
2360	14539823P	HAV	DHARAMBIR	1/12/2004
2361	14531503L	HAV	DHARAMPAL	1/1/2005
2362	14540685L	HAV	DHARMA RAM DAS	1/1/2005

2363	14531068F	HAV	DHIAN SINGH	1/11/2004
2364	14530871N	HAV	DHIR SINGH	1/10/2004
2365	14540694M	HAV	DHIRENDRA PRASAD SINGH	1/1/2005
2366	14531506Y	HAV	DILIP KUMAR PAL	1/1/2005
2367	14538968N	HAV	DINESH SHARMA	1/10/2004
2368	14531391W	HAV	DIWAKAR PRASAD TIWARI	1/1/2005
2369	14539994F	HAV	DURGA PRASAD RATHORE	1/12/2004
2370	14544017M	HAV	DURGA SINGH	1/11/2004
2371	14540767N	HAV	FUL KUNWAR	1/1/2005
2372	14539805M	HAV	G DANIEL	1/12/2004
2373	14540762P	HAV	G VANISELVAN	1/1/2005
2374	14538791L	HAV	GAMBHIR SINGH	1/10/2004
2375	14539818K	HAV	GANESH THAKUR	1/12/2004
2376	14539173M	HAV	GANGADHARAN K	1/10/2004
2377	14531394K	HAV	GARASIA SINGAJI BHAI JIVAJI	1/1/2005
2378	14540546F	HAV	GAURI SHANKAR	1/1/2005
2379	14539437H	HAV	GAVLE VAJINATH VISHWANATH RAO	1/11/2004
2380	14538927K	HAV	GHATAGE SHIVAJI SATAWAJI	1/10/2004
2381	14539119Y	HAV	GIRJANANDAN SHARMA	1/10/2004
2382	14538343Y	HAV	GOKAUMA MAHESWARA RAO	1/9/2004
2383	14540057W	HAV	GOPAL SINGH	1/12/2004
2384	14540677M	HAV	GOPINATHAN NAIR P K	1/1/2005
2385	14540243M	HAV	GOURI SHANKAR PAL	1/1/2005
2386	14530869W	HAV	HANUMAN PANIGRAHY	1/10/2004
2387	14540619H	HAV	HARBIR SINGH	1/1/2005
2388	7771110M	HAV	HARI NANDAN PRASAD	1/11/2004
2389	14537366N	HAV	HARISH CHANDRA JUMMAN	1/10/2004
2390	14531189H	HAV	HEM CHADRA PANT	1/11/2004
2391	14540078M	HAV	HIRA LAL DAS	1/1/2005
2392	14531282K	HAV	I JESU RATHINAM	1/11/2004
2393	14539123F	HAV	INDER SINGH	1/10/2004
2394	14538752M	HAV	INDERJIT SINGH	1/9/2004
2395	14538663N	HAV	INGVALE SHASHIKANT HANAMANT	1/9/2004
2396	14539649N	HAV	ISHAM SINGH	1/11/2004
2397	14676366Y	HAV	ISWAR SINGH SIWAL	1/12/2004
2398	14539787P	HAV	JABAR SINGH	1/12/2004
2399	14539688M	HAV	JAGAN NATH MONDAL	1/12/2004
2400	14538353H	HAV	JAGDEEP RAI	1/9/2004
2401	14539162A	HAV	JAGDISH CHAND	1/10/2004
2402	14540702A	HAV	JAGDISH CHANDRA PATHAK	1/1/2005
2403	14531156X	HAV	JAGMOHAN SINGH	1/12/2004
2404	14539334K	HAV	JAGVIR SINGH	1/10/2004
2405	14540307M	HAV	JAGVIR SINGH	1/1/2005
2406	14540239K	HAV	JAI LAL SINGH	1/1/2005
2407	14538854H	HAV	JAI SINGH	1/10/2004
2408	14530929A	HAV	JAINARAYAN TRIPATHI	1/10/2004
2409	14540059F	HAV	JAIPAL SINGH	1/12/2004
2410	14539091K	HAV	JAIRAM PANDEY	1/10/2004
2411	14539609M	HAV	JAMANT KUMAR PANDEY	1/11/2004
2412	14530687H	HAV	JANARDAN PRASAD YADAV	1/9/2004
2413	14538643A	HAV	JANARDHAN PANDEY	1/9/2004
2414	14530702M	HAV	JEET CHAND	1/9/2004

2415	14539428F	HAV	JHANA VI KUMAR	1/11/2004
2416	14538972W	HAV	JITA RAM	1/10/2004
2417	14538623M	HAV	JOGINDER PAL	1/9/2004
2418	14540244P	HAV	JOGINDER SINGH	1/1/2005
2419	14540688Y	HAV	JOGRAJ PAL	1/1/2005
2420	14538514A	HAV	K G HIMMATRAO	1/9/2004
2421	14539739P	HAV	K RAJBIHARI SINGH	1/11/2004
2422	14530753A	HAV	KADIR ALI	1/9/2004
2423	14538934A	HAV	KAILASH CHAND KUMHAR	1/10/2004
2424	14531861W	HAV	KAILASH CHANDRA HOTA	1/1/2005
2425	14538335A	HAV	KAMBLE HINDURAO VISHNU	1/9/2004
2426	14539690K	HAV	KANWAR SINGH	1/12/2004
2427	14539031P	HAV	KARAN SINGH RAWAT	1/10/2004
2428	14540423P	HAV	KESHAW TIWARI	1/12/2004
2429	14531411Y	HAV	KHIM SINGH	1/1/2005
2430	14531720F	HAV	KRISHNA KUMAR	1/1/2005
2431	14531898X	HAV	KSHITISH CHANDRA SEN	1/1/2005
2432	14538748K	HAV	KULDIP SINGH	1/9/2004
2433	14531250F	HAV	LAL BAHADUR PRASAD	1/12/2004
2434	14538830Y	HAV	LALA RAM YADAV	1/10/2004
2435	14530800M	HAV	LAXMAN LAL MEENA	1/10/2004
2436	14538984L	HAV	LAXMAN MAJHI	1/10/2004
2437	14540700P	HAV	M CHELLASAMY	1/1/2005
2438	14539092M	HAV	M D AMIN	1/10/2004
2439	14540760K	HAV	M KATHIRVEL	1/1/2005
2440	14538733F	HAV	MADAN GOPAL	1/9/2004
2441	14538882P	HAV	MADANJEE SINGH	1/10/2004
2442	14540020P	HAV	MADHAV SINGH JATAV	1/12/2004
2443	14540006H	HAV	MADHU SOODANAN PILLAI P	1/12/2004
2444	14539315Y	HAV	MADHUSUDANAN NAIR N	1/10/2004
2445	14530658N	HAV	MAJHI MEHAR	1/9/2004
2446	14530909M	HAV	MAN SINGH	1/10/2004
2447	14540418K	HAV	MANDGE LAXMAN DAGADU	1/1/2005
2448	14530763K	HAV	MAULA SHAREF	1/9/2004
2449	14539266F	HAV	MD NAJRUL HAQUE	1/11/2004
2450	14531896M	HAV	MDABBAS ALI	1/1/2005
2451	14539248Y	HAV	MEHAR CHAND	1/11/2004
2452	14539422A	HAV	MOHANAN G	1/11/2004
2453	14540753N	HAV	MOHANAN K	1/1/2005
2454	14540362H	HAV	MOSSES A	1/12/2004
2455	2470596H	HAV	MUKHTAR SINGH	1/9/2004
2456	14539346Y	HAV	MUKUNDA BORDOLOI	1/10/2004
2457	14539623Y	HAV	MURALEEDHARAN PILLAI G	1/11/2004
2458	14541138H	HAV	MUTHUKUMARAN T	14-07-2004
2459	14538753P	HAV	NAGENDRA PRASAD	1/9/2004
2460	14540430L	HAV	NAGENDRA PRASAD	1/12/2004
2461	14539648L	HAV	NANDA BALLABH	1/11/2004
2462	14531472W	HAV	NANDA KUMAR B	1/12/2004
2463	14538675H	HAV	NARA SINGHA SANNIGRAHI	1/9/2004
2464	14530474P	HAV	NARLA V M MOHANA RAO	1/10/2004
2465	14540717H	HAV	NASIRUDDIN AHMAD	1/1/2005
2466	14539670W	HAV	NATHAN LEPCHA	1/12/2004

2467	14540621A	HAV	OM PRAKASH MISHRA	1/1/2005
2468	14539892L	HAV	OMKAR SINGH	1/12/2004
2469	14538726L	HAV	ONTUDDU LAKSHMAIAH	1/9/2004
2470	14539468H	HAV	P JAIHIND REDDY	1/11/2004
2471	14540615M	HAV	P MANOHARAN	1/1/2005
2472	14538760L	HAV	PANCHI LAL	1/9/2004
2473	14539098N	HAV	PARSU RAM SINGH	1/10/2004
2474	14539734W	HAV	PERUMAL MC	1/11/2004
2475	14539667W	HAV	PHERAN SINGH	1/12/2004
2476	14531366X	HAV	PIAR CHAND	1/12/2004
2477	14539109P	HAV	POORA RAM BORAWAT	1/10/2004
2478	14531582L	HAV	PRAHALAD SINGH	1/1/2005
2479	14539007Y	HAV	PRAKASH SINGH	1/10/2004
2480	14538535W	HAV	PRATAP KUMAR CHAKRA	1/9/2004
2481	14539104W	HAV	PRATAP SINGH	1/10/2004
2482	14539360L	HAV	PRATAP SINGH	1/10/2004
2483	14540088W	HAV	PREM NARAYAN PANDEY	1/1/2005
2484	14538651Y	HAV	PROSANTA KUMAR GHOSH	1/9/2004
2485	14540306K	HAV	PURAN SINGH GALAV	1/1/2005
2486	14540682X	HAV	RABINDER KUMAR	1/1/2005
2487	14539724M	HAV	RABINDRANATH JANA	1/11/2004
2488	14539891H	HAV	RADHA CHARAN	1/12/2004
2489	14538955W	HAV	RADHAKRISHNAN G S	1/10/2004
2490	14540468P	HAV	RADHESHYAM SHARMA	1/12/2004
2491	14539081A	HAV	RAGHUNATH PANDEY	1/10/2004
2492	14540190Y	HAV	RAJ KISHORE RAM	1/1/2005
2493	14539156M	HAV	RAJ PAL SINGH	1/10/2004
2494	14538958K	HAV	RAJA RAM JAT	1/10/2004
2495	14539819M	HAV	RAJAN VASISHTA	1/12/2004
2496	14539300W	HAV	RAJARAM PHAKIRA KUNDEKAR	1/10/2004
2497	14540712K	HAV	RAJBIR SINGH	1/1/2005
2498	14531497H	HAV	RAJENDER BHARTI	1/1/2005
2499	14540549P	HAV	RAJENDER SINGH	1/1/2005
2500	14531449H	HAV	RAJENDRA SINGH	1/12/2004
2501	14539042F	HAV	RAJENDRA SINGH	1/10/2004
2502	14539902K	HAV	RAJESH KUMAR	1/12/2004
2503	14539426W	HAV	RAJESH KUMAR	1/11/2004
2504	14539738M	HAV	RAJINDER SINGH	1/11/2004
2505	14538920A	HAV	RAKESH KUMAR	1/10/2004
2506	14540360X	HAV	RAM AUTAR	1/12/2004
2507	14530962X	HAV	RAM AVADH SINGH	1/10/2004
2508	14540416Y	HAV	RAM BABU	1/1/2005
2509	14539108M	HAV	RAM BAHADUR CHETTRI	1/10/2004
2510	14539832W	HAV	RAM CHANDER	1/12/2004
2511	14538542M	HAV	RAM CHANDRA JHA	1/9/2004
2512	14540698H	HAV	RAM DARSAN SINGH	1/1/2005
2513	14539662X	HAV	RAM KUMAR SHARMA	1/11/2004
2514	14540769Y	HAV	RAM LAL	1/1/2005
2515	14537024A	HAV	RAM NATH	1/9/2004
2516	14540605H	HAV	RAM NATH SINGH	1/1/2005
2517	14542945K	HAV	RAM PRASAD GOYAR	1/9/2004
2518	14539966P	HAV	RAM SAJEEVAN	1/12/2004

2519	14538709L	HAV	RAM SEVAK	1/10/2004
2520	14539941H	HAV	RAM SURAT SINGH CHAUHAN	1/12/2004
2521	14538537F	HAV	RAMA CHANDRA NAYAK	1/9/2004
2522	14538904H	HAV	RAMA SHANKAR SINGH	1/10/2004
2523	14538973Y	HAV	RAMANUJ SINGH	1/10/2004
2524	14538906N	HAV	RAMAVTAR	1/10/2004
2525	14538648Y	HAV	RAMEN BARUA	1/9/2004
2526	14539487N	HAV	RAMESH CH MURMU	1/11/2004
2527	14530928X	HAV	RAMESH CHAND PANDEY	1/10/2004
2528	14540148A	HAV	RAMESH CHAND TRIPATHI	1/12/2004
2529	14539809H	HAV	RAMESH CHANDRA	1/12/2004
2530	14539887A	HAV	RAMESH TUKARAM PAWAR	1/12/2004
2531	14530848A	HAV	RATAN KUMAR DAS	1/10/2004
2532	14540311P	HAV	RATANJIT RAI	1/1/2005
2533	14539669F	HAV	RAVENDRA KUMAR	1/12/2004
2534	14538443K	HAV	RAVINDER SINGH	1/9/2004
2535	14530660L	HAV	RAVINDRA NATH SAH	1/9/2004
2536	14540749L	HAV	RAVINDRAN M	1/1/2005
2537	14540594F	HAV	RAVINDRAN TL	1/1/2005
2538	14539839A	HAV	RING LAL	1/12/2004
2539	14540222W	HAV	ROBIN BORUAH	1/1/2005
2540	14530669A	HAV	ROHINEE PRASAD	1/9/2004
2541	14530812F	HAV	ROHITASWA KUMAR	1/10/2004
2542	14538517N	HAV	ROOP SINGH	1/9/2004
2543	14531069K	HAV	RUP KUMAR	1/11/2004
2544	14539810X	HAV	RUP RAM CHETIA	1/12/2004
2545	14540585A	HAV	S MOHAN KUMAR	1/1/2005
2546	14539515P	HAV	S SREEKANTHA BABU	1/11/2004
2547	14675788X	HAV	SADANAND CHOUDHARY	1/10/2004
2548	14538884A	HAV	SAHI RAM	1/10/2004
2549	14538695W	HAV	SAJJAN SINGH	1/10/2004
2550	14538987Y	HAV	SAKTI PADA BISWAS	1/10/2004
2551	14540041L	HAV	SAM JOHN	1/12/2004
2552	14531258N	HAV	SAMHUT SINGH	1/12/2004
2553	14540633P	HAV	SANTOSH KUMAR MISHRA	1/1/2005
2554	14539610F	HAV	SASIDHARAN T	1/11/2004
2555	14538960F	HAV	SATBIR SINGH	1/10/2004
2556	14538320X	HAV	SATYA RAM	1/9/2004
2557	14538794Y	HAV	SAWANT SUKHADEO ARJUN	1/10/2004
2558	14539708P	HAV	SELVARAJ M	1/11/2004
2559	14538683F	HAV	SHAIK AZEEZ BASHA	1/10/2004
2560	14538734K	HAV	SHAM SINGH	1/9/2004
2561	14530856Y	HAV	SHARWAN KUMAR MISHRA	1/11/2004
2562	14538770P	HAV	SHERE HIND	1/9/2004
2563	14540675F	HAV	SHESHAPPA MOOLYA K	1/1/2005
2564	14540120A	HAV	SHINDE RAM JAHU	1/12/2004
2565	14540396W	HAV	SHISHU PAL SINGH	1/12/2004
2566	14540325P	HAV	SHIV SHANKAR	1/1/2005
2567	14531388W	HAV	SHRI BHAGWAN UPADHYAY	1/12/2004
2568	14530688L	HAV	SHRI NIBAS GIRI	1/9/2004
2569	14530891F	HAV	SHUBH KARAN	1/11/2004
2570	14538974F	HAV	SHYAM KISHORE SHARMA	1/10/2004

2571	14539742P	HAV	SIVAN NAIR M	
2572	14538841L	HAV	SK MD MAINUDDIN	1/11/2004
2573	14538832K	HAV	SK YEANUS	1/10/2004
2574	14531426F	HAV	SOHAN PRASAD	1/10/2004
2575	14531559X	HAV	SRI NARAYAN VERMA	1/12/2004
2576	14531890L	HAV	SRIBATCHHA KUMAR MOHANTY	1/1/2005
2577	14539439N	HAV	SRIRURE VINAYAK DATTATRYA	1/1/2005
2578	14531075X	HAV	SUBASH CHANDER SHARMA	1/11/2004
2579	14540691Y	HAV	SUBEDAR SINGH YADAV	1/11/2004
2580	14539844L	HAV	SUBHASH CHAND	1/1/2005
2581	14539261H	HAV	SUBHASH KUMAR RUHELA	1/12/2004
2582	14530634K	HAV	SUBIR KUMARA RAY CHAUDHURY	1/11/2004
2583	14540579M	HAV	SUDISHTA KUMAR GUPTA	1/9/2004
2584	14539673K	HAV	SUNIL KUMAR GUPT	1/1/2005
2585	14539380Y	HAV	SURENDER SINGH RANA	1/12/2004
2586	14540378N	HAV	SURENDRA KUMAR	1/10/2004
2587	14531066W	HAV	SURENDRA PRASAD SINGH	1/12/2004
2588	14539603L	HAV	SURENDRA SINGH	1/11/2004
2589	14531484L	HAV	SURESH CHANDRA	1/11/2004
2590	14536311X	HAV	SURESH KUMAR	1/12/2004
2591	14539302F	HAV	SURESH KUMAR	1/9/2004
2592	14538559A	HAV	SURESH KUMAR	1/10/2004
2593	14538576A	HAV	SURESH KUMAR	1/9/2004
2594	14539387H	HAV	SURESH SINGH	1/9/2004
2595	14539338A	HAV	SURINDER KUMAR	1/11/2004
2596	14531753M	HAV	SURINDER KUMAR	1/10/2004
2597	14531383X	HAV	SURJIT SINGH	1/1/2005
2598	14540522X	HAV	SUSHIL KUMAR TIWARI	1/12/2004
2599	14539735Y	HAV	SWAMI NATH YADAV	1/1/2005
2600	14540529F	HAV	T SEKAR	1/11/2004
2601	14538704M	HAV	TANKA NATH SINHA	1/1/2005
2602	14531878K	HAV	TAPAN KUMAR DAS	1/10/2004
2603	14539514M	HAV	TARNI SINGH	1/10/2004
2604	14539514M	HAV	TILAK RAJ	1/1/2005
2604	14538580H	HAV	UMA SHANKAR PANDEY	1/11/2004
2605	14538902X	HAV	UMED SINGH BIST	1/9/2004
2606	14538985N	HAV	UMESH MISHRA	1/10/2004
2607	14539214L	HAV	UPENDRA NATH PANDEY	1/10/2004
2608	14538475M	HAV	VENUGOPAL T S	1/10/2004
2609	7772828H	HAV	VIJAY PRAKASH SHARMA	1/9/2004
2610	14540750A	HAV	VIJAYA KUMAR P	1/1/2005
2611	14538717K	HAV	VIJAYAN UNNITHAN G	1/1/2005
2612	14538462P	HAV	VINESH GURANG	1/9/2004
2613	14531521N	HAV	VIRENDRA	1/9/2004
2614	14540337K	HAV	VISHWANATH	1/1/2005
2615	14539370P	HAV	YASH PAL SHARMA	1/1/2005
2616	14531343W	HAV	YOGENDRA NATH SHINGH	1/10/2004
2617	14531065N	HAV	ZALAM SINGH	1/12/2004
				1/11/2004

REMOUNT AND VETERINARY CORPS

2618	7237887N	DFR	AMAR NATH	
2619	7237944K	HAV	ANIL KONGARI	1/10/2004
2620	7237857W	HAV	ANIL KUMAR PRASAD	1/12/2004
2621	7238036N	DFR	BOLIN CHALIHA	1/9/2004
2622	7238026K	HAV	GOPAL SINGH	1/1/2005
2623	7237927K	DFR	LALESHWAR TIWARY	1/1/2005
2624	7237864M	DFR	OM PRAKASH	1/12/2004
				1/10/2004

2625	7237876F	DFR	RAM SARAN	1/10/2004
2626	7237967L	DFR	RANJIT SINGH	1/12/2004
2627	7237977P	DFR	SAILENDRAN G	1/12/2004
2628	7237878M	DFR	SARDARI LAL	1/10/2004
2629	7237951A	DFR	SARVESHWAR PRASAD PATHAK	1/12/2004
2630	7237884A	DFR	SARWAN KUMAR	1/10/2004
2631	7237889Y	DFR	SHAM LAL	1/11/2004
2632	7238601A	DFR	SUDHESHAWAR SINGH	1/9/2004
2633	7237892Y	DFR	SWARN SINGH	1/11/2004
2634	7237914M	DFR	THANKACHAN Y	1/11/2004
2635	7238059P	DFR	VIRENDER SINGH	1/1/2005
2636	7237958K	DFR	VIRENDRA SINGH	1/1/2005
2637	7237968N	DFR	YOGENDRA NATH PRASAD	1/12/2004

THE INTELLIGENCE CORPS

2638	2979553X	HAV	RAM CHANDER	1/10/2004
2639	4063222H	HAV	TASAWAR ALI	1/1/2005

CORPS OF MILITARY POLICE

2640	7771172M	HAV	AKSHAI BAR RAM	1/12/2004
2641	7771233Y	HAV	FATEH SINGH	1/1/2005
2642	7771156P	HAV	GOPAL ROY	1/12/2004
2643	7771304P	HAV	KAMLA KANT PANDEY	1/1/2005
2644	7771141M	HAV	LAL MOHAN MOHANTA	1/11/2004
2645	7771297K	HAV	MAHIPAL SINGH RAWAT	1/1/2005
2646	7771000X	HAV	NAVAL KISHOR RAI	1/9/2004
2647	7772710F	HAV	PHOOL SINGH	1/11/2004
2648	7771238X	HAV	SUBHASH CHAND	1/1/2005
2649	7771123K	HAV	TILAK RAJ	1/11/2004
2650	7771092P	HAV	VIRENDRA PAL	1/11/2004

ARMY PHYSICAL TRAINING CORPS

2651	2771590M	HAV	NIKAM P M	1/12/2004
2652	3982570Y	HAV	RAGHU NATH RANA	1/1/2005

THE PIONEER CORPS

2653	8025961K	HAV	DARSHAN LAL	1/10/2004
2654	8028007X	HAV	GOURHARI GHOSH	1/11/2004
2655	8025892Y	HAV	OM PRAKASH	1/9/2004
2656	8027876A	HAV	RAM PRASAD GOUTOM	1/10/2004
2657	8026029X	HAV	RAM PYARE	1/12/2004
2658	8025926F	HAV	SATHYADEVAN K	1/10/2004

ARMY POSTAL SERVICE

2659	6469617A	HAV	RAJESH KUMAR SHARMA	1/1/2005
------	----------	-----	---------------------	----------

DEFENCE SECURITY CORPS

2660	8015608K	HAV	BRIJ PAL	1/10/2004
2661	6481939M	HAV	DHARAM PAL	1/1/2005
2662	6893995L	HAV	HAS RAM	1/11/2004
2663	8015504H	HAV	JAI NARAIN	1/10/2004
2664	10180476K	HAV	KAUSHAL PRASAD	1/10/2004
2665	4047088Y	HAV	MAGAN SINGH	1/11/2004
2666	10357160P	HAV	NAGARAJU	1/12/2004

TERRITORIAL ARMY

2667	10134772W	HAV	ANIL KUMAR	30/9/2004
2668	10165854A	HAV	A VIJAYA KUMAR	31/5/2004
2669	10314431N	HAV	RAMESH KUMAR	29/2/2004
2670	10314462N	HAV	SURESH KUMAR	31/5/2004

[No. B/43432/RD-05/AG/CW-2]

MOHINDER SINGH, Lt. Gen., Adjutant General

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जनवरी, 2005

सं० 04(अ) दिनांक 26 जनवरी, 2005.—राष्ट्रपति निम्नलिखित नियुक्तियां करते हैं :—

भारतीय नौसेना**स्थाई काडर****विशेष ड्यूटी सूची**

निम्नलिखित मास्टर चीफ पेटी अफसरों को विशेष ड्यूटी सूची पर 26 जनवरी 2005 से अवैतनिक कमीशन प्रदान किया जाता है।

अवैतनिक लेफ्टिनेंट (विशेष ड्यूटी) के पद पर

क्रमांक	नाम	रैंक	नम्बर
1.	युक्ती पाण्डे	एम सी पी ओ 1 सी डी	096333-आर
2.	जगन्नाथ ठाकुर	एम सी पी ओ 1 आर पी 1	094926-टी
3.	सैयद जफर रजा	एम सी पी ओ 1 आर सी 1	095158-डब्ल्यू
4.	ईश्वर देव राम	एम सी पी ओ 1 क्यू ए 1 पी जी 1	095514-बी
5.	सुरेन्द्र सिंह रावत	एम सी पी ओ 1 यू सी 1	096114-टी
6.	जीवन दत्त शर्मा	एम सी पी ओ 1 आर सी 1	096137-डब्ल्यू
7.	भोला राम	एम सी पी ओ 1 आर सी 1	055674-एच
8.	किशन लाल श्रीवास्तव	एम सी पी ओ 1 आर सी 1	055651-एफ
9.	चौ० देवानन्द शर्मा	एम एस सी पी ओ 1	141045-एच

10.	भवानी दत्त	एम सी पी ओ सी के (एस) 1	059977-एन
11.	सी कृष्णन कुट्टी	एम सी पी ओ एस टी डी 1	140070-टी
12.	राम अवतार सिंह	एम सी पी ओ एस टी डी 1	140047-आर
13.	दीवान सिंह खाती	एम सी पी ओ सी के (ओ) 1	140385-एच
14.	रणवीर प्रसाद सिंह	एम सी ए एम (डब्ल्यू) 1	095182-जेड
15.	अखिलेश कुमार सिंह	एम सी ई एल ए आर 1	095147-डब्ल्यू
16.	बलबीर सिंह सेखों	एम सी ए एम 1	095238-ए
17.	प्रेम सिंह	एम सी पी ओ ए एफ 1	095297-के
18.	नरेश कुमार	एम सी पी ओ ए एफ 1	202438-एन
19.	मुन्नर प्रसाद	एम सी ए (पी एच) 1	097345-आर
20.	हबीब खान	एम सी ए (मेट) 1	095323-डब्ल्यू
21.	शंकर सिंह	एम सी ए (पी एच) 1	096717-एन
22.	सुदेश कुमार शर्मा	एम सी पी ओ आर (टेल) 1	094379-जेड
23.	गुलाब सिंह	एम सी पी ओ आर (टेक) 1	096172-जेड
24.	अरविंद कुमार शर्मा	एम सी पी ओ आर (टेक) 1	097463-एच
25.	अंगद सिंह	एम सी एम ई 1	095640-आर
26.	इरफान अली	एम सी मैक 1	095293-ए
27.	ईश्वर सिंह	एम सी एम ई 1	095298-एन
28.	राज के सिंह भदौरिया	एम सी ई आर ए 1	052943-ए
29.	जे आर गौर	एम सी पी ओ एम ए 1	057713-टी
30.	इंदर राज पुनिया	एम सी-एट-आर्मस 1	095061-जेड

अवैतनिक सब लेफ्टिनेंट (विशेष ड्यूटी) पद पर

1.	तरलोचन सिंह	एम सी पी ओ 1 आर सी 1	096330-एच
----	-------------	----------------------	-----------

2.	अशोक कुमार दुबे	एम सी पी ओ 1 यू सी 1	095845-एफ
3.	रंधीर सिंह	एम सी पी ओ 1 सी डी 1	095466-डब्ल्यू
4.	मोहन चन्द्र उपाध्याय	एम सी पी ओ 1 यू सी 1	096124-आर
5.	अमरीक सिंह	एम सी पी ओ 1 यू सी 1	095570-एफ
6.	प्रीत पाल सिंह	एम सी पी ओ 1 आर सी 1	095773-टी
7.	बाबू तान्डसी	एम सी पी ओ 1 क्यू ए 1	201058-ए
8.	गोरख नाथ पांडेय	एम सी पी ओ 1 यू सी 1	095588-वाई
9.	सुग्रीव सिंह	एम सी पी ओ 1 आर सी 1	097747-बी
10.	राम कुमार सिंह	एम सी पी ओ 2 आर सी 1	103414-एच
11.	बीर सिंह सैनी	एम सी पी ओ 2 आर सी 1	103344-जेड
12.	उमेद सिंह नेहरा	एम सी पी ओ 2 यू सी 1	105279-वाई
13.	नुनाभारती रामा राव	एम सी पी ओ 2 क्यू ए 1	200813-डब्ल्यू
14.	सुरेश चन्द	एम सी पी ओ 2 आर सी 1	103121-टी
15.	अमरीक सिंह	एम एस सी पी ओ 1	140637-एफ
16.	शक्ति पाद प्रधान	एम सी पी ओ डब्ल्यू टी आर 1	140212-आर
17.	राम खिल्लाडी शर्मा	एम सी पी ओ डब्ल्यू टी आर 1	108361-ए
18.	महेश दत्त शर्मा	एम एस सी पी ओ 2	140224-टी
19.	राम चन्द बाजला	एम एस सी पी ओ 2	105742-जेड
20.	अनील कुमार रे	एम एस सी पी ओ 2	140307-एफ
21.	दया कृष्ण भट्ट	एम एस सी पी ओ 2	107735-बी
22.	रबीन्द्र नाथ नायक	एम सी पी ओ डब्ल्यू टी आर 2	106076-एच

23.	गुलाब चन्द	एम सी पी ओ एस टी डी 1	140092-टी
24.	रांगी चैनचैया	एम सी पी ओ टौप 1	055814-ए
25.	प्रकाश चन्द	एम सी पी ओ टौप 1	055826-बी
26.	कुरुप्पाशेरी चाको	एम सी पी ओ टौप 1	055897-आर
27.	जीवन सिंह	एम सी पी ओ सी के ओ 2	105816-टी
28.	एस एस सिंह वहीया	एम सी पी ओ सी के एस 2	140290-टी
29.	पी के अरविंदक्सन नायर	एम सी पी ओ सी के ओ 2	140387-एन
30.	कन्नन राथीनाम	एम सी पी ओ टौप 2	055963-आर
31.	भृगु नाथ प्रसाद	एम सी मैक ए एल 1	097686-आर
32.	चन्द्र शेखर	एम सी ई एल ए 1	097013-के
33.	मोती राम	एम सी ए (एम डब्ल्यू) 1	095864-जेड
34.	रघुबीर सिंह	एम सी पी ओ आर (एस पी एल) 1 ए सी एम एफ एस	103754-एफ
35.	लक्ष्मण सिंह	एम सी ए (एस ई) 1	201939-बी
36.	बीरेन्द्र कुमार सिन्हा	एम सी ए (पी एच) 1	201634-के
37.	संतोष सिंह	एम सी ए (ए एच) 2	097628-एच
38.	हरी मोहन माथुर	एम सी ए (ए एच) 2	097029-वाई
39.	लक्ष्मी एम पलाती	एम सी पी ओ आर (टेक) 1	105366-डब्ल्यू
40.	बदलू राम खोला	एम सी पी ओ आर (टेक) 1	097379-टी
41.	सुभाष चन्द्र पंडित	एम सी पी ओ आर (टेल) 2	103805-वाई

42.	सांवत सिंह	एम सी पी ओ आर (टेक) 2	097496-एच
43.	देब प्रसाद घोष	एम सी मैक 1	095796-डब्ल्यू
44.	अरविंद कुमार भारद्वाज	एम सी ई आर ए 1	180065-आर
45.	राम चन्द्र बेहरा	एम सी एम ई 1	097042-ए
46.	राम प्रकाश बाजपेई	एम सी एम ई 1	095909-ए
47.	सरदारी लाल	एम सी मैक 1	096060-डब्ल्यू
48.	रंजीत सिंह	एम सी मैक 1	095619-टी
49.	शैतान सिंह राठौर	एम सी एम ई 1	201830-एफ
50.	ग्यानदेरा कुमार	एम सी एम ई 2	200233-ए
51.	के गोपीनाथन नायर	एम सी एम ई 2	105745-एफ
52.	अब्दुला एम अंसेर	एम सी मैक 2	201609-बी
53.	सादी भीमुदू	एम सी मैक पी 1	105777-बी
54.	मदन पाल सिंह	एम सी ई एल आर 1	097844-जेड
55.	वीर बहादुर सिंह	एम सी ई एल आर 2	103064-एन
56.	राम नाथ सिंह	एम सी ई एल आर 2	103049-बी
57.	करुणाशंकर एम पाण्डे	एम सी पी ओ एम ए 1 बी टी ए 1	057743-के
58.	सुमेर सिंह	एम सी पी ओ एम ए 1 एम सी 1	140499-टी
59.	राजेंद्र सिंह	एम सी पी ओ एम ए 1 एच 1	140266-एन
60.	कनौजी लाल	एम सी पी ओ एम ए 1 एन एम टी	140424-वाई
61.	विजोय ऐच	एम सी पी ओ एम ए 1 ओ आर टी 1	140441-के
62.	यल्लप्पा शिघल्ली	एम सी पी ओ एम ए 1 ए एन 1	140393-ए

63.	चित्तरंजन भट्टाचार्या	एम सी पी ओ एम ए 2 पी एच ए 1	140411-टी
64.	जग नारायण सिंह	एम सी-एट-आर्मस 1	095948-आर
65.	इकबाल सिंह मिन्हास	एम सी-एट-आर्मस 1	095402-जेड
66.	शिव लाल वर्मा	एम सी-एट-आर्मस 2	200373-डब्ल्यू
67.	रामपत सिंह	एम सी-एट-आर्मस 2	103072-एफ
68.	नारायण चन्द्र बानिक	एम सी-एट-आर्मस 2	203904-डब्ल्यू

[फा० सं. एच ए/2504/जनवरी 2005—आनरेरी कमीशन—जनवरी, 2005]
वेंकट भरथन, वाईस एडमिरल, कार्मिक अध्यक्ष एकीकृत मुख्यालय

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th January, 2005

No. 04(E) dated 26 January, 2005.—The President is pleased to make the following appointments :—

INDIAN NAVY

PERMANENT CADRE

SPECIAL DUTIES LIST

The following Master Chief Petty Officers are granted Honorary Commission on the Special Duties List on 26 Jan 2005 :-

TO BE HONORARY LIEUTENANTS (SPECIAL DUTIES)

<u>SER</u>	<u>NAME</u>	<u>RANK</u>	<u>P. NO.</u>
1.	YUKTI PANDEY	MCPO-I CD-I	096333 R
2.	JAGANNATH THAKUR	MCPO-I RP-I	094926 T
3.	SAYEAD JAFAR RAZA	MCPO-I RC-I	095158 W
4.	ISHWAR DEO RAM	MCPO-I QA I PGI	095514 B
5.	SURENDRA SINGH RAWAT	MCPO-I UC-I	096114 T
6.	JIWAN DATT SHARMA	MCPO-I RC-I	096137 W
7.	BHOLA RAM	MCPO-I RC-I	055674 H
8.	KISHAN LAL SHRIVAS	MCPO-I RC-I	055651 F
9.	CH DEVANANDA SHARMA	MSCPO I	141045 H
10.	BHAWANI DUTT	MCPOCK(S)I	059977 N
11.	C KRISHNAN KUTTY	MCPOSTD-I	140070 T
12.	RAM AVTAR SINGH	MCPO(STD)-I	140047 R
13.	DIWAN SINGH KHATI	MCPOCK(O)I	140385 H

14.	RANVIR PRASAD SINGH	MCAM(W)I	095182 Z
15.	AKHILESH KUMAR SINGH	MCELAR-I	095147 W
16.	BALBIR SINGH SEKHON	MCAM-I	095238 A
17.	PREM SINGH	MCPOAF-I	095297 K
18.	NARESH KUMAR	MCPOAF(I)	202438 N
19.	MUNNAR PRASAD	MCA(PH)I	097345 R
20.	HABIB KHAN	MCA(MET)I	095323 W
21.	SHANKAR SINGH	MCA(PH)I	096717 N
22.	SUDESH KUMAR SHARMA	MCPOR(TEL)I	094379 Z
23.	GULAB SINGH	MCPOR(TAC)I	096172 Z
24.	ARVIND KUMAR SHARMA	MCPOR(TAC)I	097463 H
25.	ANGAD SINGH	MCME-I	095640 R
26.	IRFAN ALI	MCMECH-I	095293 A
27.	ISHWAR SINGH	MCME-I	095298 N
28.	RAJ K SINGH BHADAURIA	MCERA-I	052943 A
29.	JEEVAN RAJ GOUR	MCPOMA-I	057713 T
30.	INDER RAJ POONIA	MC-AT-ARMS-I	095061 Z

TO BE HONORARY SUB LIEUTENANTS (SPECIAL DUTIES)

<u>SER</u>	<u>NAME</u>	<u>RANK</u>	<u>P. NO</u>
1.	TARLOCHAN SINGH	MCPO I RC I	096330 H
2.	ASHOK KUMAR DUBEY	MCPO I UC I	095845 F
3.	RANDHIR SINGH	MCPO I CD I	095466 W
4.	MOHAN CHANDRA UPADHYAY	MCPO I UC I	096124 R
5.	AMRIK SINGH	MCPO I UC I	095570 F
6.	PRIT PAL SINGH	MCPO I RC I	095773 T
7.	BABU TANDSI	MCPO I QA I	201058 A
8.	GORAKH NATH PANDEY	MCPO I UC I	095588 Y
9.	SUGREEV SINGH	MCPO I RC I	097747 B

10.	RAM KUMAR SINGH	MCPO II RC I	103414 H
11.	BIR SINGH SAINI	MCPO II RC I	103344 Z
12.	UMAID SINGH NEHRA	MCPO II UC I	105279 Y
13.	NUNABARTHI RAMA RAO	MCPO II QA I	200813 W
14.	SURESH CHAND	MCPO II RC I	103121 T
15.	AMRIK SINGH	MSCPO I	140637 F
16.	SHAKTI PADA PRADHAN	MCPO WTR I	140212 R
17.	RAM KHILARI SHARMA	MCPO WTR I	108381 A
18.	MAHESH DUTT SHARMA	MSCPO II	140224 T
19.	RAM CHANDA BAJALA	MSCPO II	105742 Z
20.	ANIL KUMAR RAY	MSCPO II	140307 F
21.	DAYA KRISHNA BHATT	MSCPO II	107735 B
22.	RABINDRA NATH NAYAK	MCPO WTR II	106076 H
23.	GULAB CHAND	MCPO STD I	140092 T
24.	RANGI CHENCHAIAH	MCPO TOP I	055814 A
25.	PRAKASH CHAND	MCPO TOP I	055826 B
26.	KURUPPASSERY CHACKO	MCPO TOP I	055897 R
27.	JIWAN SINGH	MCPO CK(O) II	105816 T
28.	SS SINGH WHIYA	MCPO CK(S) II	140290 T
29.	PK ARAVINDAKSHAN NAIR	MCPO CK(O) II	140387 N
30.	KANNAN RATHINAM	MCPO TOP II	055963 R
31.	BHRIGU NATH PRASAD	MC MECH (AL) I	097686 R
32.	CHANDER SHEKHAR	MCELA I	097013 K
33.	MOTI RAM	MCA (MW) I	095864 Z
34.	RAGHUBIR SINGH	MCPOR(SPL)I ACM-FS	103754 F
35.	LAXMAN SINGH	MCA (SE) I	201939 B
36.	BIRENDRA KUMAR SINHA	MCA (PH) I	201634 K
37.	SANTOSH SINGH	MCA (AH) II	097628 H

38.	HARI MOHAN MATHUR	MCA (AH) II	097029 Y
39.	LAXMIKANTH M PALATI	MCPOR (TAC) I	105366 W
40.	BADLU RAM KHOLA	MCPOR (TAC) I	097379 T
41.	SUBHAS CHANDRA PANDIT	MCPOR (TEL) II	103805 Y
42.	SANWAT SINGH	MCPOR (TAC) II	097496 H
43.	DEBA PRASAD GHOSH	MC MECH I	095796 W
44.	ARVIND KUMAR BHARDWAJ	MCERA I	180065 R
45.	RAMA CHANDRA BEHERA	MCME I	097042 A
46.	RAM PRAKASH BAJPAI	MCME I	095909 A
47.	SARDARI LAL	MC MECH I	096060 W
48.	RANJIT SINGH	MC MECH I	095619 T
49.	SHAITAN SINGH RATHORE	MCME I	201830 F
50.	GYANDERA KUMAR	MCME II	200233 A
51.	K GOPINATHAN NAIR	MCME II	105745 F
52.	ABDULLAH M ANSER	MC MECH II	201609 B
53.	SADI BHIMUDU	MC MECH(P) I	105777 B
54.	MADAM PAL SINGH	MCELR I	097844 Z
55.	VIR BAHADUR SINGH	MCELR II	103064 N
56.	RAM NATH SINGH	MCELR II	103049 B
57.	KARUNASHANKAR M PANDEY	MCPO MA I BTA I	057743 K
58.	SUMER SINGH	MCPO MA I MC I	140499 T
59.	RAJENDER SINGH	MCPO MA I H I	140266 N
60.	KANAUJI LAL	MCPO MA I NMT	140424 Y
61.	BIJOY AICH	MCPO MA I ORT I	140441 K
62.	YALLAPPA SHIGHALLI	MCPO MA I AN I	140393 A
63.	CHITTARANJAN BHATTACHARYA	MCPO MA II PHA I	140411 T
64.	JAG NARAYAN SINGH	MC AT ARMS I	095948 R
65.	IQBAL SINGH MINHAS	MC AT ARMS I	095402 Z
66.	SHIV LAL VERMA	MC AT ARMS II	200373 W
67.	RAMPAT SINGH	MC AT ARMS II	103072 F
68.	NARAYAN CHANDRA BANIK	MC AT ARMS II	203904 W

(वायु शाखा)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जनवरी, 2005

सं००५ (अ).— गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर वायुसेना विनियमावली के पैरा 344 के अन्तर्गत निम्नलिखित फ्लाईंग अफसरों को 26 जनवरी 2005 से फ्लाईट लेफ्टिनेंट रैंक में ऑनरेरी कमीशन प्रदान किया जाता है :-

1	291505 एल	मा वा अ(आ फ अ)	मोहन्ती रमेश चन्द्रा	ए सी एच जी डी
2	295691 एन	मा वा अ(आ फ अ)	वर्गीज पूडिकनेल जॉन	ए सी एच जी डी
3	282348 आर	मा वा अ(आ फ अ)	डॉकल अमर सिंह	ए एफ फिटर
4	265773 बी	मा वा अ(आ फ अ)	इसमाइल के मोहम्मद	ए एफ फिटर
5	288174 एन	मा वा अ(आ फ अ)	सिंह लल्लन	ए एफ एस ओ
6	288549 बी	मा वा अ(आ फ अ)	बवेजा ओमप्रकाश	ए एफ एस ओ
7	296114 एन	मा वा अ(आ फ अ)	प्रसाद रामजी	क्लर्क अकाउंट
8	297186 टी	मा वा अ(आ फ अ)	नैयर उन्नीकृष्णन पी एस	क्लर्क अकाउंट
9	295116 आर	मा वा अ(आ फ अ)	जाधव बालकृष्ण गणपति	क्लर्क जी डी
10	294816 एन	मा वा अ(आ फ अ)	चेल्ताप्पन शशीधरन	क्लर्क जी डी
11	294161 आर	मा वा अ(आ फ अ)	नैयर शशीधरन	क्लर्क जी डी
12	278891 एन	मा वा अ(आ फ अ)	राम चानन	किप्टो
13	279115 एफ	मा वा अ(आ फ अ)	पाण्डेय अवधेश कुमार	किप्टो
14	612488 एल	मा वा अ(आ फ अ)	मेहता नवीन चन्द्रा	शिक्षा निर्देशक
15	611122 एस	मा वा अ(आ फ अ)	सिंह अवधेश	शिक्षा निर्देशक
16	605815 आर	मा वा अ(आ फ अ)	वर्मा कुन्दन लाल	इलैक्ट फिटर
17	605383 ए	मा वा अ(आ फ अ)	खान हसीब अहमद	इलैक्ट फिटर
18	605084 टी	मा वा अ(आ फ अ)	सोखी हरदयाल सिंह	इलैक्ट फिटर
19	282595 एफ	मा वा अ(आ फ अ)	पाल मनोरंजन	इंजन फिटर
20	282811 ए	मा वा अ(आ फ अ)	पाण्डेय वेद व्यास	इंजन फिटर
21	297171 बी	मा वा अ(आ फ अ)	शंकर एन	उपस्कर सहायक
22	296470 एन	मा वा अ(आ फ अ)	सिंह बल देव	उपस्कर सहायक
23	294827 एफ	वा अ(आ फ अ)	पाण्डेय राम ग्रीहि	जी टी आई
24	294275 एच	मा वा अ(आ फ अ)	लाल छगन	जी टी आई
25	285204 एल	मा वा अ(आ फ अ)	कुमार राजिन्दर	आई ए एफ पी
26	285952 ए	वा अ(आ फ अ)	रविन्द्रन कक्कादावथ	आई ए एफ पी
27	285739 ए	मा वा अ(आ फ अ)	चन्दर जगदीश	आई ए एफ पी
28	281697 टी	मा वा अ(आ फ अ)	मैथ्यू एन ए	इंस्ट फिटर

29	281781 टी	मा वा अ(आ फ अ)	गोपीनाथन चक्कनाथ थमाले	इंस्ट फिटर
30	242143 एल	मा वा अ(आ फ अ)	चन्द दया	चिकित्सा सहायक
31	242473 एन	मा वा अ(आ फ अ)	मुथुसामी एम	चिकित्सा सहायक
32	601037 एल	वा अ(आ फ अ)	मंडल सुजीत कुमार	मैट सहायक
33	289650 एन	मा वा अ(आ फ अ)	सिंह राम निवास	मैट सहायक
34	285544 एच	मा वा अ(आ फ अ)	अरुमुगम पी	एम टी फिटर
35	285785 एच	मा वा अ(आ फ अ)	प्रसाद मदन लाल महादेव	एम टी फिटर
36	285101 के	मा वा अ(आ फ अ)	दास असीम कुमार	एम टी डी
37	285173 एफ	मा वा अ(आ फ अ)	छोटाराया अन्तर्यामी	एम टी डी
38	287383 जी	मा वा अ(आ फ अ)	ऑगस्टीन एथनी	संगीतकार
39	291378 एस	मा वा अ(आ फ अ)	बादीगर कृष्णाप्पा एस	फोटो फिटर
40	296223 एफ	मा वा अ(आ फ अ)	महरा हयात सिंह	पी जे आई
41	295412 एच	मा वा अ(आ फ अ)	सिंह रामचन्द्र	रडार फिटर
42	295192 जी	मा वा अ(आ फ अ)	रामजीत	रडार फिटर
43	600021 एच	मा वा अ(आ फ अ)	लाल कुन्दन	रेडियो फिटर
44	289295 बी	मा वा अ(आ फ अ)	पाण्डेय ब्रह्मा सहाय	रेडियो फिटर
45	288912 आर	मा वा अ(आ फ अ)	सिंह धीरज	रेडियो टेक
46	289941 एन	मा वा अ(आ फ अ)	कुरुविलाक्कुनेल करुणाकरण नारायणन	रेडियो टेक
47	291595 बी	मा वा अ(आ फ अ)	सिंह भगवती	एस ई डब्ल्यू
48	291527 एन	मा वा अ(आ फ अ)	गुप्ता कैलाश चन्द	एस ई डब्ल्यू
49	600933 के	मा वा अ(आ फ अ)	साई बाबा वझाला	टेलेस्ट आर टी ओ
50	601350 एफ	मा वा अ(आ फ अ)	कुशवाहा राम बदन सिंह	टेलेस्ट आर टी ओ
51	283316 के	मा वा अ(आ फ अ)	सिंह योगेन्द्र	वैपन फिटर
52	283055 एन	मा वा अ(आ फ अ)	गोरे बबन बालू	वैपन फिटर
53	283283 के	मा वा अ(आ फ अ)	धीमान प्रेमचन्द	डब्ल्यू एस फिट (बी)
54	283174 टी	मा वा अ(आ फ अ)	चौधरी आदित्य नारायण	डब्ल्यू एस फिट (बी)
55	282457 जी	मा वा अ(आ फ अ)	ठाकुर तुलसी	डब्ल्यू एस फिट (सी)
56	283394 एन	मा वा अ(आ फ अ)	सिंह राजेन्द्र प्रसाद	डब्ल्यू एस फिट (सी)

[सं० वासेमु/सी 40254/135/पीए (सीपीसी)]

ए. के. नगालिया, एयर मार्शल, कार्मिक प्रभारी वायु अफसर

(Air Branch)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th January, 2005

No. 5(E).— The undermentioned Honorary Flying Officers are promoted as Honorary Flight Lieutenants with effect from 26 January 2005 on occasion of Republic Day under para 344 of Regulations for the Air Force :-

1.	291505L	MWO (HONY FG OFFR)	MOHANTY RAMESH CHANDRA	ACH GD
2.	295691N	MWO (HONY FG OFFR)	VARGHESE POOZHICKUNNEL JOHN	ACH GD
3.	282348R	MWO (HONY FG OFFR)	DONKAL AMAR SINGH	AF FIT
4.	265773B	MWO (HONY FG OFFR)	ISMAIL K MOHAMED	AF FIT
5.	288174N	MWO (HONY FG OFFR)	SINGH LALLAN	AFSO
6.	288549B	MWO (HONY FG OFFR)	BAVEJA OM PARKASH	AFSO
7.	296114N	MWO (HONY FG OFFR)	PRASAD RAMJI	CLK ACCTS
8.	297186T	MWO (HONY FG OFFR)	NAIR UNNIKRISHNAN PS	CLK ACCTS
9.	295116R	MWO (HONY FG OFFR)	JADHAV BALKRISHNA GANAPATI	CLK GD
10.	294816N	MWO (HONY FG OFFR)	CHELLAPPAN SASIDHARAN	CLK GD
11.	294161R	MWO (HONY FG OFFR)	NAIR SASI DHARAN	CLK GD
12.	278891N	MWO (HONY FG OFFR)	RAM CHANAN	CRYPTO
13.	279115F	MWO (HONY FG OFFR)	PANDEY AWADHESH KUMAR	CRYPTO
14.	612488L	MWO (HONY FG OFFR)	MAHATA NABIN CHANDRA	EDN INST
15.	611122S	MWO (HONY FG OFFR)	SINGH AWADHESH	EDN INST
16.	605815R	MWO (HONY FG OFFR)	VERMA KUNDAN LAL	ELECT FIT
17.	605383A	MWO (HONY FG OFFR)	KHAN HASIB AHMAD	ELECT FIT
18.	605084T	MWO (HONY FG OFFR)	SOKHI HARDIAL SINGH	ELECT FIT

19. 282595F	MWO (HONY FG OFFR)	PAL MANORANJAN	ENG FIT
20. 282811A	MWO (HONY FG OFFR)	PANDEY VED VYAS	ENG FIT
21. 297171B	MWO (HONY FG OFFR)	SANKER N	EQPT ASST
22. 296470N	MWO (HONY FG OFFR)	SINGH BAL DEV	EQPT ASST
23. 294827F	MWO (HONY FG OFFR)	PANDEY RAM GRIHI	GTI
24. 294275H	MWO (HONY FG OFFR)	LAL CHHAGAN	GTI
25. 285204L	MWO (HONY FG OFFR)	KUMAR RAJINDER	IAF (P)
26. 285952A	MWO (HONY FG OFFR)	RAVINDRAN KAKKADAVATH	IAF (P)
27. 285739A	MWO (HONY FG OFFR)	CHANDER JAGDISH	IAF(P)
28. 281697T	MWO (HONY FG OFFR)	MATHEW NA	INST FIT
29. 281781T	MWO (HONY FG OFFR)	GOPINANDHAN CHAKKNATH THAMATTATE	INST FIT
30. 242143L	MWO (HONY FG OFFR)	CHAND DAYA	MED ASST
31. 242473N	MWO (HONY FG OFFR)	MUTHUSAMY M	MED ASST
32. 601037L	MWO (HONY FG OFFR)	MANDAL SUJIT KUMAR	MET ASST
33. 289650N	MWO (HONY FG OFFR)	SINGH RAM NIWAS	MET ASST
34. 285544H	MWO (HONY FG OFFR)	ARUMUGAM P	MT FIT
35. 285785H	MWO (HONY FG OFFR)	PRASAD MADAN LAL MAHADEO	MT FIT
36. 285101K	MWO (HONY FG OFFR)	DASS ASHIM KUMAR	MTD
37. 285173F	MWO (HONY FG OFFR)	CHHOTARAYA ANRARAYAMI	MTD
38. 287383G	MWO (HONY FG OFFR)	AUGUSTINE ANTHONY	MUSN
39. 291378S	MWO (HONY FG OFFR)	BADIGER KRISHANAPPA S	PHOTO FIT
40. 296223F	MWO (HONY FG OFFR)	MAHRA HAYAT SINGH	PJI
41. 295412H	MWO (HONY FG OFFR)	SINGH RAM CHANDRA	RAD FIT
42. 295192G	MWO (HONY FG OFFR)	RAM JEET	RAD FIT

43. 600021H	MWO (HONY FG OFFR)	LAL KUNDAN	RDO FIT
44. 289295B	MWO (HONY FG OFFR)	PANDEY BRAHMA SAHAY	RDO FIT
45. 288912R	MWO (HONY FG OFFR)	SINGH DHIRAJ	RDO TECH
46. 289941N	MWO (HONY FG OFFR)	KURUMILAKKUNNEL KARUNAKARAN NARAYANAN	RDO TECH
47. 291595B	MWO (HONY FG OFFR)	SINGH BHAGWATI	SEW
48. 291527N	MWO (HONY FG OFFR)	GUPTA KAILASH CHAND	SEW
49. 600933K	MWO (HONY FG OFFR)	SAI BABA VAJHALA	TELST RTO
50. 601350F	WO (HONY FG OFFR)	KUSHWAHA RAM BADAN SINGH	TELST RTO
51. 283316K	MWO (HONY FG OFFR)	SINGH YOGENDRA	WPN FIT
52. 283055N	MWO (HONY FG OFFR)	GORHE BABAN BALU	WPN FIT
53. 283283K	MWO (HONY FG OFFR)	DHIMAN PREM CHAND	WS FIT (B)
54. 283174T	MWO (HONY FG OFFR)	CHOUDHARY ADITYA NARAYAN	WS FIT (B)
55. 282457G	MWO (HONY FG OFFR)	THAKUR TULSI	WS FIT (C)
56. 283394N	MWO (HONY FG OFFR)	SINGH RAJENDRA PRASAD	WS FIT (C)

Total : 14 (fourteen) names only on this page.

Grand total : 56 (fifty-six) names only.

[No. Air H.Q./C 40254/135/PA (CPC)]

A. K. NAGALIA, AIR MSHL, Air Officer Incharge Personnel

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जनवरी, 2005

सं० 06 (अ).— गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर वायुसेना विनियमावली के पैरा 344 के अन्तर्गत निम्नलिखित मास्टर वारंट अफसरों और वारंट अफसरों को 26 जनवरी 2005 से फ्लाईंग अफसर रैंक में ऑनरेरी कमीशन प्रदान किया जाता है :-

1	297444	जी	मा वा अ	भार्गवान थैककेवालील पप्पु	ए सी एच जी डी
2	297577	एल	मा वा अ	जगदम्बा प्रसाद पाण्डेय	ए सी एच जी डी
3	296903	एफ	मा वा अ	बालक राम	ए सी एच जी डी
4	296166	टी	मा वा अ	मोहन राय	ए सी एच जी डी
5	294223	बी	मा वा अ	प्रयाग दत्त फुलोरिया	ए सी एच जी डी
6	285898	एफ	मा वा अ	भाष्करन पाल्लथ हाऊस	ए सी एच जी डी
7	291452	बी	मा वा अ	राजेन्द्र मिश्रा	ए सी एच जी डी
8	296572	टी	मा वा अ	रत्न लाल	ए सी एच जी डी
9	295044	एन	मा वा अ	परमानन्द सिंह	ए सी एच जी डी
10	601183	एल	मा वा अ	शिव शंकर लाल	ए सी एच जी डी
11	294326	एफ	मा वा अ	राजा राम	ए सी एच जी डी
12	296957	बी	मा वा अ	बल देव सिंह	ए सी एच जी डी
13	296193	एन	मा वा अ	श्याम विहारी सिंह	ए सी एच जी डी
14	294397	बी	मा वा अ	सुखविन्दर सिंह	ए सी एच जी डी
15	297211	एच	मा वा अ	राम रणविजय प्रसाद सिंह	ए सी एच जी डी
16	296703	टी	मा वा अ	सेक्सटीन एन एस	ए सी एच जी डी
17	295657	एन	वा अ	छिताभक्कम चन्द्रशेखरन	ए सी एच जी डी
18	295431	ए	मा वा अ	कोइत्तोदी कुन्नोथ सुरेन्द्रनाथन	ए सी एच जी डी
19	297272	एल	मा वा अ	कुलदीप सिंह बाथ	ए एफ फिटर
20	291293	एल	मा वा अ	दर्शन सिंह	ए एफ फिटर
21	296601	एन	मा वा अ	प्रेम चन्द	ए एफ फिटर
22	291169	एन	मा वा अ	सुभाष चन्द्र सहाय	ए एफ फिटर
23	282564	एफ	मा वा अ	सुरेन्द्र प्रताप चन्द	ए एफ फिटर
24	282828	के	मा वा अ	चन्द्र कान्त झा	ए एफ फिटर
25	282055	बी	मा वा अ	शिव ताज सिंह	ए एफ फिटर
26	289858	के	वा अ	यश पाल शर्मा	ए एफ एस ओ

27	296854 ए	मा वा अ	आर सुबुरायलू	कैट सहायक
28	296921 ए	मा वा अ	निर्मल सिंह	क्लर्क अकाउंट
29	279922 एल	मा वा अ	प्रेम सिंह रोहेला	क्लर्क अकाउंट
30	295960 एल	मा वा अ	रमेश चन्द्र शुक्ला	क्लर्क अकाउंट
31	295302 ए	मा वा अ	राघवन नायर रमन नायर	क्लर्क अकाउंट
32	294415 जी	मा वा अ	गुरेमल चन्द	क्लर्क अकाउंट
33	297267 टी	मा वा अ	शिवे कुमार सिंह	क्लर्क अकाउंट
34	296923 एन	मा वा अ	जागीर सिंह	क्लर्क अकाउंट
35	296051 के	मा वा अ	कुमार बनेन्द्र नारायण चौबे	क्लर्क अकाउंट
36	279077 एल	मा वा अ	कार्नेल सिंह गिल	क्लर्क अकाउंट
37	294627 टी	मा वा अ	थोमस के जी	क्लर्क अकाउंट
38	296682 जी	मा वा अ	रघुनाथ प्रसाद कौशिक	क्लर्क अकाउंट
39	294059 टी	मा वा अ	जोसेफ ऑगस्टीन	क्लर्क अकाउंट
40	297703 के	वा अ	शिव मूर्ति	क्लर्क अकाउंट
41	297234 जी	मा वा अ	गन्धवा बेहरा	क्लर्क अकाउंट
42	295929 ए	मा वा अ	कन्हैया लाल कुमावत	क्लर्क जी डी
43	295325 टी	मा वा अ	ए राजाराम	क्लर्क जी डी
44	279905 एल	मा वा अ	बलदेव सिंह सैनी	क्लर्क जी डी
45	296052 जी	मा वा अ	जगेश्वर प्रसाद दूबे	क्लर्क जी डी
46	279110 बी	मा वा अ	राजेन्द्र मिश्रा	क्लर्क जी डी
47	279472 ए	मा वा अ	तारा दत्त नैथानी	क्लर्क जी डी
48	294494 जी	मा वा अ	शिवा नन्दन महतो	क्लर्क जी डी
49	295928 एफ	मा वा अ	जोसेफ पी ए	क्लर्क जी डी
50	296178 जी	मा वा अ	प्रेम सिंह वर्मा	क्लर्क जी डी
51	297092 ए	मा वा अ	पसनूर मधुसूदन रेड्डी	क्लर्क जी डी
52	296544 एच	मा वा अ	तुलसी सिंह यादव	क्लर्क जी डी
53	296341 एन	मा वा अ	जयदेव कुमार दत्ता	क्लर्क जी डी
54	295004 आर	मा वा अ	सरोज कुमार भट्टाचार्या	क्लर्क जी डी
55	295127 जी	मा वा अ	मेजर सिंह	क्लर्क जी डी
56	279208 एल	मा वा अ	धर्मवीर आर्या	क्लर्क जी डी
57	297041 जी	मा वा अ	मोहम्मद कामील	क्लर्क जी डी
58	296423 के	मा वा अ	कृष्णनन्दन मिस्त्री	क्लर्क जी डी
59	296340 एस	मा वा अ	भूषण चन्द्र मंडल	क्लर्क जी डी
60	296614 एस	मा वा अ	राम कृष्ण	क्लर्क जी डी
61	295014 के	मा वा अ	श्रीनिवासन व्ही	क्लर्क जी डी
62	278909 जी	मा वा अ	रामस्वरूप सिंह	क्लर्क जी डी
63	296279 आर	मा वा अ	दविन्दर विजय	क्लर्क जी डी

64	294910 एच	मा वा अ	विजयन पिल्लै सुकुमारन नायर	क्लर्क जी डी
65	294002 एल	मा वा अ	अथर हुसैन	क्लर्क जी डी
66	296318 एफ	मा वा अ	नायर दामोदरन गोविन्दन	क्लर्क जी डी
67	296055 आर	मा वा अ	भीमा सेन साहू	क्लर्क जी डी
68	294771 जी	मा वा अ	शिव बचन राम	किप्टो
69	278153 टी	मा वा अ	रौशन लाल	किप्टो
70	280898 के	मा वा अ	नायर गोन्दाकुट्टी कोवेथ	इलेक्ट फिटर
71	281622 आर	मा वा अ	अशोक कुमार चतुर्वेदी	इलेक्ट फिटर
72	605132 जी	मा वा अ	शाम राज	इलेक्ट फिटर
73	280975 एफ	मा वा अ	दीपक कुमार घोष	इलेक्ट फिटर
74	281599 टी	मा वा अ	जफरूल इस्लाम	इलेक्ट फिटर
75	281717 आर	मा वा अ	राज कुमार सिंह	इलेक्ट फिटर
76	281693 एन	मा वा अ	सुरेश कुमार सिन्हा	इलेक्ट फिटर
77	281848 एच	मा वा अ	राजिन्दर सिंह	इलेक्ट फिटर
78	605078 के	मा वा अ	दयाल चन्द	इलेक्ट फिटर
79	605117 टी	मा वा अ	नारायण सिंह	इलेक्ट फिटर
80	605073 एच	मा वा अ	करनेल सिंह	इलेक्ट फिटर
81	280112 जी	मा वा अ	मोहम्मद अकबर अली	इलेक्ट फिटर
82	281775 के	मा वा अ	सुख दवशन सिंह भुल्लेर	इलेक्ट फिटर
83	605134 टी	मा वा अ	भगवान सिंह	इलेक्ट फिटर
84	281070 टी	वा अ	गुलाब चन्द राम	इलेक्ट फिटर
85	281513 एफ	वा अ	विजय कुमार दुबे	इलेक्ट फिटर
86	281196 टी	मा वा अ	ससांक शिखर राज	इलेक्ट फिटर
87	605325 जी	मा वा अ	शशि भूषण प्रसाद वर्मा	इलेक्ट फिटर
88	605844 बी	वा अ	विश्व मोहन	इलेक्ट फिटर
89	280747 एच	मा वा अ	निलेश्वर कृष्णर रामकृष्णन	इलेक्ट फिटर
90	282840 एच	मा वा अ	राम प्रवेश सिंह	इंजन फिटर
91	295994 ए	मा वा अ	बालकृष्ण पिल्लै राघवन नायर	इंजन फिटर
92	282934 एल	मा वा अ	प्रेम नारायन सिंह	इंजन फिटर
93	296917 एफ	मा वा अ	श्याम लाल	इंजन फिटर
94	298403 बी	वा अ	वेद प्रकाश	उपस्कर सहायक
95	279559 टी	मा वा अ	पारस नाथ राम	उपस्कर सहायक
96	298011 एन	वा अ	दिलीप कुमार रॉय	उपस्कर सहायक
97	296169 एच	मा वा अ	खुबलाल	उपस्कर सहायक
98	295141 एस	मा वा अ	मोहन कुमार बासु	उपस्कर सहायक
99	295299 एन	वा अ	जगदाले लक्ष्मण रामभाऊ	उपस्कर सहायक
100	279494 बी	मा वा अ	राम जेट्टा	उपस्कर सहायक

101	295758	बी	मा वा अ	एम राजेन्द्रन	उपस्कर सहायक
102	296254	एफ	मा वा अ	सुकुमारन नायर एम व्ही	उपस्कर सहायक
103	279652	एस	मा वा अ	बक्शीश सिंह मिन्हास	उपस्कर सहायक
104	296057	एच	मा वा अ	आर कृष्णन नायर	उपस्कर सहायक
105	294837	टी	मा वा अ	धर्म चन्द	उपस्कर सहायक
106	278632	एस	मा वा अ	मेवा सिंह	उपस्कर सहायक
107	295427	एफ	वा अ	रमाकान्त रॉय	उपस्कर सहायक
108	279807	एल	वा अ	नायकवादी सैयदरसूल उस्मान	उपस्कर सहायक
109	279161	एल	मा वा अ	सुखविन्दर सिंह धन्जल	उपस्कर सहायक
110	296093	ए	मा वा अ	आजाद सिंह	उपस्कर सहायक
111	296613	ए	मा वा अ	दुर्गामाधबा पटनायक	उपस्कर सहायक
112	294719	के	मा वा अ	केशो प्रसाद	उपस्कर सहायक
113	295009	एस	मा वा अ	बोरसे धर्मदास श्रोवन	उपस्कर सहायक
114	296234	आर	मा वा अ	पदकुलंगरा औशेफ देवासी	जी टी आई
115	294290	आर	मा वा अ	हरदयाल चन्द	जी टी आई
116	294266	के	मा वा अ	जे मर्टिन फ्रान्सिस	जी टी आई
117	279401	बी	मा वा अ	देव नारायण सिंह	जी टी आई
118	279687	एच	मा वा अ	तेज राज सुमन	जी टी आई
119	279389	एस	मा वा अ	विश्व नाथ सिंह	जी टी आई
120	296233	टी	मा वा अ	सिंह गुरमित	जी टी आई
121	286181	एस	मा वा अ	बलवीर सिंह	आई ए एफ पी
122	285619	टी	मा वा अ	पदमा बहादुर बोहरा	आई ए एफ पी
123	286039	बी	मा वा अ	दुव्वरी सूर्यानारायण	आई ए एफ पी
124	285494	एच	मा वा अ	भार्गवन पिल्लै कृष्णा पिल्लै	आई ए एफ पी
125	285086	आर	मा वा अ	नाथ सिंह धेक	आई ए एफ पी
126	285090	एल	मा वा अ	सुरेश चन्द्रा	आई ए एफ पी
127	285394	आर	मा वा अ	वर्गीज पी जी	आई ए एफ पी
128	276537	एफ	मा वा अ	राम प्रसाद मिश्रा	आई ए एफ पी
129	285500	एफ	वा अ	जी शनमुगनाथन	आई ए एफ पी
130	276665	एच	मा वा अ	स्वर्ण सिंह मंगत	आई ए एफ पी
131	605744	के	मा वा अ	वेद प्रकाश धिमान	इंस्ट फिटर
132	294773	टी	मा वा अ	परेश नाथ चकवर्ती	इंस्ट फिटर
133	605432	एफ	मा वा अ	शंकर नारायणन श्रमबिक्कल	इंस्ट फिटर
134	280809	आर	मा वा अ	जयनारायण शुक्ला	इंस्ट फिटर
135	281446	एफ	मा वा अ	राम कृष्ण अचार्य	इंस्ट फिटर
136	280491	एफ	मा वा अ	शिव चरण लाल कौशिक	इंस्ट फिटर
137	296457	टी	मा वा अ	प्रताप चन्द	इंस्ट फिटर

138	605420 एस	मा वा अ	उमेश चन्द्र	इंस्ट फिटर
139	242424 एस	मा वा अ	सोहन सिंह	चिकित्सा सहायक
140	242214 एस	मा वा अ	बाने सिंह सेन	चिकित्सा सहायक
141	242349 आर	मा वा अ	सुभाष चन्द्र पटनायक	चिकित्सा सहायक
142	242451 एल	मा वा अ	राम जी राम	चिकित्सा सहायक
143	242265 जी	मा वा अ	जनक सिंह	चिकित्सा सहायक
144	290993 के	मा वा अ	रामावतार सिंह	चिकित्सा सहायक
145	242172 टी	मा वा अ	राम प्रसाद	चिकित्सा सहायक
146	242370 एल	मा वा अ	वाडेकर वासुदेव नामदेव	चिकित्सा सहायक
147	290231 ए	मा वा अ	सुरेन्द्र कुमार	भैट सहायक
148	600053 एफ	मा वा अ	चिमा गुरुमेल सिंह	भैट सहायक
149	276781 एफ	वा अ	अयोध्या प्रसाद मंडल	एम टी फिटर
150	286239 एच	मा वा अ	राम कृपाल सिंह	एम टी फिटर
151	285168 एल	मा वा अ	दिलीप कुमार साहा	एम टी फिटर
152	285972 के	मा वा अ	वेलायुधन चेंगोटे	एम टी फिटर
153	286347 बी	मा वा अ	अजीत सिंह देओल	एम टी फिटर
154	286260 एफ	मा वा अ	जय पाल	एम टी फिटर
155	276605 ए	मा वा अ	वहीद हसन हमीद हसन	एम टी फिटर
156	285130 एस	मा वा अ	अमर चन्द वर्मा	एम टी फिटर
157	285117 बी	मा वा अ	फुचुंग भुटिया	एम टी फिटर
158	285866 एच	मा वा अ	सुनित कुमार कलिता	एम टी डी
159	285477 एच	मा वा अ	पद्यनाभ दास	एम टी डी
160	285974 बी	मा वा अ	भगवंत सिंह	एम टी डी
161	285704 आर	मा वा अ	गुरदेव सिंह	एम टी डी
162	285172 एच	मा वा अ	एन जयाचन्द्रन	एम टी डी
163	285171 एल	मा वा अ	रामाराव पिलाका	एम टी डी
164	276593 जी	मा वा अ	शुभ नरेन सिंह	एम टी डी
165	285264 टी	मा वा अ	राम वचन शर्मा	एम टी डी
166	286130 एच	वा अ	उमाशंकर तिवारी	एम टी डी
167	276557 एन	मा वा अ	कुलतार चन्द	एम टी डी
168	285787 ए	मा वा अ	शम्भूदयाल जायसवाल	एम टी डी
169	285722 एल	मा वा अ	जतिन्द्र चन्द्र विश्वास	एम टी डी
170	285232 बी	मा वा अ	राम देव पाण्डेय	एम टी डी
171	287415 के	वा अ	प्रेम नरेन बाजपेई	संगीतकार
172	295786 एन	मा वा अ	किशोर चन्द	फोटो फिटर
173	296650 के	मा वा अ	वेंकट स्वामी अड्डागलिया	रडार फिटर
174	601446 ए	मा वा अ	विजय कृष्ण प्रसाद	रेडियो फिटर

175	601878 एफ	मा वा अ	रणजीत सिंह	रेडियो फिटर
176	601013 एस	मा वा अ	राजेन्द्र कुमार	रेडियो फिटर
177	600909 एफ	मा वा अ	अबनाश कुमार	रेडियो फिटर
178	289279 टी	मा वा अ	रतन सिंह विदियाला	रेडियो फिटर
179	600874 एच	मा वा अ	माखन लाल	रेडियो, फिटर
180	289185 आर	मा वा अ	परेश चन्द्रा साहा	रेडियो फिटर
181	290748 एन	मा वा अ	सबैल्ला वेंकटा सत्यनारायण रेड्डी	रेडियो फिटर
182	601256 के	मा वा अ	राजेन्द्र प्रसाद	रेडियो फिटर
183	290046 एल	मा वा अ	निरंजन देव	रेडियो फिटर
184	600304 जी	वा अ	अमर सिंह	रेडियो फिटर
185	288779 एल	मा वा अ	निरंजन लाल	रेडियो फिटर
186	600952 बी	मा वा अ	येसुदासन पिटर रेटीना	रेडियो फिटर
187	601182 आर	मा वा अ	सुरेन्द्र कुमार चौपड़ा	रेडियो फिटर
188	600472 एच	मा वा अ	मनोहर सिंह	रेडियो फिटर
189	600190 जी	मा वा अ	गुर भजन लाल	रेडियो फिटर
190	288938 बी	मा वा अ	जितेन्द्र सिंह मेहता	रेडियो फिटर
191	288071 एल	मा वा अ	कनक चन्द्र सेनोवाल	रेडियो फिटर
192	290992 एन	मा वा अ	नाथुराम	रेडियो टेक
193	290299 टी	मा वा अ	उपेन्द्र प्रसाद सिंह	रेडियो टेक
194	600650 एल	मा वा अ	जकारिया पुल्लिकोट्टिल	रेडियो टेक
195	288574 एफ	मा वा अ	ओम प्रकाश अवस्थी	रेडियो टेक
196	600363 एस	वा अ	सैय्यद इमाम	रेडियो टेक
197	289658 एफ	मा वा अ	बिरेन्द्र कुमार सिंघा	रेडियो टेक
198	291582 टी	मा वा अ	हरभजन सिंह मिन्हास	एस ई डब्लू
199	291525 ए	मा वा अ	ध्रुव जी रॉय	एस ई डब्लू
200	290906 एच	मा वा अ	जोगिन्दर राम शर्मा	टेलिस्ट आर टी ओ
201	600255 बी	वा अ	राम विलास सिंह	टेलिस्ट आर टी ओ
202	600840 बी	मा वा अ	उदय नारायण दुबे	टेलिस्ट आर टी ओ
203	600862 एफ	मा वा अ	दण्डपाणी पधयली	टेलिस्ट आर टी ओ
204	600981 के	मा वा अ	करतार सिंह	टेलिस्ट आर टी ओ
205	600912 एफ	मा वा अ	प्रवीण हजारिका	टेलिस्ट आर टी ओ
206	600529 बी	वा अ	तीर्थ नारायण पाण्डेय	टेलिस्ट आर टी ओ
207	288338 जी	मा वा अ	खगेन्द्र नाथ शर्मा	टेलिस्ट आर टी ओ
208	600523 एफ	मा वा अ	हरप्रसाद शर्मा	टेलिस्ट आर टी ओ
209	600774 टी	मा वा अ	बृज मोहन राम	टेलिस्ट आर टी ओ
210	291098 एच	मा वा अ	सुरतजीत सिंह बडवाल	वैपन फिटर
211	291828 एफ	मा वा अ	रमेश कुमार	वैपन फिटर

212	295670 एच	वा अ	कुलदीप सिंह	वैपन फिटर
213	282579 ए	मा वा अ	दल्लिप सिंह सैनी	वैपन फिटर
214	291084 एच	मा वा अ	राम राज चौबे	वैपन फिटर
215	291176 टी	मा वा अ	राजेश्वर प्रसाद सिंह	वैपन फिटर
216	283208 आर	मा वा अ	बलजीत कुमार कौशिक	वैपन फिटर
217	291269 जी	मा वा अ	जसवीर सिंह	वैपन फिटर
218	291135 एफ	मा वा अ	अविनाश चन्द्र तिवारी	वैपन फिटर
219	294757 आर	वा अ	नारायण प्रसाद मालवीय	वैपन फिटर
220	291216 एफ	मा वा अ	कमला मिश्रा	वैपन फिटर
221	283468 एच	मा वा अ	जय मूर्ति सिंह	डब्ल्यू एस फिटर सी
222	283441 एफ	मा वा अ	राजप्पन पप्पू	डब्ल्यू एस फिटर सी

[सं० वासेमु/सी 40254/135/पीए (सीपीसी)]

ए. के. नगालिया, एयर मार्शल, कार्मिक प्रभारी वायु अफसर

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th January, 2005

No. 06(E).— The undermentioned MWOs and WOs are granted Honorary Commission in the rank of Flying Officer with effect from 26 January 2005 on occasion of Republic Day under para 344 of Regulations for the Air Force :-

1.	297444G	MWO	BHARGAVAN THEKKEVALIL PAPPU	ACH GD
2.	297577L	MWO	JAGDAMBA PRASAD PANDEY	ACH GD
3.	296903F	MWO	BALAK RAM	ACH GD
4.	296166T	MWO	MOHAN RAI	ACH GD
5.	294223B	MWO	PRAYAG DATT FULORIA	ACH GD
6.	285898F	MWO	BHASKARAN PALLATH HOUSE	ACH GD
7.	291452B	MWO	RAJENDRA MISHRA	ACH GD
8.	296572T	MWO	RATTAN LAL	ACH GD
9.	295044N	MWO	PARMA NAND SINGH	ACH GD
10.	601183L	MWO	SHEO SHANKER LAL	ACH GD
11.	294326F	MWO	RAJA RAM	ACH GD
12.	296957B	MWO	BALDEV SINGH	ACH GD
13.	296193N	MWO	SHYAM BIHARI SINGH	ACH GD
14.	294397B	MWO	SUKHVINDER SINGH	ACH GD
15.	297211H	MWO	RAM RAN VIJAY PRASAD SINGH	ACH GD
16.	296703T	MWO	SEBASTIAN NS	ACH GD
17.	295657N	WO	CHITABHAKAM CHANDRA SEKHARAN	ACH GD
18.	295431A	MWO	KOYITTODI KUNNOTH SURENDRANATHAN	ACH GD

19.	297272L	MWO	KULDIP SINGH BATH	AF FIT
20.	291293L	MWO	DARSHAN SINGH	AF FIT
21.	296601N	MWO	PREM CHAND	AF FIT
22.	291169N	MWO	SUBASH CHANDRA SAHAI	AF FIT
23.	282564F	MWO	SURENDRA PRATAP CHAND	AF FIT
24.	282828K	MWO	CHANDRA KANT JHA	AF FIT
25.	282055B	MWO	SHIV TAJ SINGH	AF FIT
26.	289858K	WO	YASH PAUL SHARMA	AFSO
27.	296854A	MWO	R SUBUROYALU	CAT ASST
28.	296921A	MWO	NIRMAL SINGH	CLK ACCTS
29.	279922L	MWO	PREM SINGH ROHELLA	CLK ACCTS
30.	295960L	MWO	RAMESH CHANDRA SHUKLA	CLK ACCTS
31.	295302A	MWO	RAGHAVAN NAIR RAMAN NAIR	CLK ACCTS
32.	294415G	MWO	GURMAIL CHAND	CLK ACCTS
33.	297267T	MWO	SHIVE KUMAR SINGH	CLK ACCTS
34.	296923N	MWO	JAGIR SINGH	CLK ACCTS
35.	296051K	MWO	KUMAR BANENDRA NARAYAN CHAUBEY	CLK ACCTS
36.	279077L	MWO	KARNAIL SINGH GILL	CLK ACCTS
37.	294627T	MWO	THOMAS K G	CLK ACCTS
38.	296682G	MWO	RAGHUNATH PRASAD KAUSHIK	CLK ACCTS
39.	294059T	MWO	JOSEPH AUGUSTIAN	CLK ACCTS
40.	297703K	WO	SHIV MURTI	CLK ACCTS
41.	297234G	MWO	GANDHARBA BEHERA	CLK ACCTS
42.	295929A	MWO	KANHAIYA LAL KUMAWAT	CLK GD

43.	295325T	MWO	A RAJARAM	CLK GD
44.	279905L	MWO	BALDEV SINGH SAINI	CLK GD
45.	296052G	MWO	JAGESHWAR PRASAD DUBEY	CLK GD
46.	279110B	MWO	RAJENDRA MISHRA	CLK GD
47.	279472A	MWO	TARA DATT NAITHANI	CLK GD
48.	294494G	MWO	SHIVA NANDAN MAHTO	CLK GD
49.	295928F	MWO	JOSEPH PA	CLK GD
50.	296178G	MWO	PREM SINGH VERMA	CLK GD
51.	297092A	MWO	PASNOOR MADHUSUDHAN REDDY	CLK GD
52.	296544H	MWO	TULSI SINGH YADAV	CLK GD
53.	296341N	MWO	JAIDEV KUMAR DATTA	CLK GD
54.	295004R	MWO	SAROJ KUMAR BHATTACHARYA	CLK GD
55.	295127G	MWO	MAJOR. SINGH	CLK GD
56.	279208L	MWO	DHARAM VIR ARYA	CLK GD
57.	297041G	MWO	MOHAMMAD KAMIL	CLK GD
58.	296423K	MWO	KRISHNA NANDAN MISTRI	CLK GD
59.	296340S	MWO	BHUSAN CHANDRA MONDAL	CLK GD
60.	296614S	MWO	RAM KRISHAN	CLK GD
61.	295014K	MWO	SREENIVASAN V	CLK GD
62.	278909G	MWO	RAM SIWARUP SINGH	CLK GD
63.	296279R	MWO	DAVINDER VIJAY	CLK GD
64.	294910H	MWO	VIJAYANI PILLAI SUKUMARAN NAIR	CLK GD
65.	294002L	MWO	ATHAR HUSSAIN	CLK GD
66.	296318F	MWO	NAIR DAMODARAN GOVIN DAN	CLK GD

67.	296055R	MWO	BHIMA SEN SAHU	CLK GD
68.	294771G	MWO	SHEO BACHAN RAM	CRYPTO
69.	278153T	MWO	ROSHAN LAL	CRYPTO
70.	280898K	MWO	NAIR GOVINDAKUTTY KOVETH	ELECT FIT
71.	281622R	MWO	ASHOK KUMAR CHATURVEDI	ELECT FIT
72.	605132G	MWO	SHAM RAJ	ELECT FIT
73.	280975F	MWO	DIPAK KUMAR GHOSH	ELECT FIT
74.	281599T	MWO	ZAFRUL ISLAM	ELECT FIT
75.	281717R	MWO	RAJ KUMAR SINGH	ELECT FIT
76.	281693N	MWO	SURESH KUMAR SINHA	ELECT FIT
77.	281848H	MWO	RAJINDER SINGH	ELECT FIT
78.	605078K	MWO	DIAL CHAND	ELECT FIT
79.	605117T	MWO	NARAYAN SINGH	ELECT FIT
80.	605073H	MWO	KARNAIL SINGH	ELECT FIT
81.	280112G	MWO	MOHAMAD AKBAR ALI	ELECT FIT
82.	281775K	MWO	SUKH DAVSHAN SINGH BHULLER	ELECT FIT
83.	605134T	MWO	BHAGWAN SINGH	ELECT FIT
84.	281070T	WO	GULAB CHAND RAM	ELECT FIT
85.	281513F	WO	VIJAY KUMAR DUBEY	ELECT FIT
86.	281196T	MWO	SASANKA SEKHAR RAJ	ELECT FIT
87.	605325G	MWO	SHASHI BHUSHAN PARSAD VERMA	ELECT FIT
88.	605844B	WO	VISHWA MOHAN	ELECT FIT
89.	280747H	MWO	NILESHWAR KRISHNAR RAMAKRISHNAN	ELECT FIT
90.	282840H	MWO	RAM PRAVESH SINGH	ENG FIT

91.	295994A	MWO	BALAKRISHNA PILLAI RAGHAVAN NAIR	ENG FIT
92.	282934L	MWO	PREM NARAIN SINGH	ENG FIT
93.	296917F	MWO	SHAM LAL	ENG FIT
94.	298403B	WO	VED PRAKASH	EQPT ASST
95.	279559T	MWO	PARAS NATH RAM	EQPT ASST
96.	298011N	WO	DILIP KUMAR ROY	EQPT ASST
97.	296169H	MWO	KHOOBLAL	EQPT ASST
98.	295141S	MWO	MOHAN KUMAR BASU	EQPT ASST
99.	295299N	WO	JAGDALE LAXMAN RAMBHAU	EQPT ASST
100.	279494B	MWO	RAM JETHA	EQPT ASST
101.	295758B	MWO	M RAJENDRAN	EQPT ASST
102.	296254F	MWO	SUKUMARAN NAIR MV	EQPT ASST
103.	279652S	MWO	BAKSHISH SINGH MINHAS	EQPT ASST
104.	298057H	MWO	R KRISHNAN NAIR	EQPT ASST
105.	294837T	MWO	DHARAM CHAND	EQPT ASST
106.	278832S	MWO	MEWA SINGH	EQPT ASST
107.	295427F	WO	RAMA KANT ROY	EQPT ASST
108.	279807L	WO	NAIKWADI SAYEDRSOOL USMAN	EQPT ASST
109.	279161L	MWO	SUKHWINDER SINGH DHANJAL	EQPT ASST
110.	296093A	MWO	AZAD SINGH	EQPT ASST
111.	298813A	MWO	DURGAMADHABA PATTANAIAK	EQPT ASST
112.	294719K	MWO	KESHAU PRASAD	EQPT ASST
113.	295009S	MWO	BORASE DHARMDAS SHRAUAN	EQPT ASST
114.	296234R	MWO	PADAKULANGRA OUSEPH DEVASSY	GTI

115.	294290R	MWO	HARDIAL CHAND	GTI
116.	294266K	MWO	J MARTIN FRANCIS	GTI
117.	279401B	MWO	DEO NARAYAN SINGH	GTI
118.	279887H	MWO	TEJ RAJ SUMAN	GTI
119.	279389S	MWO	VISHWA NATH SINGH	GTI
120.	296233T	MWO	SINGH GURMIT	GTI
121.	286181S	MWO	BALBIR SINGH	IAF (P)
122.	285619T	MWO	PADMA BAHADUR BOHORA	IAF (P)
123.	286039B	MWO	DUVVRI SURYANARAYANA	IAF (P)
124.	285494H	MWO	BHARGAVAN PILLAI KRISHNA PILLAI	IAF (P)
125.	285086R	MWO	NATH SINGH DHEK	IAF (P)
126.	285090L	MWO	SURESH CHANDRA	IAF (P)
127.	285394R	MWO	VARUGHESE PG	IAF (P)
128.	276537F	MWO	RAMPRASAD MISHRA	IAF (P)
129.	285500F	WO	G SHUNMUGANATHAN	IAF (P)
130.	276665H	MWO	SAWARN SINGH MANGAT	IAF (P)
131.	605744K	MWO	VED PRAKASH DHIMAN	INST FIT
132.	294773T	MWO	PARESH NATH CHAKRAVARTTY	INST FIT
133.	605432F	MWO	SANKARA NARAYANAN SRAMBIKKAL	INST FIT
134.	280809R	MWO	JAINARAYAN SHUKLA	INST FIT
135.	281446F	MWO	RAMA KRISHNA ACHARYA	INST FIT
136.	280491F	MWO	SHIVA CHARAN LAL KAUSHIK	INST FIT
137.	296457T	MWO	PARTAP CHAND	INST FIT
138.	605420S	MWO	UMESH CHANDRA	INST FIT

139.	242424S	MWO	SOHAN SINGH	MED ASST
140.	242214S	MWO	BANEY SINGH SEIN	MED ASST
141.	242349R	MWO	SUBAS CHANDRA PATTNAYAK	MED ASST
142.	242451L	MWO	RAM JI RAM	MED ASST
143.	242265G	MWO	JANAK SINGH	MED ASST
144.	290993K	MWO	RAMOUTAR SINGH	MED ASST
145.	242172T	MWO	RAM PRASAD	MED ASST
146.	242370L	MWO	WADEKAR WASUDEO NAMDEO	MED ASST
147.	290231A	MWO	SURINDER KUMAR	MED ASST
148.	600053F	MWO	CHEEMA GURMEL SINGH	MED ASST
149.	276781F	WO	AYODHYA PRASAD MANDAL	MT FIT
150.	286239H	MWO	RAM KRIPAL SINGH	MT FIT
151.	285168L	MWO	DILIP KUMAR SAHA	MT FIT
152.	285972K	MWO	VELAYUDHAN CHENGOTE	MT FIT
153.	286347B	MWO	AJIT SINGH DEOL	MT FIT
154.	286260F	MWO	JAI PAL	MT FIT
155.	276605A	MWO	WAHID HASAN HAMID HASAN	MT FIT
156.	285130S	MWO	AMAR CHAND VERMA	MT FIT
157.	285117B	MWO	PHUCHUNG BHUTIA	MT FIT
158.	285866H	MWO	SUNIT KR KALITA	MTD
159.	285477H	MWO	PADMANABHA DAS	MTD
160.	285974B	MWO	BHAGWANT SINGH	MTD
161.	285704R	MWO	GURDEV SINGH	MTD
162.	285172H	MWO	N JEYACHANDRAN	MTD

Total : 24 (twenty four) names only on this page

163.	285171L	MWO	RAMARAO PILAKA	MTD
164.	276593G	MWO	SHUBH NARAIN SINGH	MTD
165.	285264T	MWO	RAM BACHAN SHARMA	MTD
166.	286130H	WO	UMASHNKER TIWARI	MTD
167.	276557N	MWO	KULTAR CHAND	MTD
168.	285787A	MWO	SHAMBHU DAYAL JAISWAL	MTD
169.	285722L	MWO	JATINDRA CHANDRA BISWAS	MTD
170.	285232B	MWO	RAM DEO PANDEY	MTD
171.	287415K	WO	PREM NARAIN BAJPAI	MUSN
172.	295786N	MWO	KISHORE CHAND	PHOTO FIT
173.	296650K	MWO	VENKATA SWAMY ADDAGALIA	RAD FIT
174.	601446A	MWO	BIJAY KRISHNA PRASAD	RDO FIT
175.	601378F	MWO	RAN JEET SINGH	RDO FIT
176.	601013S	MWO	RAJANDER KUMAR	RDO FIT
177.	600909F	MWO	ABNASH KUMAR	RDO FIT
178.	289279T	MWO	RATTAN SINGH DIDIALA	RDO FIT
179.	600374H	MWO	MAKHAN LAL	RDO FIT
180.	289185R	MWO	PARESH CHANDRA SAHA	RDO FIT
181.	290748N	MWO	SABELLA VENKATA SATYANARAYAN REDDY	RDO FIT
182.	601256K	MWO	RAJENDRA PRASAD	RDO FIT
183.	290046L	MWO	NIRANJAN DEO	RDO FIT
184.	600304G	WO	AMAR SINGH	RDO FIT
185.	288779L	MWO	NIRANJAN LAL	RDO FIT
186.	600952B	MWO	YESUDASAN PETER RETEENA	RDO FIT

Total : 24 (twenty four) names only on this page

187.	601182R	MWO	SURENDRA KUMAR CHOPRA	RDO FIT
188.	600472H	MWO	MANOHAR SINGH	RDO FIT
189.	600190G	MWO	GUR BHAJAN LAL	RDO FIT
190.	288938B	MWO	JITENDRA SINGH MEHTA	RDO FIT
191.	288071L	MWO	KANAK CHANDRA SONOWAL	RDO FIT
192.	290992N	MWO	NATHURAM	RDO TECH
193.	290299T	MWO	UPENDRA PRASAD SINGH	RDO TECH
194.	600650L	MWO	ZACHARIAH PULIKKOTTIL	RDO TECH
195.	288574F	MWO	OM PRAKASH AWASTHI	RDO TECH
196.	600363S	WO	SYED IMAM	RDO TECH
197.	289658F	MWO	BIRENDRA KUMAR SINGHA	RDO TECH
198.	291582T	MWO	HARBHAJAN SINGH MINHAS	SEW
199.	291525A	MWO	DHRUV JI ROY	SEW
200.	290906H	MWO	JOGINDER RAM SHARMA	TELST RTO
201.	600255B	WO	RAM VILAS SINGH	TELST RTO
202.	600840B	MWO	UDAY NARAIAN DUBEY	TELST RTO
203.	600862F	MWO	DANDAPANI PADHIALI	TELST RTO
204.	600981K	MWO	KARTAR SINGH	TELST RTO
205.	600912F	MWO	PRABIN HAZARIKA	TELST RTO
206.	600529B	WO	TIRTH NARAYAN PANDEY	TELST RTO
207.	288338G	MWO	KHAGENDRA NATH SARMAH	TELST RTO
208.	600523F	MWO	HARPRASAD SHARMA	TELST RTO
209.	600774T	MWO	BRIJ MOHAN RAM	TELST RTO
210.	291098H	MWO	SURJEET SINGH BADWAL	WPN FIT

211.	291328F	MWO	RAMESH KUMAR	WPN FIT
212.	295670H	WO	KULDIP SINGH	WPN FIT
213.	282579A	MWO	DALIP SINGH SAINI	WPN FIT
214.	291084H	MWO	RAM RAJ CHAUBEY	WPN FIT
215.	291176T	MWO	RAJESHWAR PRASAD SINGH	WPN FIT
216.	283208R	MWO	BALJIT KUMAR KAUSHIK	WPN FIT
217.	291269G	MWO	JASBIR SINGH	WPN FIT
218.	291135F	MWO	AVINASH CHANDRA TIWARI	WPN FIT
219.	294757R	WO	NARAYAN PRASAD MALVIYA	WPN FIT
220.	291216F	MWO	KAMLA MISHRA	WPN FIT
221.	283468H	MWO	JAI MURTI SINGH	WS FIT (C)
222.	283441F	MWO	RAJAPPAN PAPPU	WS FIT (C)

[No. Air H.Q./C 40254/135/PA (CPC)]

A. K. NAGALIA, AIR MSHL Air Officer Incharge Personnel

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जनवरी, 2005

सं० 07(अ).— गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर वायुसेना विनियमावली के पैरा 345 के अन्तर्गत सेवा निवृत्ति सूचि में निम्नलिखित सेवा निवृत्त मास्टर वारंट अफसरों को 26 जनवरी 2005 से फ्लाईंग अफसर ऑनरेरी रैंक प्रदान किया जाता है :-

1	295457 एच	भू पू मा वा अ	अमरजित सिंह	जीटीआई
2	600326 एच	भू पू मा वा अ	अब्राहम व्ही	मैट सहायक
3	278640 टी	भू पू मा वा अ	राम विनोद सिंह	क्लर्क अकाउंट
4	288032 के	भू पू मा वा अ	गुरमेल सिंह	डियो फिटर

[सं० वासेमु/सी 40254/135/पीए (सीपीसी)]

ए. के. नगालिया, एयर मार्शल, कार्मिक प्रभारी वायु अफसर

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th January, 2005

No. 07(E).— The undermentioned retired MWOs are granted the Honorary rank of Flying Officer with effect from 26 January 2005 on occasion of Republic Day under para 345 of Regulations for the Air Force :-

1.	295457H	Ex-MWO	AMARJIT SINGH	GTI
2.	600326H	Ex-MWO	ABRAHAM V	MET ASST
3.	278640T	Ex-MWO	RAM VINOD SINGH	CLK ACCTS
4.	288032K	Ex-MWO	GURMAIL SINGH	RDO FIT

[No. Air H.Q./C 40254/135/PA (CPC)]

A. K. NAGALIA, AIR MSHL, Air Officer Incharge Personnel